


भा० दि० जैनसंघ-ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमालाका उद्देश्य
प्राकृत भाषाओंमें निबद्ध दि० जैनागम,
पुराण आदि ग्रन्थोंके यथासम्भव
हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित करना



सञ्चालक

भा० दि० जैनसंघ

ग्रन्थाङ्क १-७

प्राप्तिस्थान

मैनेजर

भा० दि० जैनसंघ

चौरासी, मथुरा

मुद्रक—पं० शिवमारायण उपाध्याय, बी० ए०
नया संसार प्रेस भदौनी, वाराणसी ।

स्थापनाब्द]

प्रति ८००

[बी० नि० सं० २४६८

Sri Dig Jain Sangha Granthamala No I-VII

KASAYA-PAHUDAM
VII
PRADESHAVIEKTI

GUNADHARACHARYA

WITH

CHURNI SUTRA OF YATIVRASHABHACHARYA

AND

THE JAYADHAVALA COMMENTARY OF

VIRASENACHARYA THERE-UPON

EDITED BY

Pandit Phulachandra Siddhantashastrī

EDITOR MAHABANDHA

JOINT EDITOR DHAVALA.

Pandit Kailashachandra Siddhantashastrī

Nyayatirtha, Siddhantarātna,

Pradhanadhyapak, Syadvada Digambara Jam

Vidyālaya, Varanasi.

PUBLISHED BY

THE SECRETARY PUBLICATION DEPARTMENT,

THE ALL-INDIA DIGAMBAR JAIN SANGHA

. CHAURASI, MATHURA

Sri Dig. Jain Sangha Granthamala

Foundation year—]

[—Vira Niravan Samvat 2468

Aim of the Series:—

**Publication of Digambara Jain Siddhanta,
Darsana, Purana, Sahitya and other works
in Prakrit Sanskrit etc, possibly with Hindi
Commentary and Translation**

DIRECTOR:—

**SRI BHARATAVARSHIYA
DIGAMBARA JAIN SANGHA**

NO. 1. VOL. VII.

To be had from:—

**THE MANAGER
SRI DIG. JAIN SANGHA,
CHAURASI. MATHURA,**

U. P. (INDIA)

Printed by

PT. S N UPADHYAYA, B. A.

Naya Sansar Press, Bhadaini Varanasi.

800 Copies,

Price Rs. Twelve only

प्रकाशककी ओरसे

कसायपाहुडके छठे भागके प्रकाशित होनेसे छै मास पश्चात् ही उसके सातवें भागको पाठकोंके हाथोंमें अर्पित करते हुए हमे सन्तोपका अनुभव होना स्वाभाविक है ।

छठे भागमें प्रदेशविभक्तिका स्वामित्व अनुयोगद्वार पर्यन्त भाग मुद्रित हुआ है । शेष भाग, मीणाामीण तथा स्थितिके साथ इस सातवें भागमे है । इसीसे इस भागका कलेवर छठे भागसे बहुत अधिक बढ़ गया है । इस भागके साथ प्रदेशविभक्ति अधिकार समाप्त हो जाता है और जयधवलाका भी पूर्वार्ध समाप्त हो जाता है । शेष उत्तरार्ध भी सात या आठ भागोंमें प्रकाशित होगा ।

इस समय बाजारमें कागज की स्थिति युद्धकालीन जैसी हो गई है । कागजका मूल्य ब्योड़ा हो जाने पर भी बाजारमे कागज उपलब्ध नहीं है । अतः अगला भाग प्रकाशित होनेमें विलम्ब होना संभव है ।

यह भाग भी भा० दिगम्बर जैन संघके अध्यक्ष दानवीर सेठ भागचन्द जी डोगरगढ़ तथा उनकी दानशीला धर्मपत्नी श्रीमती नर्वदावार्डिजीके द्वारा प्रदत्त द्रव्यसे हुआ है । कुण्डलपुरमे संघके अधिवेशन पर सेठ साहवने जयधवलाजीके प्रकाशनके लिये ग्यारह हजार रुपया प्रदान किया था । इस वर्ष धामौरामे संघके अधिवेशनके अवसर पर आपने पाँच हजार एक रुपया इसी मदमे और भी प्रदान किया है । सेठ साहव और उनकी धर्मपत्नीकी जिनवाणीके प्रति यह भक्ति तथा उदारता अनुकरणीय है । उनकी इस उदारताके लिये जितना भी धन्यवाद दिया जाये, थोड़ा है ।

सेठसाहव की इस दानशीलतामे प्रेरणात्मक सहयोग देनेका श्रेय पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीको है । आप ही जयधवलाके सम्पादन तथा मुद्रणका भार उठाये हुए हैं । अतः मैं पण्डितजी का भी आभारी हूँ ।

काशीमे गङ्गा तट पर स्थित स्व० बाबू छेदीलालजीके जिन मन्दिरके नीचेके भागमे जयधवला कार्यालय अपने जन्म कालसे ही स्थित है और यह सब स्व० बाबू छेदीलालजीके पुत्र स्वर्गीय बाबू गणेशदास तथा पौत्र वा० सालिगरामजी तथा वा० ऋषभदासजीके सौजन्य तथा धर्मप्रेमका परिचायक है । अतः मैं उनका भी आभारी हूँ ।

जयधवला कार्यालय
भदैनी, वाराणसी
दीपावली-२४८५

}

कैलाशचन्द्र शास्त्री
मंत्री साहित्य विभाग
भा० दि० जैन संघ

विषय-परिचय

पूर्वमें प्रकृतिविभक्ति, स्थितिविभक्ति और अनुभागविभक्तिका विचार कर आये हैं। प्रकृतमें प्रदेशविभक्तिका विचार करना है। कर्मोंका बन्ध होने पर तत्काल बन्धको प्राप्त होनेवाले ज्ञानावरणादि आठ या सात कर्मोंको जो द्रव्य मिलता है उसकी प्रदेश संज्ञा है। यह दो प्रकारका है—एक मात्र बन्धके समय प्राप्त होनेवाला द्रव्य और दूसरा बन्ध होकर सत्तामें स्थित द्रव्य। केवल बन्धके समय प्राप्त होनेवाले द्रव्यका विचार महाबन्धमें किया है। यहाँ वर्तमान बन्धके साथ सत्तामें स्थित जितना द्रव्य होता है उस सबका विचार किया गया है। उसमें भी ज्ञानावरणादि सब कर्मोंकी अपेक्षा विचार न कर यहाँ पर मात्र मोहनीयकर्मकी अपेक्षा विचार किया गया है। मोहनीयकर्मके कुल भेद अष्टाईस हैं। सर्व प्रथम इन भेदोंका आश्रय लिये बिना और बादमें इन भेदोंका आश्रय लेकर प्रस्तुत अधिकार में विविध अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे प्रदेशविभक्तिका साङ्गोपाङ्ग विचार किया गया है। यहाँ पर जिन अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे विचार किया गया है वे अनुयोगद्वार ये हैं—भागाभाग, सर्वप्रदेशविभक्ति, नोसर्वप्रदेशविभक्ति, उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति, अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति, जघन्य प्रदेशविभक्ति, अजघन्य प्रदेशविभक्ति, सादिप्रदेशविभक्ति, अनादिप्रदेशविभक्ति, ध्रुवप्रदेशविभक्ति, अध्रुवप्रदेशविभक्ति, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व। मात्र उत्तरप्रदेशविभक्तिका विचार करते समय सन्निकर्ष नामक एक अनुयोगद्वार और अधिक हो जाता है। कारण स्पष्ट है।

भागाभाग—इस अनुयोगद्वारमें उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य इन चार पदोंका आश्रयकर एक बार जीवोंकी अपेक्षा और दूसरी बार सत्तामें स्थित कर्म परमाणुओंकी अपेक्षा कौन कितने भागप्रमाण हैं इसका विचार किया गया है, इसलिए इस दृष्टिसे भागाभाग दो प्रकारका है—जीवभागाभाग और प्रदेशभागाभाग। जीवभागाभागका विचार करते हुए बतलाया है कि उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके अनन्तर्वे भागप्रमाण हैं और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। इसीप्रकार जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंके विषयमें जानना चाहिए। यह ओष प्ररूपणा है। आदेशसे सब मार्गणाओमें अपनी-अपनी संख्याको जानकर यह भागाभाग समझ लेना चाहिए। प्रदेश भागाभागका विचार करते हुए सर्व प्रथम तो सामान्यसे मोहनीय कर्मकी अपेक्षा प्रदेशभागाभागका निषेध किया है, क्योंकि अवान्तर भेदोंकी विवक्षा किये बिना मोहनीय कर्म एक है, इसलिए उसमें भागाभाग घटित नहीं होता। इसके बाद ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंकी अपेक्षा सामान्यसे मोहनीय कर्मको कितना द्रव्य मिलता है इसका विचार करते हुए बतलाया गया है कि आठो कर्मोंका जो समुच्चयरूप द्रव्य है उसमें आवलिके असंख्यातवे भागका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसे सब द्रव्यमेंसे अलग करके बचे हुए शेष बहुभागप्रमाण द्रव्यके आठ पुञ्ज करके आठो कर्मोंमें अलग-अलग विभक्त करदे। उसके बाद जो एक भाग बचा है उसमें पुनः आवलिके असंख्यातवे भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उसे अलग करके शेष बहुभागप्रमाण द्रव्य वेदनीयको दे दे। पुनः बचे हुए एक भागमें आवलिके असंख्यातवे भागका भाग देने पर जो बहुभागप्रमाण द्रव्य शेष रहे उसे मोहनीयको दे दे। लब्ध द्रव्यमें पुनः आवलिके

असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो बहुभाग शेष रहे वह समान रूपसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन कर्मोंमें बाँट दे। लब्ध द्रव्यमे पुनः आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर बहुभागप्रमाण बचे हुए द्रव्यको नाम और गोत्र इन दो कर्मोंमें बाँट दे। तथा अन्तमें लब्ध रूपमें जो एक भाग बचता है वह आयु कर्मको दे दे। इस प्रकार विभाग करनेपर मोहनीय कर्मको प्राप्त हुआ द्रव्य आ जाता है। मोहनीयकर्मको प्राप्त हुआ यह द्रव्य उत्कृष्ट और जघन्यके भेदसे दो प्रकारका होकर भी सब कर्मोंकी अपेक्षा पूर्वमें जो विभागका क्रम बतलाया है उसमें कोई बाधा नहीं आती। इस प्रकार ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंको जो द्रव्य मिलता है उसका अलग अलग विचार करनेपर आयु कर्मको सबसे स्तोक द्रव्य मिलता है। नाम और गोत्र कर्मका द्रव्य परस्परमें समान होकर भी आयुकर्मके द्रव्यसे विशेष अधिक होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मको मिलनेवाला द्रव्य परस्परमें समान होकर भी नाम और गोत्रकर्मको मिले हुए द्रव्यसे विशेष अधिक होता है। इससे मोहनीय कर्मका द्रव्य विशेष अधिक होता है और मोहनीयके द्रव्यसे वेदनीयकर्मका द्रव्य विशेष अधिक होता है। यह ओघप्ररूपणा है। सब मार्गणाओंमें इसे इसीप्रकार यथायोग्य घटित कर लेना चाहिए।

उत्तरप्रकृतियोंमें मोहनीय कर्मके सब द्रव्यका विभाग करते हुए पहले उसमें अनन्तका भाग दिलाकर एक भाग सर्वघाति द्रव्य और शेष बहुभाग देशघाति द्रव्य बतलाया गया है। देशघाति द्रव्यमें भी कषाय और नोकषाय रूपसे उसे बाँटा गया है। वादमें प्रत्येकका अपने अपने अवान्तर भेदोंमें बटवारा किया गया है। इसी प्रकार सर्वघाति द्रव्यको भी सर्वघाति प्रकृतियोंमें विभक्त करके बतलाया गया है। इस विषयकी विशेष जानकारीके लिए मूलमें देख लेना चाहिए। गति आदि मार्गणाओंमें विचार करते समय नरकगतिमें जो विशेषता है उसका अलगसे निर्देश करके अन्यत्र भी जान लेने की सूचना की गई है। इस प्रसङ्गसे गतिसम्बन्धी जिन मार्गणाओंमें नरकगतिसे कुछ विशेषता है उसका निर्देश करके उत्कृष्ट-भागामाग प्ररूपणाको समाप्त किया गया है। जघन्य भागामागका भी इसी प्रकार स्वतन्त्रतासे विचार करते हुए ओघ और आदेशसे उसका अलग अलग स्पष्टीकरण किया गया है। आदेशप्ररूपणा की अपेक्षा मात्र नरकगतिमें विशेष विचार करके गतिमार्गणाके जिन अवान्तर भेदोंमें नरकगतिके समान जघन्य भागामाग सम्भव है उनका नाम निर्देश करके इस प्रकारको समाप्त किया गया है।

सर्व-नोसर्वप्रदेशविभक्ति—सर्वप्रदेशविभक्तिमें सब प्रदेश और नोसर्वप्रदेशविभक्तिमें उनसे न्यून प्रदेश विवक्षित हैं। मूल और उत्तर प्रकृतियोंमें ये यथायोग्य ओघ और आदेशसे घटित कर लेने चाहिए।

उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टप्रदेशविभक्ति—सबसे उत्कृष्ट प्रदेश उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति है और उनसे न्यून प्रदेश अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति है। मूल और उत्तर प्रकृतियोंके ओघ और आदेशसे जहाँ पर ये जितने सम्भव हों उन्हें उस प्रकारसे जान लेना चाहिए।

जघन्य-अजघन्यप्रदेशविभक्ति—सबसे कम प्रदेश जघन्य प्रदेशविभक्ति है और उनसे अधिक प्रदेश अजघन्य प्रदेशविभक्ति है। मूल और उत्तर प्रकृतियोंके ओघ और आदेशसे जहाँ पर ये जिसप्रकार प्रदेश सम्भव हों उन्हें उस प्रकारसे जान लेना चाहिए।

✓ **सादि-अनादि-श्रु व-अश्रु वप्रदेशविभक्ति**—सामान्यसे मोहनीयके क्षय होनेके अन्तिम समयमें जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है और इससे पूर्व सब अजघन्य प्रदेशविभक्ति है, अतः अजघन्य प्रदेशविभक्ति सादि विकल्पके विना अनादि, श्रु व और अश्रु व यह तीन प्रकारकी

होती है। अब वहीं उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्तियाँ सो ये सादि और अध्रुव इस तरह दो प्रकार की ही होती हैं। जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपणाके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए वह सादि और अध्रुव है। तथा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति कादाचित्क हैं, इसलिए ये भी सादि और अध्रुव हैं। यह ओघ प्ररूपणा है। आदेशसे सब गतियाँ परिवर्तनशील हैं, अतः उनमें उक्त सब प्रदेशविभक्तियाँ सादि और अध्रुव ही होती हैं। आगे अन्य मार्गणाओंमें भी इसी प्रकार विचार कर घटित कर लेना चाहिए। उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिध्यात्व, मध्यकी आठ कषाय और पुरुषवेदके बिना आठ नोकषाय इनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपणाके अन्तिम समयमें प्राप्त होती है, अतः इनकी भी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्तियाँ सादि और अध्रुव तथा अजघन्य प्रदेशविभक्तियाँ अनादि, ध्रुव और अध्रुव होती हैं। पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़ा हुआ जो गुणितकर्मांशवाला जीव जब स्त्रीवेदकी अन्तिम फालिको पुरुषवेदमें संक्रमित करता है तब पुरुषवेदकी एक समयके लिए उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। यही जीव जब पुरुषवेद और छह नोकषायोंके द्रव्यको संज्वलन क्रोधमें संक्रमित करता है तब संज्वलन क्रोधकी एक समयके लिए उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। यही जीव जब संज्वलन क्रोधके द्रव्यको संज्वलनमानमें संक्रमित करता है तब संज्वलनमानकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। यही जीव जब संज्वलनमानके द्रव्यको संज्वलन प्रायामें संक्रमित करता है तब संज्वलन मायाकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। तथा यही जीव जब संज्वलन मायाके द्रव्यको संज्वलन लोभमें संक्रमित करता है तब संज्वलन लोभकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है। तथा इनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अपनी अपनी क्षपणाके अन्तिम समयमें होती है। इस प्रकार इन पाँचोंकी उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्ति एक समयके लिए होती है, इसलिए ये सादि और अध्रुव हैं। तथा इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति अनादि, ध्रुव और अध्रुव हैं। मात्र पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशसत्कर्म क्षपितकर्मांश अधःप्रवृत्तरणके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इसकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति सादि भी बन जाती है। तथा इन पाँचोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकारकी है। जब तक इनकी उत्कृष्टप्रदेशविभक्ति नहीं प्राप्त होती तब तक तो यह अनादि, ध्रुव और अध्रुव है और उत्कृष्टके बाद यह सादि है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व ये प्रकृतियाँ सादि और सान्त हैं, इसलिए इनके चारों ही पद सादि और अध्रुव हैं। अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाँ कादाचित्क हैं, जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपणाके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए ये तीनों सादि हैं। तथा क्षपणाके पूर्व इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति नियमसे होती है इसलिए तो यह अनादि है। तथा क्षपणाके बाद पुनः संयुक्त होने पर यह सादि है। ध्रुव और अध्रुव विकल्प तो यहाँ सम्भव हैं ही। इस प्रकार इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति चारों प्रकारकी प्राप्त होती है। यह ओघप्ररूपणा है। आदेशसे अचक्षुदर्शन और भव्यमार्गणामें ओघप्ररूपणा बन जाती है। मात्र भव्यमार्गणामें ध्रुव भङ्ग सम्भव नहीं है। शेष सब मार्गणाएँ परिवर्तनशील हैं, अतः उनमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट आदि चारों विभक्तियाँ सादि और अध्रुव ही प्राप्त होती हैं।

स्वामित्व—सामान्यसे मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा गुणितकर्मांशिक जीव होता है जो वादरप्रथिवीकाथिकोंमें और बादर त्रसोंमें परिभ्रमण करके अन्तमें दो बार सातवें नरकके नारकियोंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्त कम पूरी आयु बिता चुका है। यहाँ उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी किस समय होता है इस सम्बन्धमें दो मत हैं। एक मतके अनुसार अन्तर्मुहूर्त नरकायु शेष रहनेपर उसके प्रथम समयमें होता है और दूसरे मतके अनुसार

नरकके अन्तिम समयमें होता है। मिथ्यात्व, बारह कपाय और छह नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका स्वामी इसी प्रकार जानना चाहिए। जो गुणितकर्मांशिक दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला जीव जब मिथ्यात्वको सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमित करता है तब वह सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। तथा जब वही जीव सम्यग्मिथ्यात्वको सम्यक्त्वमें संक्रमित करता है तब वह सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा गुणितकर्मांशिक जीव होता है जो अन्तमें ईशान कल्पमें उत्पन्न होकर उसके अन्तिम समयमें स्थित है। स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र इसे अन्तमें असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें उत्पन्न कराकर पत्न्यके असंख्यातवर्ष भागप्रमाण कालके द्वारा स्त्रीवेदका पूरण कराकर प्राप्त करना चाहिए। जो गुणितकर्मांशिक जीव क्रमसे नपुंसकवेद, स्त्रीवेद और पुरुषवेदको यथायोग्य पूरकर अन्तमें सनुष्योंमें उत्पन्न होकर शीघ्र ही कर्मोंका क्षय करता हुआ जब स्त्रीवेदको पुरुषवेदमें संक्रमित करता है तब पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। वही जीव जब पुरुषवेदको क्रोधसंस्वलनमें संक्रमित करता है तब क्रोधसंस्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। वही जीव जब क्रोधसंस्वलनको मानसंस्वलनमें संक्रमित करता है तब मानसंस्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। वही जीव जब मानसंस्वलनको मायासंस्वलनमें संक्रमित करता है तब मायासंस्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है और वही जीव जब मायासंस्वलनको लोभसंस्वलनमें संक्रमित करता है तब लोभसंस्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। यह ओषसे उत्कृष्ट स्वामित्व है। ओषसे सामान्य मोहनीयकी जघन्य प्रदेश-विभक्तिका स्वामी क्षपितकर्मांशिक जीव क्षपणाके अन्तिम समयमें होता है। उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा क्षपितकर्मांशिक जीव होता है जो अन्तमें दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करते समय मिथ्यात्वकी दो समय कालवाली एक स्थितिको प्राप्त है। तथा वही जीव जब दर्शनमोहनीयकी क्षपणा किये बिना मिथ्यात्वमें जाकर दीर्घ उद्वेगना कालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेगना करते हुए अपने अपने समयमें दो समय कालवाली एक स्थितिको प्राप्त होता है तब वह सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थितिका स्वामी होता है। मध्यकी आठ कथायोंके विषयमें ऐसा क्षपितकर्मांशिक जीव लेना चाहिये जो अभव्योंके योग्य जघन्य प्रदेशविभक्ति करके त्रसोंमें उत्पन्न हुआ है और वहाँ आगमोक्त क्रिया व्यापार द्वारा उसे और भी कम करके अन्तमें क्षपण कर रहा है। ऐसे जीवके जब इनकी दो समय कालवाली एक स्थिति शेष रहती है तब वह इनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। वही जीव जब अनन्तानुबन्धीकी बार बार विसंयोजना कर लेता है और अन्तमें दो छथासठ सागर कालतक सम्यक्त्वका पालन करके पुनः उसकी विसंयोजना करता है तब वह अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी दो समय कालवाली एक स्थितिके रहते हुए उनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका भी क्षपितकर्मांशिक जीव ही अपनी अपनी क्षपणाके अन्तिम समयमें उद्यस्थितिके सद्भावमें जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी होता है। पुरुषवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी ऐसा क्षपक पुरुषवेदी होता है जो जघन्य घोलमान योगसे पुरुषवेदका वन्दन करके उसका संक्रमण करते हुए अन्तिम समयमें स्थित है। इसी प्रकार संस्वलन क्रोध, मान और मायाकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी घटित कर लेना चाहिये। लोभ संस्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी क्षपक अधःकरणके अन्तिम समयमें होता है। तथा छह नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी भी ऐसा क्षपक होता है जो अन्तिम स्थिति काण्डकके संक्रमणके अन्तिम समयमें स्थित है। यह ओषसे जघन्य स्वामित्व है। आदेशसे

मूल और उत्तर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और जघन्य स्वामित्व चारों गतियोंकी अपेक्षासे तो मूलमें ही कहा है, इसलिए इसे वहाँसे जान लेना चाहिए। तथा अन्य मार्गाणाओंमें उक्त स्वामित्वको देखकर घटित कर लेना चाहिए। यहाँ पर मूलमें जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे लेकर उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म तक किस प्रकृतिके सान्तर और निरन्तर कितने स्थान किस प्रकार प्राप्त होते हैं यह सब कथन विस्तारके साथ किया है सो उसे वहाँ मूलमें ही देखकर समझ लेना चाहिये।

काल—सामान्यसे मोहनीयका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म तेतीस सागरकी आयुवाले नारकीके अन्तिम समयमें होता है, इसलिये इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इसकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति जो उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ है उसके अनन्तकाल तक देखी जाती है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अनन्तकाल है। किन्तु यदि परिमाणोंकी मुख्यतासे देखा जाय तो अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि सब प्रकारके प्रदेशसत्त्वके कारणभूत परिणाम ही असंख्यात लोकप्रमाण हैं। और जिसने सातवें नरकमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म करके यथाविधि मनुष्य पर्याय प्राप्त कर आठ वर्षकी अवस्थामें ही क्षपकश्रेणिएपर आरोहणकर मोहनीयका नाश किया है उसकी अपेक्षासे देखा जाय तो अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल आठ वर्ष अधिक अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है। मिथ्यात्व आदि अवान्तर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका यह काल इसी प्रकार जानना चाहिये। मात्र कुछ प्रकृतियोंके कालमें कुछ विशेषता है। यथा—अनन्तानुबन्धीकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति जो अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे दो बार विसंयोजना करता है उसके होती है, इसलिए उसका जघन्य काल मात्र अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होता है। जैसा कि स्वामित्वमें बतला आये हैं, चार संव्वलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति यथायोग्य क्षपकश्रेणियोंमें होती है, इसलिए इनकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त यह तीन प्रकारका प्राप्त होता है। अनादि-अनन्त काल अभव्योंके होता है, अनादि-सान्त काल अपनी अपनी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके प्राप्त होनेके पूर्व तक भव्योंके होता है। और सादि-सान्त काल ऐसे जीवोंके होता है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करके अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति की है। मात्र इस प्रकार जो अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति प्राप्त होती है वह अन्तर्मुहूर्त कालतक ही पाई जाती है, क्योंकि क्षपण हो जानेसे आगे इन प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं पाया जाता, इसलिए इनकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका क्रमसे कम अन्तर्मुहूर्त कालतक और अधिकसे अधिक साधिक दो छ्थासठ सागर कालतक सत्त्व पाया जाता है, इसलिए इनकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक दो छ्थासठ सागर कालप्रमाण है। सामान्यसे मोहनीयकी जघन्य प्रदेशविभक्ति सूक्ष्मसाम्परायके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इसकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त है। उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा मिथ्यात्व आदि अष्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है जो अपने अपने जघन्य स्वामित्वके समय प्राप्त होती है। तथा मिथ्यात्व, ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त है, क्योंकि अभव्योंके इसका सर्वदा सद्भाव पाया जाता है, इसलिए तो अनादि-अनन्त विकल्प बन जाता है और भव्योंके अपने जघन्य स्वामित्वके पूर्व तक यह विभक्ति पाई जाती है, इसलिए अनादि-सान्त विकल्प बन जाता है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक

दो छयासठ सागरप्रमाण है सो इसका खुलासा अनुत्कृष्टके समान कर लेना चाहिये । अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके तीन विकल्प होते हैं—अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । इनमेंसे प्रारम्भके दो विकल्पोका खुलासा सुगम है । अब रहा सादि-सान्त विकल्प सो इसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है, क्योंकि विसंयोजनाके बाद इसकी संयोजना होनेपर इसका कमसे कम अन्तर्मुहूर्त कालतक और अधिकसे अधिक कुछकम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक सत्त्व पाया जाता है । लोभसंवलनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके भी उक्त तीन विकल्प जानने चाहिये । मात्र इसके सादि-सान्त विकल्पका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त ही प्राप्त होता है, क्योंकि जघन्य प्रदेशविभक्ति होनेके बाद इसका अन्तर्मुहूर्त कालतक ही सत्त्व देखा जाता है । कालकी अपेक्षा मूल और उत्तर प्रकृतियोंकी यह श्रेष्ठ प्ररूपणा है । गति आदि मार्गणाओंमें अपनी अपनी विशेषताको जानकर कालका विचार इसी प्रकार कर लेना चाहिये ।

अन्तर—एक बार मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होनेके बाद पुनः वह अनन्त काल बाद ही प्राप्त होती है, इसलिए सामान्यसे मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल है । अथवा परिणामोंकी मुख्यतासे इसका जघन्य अन्तर-काल असंख्यत लोकप्रमाण भी बन जाता है । तथा उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, इसलिए इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । इसी प्रकार मिथ्यात्व, मध्यकी आठ कपाय और पुरुषवेदके सिवा आठ लोकवायोंके विषयमें घटित कर लेना चाहिए । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अन्तरकालसम्बन्धी सब कथन उक्तप्रमाण ही है । पर विसंयोजना प्रकृति होनेसे इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण भी बन जाता है, इसलिए इतनी विशेषताका अलगसे निर्देश किया है । ये सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति क्षणणके समय होती है, इसलिए उनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता । मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये दोनों उद्भूतना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण है । तथा पुरुषवेद और चार संवलन इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समयके लिए होती है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है ।

सामान्यसे मोहनीयकी जघन्य प्रदेशविभक्ति दसवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें प्राप्त होती है, इसलिए इसकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । इसी प्रकार मिथ्यात्व, ग्यारह कपाय और नौ लोकवायोंके विषयमें जान लेना चाहिए, क्योंकि इनकी ऋषणाके अन्तिम समयमें ही जघन्य प्रदेशविभक्ति प्राप्त होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये उद्भूतना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण बन जानेसे वह उक्त प्रमाण है । अनन्तानुबन्धी-चतुष्क विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर बन जानेसे वह उक्त प्रमाण है । लोभसंवलन की जघन्य प्रदेशविभक्ति एक समयमात्र होकर भी अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए इसकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । तथा सम्यक्त्वादि इन सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति ऋषणाके समय ही होती है, इसलिए

इसके अन्तरकालका निषेध किया है। यह ओघप्ररूपणा है। आदेशसे गति आदि मार्गणाओंमें यह अन्तरकाल अपनी अपनी विशेषताको समझ कर घटित कर लेना चाहिए।

नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय—यह प्ररूपणा भी जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे दो प्रकारकी है। नियम यह है कि जो उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकेवाले जीव हैं वे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकेवाले नहीं होते और जो अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकेवाले जीव हैं वे उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकेवाले नहीं होते। यह अर्थपद है। इसके अनुसार यहाँ ओघसे और चारों गतियोंकी अपेक्षा मूल और उत्तर प्रकृतियोंका आलम्बन लेकर भङ्गविचयका विचार करते हुए ये तीन भङ्ग निष्पन्न किये गये हैं—१ कदाचित् सब जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकेवाले नहीं हैं, २ कदाचित् नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकेवाले नहीं हैं और एक जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकेवाला है तथा कदाचित् नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकेवाले नहीं हैं और नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकेवाले हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा भी इसी प्रकार तीन भङ्ग कहने चाहिए। किन्तु इन भङ्गोंको कहते समय जहाँ निषेध किया है वहाँ विधि करनी चाहिए और जहाँ विधि की है वहाँ निषेध करना चाहिए। ये भङ्ग ओघसे तो बन ही जाते हैं। साथ ही चारों गतियोंमें भी बन जाते हैं। मात्र लब्धपर्याप्तमनुष्य यह सान्तर मार्गणा है, इसलिए इनमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टप्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा प्रत्येकके आठ आठ भङ्ग होते हैं। जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा भी पूर्वोक्त प्रकारसे सब कथन कर लेना चाहिए। मात्र उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके स्थानमे जघन्य और अजघन्य पदकी योजना करनी चाहिए।

भागभाग—इस अनुयोनद्वारमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट तथा जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा कौन किसके कितने भागप्रमाण हैं इसका विचार किया गया है। सामान्यसे सब जीव अनन्त हैं। उनमेसे अधिकसे अधिक असंख्यात जीव एक साथ उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका बन्ध कर सकते हैं, इसलिए छव्वीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकेवाले जीव सब जीवोंके अनन्तवें भागप्रमाण और शेष अनन्त बहुभागप्रमाण जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकेवाले होते हैं। मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी सत्तावाले जीव अधिकसे अधिक असंख्यात ही होते हैं। इसलिए इनकी अपेक्षा असंख्यातवें भागप्रमाण उत्कृष्ट विभक्तिकेवाले जीव और असंख्यात बहुभागप्रमाण अनुत्कृष्ट विभक्तिकेवाले जीव होते हैं। सामान्य तिर्यञ्चोंमें यह प्ररूपणा अविकल बन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र गतिसम्यन्धी शेष अचान्तर भेदोंमें अपने अपने संख्यातप्रमाणको दृष्टिमें रख कर इसका विवेचन करना चाहिए। जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा भागाभागका विचार उत्कृष्टके समान ही है यह स्पष्ट ही है, इसलिए इसकी अपेक्षा पृथक् विवेचन न करके उत्कृष्टके समान जाननेकी सूचना की है। सामान्य मोहनीयकर्मकी अपेक्षा भागाभागका विचार नहीं किया है यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए।

परिमाण—इस अनुयोगद्वारमें उत्कृष्टादि चारों प्रदेशविभक्तिकेवाले जीवोंके परिमाणका निर्देश किया गया है। सामान्यसे मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति गुणितकर्मांशिक जीवोंके यथास्थान होती है और ऐसे जीव असंख्यात होते हैं, इसलिए मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकेवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात है। इसके सिवा शेष सब संसारी जीवोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए उनका परिमाण अनन्त है। मिध्यात्व, बारह कषाय और आठ नोकपायोकी अपेक्षा यह परिमाण इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट और

अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिवालोंका परिमाण भी उक्त प्रकारसे जान लेना चाहिए। पर सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति दर्शनमोहनीयकी क्षणिके समय तथा चार संबलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति क्षणिके पूर्व यथास्थान प्राप्त होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवालोंका परिमाण संख्यात और अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिवालोंका परिमाण सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा असंख्यात तथा शेषकी अपेक्षा अनन्त होता है। यह ओषधप्ररूपणा है। गतिमार्गणाके अचान्तर भेदोंमें स्वामित्वके अनुसार अपनी अपनी विशेषताको जानकर इसे घटित कर लेना चाहिए। जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा विचार करने पर सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा असंख्यात तथा शेषकी अपेक्षा अनन्त प्राप्त होता है। कारणका विचार स्वामित्वको देख कर लेना चाहिए। गतिमार्गणा आदिके अन्य भेदोंमें भी स्वामित्वका विचार कर सामान्यसे मोहनीय और सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा यह परिमाण जान लेना चाहिए। विशेष विचार मूलमें किया हो है।

क्षेत्र—मोहनीयकी उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अनुकृष्ट और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। मोहनीयकी उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा भी यह क्षेत्र इसी प्रकार जानना चाहिए। मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा कुछ विशेषता है। बात यह है कि इन प्रकृतियोंकी सत्तावाले कुत्र जीव ही असंख्यात हैं, इसलिए इनके चारों पदवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है। यह ओषध प्ररूपणा है। गति आदि अन्य मार्गणाओंमें अपनी अपनी विशेषता जानकर क्षेत्रका विचार कर लेना चाहिए।

स्पर्शन—सामान्यसे मोहनीय और छद्मवीस प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा अनुकृष्ट और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा शेष पदवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। कारणका विचार स्वामित्वको देखकर कर लेना चाहिए। यह ओषधप्ररूपणा है। गति आदि अन्य मार्गणाओंमें अपनी अपनी विशेषताको समझकर यह स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए।

नाना जीवोंकी अपेक्षा काल—सामान्यसे मोहनीयकी तथा मिध्यात्व, वारह कपाय और आठ नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति यदि नाना जीव युगपत् करें तो एक समय तक करते हैं और निरन्तर करें तो आवृत्तिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक करते रहते हैं, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवृत्ति ८ असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है। तथा इनकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, चार संबलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक साथ या लगातार करनेवाले जीव संख्यातसे अधिक नहीं होते, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय प्राप्त होता है। तथा इनकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका काल सर्वदा है, क्योंकि इनकी सत्तावाले जीवोंका सर्वदा सद्भाव बना रहता है। यह ओषधसे उत्कृष्ट प्ररूपणा है। जघन्य

प्ररूपणाकी अपेक्षा विचार करनेपर सामान्यसे मोहनीय और सभी उत्तर प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय तथा अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका काल सर्वदा है। कारणका विचार सर्वत्र कर लेना चाहिए। यह ओघसे जघन्य प्ररूपणा है। आदेशसे सब मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंकी चारों विभक्तिवाले जीवोंका काल अपनी अपनी विशेषताको ध्यानमें रखकर जान लेना चाहिए।

नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर—सामान्यसे मोहनीय तथा उत्तर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्ति यदि कोई जीव न करे तो कमसे कम एक समयका और अधिकसे अधिक अनन्त कालका अन्तर पड़ता है, इसलिए इन सबकी उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल प्राप्त होता है। तथा इन सबकी अनुत्कृष्ट और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं, इसलिए इनकी अपेक्षा अन्तरकालका निषेध किया है। यह ओघ प्ररूपणा है। अन्य मार्गणाओंमें अपनी अपनी विशेषताको जानकर यह अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए।

सन्निकर्ष—सामान्यसे मोहनीय कर्म एक है, इसलिए उसमें सन्निकर्ष घटित नहीं होता। उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा यह अवश्य ही सम्भव है। इस अनुयोगद्वारमें यह बतलाया गया है कि मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंमेंसे एक एक प्रकृतिका उत्कृष्ट या जघन्य प्रदेशसत्कर्म रहते हुए अन्य प्रकृतियोंमेंसे किन प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है और किन प्रकृतियोंकी सत्ता नहीं पाई जाती। तथा जिन प्रकृतियोंकी सत्ता पाई जाती है उनका प्रदेशसत्कर्म अपने अपने उत्कृष्ट या जघन्यकी अपेक्षा किस मात्राको लिए हुए होता है। इस प्रकार ओघ और आदेशसे निरूपण कर यह प्रकरण समाप्त किया गया है।

भाव—सब कर्मोंका बन्ध औदायिक भावकी मुख्यतासे होता है और तभी जाकर उनकी सत्ता पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर सामान्यसे मोहनीय कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियोंकी सत्तावाले जीवोंके औदायिक भाव जानना चाहिए।

अल्पबहुत्व—मोहनीयकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि वे एक साथ असंख्यातसे अधिक नहीं हो सकते। तथा उनसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं, क्योंकि अन्य सब संसारी जीवोंके दसवें गुणस्थान तक मोहनीय कर्मकी सत्ता पाई जाती है। इसी प्रकार मोहनीयकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं, क्योंकि एक साथ एक कालमें वे संख्यातसे अधिक नहीं हो सकते। तथा उनसे अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं, क्योंकि अन्य सब संसारी जीवोंके दसवें गुणस्थान तक मोहनीयकर्मकी सत्ता पाई जाती है। यह ओघ प्ररूपणा है। अन्य मार्गणाओंमें अपनी अपनी विशेषताको ध्यानमें रखकर यह अल्पबहुत्व घटित कर लेना चाहिए। यह सामान्यसे मोहनीय कर्मकी अपेक्षा अल्पबहुत्वका विचार है, उत्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा भी इसे मूलको देखकर जान लेना चाहिए, क्योंकि मूलमें इसका हेतुपूर्वक विस्तारके साथ विचार किया है।

भुजगारविभक्ति—भुजगारविभक्तिमें भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य इन चार पदोंका अवलम्बन लेकर समुत्कीर्तना, स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल, एक जीवकी अपेक्षा अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व इन तेरह अधिकारोंके द्वारा मूल और उत्तर प्रकृतियोंके प्रदेशसत्कर्मका साङ्गोपाङ्ग विचार किया गया है।

पदनिक्षेप—भुजगारविशेषको पदनिक्षेप कहते हैं। इस अधिकारमें उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि, जघन्य वृद्धि और जघन्य हानि तथा अवस्थितपद इन सबका आश्रय लेकर समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व इन तीन अधिकारोंके द्वारा मूल और उत्तरप्रकृतियोंके प्रदेशसत्कर्मका विचार किया गया है।

वृद्धि—पदनिक्षेपविशेषको वृद्धि कहते हैं। इस अधिकारमें यथासम्भव वृद्धि और हानिके अचान्तर भेदों तथा यथासम्भव अवक्तव्यविभक्ति और अवस्थितविभक्तिका आश्रय लेकर समुत्कीर्तना, स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल, एक जीवकी अपेक्षा अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व इन तरह अधिकारोंके द्वारा मूल और उत्तर प्रकृतियोंके प्रदेशसत्कर्मका विचार किया गया है।

सत्कर्मस्थान—मूल और उत्तर प्रकृतियोंके प्रदेशसत्कर्मस्थान कितने हैं इसका निर्देश करते हुए मूलमें बतलाया है कि उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका जिस प्रकार कथन किया है उसी प्रकार प्रदेशसत्कर्मस्थानोंका भी कथन कर लेना चाहिये। फिर भी विशेषताका निर्देश करते हुए प्रकृतमें प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व ये तीन अधिकार उपयोगी बतलाये हैं।

भीनाभीनचूलिका

पहले उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका विस्तारके साथ विचार करते समय यह बतला आये हैं कि जो गुणितकर्मांशिक जीव उत्कर्षण द्वारा अधिकसे अधिक प्रदेशोका सञ्चय करता है उसके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है और जो क्षणितकर्मांशिक जीव अपकर्षण द्वारा कर्मप्रदेशोंको कमसे कम कर देता है उसके जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए यहाँपर यह प्रश्न उठता है कि क्या सब कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण या अपकर्षण होना सम्भव है, बस इसी प्रश्नका समाधान करनेके लिए यह भीनाभीन नामक चूलिका अधिकार अलगसे कहा गया है। साथ ही इससे संक्रमण और उदयकी अपेक्षा भी इसका विचार किया गया है। इस सबका विचार यहाँपर चार अधिकारोका आश्रय लेकर किया गया है। वे अधिकार ये हैं—समुत्कीर्तना, प्ररूपणा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व।

समुत्कीर्तना—इस अधिकारमें अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदयसे भीन और अभीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके अस्तित्वकी सूचना मात्र दी गई है। प्रकृतमें भीन शब्दका अर्थ रहित और अभीन शब्दका अर्थ सहित है। तदनुसार जिन कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदय होना सम्भव नहीं है वे अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदयसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु माने गये हैं। और जिन कर्मपरमाणुओंके ये अपकर्षण आदि सम्भव हैं वे इनसे अभीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु माने गये हैं।

प्ररूपणा—इस अधिकारमें अपकर्षण आदिसे भीन और अभीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु कौन हैं इसका विस्तारके साथ विचार किया गया है। उसमें भी सर्वप्रथम अपकर्षणकी अपेक्षा विचार करते हुए बतलाया गया है कि उदयावलिके भीतर स्थित जितने कर्मपरमाणु हैं वे सब अपकर्षणसे भीनस्थितिवाले और शेष सब कर्मपरमाणु अपकर्षणसे अभीन स्थितिवाले हैं। तात्पर्य यह है कि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओका अपकर्षण न होकर वे क्रमसे यथावस्थित रहते हुए निर्जराको प्राप्त होते हैं, इसलिए वे अपकर्षणके अयोग्य होनेके कारण अपकर्षणसे भीन

स्थितिवाले माने गये हैं। किन्तु इनके सिवा शेष जितने कर्मनिपेक हैं उनके कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण हो सकता है, इसलिए वे इसके योग्य होनेके कारण अपकर्षणसे अभीन स्थितिवाले माने गये हैं। यहाँपर इतना विशेष समझना चाहिए कि उद्यावलिसे ऊपर प्रत्येक निषेकमें ऐसे बहुतसे कर्मपरमाणु होते हैं जो निकाचितरूप होते हैं, अतः उनका भी अपकर्षण नहीं होता। पर वे सर्वथा अपकर्षणके अयोग्य नहीं होते, क्योंकि दर्शनमोहनीय और अनन्तानुवन्धीसम्बन्धी ऐसे परमाणुओंका अनिवृत्तिकरणमें प्रवेश करनेपर और चारित्रमोहनीयसम्बन्धी ऐसे परमाणुओंका अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें प्रवेश करनेपर निधत्ति और निकाचनाकरणकी व्युच्छित्ति हो जानेसे अपकर्षण होने लगता है, इसलिए प्रकृतमें ये कर्मपरमाणु भी अपकर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं इसका निर्देश नहीं किया है, क्योंकि अवस्थाविशेषमें इनमें अपकर्षणकी योग्यता मान ली गई है। परन्तु उद्यावलिके भीतर स्थित जितने कर्मपरमाणु होते हैं उनमें त्रिकालमें भी ऐसी योग्यता नहीं पाई जाती है, अतः प्रकृतमें मात्र उद्यावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंको ही अपकर्षणसे भीन स्थितिवाला बतलाया गया है। सासादन गुणस्थानमें दर्शनमोहनीयका अपकर्षण नहीं होता, इसलिए यहाँपर भी यही समाधान समझ लेना चाहिए।

उत्कर्षणकी अपेक्षा भीन और अभीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका निर्देश करते हुए जो कुछ कहा गया है उसका भाव यह है कि उद्यावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण नहीं होता। उद्यावलिके बाहर यदि विवक्षित कर्मका बन्ध हो रहा हो तो ही उसके सत्तामें स्थित कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण होता है। उसमें भी जिन कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति उत्कर्षणके योग्य हो उनका ही उत्कर्षण होता है अन्यका नहीं। खुलासा इस प्रकार है—मान लो उद्यावलिसे उपरितन स्थितिमें स्थित जो निषेक है उसके जिन परमाणुओंकी शक्तिस्थिति अपनी व्यक्त स्थितिके बराबर है। अर्थात् जिन्हें बँधे हुए एक समय अधिक उद्यावलिसे न्यून कर्मस्थितिके बराबर काल बीत चुका है उन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि इन कर्मपरमाणुओंमें शक्तिस्थितिका अत्यन्त अभाव है। इसी स्थितिमें स्थित निषेकके जिन कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति एक समय शेष है। अर्थात् जिन्हें बँधे हुए दो समय अधिक उद्यावलिसे न्यून कर्मस्थितिके बराबर काल बीत चुका है उन कर्मपरमाणुओंका भी उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि यहाँपर निक्षेपका तो अभाव है ही, अतिस्थापना भी कमसे कम जघन्य आवाधा प्रमाण नहीं पाई जाती। इस प्रकार इसी स्थितिमें स्थित निषेकके जिन कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति दो समय और तीन समय आदिको उलंघनकर जघन्य आवाधाप्रमाण शेष है। अर्थात् जिन्हें बँधे हुए जघन्य आवाधासे न्यून कर्मस्थितिके बराबर काल बीत चुका है उन कर्मपरमाणुओंका भी उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि यहाँपर अतिस्थापनाके पूरा हो जानेपर भी निक्षेपका अत्यन्त अभाव है। इसी स्थितिमें स्थित निषेकके जिन कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति एक समय अधिक आवाधाप्रमाण शेष है। अर्थात् जिन्हें बँधे हुए एक समय अधिक आवाधाकालसे न्यून कर्मस्थितिके बराबर काल बीत चुका है उन कर्मपरमाणुओंका एक समय अधिक आवाधाप्रमाण उत्कर्षण होकर आवाधाके ऊपरकी स्थितिमें निक्षेप होना सम्भव है, क्योंकि यहाँपर अतिस्थापनाके साथ एकसमय प्रमाण निक्षेप ये दोनों पाये जाते हैं। इसी प्रकार इसी स्थितिमें स्थित निषेकके जिन कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति दो समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण, तीन समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण इत्यादि क्रमसे एक वर्ष, वर्षपृथक्त्व, एक सागर, सागरपृथक्त्व, दस सागर, दस सागरपृथक्त्व, सौ सागर, सौ सागरपृथक्त्व, हजार सागर, हजार सागरपृथक्त्व, लाख सागर, लाख सागरपृथक्त्व, कोड़ी सागर, कोड़ी सागरपृथक्त्व, अन्तःकोड़कोड़ी, कोड़ाकोड़ी सागर और

कोड़ाकोड़ी सागरपृथक्त्वप्रमाण शेष है। अर्थात् उक्त शेष-स्थितिको छोड़कर बाकी की कर्मस्थिति के बराबर काल वीत चुका है तो उन कर्म परमाणुओं का आवाधाप्रमाण अतिस्थापना को छोड़कर अपनी-अपनी योग्य शेष रही शक्तिस्थितिप्रमाण स्थिति तक उत्कर्षण होकर निक्षेप होना सम्भव है।

यहाँ यह जो एक समय अधिक उदयावलि की अन्तिम स्थितिको माध्यम बनाकर उत्कर्षण-का विचार किया जा रहा है सो उस स्थितिमें किस निषेकके कर्मपरमाणु हैं और किसके नहीं हैं इसका विचार करते हुए बतलाया है कि जिसका बन्ध किये हुए एक समय, दो समय और तीन समय आदिके क्रमसे एक आवलि काल व्यतीत हुआ है उन सब निषेकोंके कर्मपरमाणु विवक्षित स्थितिमें नहीं पाये जाते। कारण यह है कि बन्धके बाद एक आवलिकाल तक न्यूनतम बन्धका अपकर्षण नहीं होता और आवाधा कालके भीतर निषेक रचना नहीं होती, अतः विवक्षित स्थितिके पूर्व एक आवलि काल तक बन्धको प्राप्त होनेवाले कर्मपरमाणुओंका उस स्थितिमें नहीं पाया जाना स्वाभाविक है। हां इस एक आवलिसे पूर्व बन्धको प्राप्त हुए समयप्रबद्धोंके कर्म परमाणु अपकर्षण होकर वहाँ पाये जाते हैं इसमें कोई बाधा नहीं आती। फिर भी ऐसे कर्म-परमाणुओंका यदि उत्कर्षण हो तो उनका निक्षेप एक समय अधिक एक आवलिकाल कर्मस्थितिके अन्ततक हो सकता है। मात्र इनका निक्षेप तत्काल बंधनेवाले कर्मके आवाधा कालके ऊपर ही होगा यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए। यह दूसरी प्ररूपणा है जो नवकवन्धकी मुख्यतासे की गई है। पहली प्ररूपणा प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मों की मुख्यतासे की गई थी, इसलिए ये दोनों प्ररूपणों स्वतंत्र होनेसे इनका मूलमें अलग अलग विवेचन किया गया है।

यहाँ दूसरी प्ररूपणाके समय अवस्तुविकल्पोंका भी निर्देश किया गया है। किन्तु प्रथम प्ररूपणाके समय उनका निर्देश नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ यह शंका होती है कि क्या प्रथम प्ररूपणाकी अपेक्षा एक भी अवस्तु विकल्प नहीं होता, सो इसका समाधान यह है कि अवस्तु-विकल्प तो वहाँ भी सम्भव है। अर्थात् विवक्षित स्थिति (एक समय अधिक उदयावलि की अन्तिम स्थिति) में इससे पूर्व उदयावलिप्रमाण निषेकोका सङ्गाव नहीं पाया जाता फिर भी यह बात बिना कहे ही ज्ञात हो जाती है, इसलिए प्रथम प्ररूपणाके समय इन अवस्तु विकल्पोंका निर्देश नहीं किया है। विशेष खुलासा मूलमें यथास्थान किया ही है, इसलिए इसे वहाँसे विशेष रूपसे समझ लेना चाहिए।

उदयावलि के ऊपर जो प्रथम स्थिति है उसकी विवक्षासे यह प्ररूपणा की गई है। किन्तु इसके ऊपरकी स्थितिकी-अपेक्षा प्ररूपणा करने पर अवस्तुविकल्प एक बढ़ जाता है, क्योंकि उदयावलि के भीतरकी सब स्थितियोंमें स्थित निषेकोंके कर्मपरमाणु तो इसमें पाये ही नहीं जाते, साथ ही उससे उपरित स्थितिमें स्थित निषेकके कर्मपरमाणु भी नहीं पाये जाते; क्योंकि इन निषेकोंमें स्थित कर्मपरमाणुओंकी शक्तिस्थिति इस विवक्षित स्थितिके पूर्व ही समाप्त हो जाती है। तथा भीनस्थितिविकल्प एक कम होता है, क्योंकि आवाधामें एक समयकी कमी हो जानेसे भीनस्थितिविकल्पोंमें भी एक समयकी कमी हो गई है। मात्र इसकी अपेक्षा अक्षीन स्थितियोंमें भेद नहीं है। यह प्रथम प्ररूपणाकी अपेक्षा विचार है। इसी प्रकार दूसरी प्ररूपणाको ध्यानमें रखकर विचार कर लेना चाहिए। तथा आगे भी इसी प्रकार विचार कर किस निषेकके कितने कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीनस्थिति हैं और कितने कर्मपरमाणु अक्षीनस्थिति हैं। साथ ही उनमें अवस्तुविकल्प कितने हैं और जिनका उत्कर्षण हो सकता है उनका वह कहाँ तक होता है इत्यादि

वातोंका पूर्वोक्त प्ररूपणा और उत्कर्षण आदिके नियमोंको ध्यानमें रखकर विचार कर लेना चाहिए। मूलमें इसका विस्तारसे विचार किया ही है, इसलिए यहां विशेष नहीं लिखा जा रहा है।

संक्रमणकी अपेक्षा भीन और अभीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका विचार करते हुए जो कुछ कहा गया है उसका भाव यह है कि उदयावलि के भीतर प्रविष्ट हुए जितने निषेक हैं उनके कर्मपरमाणु संक्रमणसे भीनस्थितिवाले और शेष अभीनस्थितिवाले हैं। मात्र न्यूतन बन्धका बन्धावलि कालतक अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण आदि नहीं होता, इतनी विशेषता यहाँ और समझनी चाहिए।

उदयकी अपेक्षा भीन और अभीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका विचार करते हुए जो कुछ कहा गया है उसका भाव यह है कि जिस कर्मने अपना फल दे लिया है वह उदयसे भीनस्थिति वाला है और शेष सब कर्म उदयसे अभीन स्थितिवाले हैं।

स्वामित्व—यहाँ तक प्रकृति विशेषका आलम्बन लिए बिना सामान्यसे यह बतलाया गया है कि किस स्थितिमें स्थिति कितने कर्म परमाणु अपकर्षण आदिसे भीनस्थितिवाले और अभीन स्थितिवाले हैं। आगे मिथ्यात्व आदि प्रत्येक कर्मकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य ऐसे चार भेद करके उनके स्वामित्वका विचार करके इस प्रकरणको समाप्त किया गया है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि अपकर्षण आदिकी अपेक्षा उत्कृष्ट भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी गुणितकर्मशिक जीव और अपकर्षण आदिकी अपेक्षा जघन्य भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी क्षपितकर्मशिक जीव होता है। इसमें जहाँ विशेषता है उसका अलगसे निर्देश किया है।

अल्पबहुत्व—इसमें मिथ्यात्व आदि प्रत्येक कर्मकी अपेक्षा अपकर्षण आदिसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके अल्पबहुत्वका विचार किया गया है।

स्थितिगचूलिका

पहले उत्कृष्टादिके भेदसे प्रदेशविभक्तिका विस्तारसे विचार कर आये हैं। साथ ही अपकर्षण आदिकी अपेक्षा भीन और अभीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका भी विचार कर आये हैं। किन्तु अभी तक उदयकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदि कर्मपरमाणुओंका विचार नहीं किया गया है; इसलिए इसी विषयका विस्तारसे विचार करनेके लिए स्थितिग नामक चूलिका आई है। इसमें जिन अधिकारोंका आश्रय लेकर उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदिका विचार किया गया है वे अधिकार ये हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व।

समुत्कीर्तना—इस अधिकारमें उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त, निषेकस्थितिप्राप्त, यथानिषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त कर्मपरमाणु हैं यह स्वीकार किया गया है। जो कर्मपरमाणु उदय समयमें अप्रस्थितिमें दृष्टिगोचर होते हैं वे उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कर्मपरमाणु हैं। यहाँ पर उत्कृष्ट स्थितिसे अप्रस्थिति ली गई है। एक समयप्रबद्धकी विविध स्थितियोंके जितने कर्मपरमाणु उदयके समय अप्रस्थितिमें दृष्टिगोचर होते हैं उन सबकी उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त संज्ञा है यह एक कथनका तात्पर्य है। जो कर्मपरमाणु बन्धके समय जिस स्थितिमें निश्चित होते हैं, अपकर्षण और उत्कर्षण होकर भी उदय कालमें वे यदि उसी स्थितिमें स्थित रहते हैं तो उनकी निषेकस्थितिप्राप्त संज्ञा

है। जो कर्मपरमाणु बन्धके समय जिस स्थितिमें निक्षिप्त होते हैं वे यदि उत्कर्षण या अपकर्षण हुए बिना उदयकालमें उसी स्थितिमें रहते हैं तो उनकी यथानिषेकस्थितिप्राप्त संज्ञा है। तथा बन्धके समय जो कर्मपरमाणु जिस निषेकस्थितिमें प्राप्त हुए हैं वे उदयके समय यदि उसी निषेकस्थितिमें न रहकर जहाँ कहीं दिखलाई देते हैं तो उनकी उदयस्थितिप्राप्त संज्ञा है। इसप्रकार उत्कृष्टस्थितिप्राप्त आदिके भेदसे ये कर्मपरमाणु चार प्रकारके हैं यह निश्चित होता है।

स्वामित्व—इस अधिकारमें मिथ्यात्व आदि अवान्तर प्रकृतियोंकी अपेक्षा उक्त चार प्रकारके कर्मपरमाणुओंके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य ये चार भेद करके उनके स्वामित्वका विचार किया गया है।

अल्पबहुत्व—इस अधिकारमें उक्त सब भेदोंके अल्पबहुत्वका विचार किया गया है।

इसप्रकार इतना कथन करनेके बाद चूलिका सहित प्रदेशाविभक्ति अधिकार समाप्त होता है।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
एक जीवकी अपेक्षा काल	१-२५	सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा जघन्य-अजघन्य	
मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका काल	२	भागाभागाका विचार	४०
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके कालका अन्य रूपसे निर्देश	३	परिमाण	४०-४३
शेष कर्मोंके कालका निर्देश	४	सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट परिमाणका विचार	४०
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके कालमें विशेषताका निर्देश	५	सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा जघन्य और अजघन्य परिमाणका निर्देश	४३
सब प्रकृतियोंके जघन्य कालके जाननेकी सूचनामात्र	६	क्षेत्रका निर्देश	४४
उच्चारणके अनुसार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट कालका निर्देश	७	उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट क्षेत्रका निर्देश	४४
जघन्य और अजघन्य कालका निर्देश	१७	जघन्य और अजघन्य क्षेत्रका निर्देश	४४
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर	२५-३७	स्पर्शनका कथन	४५-५०
मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर	२५	उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्पर्शनका कथन	५५
शेष कर्मोंके अन्तरके जाननेकी सूचना	२६	जघन्य और अजघन्य स्पर्शनका कथन	४७
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तरके विषयमें विशेषताका निर्देश	२६	नानाजीवोंकी अपेक्षा काल	५०-५३
सब प्रकृतियोंके अन्तरकालके जाननेकी सूचनामात्र	२७	उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कालका कथन	५०
उच्चारणके अनुसार उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अन्तरका निर्देश	२७	जघन्य और अजघन्य कालका कथन	५३
जघन्य और अजघन्य अन्तरका निर्देश	३२	नानाजीवोंकी अपेक्षा अन्तर	५३-५४
नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय	३७-३९	उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अन्तरका कथन	५३
चूर्णिकारकी सूचनामात्र	३७	जघन्य और अजघन्य अन्तरका कथन	५४
सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका भङ्गविचय	३७	सन्निकर्षका कथन	५४-७४
सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा जघन्य-अजघन्य प्रदेश-विभक्तिका भङ्गविचय	३९	उत्कृष्ट सन्निकर्षका कथन	५४
भागाभाग	३९-४०	जघन्य सन्निकर्षका कथन	६२
सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट भागाभागका विचार	३९	अल्पबहुत्वका कथन	७४-१३३
		ओघसे उत्कृष्ट प्रदेश अल्पबहुत्व कथन	७४
		नरकगतिमें उत्कृष्ट प्रदेश अल्पबहुत्व कथन	८२
		शेष गतियोंमें उत्कृष्ट प्रदेश अल्पबहुत्वके जाननेकी सूचना	९०
		एकेन्द्रियोंमें उत्कृष्ट प्रदेश अल्पबहुत्वका कथन	९१
		ओघसे जघन्य प्रदेश अल्पबहुत्वका सकारण निर्देश	९९
		नरकगतिमें जघन्य प्रदेश अल्पबहुत्वका कथन	११६

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
शेष गतियोंमें जघन्य प्रदेश अल्पबहुत्वके जाननेकी सूचना	१२३	भागाभाग	२११
मनुष्यगतिमें श्रोत्रके समान जाननेकी विशेष सूचना	१२३	परिमाण	२१६
एकेन्द्रियोंमें जघन्य प्रदेश अल्पबहुत्वका कथन	१२४	क्षेत्र	२१७
भुजगार विभक्तिका कथन	१३३-१७१	स्पर्शन	२१८
भुजगार विभक्तिके तेरह अनुयोगद्वारोंका नामनिर्देश	१३३	नान जीवोंकी अपेक्षा काल	२२२
समुत्कीर्तना	१३३	नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर	२२६
स्वामित्व	१३४	भाव	२२६
एक जीवकी अपेक्षा काल	१३६	अल्पबहुत्व	२२६
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर	१४२	सत्कर्मस्थान	२३५-२३५
नानाजीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय	१४६	मङ्गलाचरण	२३४
भागाभाग	१५०	सत्कर्मस्थानोंका कथन	२३४
परिमाण	१५३	तीन अनुयोगद्वारोंका नामनिर्देश	२३४
क्षेत्र	१५५	प्ररूपणा	२३४
स्पर्शन	१५६	प्रमाण	२३५
नानाजीवोंकी अपेक्षा काल	१६३	अल्पबहुत्व	२३५
नानाजीवोंकी अपेक्षा अन्तर	१६६	भीनाभीनचूलिका	२३५-३६६
भाव	१८६	मङ्गलाचरण	२३५
अल्पबहुत्व	१६६	भीन और अभीन पदकी विशेष व्याख्या	
पदनिक्षेप	१७१-१८७	जाननेकी सूचना	२३५
पदनिक्षेप और वृद्धिका स्वरूपनिर्देश	१७१	विभाषा शब्दका अर्थ	२३६
पदनिक्षेपके तीन अनुयोगद्वारोंके नाम	१७२	भीनाभीन अधिकारके कथनकी सार्थकता	२३६
उत्कृष्ट समुत्कीर्तना	१७२	यह अधिकार चूलिका क्यों कहा गया है इसका निर्देश	२३६
जघन्य समुत्कीर्तनाकी सूचनामात्र	१७३	प्रकृतमें चार अनुयोगद्वारोंका नामनिर्देश	२३७
उत्कृष्ट स्वामित्व	१७३	समुत्कीर्तना पदका अर्थ	२३७
जघन्य स्वामित्व	१८४	समुत्कीर्तना अनुयोगद्वार	२३७-२३८
उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	१८५	अपकर्षण आदिकी अपेक्षा भीनस्थितिक	
जघन्य अल्पबहुत्व	१८६	कर्मोंका अस्तित्व कथन	२३७
वृद्धिविभक्ति कथन	१८७-२३४	विशेष खुलासा	२३७
तेरह अनुयोगद्वारोंकी सूचना	१८७	प्ररूपणा अनुयोगद्वार	२३७-२७५
समुत्कीर्तना	१८७	कौन कर्म अपकर्षणसे भीनस्थितिक है इसका निर्देश	२३६
स्वामित्व	१८६	अपकर्षणसे अभीनस्थितिक कर्मोंका व्याख्यान	२४०
एक जीवकी अपेक्षा काल	१६३	कौन कर्म उत्कर्षणसे भीनस्थितिक है इसका निर्देश	२४२
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर	२०१	कौन कर्म उत्कर्षणसे अभीनस्थितिक है इसका निर्देश	२४७
नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय	२०८		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
एक समय अधिक उदयावलि की अन्तिम स्थितिमें नवकल्पके कौन कर्मपरमाणु नहीं हैं इसका निर्देश	२५१	पूर्वोक्त प्रत्येक भीनस्थितिक कर्म उत्कृष्ट आदि की अपेक्षा चार प्रकारके होते हैं इसका निर्देश	२७५
उसी स्थितिमें कौन परमाणु हैं इसका निर्देश	२५२	स्वामित्व	२७५-३५६
उस स्थितिमें नवकल्पके जो कर्मपरमाणु हैं उनका कितना उत्कर्षण हो सकता है इसका निर्देश	२५३	मिथ्यात्वके अपकर्षणादि चारोंकी अपेक्षा भीन-स्थितिक कर्मों के उत्कृष्ट स्वामी का निर्देश	२७६
दो समय अधिक उदयावलि की अन्तिम स्थितिकी अपेक्षा कथन	२५८	सम्यक्त्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्वका निर्देश	२८४
तीन समय अधिक आबलिसे लेकर आबलिकम आवाधा तक की स्थितियोंकी अपेक्षा जाननेकी सूचना	२६०	अनन्तानुबन्धीकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्वका निर्देश	२८७
एक समय कम आबलिसे न्यून आवाधाकी अन्तिम स्थितिमें कितने विकल्प नहीं होते हैं और कितने विकल्प होते हैं इसका निर्देश	२६१	मध्यकी आठ कषायोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन	२८४
जो होते हैं उनमें कौन उत्कर्षणसे भीन-स्थितिक हैं और कौन अभीनस्थितिक हैं इसका निर्देश	२६३	क्रोधसंज्वलनकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन	३००
एक समय कम आबलिसे न्यून आवाधाकी अन्तिम स्थितिके विकल्पका कथन करके आगेकी एक समय अधिक स्थितिके विकल्पोंका निर्देश व उत्कर्षणसे भीना-भीन विचार	२६६	मानसंज्वलनकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन	३०२
उससे एक समय अधिक स्थितिकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रकारसे विचार	२७०	मायासंज्वलनकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन	३०३
एक समय अधिक जघन्य आवाधा तक पूर्वोक्त क्रम चलता है इसका निर्देश	२७१	लोमसंज्वलनकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन	३०३
दो समय अधिक जघन्य आवाधासे लेकर उत्कर्षणसे भीनस्थितिक कर्मप्रदेश नहीं होते इसका निर्देश	२७२	स्त्रीवेदकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन	३०५
संक्रमणसे भीनस्थितिक और अभीनस्थितिक कर्मप्रदेशोंका निर्देश	२७३	पुरुषवेदकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन	३०६
उदयसे भीनस्थितिक और अभीनस्थितिक कर्म प्रदेशोंका निर्देश	२७४	नपुंसकवेदकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन	३०७
		छह नोकषायोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कथन	३०८
		मिथ्यात्वकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व कथन	३१२
		सम्यक्त्वकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व कथन	३२०
		सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य स्वामित्व सम्यक्त्वके समान जाननेकी सूचना	३२२
		आठ कषाय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व	३२२
		अनन्तानुबन्धीकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व	३२८
		नपुंसकवेदकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व	३३४
		स्त्रीवेदकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व	३४६
		अरति-शोककी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व	३५०
		अल्पबहुत्व	३५६-३६६
		मिथ्यात्वादि प्रकृतियोंमें चारोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	३५६
		जघन्य भीनस्थितिक अल्पबहुत्व	३५८

विषय	पृष्ठ
स्थितिगचूलिका	३६६-४५१
मङ्गलान्तरण	३६६
स्थितिग पदकी विभाषाकी सूचना	३६६
स्थितिग पदका अर्थ	३६६
यह अधिकार भी चूलिका है इसका निर्देश	३६७
प्रकृतोपयोगी तीन अनुयोगद्वारोंका नामनिर्देश	३६७
तीनों अनुयोगद्वारोंका लक्षणनिर्देश	३६७
समुत्कीर्तना	३६६-३७४
स्थितिप्राप्त द्रव्य चार प्रकारका है इसका निर्देश	३६७
उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वरूप कथन	३६८
निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वरूपनिर्देश	३७०
यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वरूपनिर्देश	३०१
उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वरूपनिर्देश	३७२
प्रत्येकके उत्कृष्टादि चार भेदोंका निर्देश	३७३
स्वामित्व	३७४-४४५
मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त आदि द्रव्यके स्वामित्वका निर्देश	३७४
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त आदि द्रव्यके स्वामित्वका निर्देश	४००
अनन्तानुबन्धीचतुष्क, आठ कषाय और छह नोकषायोंका मङ्ग मिथ्यात्वके समान जाननेकी सूचना	४०३
आठ कषायोंके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामित्वमें विशेषताका निर्देश	४०३
छह नोकषायोंके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामित्वमें विशेषताका निर्देश	४०४
क्रोधसंज्वलनके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त आदि द्रव्यके स्वामित्वका निर्देश	४०५
संज्वलनमान, माया और लोभके विषयमें संज्वलन क्रोधके समान जाननेकी सूचना	४१६
पुरुषवेदके चारों स्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वका निर्देश	४२०
ऋग्वेदके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त आदि द्रव्यके स्वामित्वका निर्देश	४२०

विषय	पृष्ठ
नपुंसकवेदके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त आदि द्रव्यके स्वामित्वका निर्देश	४२३
जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामित्वके जाननेकी सूचना	४२३
सब क्रमोंके जघन्य अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामीका निर्देश	४२४
मिथ्यात्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामीका निर्देश	४२४
मिथ्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामीका निर्देश	४३०
सम्यक्त्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामीको मिथ्यात्वके समान जाननेकी सूचना, साथ ही कुछ विशेषताका निर्देश	४३५
सम्यक्त्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामीका निर्देश	४३६
सम्यग्मिथ्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी सम्यक्त्वके समान है इसका अपनी विशेषताके साथ निर्देश	४३७
सम्यग्मिथ्यात्वके निषेक और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामीका निर्देश	४३८
अनन्तानुबन्धियोंके निषेक और यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामीका निर्देश	४६८
अनन्तानुबन्धियोंके उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामीका निर्देश	४४०
वारह कषायोंके निषेक और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामीका निर्देश	४४२
वारह कषायोंके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामीका निर्देश	४४२
पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साके विषयमें वारह कषायोंके समान जाननेकी सूचना	४४४
ऋग्वेद, नपुंसकवेद, अरति और शोकके यथानिषेकस्थितिप्राप्त आदि द्रव्यके जघन्य स्वामीका निर्देश	४४५
अल्पबहुत्व	४४६-४५१
सब क्रमोंके चारों उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तोंके अल्पबहुत्वका निर्देश	४४६

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
जघन्य अल्पबहुत्वके जाननेकी सूचना	४४७	अनन्तानुबन्धियोंके चारों जघन्य स्थितिप्राप्तोंके अल्पबहुत्वका निर्देश	४५०
मिथ्यात्वके चारों जघन्य स्थितिप्राप्तोंके अल्पबहुत्वका निर्देश	४४७	खीवेद, नपुंसकवेद, अरति, और शोकके चारों जघन्य स्थितिप्राप्तोंका अल्पबहुत्व अनन्तानुबन्धीके समान है इसका निर्देश	४५१
सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साके चारों जघन्य स्थितिप्राप्तोंका अल्पबहुत्व मिथ्यात्वके समान है इसकी सूचना	४५०		

कसायपाहुडस्स
प दे स वि ह ती
पंचमो अत्थाहियारो



सिरि-जइवसहाइरियविरइय-त्रुण्णिमुत्तसमण्णिदं
सिरि-भगवंतगुणहरभडारओवइइं

क सा य पा हु डं


तस्स

सिरि-वीरसेणाइरियविरइया टीका

जयधवला

तत्थ

पदेविहत्ती णाम पंचमो अत्थाहियारो



❀ कालो ।

§ १. कालो जंचदि ति भणिदं होदि ।

❀ काल ।

§ १. कालका कथन करते हैं यह एक कथनका तात्पर्य है ।

❀ मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ।

§ २. सुगमं ।

❀ जहएणुक्कस्सेणोगसमओ ।

§ ३. सत्तमपुढविणेरइयस्स उक्कस्साउअस्स चरिमसमए चेव उक्कस्सपदेस-संतकम्मसुवलंभादो ।

❀ अणुक्कस्सपदेसविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ।

§ ४. सुगमं ।

❀ जहएणुक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

§ ५. चटुगदिणिगोदे पडुच्च एसो कालणिदेसो । णिच्चणिगोदे पुण पडुच्च अणा-दिओ अपज्जवसिदो अणादिओ सपज्जवसिदो च होदि, अलद्धतसभावाणमुक्कस्स-दव्वाणुववत्तीदो । अणुक्कस्सपदेसविहत्तीए अणंतकालावट्ठाणं कथं घडदे ? ण, उक्कस्सपदेसट्ठाणप्पहुडि जाव जइण्णट्ठाणं ति एदेसु अणंतेसु ट्ठाणेसु अणंतकालावट्ठाणं पडि विरोहाभावादो ।

❀ मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवका कितना काल है ?

§ २. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ ३. क्योंकि सातवीं पृथिवीके नारकीके उत्कृष्ट आयुके अन्तिम समयमें ही उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म उपलब्ध होता है ।

❀ अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका कितना काल है ।

§ ४. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जघन्य और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनोंके बराबर है ।

§ ५. चतुर्गति निगोद जीवकी अपेक्षा कालका यह निर्देश किया है । नित्य निगोद जीवकी अपेक्षा तो अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त काल होता है, क्योंकि जिन जीवोंने त्रसभावको नहीं प्राप्त किया है उनके उत्कृष्ट द्रव्यकी प्राप्ति सम्भव नहीं है ।

शंका—अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अनन्त कालतक अवस्थान कैसे बन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट प्रदेशस्थानसे लेकर जघन्य प्रदेशस्थान तक जो अनन्त स्थान हैं उनमें अनन्त काल तक अवस्थान होनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

❀ अण्णोवदेसो जहण्णेण असंखेज्जा लोगा त्ति ।

§ ६. सच्चे जीवपरिणामा असंखेज्जलोगमेत्ता चेव णाणंता, तहोवदेसाभावादो । तत्पुक्कस्सपदेससंतकम्मकारणपरिणामकत्तावं मोत्तूण सेसपरिणामद्वायेसु अवंहाण-कालो जह० असंखेज्जलोगमेत्तो चेव तम्हा अणुक्कस्सपदेसकालो जह० असंखेज्जलोग-मेत्तो त्ति इच्छियव्वो । ण च पदेसुत्तरादिकमेण संतकम्महाणेसु परिब्भमणियमो अत्थि, एकसराहेण अणंताणि द्वाणाणि उल्लंघियूण वि परिब्भमणुवलंभादो' । एदं केसिं पि आइरियाणं वक्खाणंतरं । एदेसु दोसु उवदेसेसु एक्केणेव सच्चेण होदव्वं, अण्णोण्णविरुद्धत्तादो । तदो एत्थ जाणिदूण वत्तव्वं ।

❀ अधवा खवगं पडुच्च वासपुधत्तं ।

§ ७. गुणितकम्मंसियलक्खणेणागंतूण सत्तमाए पुढवीए उक्कस्सपदेसं करिय पुणो समयविरोहेण एइदिससु मणुस्सेसु च उववज्जिय अंतोमुहत्तब्भहिअट्टवस्सेहि संजमं पडिवज्जिय णिव्वुइं गयम्मि अणुक्कस्सदव्वस्स वासपुधत्तमेत्तकालुवलंभादो ।

❀ अन्य उपदेशके अनुसार जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण है ।

§ ६. कारण कि जीवोंके सब परिणाम असंख्यात लोकमात्र ही होते हैं, अनन्त नहीं होते, क्योंकि इस प्रकारका उपदेश नहीं पाया जाता । उनमेंसे उल्लूख प्रदेशसत्कर्मके कारणभूत परिणामकलापको छोड़कर शेष परिणामोंमें अवस्थित रहनेका जघन्य काल असंख्यात लोक-प्रमाण ही है, इसलिए अनुल्लूख प्रदेशसत्कर्मका जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण है ऐसा स्वीकार करना चाहिए । और उत्तरोत्तर एक एक प्रदेशके अधिकके क्रमसे सत्कर्मस्थानोंमें परिभ्रमण करनेका कोई नियम नहीं है, क्योंकि एक साथ अनन्त स्थानोंको उल्लंघन करके भी परिभ्रमण पाया जाता है । यह किन्हीं आचार्योंका व्याख्यानन्तर है सो इन दो उपदेशोंमेंसे एक उपदेश ही सत्य होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों उपदेश परस्परमें विरोधको लिये हुए हैं, इसलिए यहाँपर जानकर व्याख्यान करना चाहिए ।

❀ अथवा क्षपककी अपेक्षा वर्षपृथक्त्वप्रमाण काल है ।

§ ७. क्योंकि जो जीव गुणितकर्मांशिककी विधिसे आकर सातवी पृथिवीमें उल्लूख प्रदेशसत्कर्मको करके पुनः यथाशास्त्र एकेन्द्रियोंमें और मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्त अधिक १० वर्ष कालके द्वारा संयमको ग्रहणकर मुक्तिको प्राप्त होता है उसके अनुल्लूख द्रव्यका वर्ष कत्वप्रमाण काल उपलब्ध होता है ।

विशेषार्थ—सिध्यात्वकी उल्लूख प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उल्लूख काल एक समय ही तो स्पष्ट ही है, क्योंकि गुणितकर्मांशविधिसे आकर जो अन्तमें उल्लूख आयुके साथ दूसरी सातवें नरकमें उत्पन्न होता है उसके अन्तिम समयमें ही सिध्यात्वकी उल्लूख प्रदेशविभक्ति जाती है । इसकी अनुल्लूख प्रदेशविभक्तिके कालके विषयमें दो उपदेश पाये

❀ एवं सेसाणं कम्माणं णादूण णेदव्वं ।

§ ८. तं जहा—अटकसाय-सत्तणोकसायाणं मिच्छत्तभंगो, जहण्णकसकालेहि उक्कस्साणुक्कसदव्वविसएहि ततो भेदाभावादो । अणंताणुबंधिचउक्कस्स वि मिच्छत्त-भंगो चैव । णवरि अणुक्कस्स० जहएणेण अंतोमुहुत्तं, अणंताणुबंधिचउक्कं विसंजोइय पुणो संजुत्तो होदूण अंतोमुहुत्तेण विसंजोइदम्मि तदुवलंभादो । चदुसंज०-पुरिस० उक्क० जहण्णु० एगस० । अणुक्क० अणादि-अपज्ज० अणादि-सपज्ज० सादि-सपज्ज० । जो सो सादि-सपज्ज० तस्स जहण्णुक्क० अंतो० । इत्थि० उक्क०

जाते हैं। एक उपदेशके अनुसार वह अनन्त काल प्रमाण बतलाया है। इसकी व्याख्या करते हुए वीरसेन स्वामीने जो लिखा है उसका भाव यह है कि नित्य निगोद जीव दो प्रकारके होते हैं—एक वे जो अबतक न तो निगोदसे निकले हैं और न निकलेंगे। इनकी अपेक्षा तो मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त है। हां जो नित्य निगोदसे निकलकर क्रमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्त कर देते हैं उनकी अपेक्षा अनादि-सान्त काल है। पर चूर्णिसूत्रमें इन दोनों प्रकारके कालोंका ग्रहण न कर इतर निगोद जीवोंकी अपेक्षा कालका विचार किया गया है। आशय यह है कि एक बार मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करके जो क्रमसे इतर निगोदमें चले जाते हैं उनके वहांसे निकलकर पुनः उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके प्राप्त करनेमें अनन्त काल लगता है, इसलिए चूर्णिसूत्रमें मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अनन्त काल कहा है। यह एक उपदेश है। किन्तु एक दूसरा उपदेश भी मिलता है। इसके अनुसार मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अनन्तप्रमाण न प्राप्त होकर असंख्यात लोकप्रमाण बतला जाता है। उन आचार्योंके मतसे इस उपदेशके कारणका निर्देश करते हुए वीरसेन आचार्य लिखते हैं कि जीवोंके कुल परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण ही उपलब्ध होते हैं और सब प्रदेशसत्कर्मस्थानोंमें जीव क्रमसे ही प्राप्त होता है ऐसा कोई नियम नहीं है, अतः जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण बननेमें कोई बाधा नहीं आती। अनुत्कृष्टके जघन्य कालके विषयमें ये दो उपदेश हैं। यह कह सकना कठिन है कि इनमेंसे कौन उपदेश सच है, इसलिए यहाँ दोनोंका संग्रह किया गया है। यह सम्भव है कि गुणितकर्मशिक जीव सातवें नरकके अन्तमें उत्कृष्ट प्रदेशसंचय करके और वहांसे निकलकर क्रमसे मनुष्य होकर वर्षपृथक्त्व कालके भीतर मोहनीयका क्षरण कर दे। इसलिए यहाँ मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वर्षपृथक्त्वप्रमाण भी कहा है।

❀ इसी प्रकार शेष कर्मोंका जानकर ले जाना चाहिए ।

§ ८. खुलासा इस प्रकार है—आठ कषाय और सात नोकषायोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है, क्योंकि जघन्य और उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा तथा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट द्रव्यविशेषकी अपेक्षा मिथ्यात्वसे इनमें कोई भेद नहीं है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भी मिथ्यात्वके समान ही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके और संयुक्त होकर जो अन्तर्मुहूर्तमें पुनः इसकी विसंयोजना करता है उसके उक्त काल पाया जाता है। चार संवलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त है। उसमें जो सादि-सान्त काल है उसकी

जहण्णु० एगस० । अणुक्क० ज० दसवस्ससहस्साणि वासपुधत्तेण सादि०, उक्क०
अणंतकालं । सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं उक्क० पदे०वि० केव० कालादो होदि ?
जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ ।

§ ६. एदेसिं चेव अणुक्कस्सदब्बकालपटुप्पायणद्वमुत्तरसुत्तं भणदि—

❀ एवरि सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं अणुक्कस्सदब्बकालो जहण्णोएण
अंतोमुहत्तं ।

अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। खीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वर्षपृथक्त्व अधिक दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अनन्त काल है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।

विशेषार्थ—इन सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति अपने अपने उत्कृष्ट स्वामित्वके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए यहाँ सबकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। मात्र जिस प्रकृतिकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके कालमें कुछ विशेषता है उसका यहाँ स्पष्टीकरण करते हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त क्यों है इसके कारणका निर्देश मूलमें ही किया है। चार संज्वलन और पुरुषवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति अभव्योंकी अपेक्षा अनादि-अनन्त, भव्योंकी अपेक्षा अनादि-सान्त और क्षपकश्रेणिमें सादि-सान्त कही है। क्षपकश्रेणिमें इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होनेके बाद अन्तर्मुहूर्त कालतक अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सम्भव है, इसलिए इनकी सादि-सान्त अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। खीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति गुणितकर्मांशिक ऐसे जीवके भी होती है जो अन्तमें पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण आयुके साथ असंख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोंमें उत्पन्न होकर आयुके अन्तिम समयमें स्थित है। उसके बाद यह जीव देव होता है और देव पर्यायसे आकर ऐसे जीवका वर्षपृथक्त्वकी आयुवाला मनुष्य होकर मोक्ष जाना भी सम्भव है। खीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होनेके बाद उसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका इससे कम काल सम्भव नहीं है। यही कारण है कि यहाँपर इसका जघन्य काल वर्षपृथक्त्व अधिक दस हजार वर्षप्रमाण कहा है। यहाँ जिन प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल कहा गया है उनकी इस विभक्तिका उत्कृष्ट काल मिथ्यात्वके समान ही है यह बिना कहे ही जान लेना चाहिए, क्योंकि कालमें मिथ्यात्वके जितनी विशेषता थी वही यहाँ पर कही गई है।

§ ६. अब सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके अनुत्कृष्ट द्रव्यके कालका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके अनुत्कृष्ट द्रव्यका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है।

§ १०. कुदो ? सम्मतं पडिवण्णणिससंतकम्मियम्मि सम्मतसंतमतोमुहुत्तं धरिय वविददंसणमोहणीयम्मि तदुवलंभादो । उक्कस्ससाभियस्स वा खवयस्स अणुक्कस्सम्मि दिव गिस्संतीकरणेण सव्वजहण्णंतोमुहुत्तमेत्तकालो वत्तव्वो, पुच्चिव्वल्लादो वि एदस्स जहण्णभावदंसणादो ।

❀ उक्कस्सेण वेच्छावट्टिसागरोवमाणि साधिरेयाणि ।

§ ११. गिस्संतकम्मियमिच्छाइट्टिम्मि सम्मतं पडिवज्जिय पुणो मिच्छत्तं गंतूण पलि० असं०भागमेत्तकालेण चरिमुव्वेत्तल्लणकंदयस्स चरिमफालीए सेसाए सम्मतं घेतूण पडमच्छावट्टिं भमियं पुणो मिच्छत्तं गंतूण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकालेण चरिमुव्वेत्तल्लणकंदयस्स चरिमफालीए सेसाए सम्मतं घेतूण विदियव्वावट्टिं भमियं पुणो मिच्छत्तं गंतूण पलिदो० असं०भागमेत्तकालेणुव्वेत्तल्लिदसम्मत्त-सम्मा-मिच्छत्तम्मि तदुवलंभादो ।

§ १०. क्योंकि इन दो प्रकृतियोंकी सत्तासे रहित जो जीव सम्यक्त्वको प्राप्त करके और अन्तर्मुहूर्त काल तक सम्यक्त्वकी सत्तावाला होकर दर्शनमोहनीयकी क्षणता करता है उसके इन दोनों प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट द्रव्यका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त पाया जाता है । या इनके उत्कृष्ट द्रव्यका स्वामी जो क्षणक जीव इन्हें अनुत्कृष्ट करके निःसत्त्व कर देता है उसके इनके अनुत्कृष्ट द्रव्यका सबसे जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त कालसे भी यह काल जघन्य देखा जाता है ।

❀ उत्कृष्ट काल साधिक दो ज्झासठ सागरप्रमाण है ।

§ ११. क्योंकि इन दो प्रकृतियोंकी सत्तासे रहित जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वको प्राप्त करके पुनः मिथ्यात्वमें जाकर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक इनकी उद्वेलना करते हुए अन्तिम उद्वेलनाकाण्डककी अन्तिम फालिके शेष रहनेपर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ और प्रथम ज्झासठ सागर काल तक भ्रमण करके पुनः मिथ्यादृष्टि हुआ । तथा वहाँ पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक उद्वेलना करते हुए चरम उद्वेलना काण्डककी अन्तिम फालिके शेष रहनेपर सम्यक्त्वको प्राप्त करके द्वितीय ज्झासठ सागर काल तक उसके साथ भ्रमण करता रहा और अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा जिसने सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना की उसके उक्त काल उपलब्ध होता है ।

विशेषार्थ—यहाँपर दो चूणिसूत्रों द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके जघन्य और उत्कृष्ट कालका निर्देश किया गया है । ऐसा करते हुए बीरसेन स्वामीने जघन्य काल दो प्रकारसे बाँट करके बतलाया है । प्रथम उदाहरणमें तो ऐसा जीव लिया है जिसके इन दो कर्मोंकी सत्ता नहीं है । ऐसा जीव सम्यग्दृष्टि होकर अन्तर्मुहूर्तमें यदि इनकी क्षणता करता है तो उसके इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर्मुहूर्त काल उपलब्ध होता है । दूसरे उदाहरणमें ऐसा क्षणक जीव लिया है जो इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला है ।

❀ जहण्णकालो जाण्हूण षेदवो ।

§ १२. सुगमं ।

§ १३. एवं चुण्णिमुत्तमस्सिद्धण कालपरुवणं करिय संपहि एत्थुच्चारणाइरिय-
वक्खाणक्कमं भणिस्सामो । कालो दुविहो—जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्सए
पयदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० मिच्छत्त-अट्टक०-सत्तणोक्क० उक्क० पदे०
विहृत्ती० केवचिरं कालो ? जहण्णुक्क० एगस० । अणुक्क० ज० वासपुधत्तं, उक्क०
अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । एवं अणंताणु०चउक्क० । णवरि अणुक्क० ज०
अंतो० । सम्मत्तं-सम्मामि० उक्क० पदेस० जहण्णुक्क० एगस० । अणुक्क० ज० अंतो०,
उक्क० वेच्छत्तं वट्ठिसागरोमाणि सादि० । चदुसंज०-पुरिसवेदाणं उक्क० पदे० जहण्णुक्क०

इस जीवके अन्तर्मुहूर्तमें इन कर्मोंकी नियमसे क्षपणा हो जाती है, इसलिए इसके भी इनकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर्मुहूर्त काल उपलब्ध होता है। इस प्रकार अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिके ये दो उदाहरण उपस्थित कर वीरसेन स्वामी प्रथमकी अपेक्षा द्वितीयको ही प्रकृतमें उपयुक्त मानते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रथमकी अपेक्षा अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका (जितना काल है उससे दूसरे उदाहरणकी अपेक्षा अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल स्पष्टतः कम है और जघन्य कालमें जो सबसे न्यून हो वही लिया जाता है। यह तो इन दोनों कर्मोंकी अनुकृष्ट प्रदेश-विभक्तिके जघन्य कालका विचार हुआ। उक्त कालका स्पष्टीकरण स्वयं वीरसेन स्वामीने किया ही है। यहाँ इतना ही संकेत करना है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलनाका काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होकर भी न्यूनाधिक है, इसलिए जहाँ जिस कर्मकी अन्तम उद्वेलनाकाण्डककी अन्तम फालि प्राप्त हो वहाँ उसके सद्भावमें रहते हुए अन्तम समयमें ही सम्यक्त्वको प्राप्त कराना चाहिए।

❀ जघन्य कालको जानकर ले जाना चाहिए ।

§ १२. यह सूत्र सुगम है ।

विशेषार्थ—इस चूर्णिसूत्रमें जघन्य पदसे तात्पर्य मिध्यात्व आदि अट्टाईस प्रकृतियोंके जघन्य द्रव्यसे है। उसका जघन्य और उकृष्ट जो काल हो उसे जानकर घटित कर लेना चाहिए यह बात इस चूर्णिसूत्रमें कही गई है।

§ १३. इस प्रकार चूर्णिसूत्रके आश्रयसे कालका कथन करके अब यहाँ पर उच्चारणाचार्यके व्याख्यानके क्रमको कहेंगे। काल दो प्रकारका है—जघन्य और उकृष्ट। उकृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिध्यात्व, आठ कषाय और सात नोकषायोंकी उकृष्ट प्रदेशविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य और उकृष्ट काल एक समय है। अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वर्षपृथक्त्वप्रमाण है और उकृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उकृष्ट काल एक संभय है। अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उकृष्ट काल साधिक दो

एगस० । अणुक० अणादिओ अपज्जवसिदो अणादिओ सपज्जवसिदो सादिओ सपज्ज० । तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स इमो णिदो सो—जहणु० अंतो० । इत्थिवेद० उक्क० पदे० जहणुक्क० एगस० । अणुक० ज० दसवस्ससहस्साणि वासपुधत्तेणभहियाणि, उक्क० अर्णतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

§ १४. आदेशेण० गेरइएसु मिच्छत्त-सोलसक०-उण्णोक० उक्क० पदे० जहणुक्क० एगस० । अणुक० जह० अंतो० । कुदो ? सत्तमाए पुढवीए समयहिय-असंखे० फइयमेत्तावसेसे आउए दव्वमुक्कस्सं करिय विदियसमयमादिं कादूण अंतो-मुहुत्तमेत्तकालं अणुकस्सदव्वेणच्छिय णिग्गयस्स तदुवलंभादो । गेरइयचरिमसमए पदेसस्सुकस्ससामित्तं पखुविदसुत्तेण सह एदस्स वक्खाणस्स कथं ण विरोहो ? विरोहो चैव । किं तु आउवबंधयद्धाकालमि जादपदेसक्खयादो उवरिमकालपदेससंचओ बहुओ त्ति जइवसहाइरिओवणसो तेण गेरइयचरिमसमए चैव उक्कस्सपदेससामित्तं । उच्चारणा-इरियाणं पुण अहिप्पाएण उवरिमसंचयादो आउअबंधकालमि जादपदेसक्खओ

लथासठ सागरप्रमाण है । चार संज्वलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त काल है । उनमेंसे जो सादि-सान्त काल है उसका यह निर्देश है । उसकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल वर्षप्रथक्त्व अधिक दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है ।

विशेषार्थ—यहां उच्चारणाचार्यके व्याख्यानमें वही सब काल कहा गया है जो कि चूर्णि-सूत्रों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है । मात्र चूर्णिसूत्रमें मिथ्यात्व आदि की अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल तीन प्रकार से बतलाया गया है सो यहाँ अनन्त काल और असंख्यात लोकप्रमाण काल इन दो को छोड़कर एकका ही ग्रहण किया गया है, क्योंकि उक्त तीन प्रकारके कालोंमें से सबसे जघन्य काल यही प्राप्त होता है और यह निर्दिष्ट है ।

§ १४. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नाकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि सातवीं पृथिवीमें आयुके एक समय अधिक असंख्यात स्पर्धकमात्र शेष रहने पर उक्त कर्मोंके द्रव्यको उत्कृष्ट करके और दूसरे समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक अनुत्कृष्ट द्रव्यके साथ रहकर निकलनेवाले जीवके उक्त काल पाया जाता है ।

शंका—नारकीके अन्तिम समयमें प्रदेशसत्कर्मके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रके साथ इस व्याख्यानका विरोध कैसे नहीं प्राप्त होता ?

समाधान—उक्त सूत्रके साथ इस व्याख्यानका विरोध तो है ही, किन्तु आयुबन्धके काल में जो प्रदेशोंका क्षय होता है उससे आगेके कालमें होनेवाला प्रदेशोंका संचय बहुत है यह यतिवृषभाचार्यका उपदेश है, इसलिए इस उपदेशके अनुसार नारकीके अन्तिम समयमें ही उत्कृष्ट प्रदेशस्वामित्व प्राप्त होता है । परन्तु उच्चारणाचार्यके अभिप्रायसे आयुबन्ध कालसे आगेके

बहुओ त्ति तेण आडअबंधे चरिमसमयअपारद्धे चैव उक्कस्ससाभित्तं होदिं त्ति तदो आणाकणिट्ठदाए णिण्णयाभावादो स्थप्पं काज्जण वक्खवाणेयव्वं । उक्कं० तेतीसं सागरोवमाणि । णवरि अर्णताणु०चउक्कं० जहं० एगसमओ । कुदो ? चउवीससंत-कम्मियउवसमसम्मादिट्ठिम्मि सासणं गंतूण अर्णताणुबंधिसंतमुप्पाइय विदियसमए णिप्पिलिंदम्मिं तदुवत्तंभादो । उक्कं० तं चैव । सम्मत-सम्माभिं० उक्कं० पदे० जहण्णुक्कं० एगसं० । अणुक्कं० जं० एगं०, उक्कं० तेतीसं सागरोवमाणि । तिण्हं वेदाणमुक्कं० पदेसं० जहण्णुक्कं० एगसं० । अणुक्कं० जहं० दसवस्ससहंसाणि समयूणाणि, उक्कं० तेतीसं सागरोवमाणि ।

कालमें होनेवाले सञ्चयसे आयुबन्धके कालमें प्रदेशोंका क्षय बहुत होता है इसलिये आयु बन्धके प्रारम्भ होनेके पूर्व अन्तिम समयमें ही अर्थात् आयुबन्ध प्रारम्भ होनेके अनन्तर पूर्व समयमें ही उत्कृष्ट स्वामित्व होता है । अतएव जिनाज्ञाका निरर्थक न होनेसे इस विषयको स्थगित करके व्याख्यान करना चाहिए ।

उक्त प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है, क्योंकि चौबीस प्रकृतियोंकी सत्तावाला जो अपशमसम्यग्दृष्टि नारकी जीव सासादान् गुणस्थानको प्राप्त होकर और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके सत्त्वको उत्पन्न करके दूसरे समयमें अन्य गतिमें चला जाता है उसके एक समय काल पाया जाता है । तथा उत्कृष्ट काल वही है । अर्थात् तेतीस सागर ही है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—सामान्यसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सातवें नरकमें आयुबन्धसे पूर्व अन्तिम समयमें होती है, इसलिये इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है तथा उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके बाद नरकभवमें जो अन्तर्मुहूर्त काल शेष बचता है वह इन कर्मोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल है और इसका उत्कृष्ट काल सम्पूर्ण तेतीस सागर उस नारकीके होता है जिसके उस पर्यायमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नहीं होती । यही कारण है कि उक्त कर्मोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है, इसलिये कारण सहित इस कालका निर्देश अलगसे किया है । यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके जघन्य कालका निर्देश करके 'उक्कं० तं चैव' कहकर उत्कृष्ट काल भी कह दिया है पर इससे यह मिथ्यात्व आदिकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके उत्कृष्ट काल से अलग है ऐसा नहीं समझना चाहिए, अन्यथा 'तं चैव' पद देनेकी कोई सार्थकता नहीं थी । सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्कृष्ट स्वामित्वके अनुसार एक समयके लिए होती है, इसलिये इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा जो जीव अपनी-अपनी उद्वेगान्तिके अन्तिम

§ १५. पढमाए जाव छट्टि ति मिच्छत-बारसक०-णवणोक० उक्क० पदेस० जहण्णुक० एगस० । अणुक० जह० पढमाए दसवस्ससहस्साणि समज्जाणि । कुदो समज्जणत्तं ? उप्पण्णपढमसमए पदेसस्स जादुकस्ससंततादो । सेसासु पुढवीसु जह० सगसगजहण्णट्टिदीओ समज्जाओ, उक्क० सगसगुकस्सट्टिदीओ । एषमणताणु०-चउक्क०-सम्मत्त-सम्मामिच्छताणं । णवरि अणुक० ज० एगस० । सत्तमीए णिरओघं । णवरि इत्थि-पुरिस-णउंसयवेदाणमुक्क० पदे० जहण्णुक० एग० । अणुक० ज० षावीसं सागरोवमाणि, उक्क० तेत्तीसं साग० । अणताणु०चउक्क० उक्क० पदे० जहण्णुक० एग० । अणुक० ज० अंतो० । कुदो ण एगसमओ ? सत्तमाए पुढवीए सासणगुणेण णिग्गमाभावादो । उक्क० तेत्तीसं सागरो० ।

समयमें नरकमें उत्पन्न होता है उसके वहाँ इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समय तक देखी जाती है, अतः इन दोनों प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है। इसका उत्कृष्ट काल तेत्तीस सागर है यह स्पष्ट ही है। तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नरकमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा नरककी जघन्य स्थितिमेंसे इस एक समयको कम कर देने पर तीनों वेदोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जघन्य आयुप्रमाण होता है और इसका उत्कृष्ट काल नरककी उत्कृष्ट आयुप्रमाण है यह स्पष्ट ही है।

§ १५. पहली पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल प्रथम पृथिवीमें एक समय कम दस हजार वर्ष है।

शंका—एक समय कम क्यों है ?

समाधान—क्योंकि वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही उत्कृष्ट सत्त्व होता है।

शेष पृथिवियोंमें उक्त प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी-अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल छहोंमें अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्क, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है। सातवीं पृथिवीमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल बाईस सागर है और उत्कृष्ट काल तेत्तीस सागर है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है।

शंका—एक समय क्यों नहीं है ?

समाधान—क्योंकि सातवीं पृथिवीसे सासादन गुणस्थानके साथ निर्गमन नहीं होता है। तथा उत्कृष्ट काल तेत्तीस सागर है।

विज्ञोषार्थ—प्रथमादि इह पृथिवियोंमें गुणितकर्मांशविधिसे आये हुए जीवके नरकमें

§ १६. तिरिक्कवगदीए तिरिक्खेसु मिच्छत्त-सोलसक०-णवणोक० उक्क० पदे० जहणुक्क० एगस० । अणुक्क० ज० खुदाभवग्गहणं । एदं समयूणं ति किं ण उच्चदे ? ण, णेरइयेहिंतो णिग्गयस्स अपज्जत्तएसु अयांतरसमए उववादाभावादो । अणंताणु० चउक्क०-इत्थिवेदाणमेगस० । सन्वासिसुक्क० अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्ठा । सम्मत्त-सम्मामि० उक्क० पदे० जहणुक्क० एग० । अणुक्क० ज० एग०, उक्क०

उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मिध्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए इन नरकोंमें उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है। मात्र इन नरकोंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सामान्य नारकियोंके समान भी सम्भव है, इसलिए इन नरकोंमें इसका जघन्य काल एक समय कहा है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति प्रथमादि छह नरकोंमें जो गुणितकर्मांशिक जीव आकर और वहाँ उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्तमें यथाशास्त्र उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करता है उसके अन्तिम समयमें होती है, अतः इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इनकी उद्वेलनामें एक समय शेष रहने पर जो उक्त नरकोंमें उत्पन्न होता है उनके अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समय देखी जाती है, अतः उक्त नरकोंमें इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है और इसका उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। सातवीं पृथिवीमें अन्य सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल सामान्य नारकियोंमें जिस प्रकार घटित करके बतला आये हैं उस प्रकारसे घटित कर लेना चाहिए। मात्र जिन प्रकृतियोंमें कुछ विशेषता है उसका स्पष्टीकरण करते हैं। तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति तो गुणितकर्मांशिक जीवके यहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही होती है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इस एक समयको सातवें नरकी जघन्य स्थितिमेंसे कम कर देनेपर यहाँ उनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल पूरा वाईस सागर प्राप्त होता है और इसका उत्कृष्ट काल यहाँकी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामित्व शोधके समान है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पूरा तेतीस सागर कहा है। यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति का जघन्य काल एक समय क्यों नहीं बनता इसके कारणका निर्देश मूलमें ही किया है।

§ १६. तिर्यञ्चगतिमे तिर्यञ्चोमे मिध्यात्व, सोलइ कषाय और नौ नोकषायोकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण है।

शंका—इसे एक समय कम क्यों नहीं कहते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि नारकियोंसे निकले हुए जीवका अनन्तर समयमें अपर्याप्तक जीवों में उत्पाद नहीं होता।

अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और सबका उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।

तिणिण पल्लिदोवमाणि पल्लिदोवमस्स असं०भागेण सादरे० ।

§ १७. पंचिंदियतिरिक्खतियम्मि छब्बीसं पयडीणमुक्क० पदे० जहण्णुक० एगस० । अणुक० ज० खुद्धा० अंतोमु०, अणंताणु०चउक्क०-इत्थिवेदाणमेगस०, उक्क० सव्वासिं तिणिण पल्लिदोवमाणि पुव्वकोटिपुधत्तेणव्वहियाणि । सम्मत-सम्मा-भिच्छत्ताणमित्थिवेदभंगो ।

अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यका असंख्यातवों भाग अधिक तीन पत्य प्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ सब कर्मोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति अपने अपने स्वासित्व के अनुसार एक समयके लिए होती है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। आगेकी मार्गणाओंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए, इसलिए आगे सब कर्मोंकी मात्र अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिके कालका स्पष्टीकरण करेंगे। तिर्यञ्चोंमें जघन्य आयु क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और कायस्थिति अनन्त काल प्रमाण है; इसलिए इनमें छब्बीस प्रकृतियोंकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट अनन्त काल कहा है। मात्र यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय भी बन जाता है, इसलिए इसका अलगसे निर्देश किया है। जो स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करनेके बाद एक समय तक तिर्यञ्चोंमें रहकर देव हो जाता है उसके स्त्रीवेदकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाता है और जिस तिर्यञ्चने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके तिर्यञ्च पर्यायमें रहनेका काल एक समय शेष रहने पर सासादनगुणस्थान प्राप्त करके उससे संयुक्त हुआ है उसके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाता है। तिर्यञ्चोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय उद्वेलनाकी अपेक्षा बन जाता है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कहा है। सम्यक्त्वकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कृतकृत्यवेदक सम्यक्त्वकी अपेक्षा भी बन जाता है इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए। तथा जो तिर्यञ्च पत्यके असंख्यातवों भागप्रमाण काल तक इनकी उद्वेलना करते हुए अन्तमें तीन पत्यकी आयुके साथ उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं और वहाँ अधिकतर समय तक सम्यक्त्वके साथ रहते हुए इनकी सत्ता बनाये रवते हैं उनके इस सब कालके भीतर उक्त दोनों प्रकृतियोंकी सत्ता बनी रहती है, इसलिए इनकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवों भाग अधिक तीन पत्य कहा है।

§ १७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चविक्रमं छब्बीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल तिर्यञ्चोंमें क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण और शेष दो में अन्तर्मुहूर्त है। किन्तु अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और सबका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंकी जघन्य स्थिति क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण और शेष दो की अन्तर्मुहूर्त है। तथा सबकी कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है, इसलिए इनमें छब्बीस प्रकृतियोंकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल क्रमसे क्षुल्लक भवग्रहण-

§ १८. पंचितिरि०अपज्ज० छव्वीसं पयडीणं उक्क० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अणुक्क० ज० खुद्धाभव० समऊणं, उक्क० अंतो० । सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणमेवं चेव । णवरि अणुक्क० ज० एगस० । एवं मणुसअपज्जत्ताणं ।

§ १९. मणुसतियम्मि अट्ठावीसं पयडीणं उक्क० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अणुक्क० ज० खुद्धा० अंतो० समऊणं, उक्क० सगट्ठिदी । णवरि सम्म०-सम्माभि०-अणंताणु०चउक्क०-इत्थिवेद० अणुक्क० ज० एगस० । चदुसंज०-पुरिस० अणुक्क० ज० अंतोमु० ।

प्रमाण और अन्तर्मुहूर्त कहा है तथा उत्कृष्ट काल पूर्व कोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य कहा है । मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सामान्य तिर्यञ्चोंके समान यहाँ भी बन जाती है, इसलिए यहाँ इसका जघन्य काल एक समय कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी प्ररूपणा स्त्रीवेदके समान घटित हो जाती है, इसलिए उसे उसकी प्ररूपणाके समान जानने की सूचना की है ।

§ १८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमे छव्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भङ्ग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तक जीवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका एक समय काल कम कर देने पर यहाँ अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल प्राप्त होता है और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंकी कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है, इसलिए इन जीवोंमें छव्वीस प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका अन्य सब काल इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए उसे इसी प्रकार जानने की सूचना की है । मात्र इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उद्वेलना की अपेक्षा एक समय काल भी प्राप्त होता है, इसलिए इनकी उक्त विभक्तिका जघन्य काल अलगसे एक समय कहा है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें यह कालप्ररूपणा अविकल बन जाती है, इसलिए उनमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ १९. मनुष्यत्रिकमें अट्ठावीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और एक समय कम अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी कायस्थिति-प्रमाण है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । तथा चार संञ्चलन और पुरुषवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है ।

विशेषार्थ—सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका एक समय काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिमेंसे कम कर देने पर अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल सामान्य मनुष्योंमें एक समय कम क्षुल्लक भव ग्रहणप्रमाण और शेर दो प्रकारके मनुष्योंमें एक समय कम अन्तर्मुहूर्तप्रमाण कहा है । इनमें

§ २०. देवगदीए देवेसु मिच्छं-वारसक०-सत्तणोक० उक्क० पदे० जहण्णुक० एग० । अणुक० जहं दसवस्ससहस्साणि समज्जणाणि, उक्क० तेतीसं सागरो० । एवं सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणं । णवरि अणुक० ज० एगस०, उक्क० तं चेव । एवं पुरिस-णउंसयवेदाणं । णवरि अणुक० ज० दसवस्ससहस्साणि, उक्क० तेतीसं सागरोवमाणि ।

§ २१. भवण०-वाण०-जोइसि० छ्वीसं पयडीणमुक्क० पदे० जहण्णुक०

इसका उत्कृष्ट काल कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । मात्र इनमें सम्यक्त्वका उद्वेलना और क्षुण्णकी अपेक्षा तथा सम्याग्मिध्यात्वका उद्वेलनाकी अपेक्षा, अनन्तानुबन्धीचतुष्कका संयोजना होकर सासादन गुणस्थानके साथ विवक्षित पर्यायमें एक समय रहनेकी अपेक्षा और स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके बाद एक समय तक अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके साथ विवक्षित पर्यायमें रहनेकी अपेक्षा उक्त प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाने से वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा चार संवलन और पुरुषवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त जो ओषसे घटित करके बतला आये है वह मनुष्यत्रिकमें सम्भव है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ २०. देवगतिमें देवोंमें मिध्यात्व, बारह कषाय और सात नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इसी प्रकार सम्यक्त्व, सम्याग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल वही है । पुरुषवेद और नपुंसकवेदका काल भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है ।

विशेषार्थ—देवोंमें मिध्यात्व, बारह कषाय और सात नोकषायकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति गुणित कर्मांशिक जीवके यहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें होती है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वर्ष कहा है । उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है । शेष प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल तो यही है । मात्र जघन्य कालमें अन्तर है । सम्यक्त्वका उद्वेलना और क्षुण्णकी अपेक्षा, सम्याग्मिध्यात्व का उद्वेलनाकी अपेक्षा और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका संयोजना होकर सासादन गुणस्थानके साथ एक समय विवक्षित पर्यायमें रहनेकी अपेक्षा एक समय काल बन जाता है, इसलिए यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है । तथा पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति पत्न्योपमकी स्थितिवाले देवोंके अन्तिम समयमें होती है, इससे कम स्थितिवालेके नहीं, इसलिए तो इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल पूरा दस हजार वर्ष कहा है और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति ऐशान कल्पमें होती है, इसलिए इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका भी जघन्य काल पूरा दस हजार वर्ष कहा है ।

§ २१. भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें छ्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट

एगस० । अणुक० जह० जहणणद्विदी समरुणा, उक० अप्पपणो उक्कस्सद्विदीओ ।
णवरि अणंताणु०चउक० जह० एगस० । सम्मत-सम्माभिच्छत्ताणमणंताणु०-
चउक०भंगो ।

§ २२. सोहम्मादि जाव सहस्सरो त्ति मिच्छत्त-बारसक०-णवणोको उक०
पदे० जहणणुक० एगस० । अणुक० जह० सग-सगजहणणद्विदीओ समरुणाओ, उक०
सग-सगुक्कस्सद्विदीओ । अणंताणु०चउक०-सम्मत-सम्माभिच्छत्ताणं एवं चेव । णवरि
अणुक० जह० एगस०, उक० तं चेव ।

§ २३. आणदादि जाव णवगेवेज्जा त्ति छ्वीसं पयडीणं उक० पदे०

प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग अनन्तानुबन्धीचतुष्कके समान है ।

विशेषार्थ—उक्त देवोंमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सम्भव है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय सामान्य देवोंके समान यहाँ भी बन जाता है, इसलिए इसके जघन्य काल एक समयका अलगसे निर्देश किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जाता है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ २२. सौधर्म कल्पसे लेकर सहस्सार कल्प तकके देवोंमें मिथ्यात्व वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल वही है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रारम्भमें कही गईं वाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें होती है । मात्र सौधर्म और ऐशान कल्पमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उस पर्यायके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इन सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है । तथा शेष प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति सामान्य देवोंके समान यहाँ भी घटित हो जाती है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कहा है । यहाँ सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है ।

§ २३. आनत कल्पसे लेकर नौ त्रैवेयक तकके देवोंमें छ्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट

जहण्णुक० एगस० । अणुक० जह० खुदाबंधपाढो समऊगो, उक० सगट्टिदी ।
णवरि अणंताणु० चउक्करस अणुक० पदे० जह० एगस० । एवं सम्मत-संम्मा-
मिच्छत्ताणं ।

§ २४. अणुदिसादि जाव सव्वट्टसिद्धि ति सत्तावीसं पयंहीणमुक० पदे०
जहण्णुक० एगसं० अणुक० जह० जहण्णट्टिदी समयूणा, उक० सगुकस्सट्टिदी ।
णवरि अणंताणु० चउकुक० अणुक० जह० अंतोमु० । सम्मत० उक० पदेसजहण्णुक०
एगस० । अणुक० जह० एगस०, उक० सगट्टिदी । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल
क्षुल्लकबन्धके पाठके अनुसार एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी
अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट
प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी
अपेक्षासे जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्व, सोलह कषाय और छह नाकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति
अपने अपने भवके प्रथम समयमें सम्भव है । तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति स्वामित्वके
अनुसार यद्यपि भवके प्रथम समयमें सम्भव नहीं है, क्योंकि स्वामित्वप्ररूपणामें गुणित-
कर्मशिविधिसे आकर जो द्रव्यलिंगके साथ मरकर और वहाँ उत्पन्न होकर विवक्षित वेदके
पुरणकालके अन्तिम समयमें स्थित है उसके तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति बतलाई है पर
क्षुल्लकबन्धके पाठके अनुसार तीनों वेदों सहित उक्त सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका
जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण बतलाया है सो विचार कर
घटित कर लेना चाहिए । मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल
एक समय सामान्य देवोंके समान यहाँ भी बन जाता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है ।
तथा यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय
ही है, क्योंकि सम्यक्त्वका उद्वेगना और क्षपणाकी अपेक्षा तथा सम्यग्मिथ्यात्वका उद्वेगनाकी
अपेक्षा एक समय काल प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती, इसलिए इनकी प्ररूपणा अनन्तानु-
बन्धीचतुष्कके समान जाननेकी सूचना की है । यहाँ सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका
उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है ।

§ २४. अनुदिसासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सत्ताईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट
प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य
काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति-
प्रमाण है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य
काल अन्तमुहूर्त है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय
है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके एक समयको अपनी अपनी जघन्य स्थितिमेंसे कम
कर देने पर सत्ताईस प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल प्राप्त होता है, इसलिए
वह एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है । मात्र जो वेदकसम्यग्दृष्टि अनन्तानुबन्धीकी

§ २५. जहणणए पयदं । दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मिच्छत्त-एकारसकसाय-णवणोकसाय० जहणणपदे जहण्णुक्स्सेण एगसमओ । अजहण्णे० अणादिओ अपज्जवसिदो अणादिओ सपज्जवसिदो । सम्मत-सम्माभिच्छत्ताणं जहणणपदे जहण्णुक्० एगसमओ । अजह० ज० अंतोमु०, उक्क० वेद्धावट्ठि सागरोवमाणि सदिरियाणि । अणंताणु० चउक्क० ज० पदेस० जहण्णुक्क० एगस० । अज० अणादिओ अपज्जवसिदो अणादिओ सपज्जवसिदो सादिओ सपज्जवसिदो । जो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स इमो णिहेसो—जह० अंतोमु०, उक्क० अद्धपोग्गलपरियट्ठं देसूणं । लोभसंजल० जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० तिण्णि भंगा । जो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स जहण्णुक्क० अंतोमुहुत्तं ।

विसंयोजना किये बिना वहाँ उत्पन्न हुआ है और अन्तर्मुहूर्त कालमें उनकी विसंयोजना कर देता है उसके इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति अन्तर्मुहूर्त काल तक ही देखी जाती है, इसलिए इसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। क्षपणाकी अपेक्षा सम्यक्त्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय यहाँ भी सम्भव होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। इन सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। इस प्रकार यहाँ तक ओघसे और चारो गतियोंमें कालका विचार किया। आगे अपनी अपनी विशेषताको जानकर वह घटित कर लेना चाहिए।

इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ ।

§ २५. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिथ्यात्व, ग्यारह कषाय और नौ नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त काल है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त काल है। उनमें जो सादि-सान्त काल है उसका यह निर्देश है—जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। लोभसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिके तीन भङ्ग हैं। उनमें जो सादि-सान्त भङ्ग है उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—अपने अपने स्वाभित्वके अनुसार ओघ और आदेशसे सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति एक समय तक ही होती है, इसलिए उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल सर्वत्र एक समय कहा है। अतः यहाँ केवल सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके कालका विचार करेंगे। मिथ्यात्व आदि इक्कीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अपनी अपनी क्षपणाके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इसका काल अभव्यों या अभव्योंके समान भव्योंकी अपेक्षा

१. ता० प्रतौ 'जो सो सादियो' इति पाठः ।

§ २६. आदेसेण णेरइएसु मिच्छत्त-सत्तणोकसाय० जह० पदे० जहण्णुक० एग-समओ । अज० जह० अंतोसु०, उक० तेत्तीसं सागरोवमाणि । सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० एगसमओ, उक० तेत्तीसं सागरो० । बारसक०-भय-दुगुंछाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० ज० दसवस्ससहस्साणि समयूणाणि, उक० तेत्तीसं सागरोवमाणि ।

अनादि-अनन्त और इतर भव्योंकी अपेक्षा अनादि-सान्त कहा है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व ये उद्वेलना प्रकृतियाँ हैं। इनका सत्त्व होकर रूपणा द्वारा कमसे कम अन्तर्मुहूर्तमें अभाव हो सकता है और जो प्रारम्भमें, मध्यमें और अन्तमें इनकी उद्वेलना करते हुए दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहता है उसके साधिक दो छयासठ सागर काल तक इनका सत्त्व देखा जाता है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर कहा है। इनका सत्त्व अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त नहीं होता, इसलिए ये दो भङ्ग नहीं कहे हैं। अनन्तानुवन्धीचतुष्क अनादि स्तावाली होकर भी विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त ये तीन भङ्ग कहे हैं। तथा सादि-सान्तके कालका निर्देश करते हुए वह जघन्य अन्तर्मुहूर्त कहा है, क्योंकि विसं-योजनाके बाद अन्तर्मुहूर्तके लिए इनकी सत्ता होकर पुनः विसंयोजना हो सकती है। तथा उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्थपुद्गलप्रमाण कहा है, क्योंकि कोई जीव इस कालके प्रारम्भमें और अन्तमें इनकी विसंयोजना करे और मध्यमें न करे यह सम्भव है। लोभकी अजघन्य प्रदेश-विभक्तिके भी तीन भङ्ग हैं। अनादि-अनन्त भङ्ग अभव्योंके होता है। अनादि-सान्त भङ्ग भव्योंके जघन्य प्रदेशविभक्तिके पूर्व होता है और सादि-सान्त भङ्ग जघन्य प्रदेशविभक्तिके बादमें होता है। इसकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपक जीवके अधःकरणके अन्तिम समयमें होती है। इसके बाद इसका सत्त्व अन्तर्मुहूर्त काल तक ही पाया जाता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

§ २६. आदेशसे नारकियोंमें मिध्यात्व और सात नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है।

विशेषार्थ—मिध्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्ति नारक पर्याय-में अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहनेपर हो यह भी सम्भव है, इसके बाद इनकी वहाँ अन्तर्मुहूर्त काल तक अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है। तथा क्षपितकर्मशिविधेसे आकर नरकमें उत्पन्न हुए जिसे अन्तर्मुहूर्त काल हो जाता है उसके पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेश-विभक्ति होती है और इससे पूर्व अन्तर्मुहूर्त काल तक अजघन्य प्रदेशविभक्ति रहती है, इसलिए इन सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। सम्यक्त्व आदि छह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय अनुकृष्टके समान घटित कर लेना चाहिए। बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें

§ २७. पदमाए जाव छट्टि सिं मिच्छत्त-इत्थि-णत्तुंसयवेदाणं जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० जहण्णट्टिदी, उक्क० सगुक्कस्सट्टिदी । सम्मत-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणं जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० सगुक्कस्सट्टिदीओ । वारसक०-भय-दुगुंछाणं जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० जहण्णट्टिदी समऊणा, उक्क० सगट्टिदी । पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्टिदीओ ।

§ २८. सत्तमाए मिच्छत्त-अणंताणु०चउक्क०-इत्थि-पुरिस-णत्तुंसयवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवं सम्मत-सम्मामिच्छत्ताणं । णवरि अज० जह० एगस० ।

प्राप्त होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम दस हजार वर्ष कहा है। सब अद्वाईस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है।

§ २७. प्रथम पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्व, खीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेश-विभक्तिका जघन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है।

विशेषार्थ—प्रथमादि छह पृथिवियोंमें उत्कृष्ट आयुवाले जीवके अन्तिम समयमें मिथ्यात्व, खीवेद और नपुंसकवेदका जघन्य स्वामित्व बतलाया है, इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है। सम्यक्त्व आदि छह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय सामान्य नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिए। आगे भी जहाँ यह काल इतना कहा हो वहाँ वह इसी प्रकार जानना चाहिए। वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है। पुरुषवेद आदिकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रारम्भमें अन्तर्मुहूर्त काल जाने पर होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। इन अद्वाईस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेश-विभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है।

§ २८. सातवीं पृथिवीसे मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुष्क, खीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है।

वारसक-भय-दुगुंछाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० बावीसं सागरोवमाणि, उक्क० तेतीसं सागरोवमाणि ।

§ २६. तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छत्त०--वारकसाय-भय-दुगुंछित्थि-णुंसयवेदाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० खुदाभवग्गहणं, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा । सम्पत्त-सम्माभिच्छत्ताणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पलिदो० असंखे०-भागेण सादिरैयाणि । अणंताणु०चउक्क० जह० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा । पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जह० पदे० जहणुक्क० एगस० । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० अणंतकाल०-मसंखे०पो०परियट्टा ।

इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भङ्ग जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है। बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल बाईस सागर है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है।

विशेषार्थ—सातवीं पृथिवीमें ओघके समान स्वामित्व है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्व आदि बारह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। सम्यक्त्वद्विकका भङ्ग उक्त प्रकृतियोंके समान है यह स्पष्ट ही है। मात्र इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उद्वेलनाकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय बन जानेसे वह अलगसे कहा है। बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल बाईस सागर कहा है। इन अट्ठाईस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है।

§ २६. तिर्यञ्जगतिमे तिर्यञ्जोमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल लुल्लक भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक तीन पल्य है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है। पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अनन्त काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है।

विशेषार्थ—तिर्यञ्जोकी जघन्य भवस्थिति लुल्लकभवग्रहणप्रमाण है और जघन्य भवस्थितिवाले जीवोके मिथ्यात्व आदि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति

संखे० समया । अणुक० सव्वद्धा । एवमाणदादि जाव सव्वट्टसिद्धि ति ।

§ ८७. मणुसअपज्ज० छ्वीसं पयडीणमुक्क० पदे० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अणुक० जह० खुदाभव० समऊणं, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मापि० एवं चेव । णवरि अणुक० जह० एगस० ।

§ ८८. देवगदीए देवाणं पढमपुढविभंगो । एवं सोहम्मादि जाव सहस्सरो ति । भवण०-वाण०-जोइसि० विदियपुढविभंगो । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है । इसी प्रकार आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—सामान्य मनुष्योंमें जिस प्रकार ओघमें घटित करके बतला आये हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र ऋग्वेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल इनमें अपने स्वामित्वके अनुसार संख्यात समय ही प्राप्त होता है, इसलिए इन दोनों प्रकृतियोंकी परिगणना यहाँ सम्यक्त्व आदिके साथ की है । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और लवार्थसिद्धिके देव तो संख्यात होते ही हैं । आनतादिमें ये ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यात समय वननेसे उक्तप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ८७. मनुष्य अपर्याप्तकोंमें छ्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम लुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग इसीप्रकार है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है ।

विशेषार्थ—मनुष्य अपर्याप्त यह सान्तर मार्गणा है । यह सम्भव है कि इस मार्गणामें नाना जीव लुल्लक भव तक ही रहें । इसलिए इस कालमेंसे उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका एक समय काल कम देने पर अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम लुल्लक भवग्रहणप्रमाण बन जानेसे यहाँ छ्वीस प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम लुल्लक भवग्रहणप्रमाण कहा है । तथा इस मार्गणाका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए यहाँ सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल उक्त काल प्रमाण कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये उद्धे लाना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय बन जानेसे उक्त काल प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ८८. देवगतिमें देवोंमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग है । इसी प्रकार सौधर्मकल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—सौधर्मादि देवोंमें भी प्रथम पृथिवीके नारकियोंके समान कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें प्रथम पृथिवीके नारकियोंके समान भङ्ग बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । तथा भवनत्रिकमें कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि जीव मर कर

§ ८६. जहणए पयदं । दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण अट्टावीसं पयडीणं जह० पदे० केव० । जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । अज० सब्बद्धा । एवं सब्बणिरय-सब्बतिरिक्ख-सब्बमणुस्स-सब्बदेवा त्ति । णवरि मणुस्स-अपज्ज० अट्टावीसं पयडीणं जह० पदे० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । अज० जह० खुद्दाभवग्गहणं समयूणं, सत्तणोकसायाणमंतोसुहुत्तं, सम्म०-सम्मापि० एगस०; सब्बेसिसुक्क० पल्लिदो० असंखे० भागो । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि त्ति ।

❁ अंतरं । णाणाजीवेहि सब्बकम्माणं जह० एगसमओ, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा ।

§ ६०. एदेण सुत्तेण सूचिदजहणुक्कस्संतराणमुच्चारणं वत्तइस्सामो । तं जहा—

नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें दूसरी पृथिवीके नारकियोंके समान भङ्ग वन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ ।

§ ८८. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सब देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विरोपता है कि मनुष्य अपर्याप्तकोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम लुलक भव ग्रहणप्रमाण है, सात नोक्षायोंका अन्तर्बृहत्प्रमाण है तथा सम्यक्त्व और सम्यग्भिध्यात्वका एक समय है और सबका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षणिके समय होती है । यह सम्भव है कि एक या अधिक जीव एक समय तक ही इनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति करें और यह भी सम्भव है कि क्रमसे नाना जीव संख्यात समय तक इनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति करते रहे, इसलिए ओघसे इनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है । अपने अपने स्वामित्वको देखते हुए सब नारकी आदि मार्गणाओंमें यह काल घटित हो जाता है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र मनुष्यअपर्याप्तकोंमें विशेषता है । वात यह है कि वह सान्तर मार्गणा है, इसलिए उसमें सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अलग अलग प्राप्त होता है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है । विशेष विचार स्वामित्वको देखकर कर लेना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ ।

❁ अन्तर । नाना जीवोंकी अपेक्षा सब कर्मोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।

§ ६०. इस सूत्रसे सूचित हुए जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरको उच्चारणाके अनुसार वतलाते

अंतरं दुविहं—जहण्णमुक्कस्सं च । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिद्दोसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण अट्ठावीसं पयडीणमुक्कं पदे० जह० एगसगओ, उक्कं अणंतकाल-मसंखेज्जा पोगगलपरियट्ठा । अणुक्कं णत्थि अंतरं । एवं सच्चणेरइय-सच्चतिरिक्ख-सच्चमणुस्स-सच्चदेवा त्ति । णवरि मणुसअपज्जं अट्ठावीसं पयडीणमणुक्कं जह० एगसं, उक्कं पल्लिदो० असंखे० भागो । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि त्ति ।

§ ६१. जहण्णए पयदं । दुविहो णिद्दोसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण जहा उक्कस्संतरं परूविदं तथा जहण्णाजहण्णंतरपरूपणा परूवेदव्वा ।

§ ६२. सण्णियासो दुविहो—जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्सए पयदं । दुविहो णिद्दोसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ

हैं । यथा—अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सब देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपयीतक जीवोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इस प्रकार अनाहारक मार्गीणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ — उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति गुणितकर्मांशिक जीवोंके होती है । यह सम्भव है कि गुणितकर्मांशिकविधिसे आकर एक या नाना जीव एक समयके अन्तरसे अट्ठाईस प्रकृतियोंकी अलग अलग उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करें और अनन्त कालके अन्तरसे करें, इसलिए यहाँ ओघसे और गति मार्गीणाके सब भेदोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है । यहाँ सबकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है । मात्र मनुष्यअपर्याप्त यह सान्तर मार्गीणा है, इसलिए इसमें अपने अन्तरकालके अनुसार अट्ठाईस प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ६१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे जिस प्रकार उत्कृष्ट पदके आश्रयसे अन्तरकाल कहा है उस प्रकार जघन्य और अजघन्य प्रदेश-विभक्तिके अन्तरकालकी प्ररूपणा करनी चाहिए ।

विशेषार्थ—जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपितकर्मांशिक जीवके होती है, इसलिए सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तर काल उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिके समान बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है ।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

§ ६२. सन्निकर्षदो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाला जीव

वारसकसाय-छण्णोकसायाणं णियमा विहत्तिओ । तं तु उक्कस्सादो अणुक्कस्सं वेहाण-
पदिदं अणंतभागहीणं असंखेज्जभागहीणं वा । इत्थिणवुंसयवेदाणं णियमा अणुक्कस्स-
विहत्तिओ असंखेज्जभागहीणो । इत्थिवेददव्वेण संखेज्जगुणहीणेण होदव्वं, णेरइय-
इत्थिवेदबंधगद्धादो कुरवित्थिवेदबंधगद्धाए लद्धणवुंसयवेदबंधगद्धा संखेज्जभागवहु-
भागाम् । एवं संखेज्जगुणत्तादो कुरवेसु इत्थिवेदपूरणकालो एगगुणहाणीए असंखेज्जदि-
भागो चि कट्टु णासंखे०भागहीणत्तं जुत्तं, तत्थ असंखेज्जाणं गुणहाणीणमुवलंभादो ।
णोवलंभो असिद्धो, 'रदीए उक्कस्सदव्वादो इत्थिवेदुक्कस्सदव्वं संखेज्जगुणं' इदि उवरि
भण्णमाणअप्पावहुअमुत्तेण तत्थ असंखेज्जाणं गुणहाणीणमुवलंभादो । णवुंसयवेद-
दव्वेण वि संखेज्जभागहीणेण होदव्वं, ईसाणदेवेसु णवुंसयवेदेण त्थावरबंधयद्धं सयलं
लद्धण तसबंधगद्धाए पुणो संखेज्जखंडीकदाए लद्धवहुभागत्तादो । कुरवीसाणदेवेसु
इत्थिणवुंसयवेदाणि आवूरिय णेरइएसुप्पज्जिय उक्कस्सीकयमिच्छत्तस्स असंखे०भाग-
हाणी होदि चि वोत्तु जुत्तं, तेत्तीसं सागरोवमेसु गल्हिसासंखेज्जगुणहाणिदव्वस्स
णिरयगइसंचयं मोत्तुण कुरवीसाणदेवेसु संचिददव्वस्स अवहाणविरोहादो । तम्हा

वारह कषाय और छह नोकषायोंकी नियमसे विभक्तिवाला होता है। किन्तु वह इसकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला भी होता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला भी होता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला होता है तो उत्कृष्टकी अपेक्षा उसके अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तभागहीन होती है या असंख्यातभाग हीन होती है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला होता है जो नियमसे असंख्यातभागहीन प्रदेशविभक्तिवाला होता है।

शंका — स्त्रीवेदका द्रव्य संख्यातगुणा हीन होना चाहिए, क्योंकि नारकियोंमें जो स्त्रीवेदका बन्धक काल है उससे तथा देवकुरु और उत्तरकुरुमें जो स्त्रीवेदका बन्धककाल है उससे प्राप्त हुआ नपुंसकवेदका बन्धक काल संख्यात बहुभाग अधिक देखा जाता है। इसप्रकार संख्यातगुणा होनेसे देवकुरु उत्तरकुरुमें स्त्रीवेदका पूरणकाल एक गुणहानिके असंख्यातवें भागप्रमाण है ऐसा मानकर उसे असंख्यातवें भागहीन मानना उचित नहीं है, क्योंकि वहाँ असंख्यात गुणहानियों उपलब्ध होती है और उनका प्राप्त होना असम्भव भी नहीं है, क्योंकि रतिके उत्कृष्ट द्रव्यसे स्त्रीवेदका उत्कृष्ट द्रव्य संख्यातगुणा है इस प्रकार आगे कहे जानेवाले अल्पवहुत्व सूत्रके अनुसार वहाँ असंख्यात गुणहानियाँ उपलब्ध होती हैं। तथा नपुंसकवेदके द्रव्यको भी संख्यातवें भाग हीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईशान कल्पके देवोंमें नपुंसकवेदके साथ समस्त स्थावर बन्धक कालको प्राप्त करके पुनः त्रसबन्धक कालके संख्यात खण्ड करने पर बहुभाग प्राप्त होता है। यदि कहा जाय कि उत्तरकुरु-देवकुरु और पेशान कल्पके देवोंमें स्त्रीवेद और नपुंसकवेदको पूरकर तथा नारकियोंमें उत्पन्न होकर मिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कृष्ट करनेवाले जीवके स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यात भागहानि होती है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तेतीस सागरप्रमाण कालके भीतर असंख्यात गुणहानिप्रमाण द्रव्यके गल जाने पर नरकगतिस्मवन्धी सञ्चयको छोड़कर कुरु और पेशान कल्पके देवोंमें संचित हुए द्रव्यका अवस्थान माननेमें विरोध आता है, इसलिये असंख्यातभागहीनपता नहीं बनता है ?

असंखेज्जभागहीणत्तं ण घट्ठे त्ति ? ण, कुरवीसाणदेवेसु उक्कस्सीकयइत्थि-णअंसयवेद-
दव्वं णेरइएसुप्पज्जिय उक्कस्ससंक्खित्तेसेणुकड्डिय उक्कस्सीकयमिच्छत्तस्स इत्थि-णअंसयवेद-
दव्व्वाणमसंखे०भागहाणिं पडि विरोहाभावादो । एगुणहाणीए असंखे०भागमेत्तकालेण
तेतीससागरोवमेसु द्विददव्वमुक्कड्डिय सयलदव्वस्स असंखे०भागमेत्तं चेव तत्थ धरोदि
त्ति कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चेव सण्णियासादो । किं च गुणिदकम्मंसिए 'उवरिल्लीणं
द्विदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदं हेद्विल्लीणं द्विदीणं णिसेयस्स जहण्णपदं' ति वेयणासुत्तादो
च णव्वदे जहा असंखे०भागो चेव गलदि त्ति । चहुसंजलण-पुरिसवेद० णियमा
अणुक० सखेज्जगुणहीणा । सम्मत्तसम्माभिच्छत्ताणं णियमा अविहत्तिओ, गुणिद-
कम्मंसियत्तादो । एवं वारसकसाय-छणोकसायाणं ।

समाधान—नहीं, क्योंकि कुरूवासी जीवोंमें और ऐशान कल्पके देवोंमें उत्कृष्ट किये गये स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके द्रव्यको नारकियोंमें उत्पन्न होकर उत्कृष्ट संकलेश द्वारा उत्कर्षित करके जिसने मिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कृष्ट किया है उसके स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका द्रव्य असंख्यात भागहीन होता है इसमें कोई विरोध नहीं आता ।

शंका—एक गुणहानिके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा तेतीस सागर कालके भीतर स्थित द्रव्यका उत्कर्षण करके समस्त द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण द्रव्यको ही वहाँ धारण करता है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सन्निकर्षसे जाना जाता है । दूसरे गुणितकर्मांशिक जीवमें उपरितन स्थितियोंके निषेकका उत्कृष्ट पद होता है और अधस्तन स्थितियोंके निषेकका जघन्य पद होता है ऐसा जो वेदनासूत्रमें कहा है उससे जाना जाता है कि असंख्यातवें भाग ही गलता है ।

चार संज्वलन और पुरुषवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला होता है जो अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति संख्यातगुणी हीन होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अविभक्तिवाला होता है, क्योंकि मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला जीव गुणितकर्मांशिक है । इसी प्रकार बारह कषाय और छह नोकषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व, बारह कषाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका स्वामी एक समान है, इसलिए मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके अन्य प्रकृतियोंके साथ जिस प्रकारका सन्निकर्ष कहा है उसी प्रकार बारह कषाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके अन्य प्रकृतियोंके साथ सन्निकर्ष बन जाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि बारह कषायोंकी उत्कृष्ट कर्मस्थिति चालीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण है और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट कर्मस्थिति संक्रमसे प्राप्त होती है जो चालीस कोड़ाकोड़ी सागरसे एक आवलि कम है, अतः मिथ्यात्वकी गुणितकर्मांशविधि करते हुए जिस जीवके तीस कोड़ाकोड़ी सागर व्यतीत हो गये हैं उसके आगे इन कर्मोंकी गुणितकर्मांशविधि करानी चाहिए । इस प्रकार करानेसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय इन कर्मोंकी भी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति प्राप्त हो जाती है । अन्यथा मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय इन कर्मोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति रहती है । इसी प्रकार इन कर्मोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय मिथ्यात्वकी भी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति घटित कर लेनी चाहिए । यह इन

§ ६३. सम्मामि० उक्क० पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त-सम्मात्ताणं णियमा अणुक्क० असंखे०गुणहीणा । अट्ठक०-अट्ठणोक० णियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । चट्ठ-संज०-पुरिस० णियमा अणुक्क० संखेज्जगुणहीणा । सम्मतमेवं चेव । णवरि मिच्छत्तं पत्थि । सम्मामि० णियमा अणुक्क० असंखे०गुणहीणा ।

§ ६४. इत्थिवेद० उक्क० विहत्तिओ मिच्छत्त-वारसक०--सत्तणोक० णियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । चट्ठसंज०-पुरिस० णियमा अणुक्क० संखेज्ज०गुणहीणा ।

उन्नीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा परस्पर सन्निकर्षका विचार हुआ । अब रहे शेष कर्मों सो इन कर्मोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय तीन वेद और चार संव्वलन कषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नहीं होती, अतः उस समय इन सात कर्मोंकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति कही है । जो गुणितकर्मांशिक जीव मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति कर रहा है उसके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका सत्त्व नहीं होता यह स्पष्ट ही है । शेष कथन परामर्श करके समझ लेना चाहिए ।

§ ६३. सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है । आठ कषाय और आठ नोकषायोंकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । चार संव्वलन और पुरुषवेदकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो नियमसे संख्यातगुणी हीन होती है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके इसी प्रकार सन्निकर्ष करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके मिथ्यात्वका सत्त्व नहीं होता । तथा इसके सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है ।

विशेषार्थ—जो गुणितकर्मांशिक जीव चायिक सम्यक्त्वको प्राप्त करता है उसके मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके द्रव्यका सम्यग्मिथ्यात्वमे संक्रमण होने पर सम्यग्मिथ्यात्वका और सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके द्रव्यका सम्यक्त्वमें संक्रमण होने पर सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है । इस प्रकार जिस समय सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होता है उस समय मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनोंका सत्त्व रहता है किन्तु वह अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हीन अनुकृष्टरूप ही रहता है, क्योंकि उस समय तक मिथ्यात्वके द्रव्यमेसे तो असंख्यात बहुभागप्रमाण द्रव्यका सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वमें संक्रमण हो लेता है । तथा सम्यक्त्वमें अभी सम्यग्मिथ्यात्वके असंख्यात बहुभागप्रमाण द्रव्यका संक्रमण नहीं हुआ है, इसलिए सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मके समय मिथ्यात्व और सम्यक्त्वका द्रव्य अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हीन कहा है । इसी प्रकार सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मके समय सम्यग्मिथ्यात्वका द्रव्य अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हीन घटित कर लेना चाहिए । इसके मिथ्यात्वका सत्त्व नहीं रहता यह स्पष्ट ही है । शेष कथन सुगम है ।

§ ६४. स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करनेवाले जीवके मिथ्यात्व, वारह कषाय और सात नोकषायोंकी नियमसे अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है । जो असंख्यातभाग हीन होती है ।

१. ता० प्रती 'असंखे०गुणहीणा' इति पाठः । २. ता० प्रती 'असंखेज्जगुणहीणा' इति पाठः ।

एवं णपुंसयवेदेस्स ।

§ ६५. पुरिसवेद० उक्क० पदेसविहत्तिओ चदुसंज० णियमा अणुक्क० संखे० गुणहीणा । छण्णोकसाय० णियमा अणुक्क० असंखेज्जगुणहीणा । कोधसंज० उक्क० पदे० विहत्तिओ हेट्ठिह्माणं णियमा अविहत्तिओ । तिण्णं संज० णियमा अणुक्क० संखे० गुणहीणा । पुरिस० णियमा अणुक्क० असंखे० गुणहीणा । माणसंज० उक्क० पदेसविहत्तिओ हेट्ठिह्माणमविहत्तिओ । माया-लोभसंज० णियमा अणुक्क० संखे० गुणहीणा । कोधसंज० णियमा अणुक्क० असंखे० गुणहीणा । मायासंज० उक्क० पदेसविहत्तिओ लोभसंज० णियमा अणुक्क० संखे० गुणहीणा । माणसंजलण० णियमा अणुक्क० असंखेज्जगुणहीणा । लोभसंजलण० उक्क० पदे० विहत्तिओ मायासंजलण० णियमा अणुक्क० असंखेज्जगुणहीणा ।

चार संज्वलन और पुरुषवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—जो जीव बारह कषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति करके यथाविधि भोगभूमिमें उत्पन्न होता है उसके पत्यका असंख्यातवर्ग भागप्रमाण काल जाने पर स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है । उस समय मिथ्यात्व आदि वीस प्रकृतियोंकी प्रदेशविभक्ति अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा असंख्यातवर्ग भागप्रमाण हीन हो जाती है, क्योंकि उस समय तक इनका इतना द्रव्य अधःस्थितिगलना आदिके द्वारा गल जाता है और जिनका अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण सम्भव है उनके द्रव्यका संक्रमण भी हो जाता है । फिर भी यहाँ पर अधःस्थितिगलनाके द्वारा गलनेवाले द्रव्यकी मुख्यता है । नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति पेशान कल्पमें होती है । उसकी मुख्यतासे भी इसी प्रकार सन्निकर्ष प्राप्त होता है, इसलिए उसे स्त्रीवेदकी मुख्यतासे कहे गये सन्निकर्षके समान जाननेकी सूचना की है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ६५. पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके चार संज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है । छह नोकषायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है । क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके पुरुषवेद और संज्वलन प्रकृतियोंके सिवा शेष प्रकृतियोंका नियमसे असत्त्व होता है । तीन संज्वलनोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है । पुरुषवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है । मान संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके संज्वलन प्रकृतियोंके सिवा पूर्वकी शेष सब प्रकृतियोंका नियमसे असत्त्व होता है । मायासंज्वलन और लोभसंज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है । क्रोधसंज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है । मायासंज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके लोभसंज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो संख्यातगुणी हीन होती है । मानसंज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है । लोभसंज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मायासंज्वलनकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति

१. आ०प्रती 'असंखेज्जभागहीणा' इति पाठः । २. आ०प्रती 'असंखेज्जगुणहीणा' इति पाठः ।

§ ६६. आदेशेण षोडशसु मिच्छ० उक्क० पदेसविहत्तिओ सोलसक०-इण्णोक० गियमा विहत्तिओ । तं तु वेद्धानपदिदा अणंतभागहीणा असंखे०भागहीणा वा । तिण्हं वेदानं गियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । सम्मत०-सम्मामिच्छत्ताण-मविहत्तिओ । एवं सोलसक०-इण्णोकसायाणं । सम्म० उक्क० पदेसविहत्तिओ चारसक०-णवणोक० गियमा अणुक्क० असंखेज्जभागहीणा । सम्मामि० उक्क० पदे०विहत्ति० सम्म० गियमा अणुक्क० असंखेज्जगुणहीणा । मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० गियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । इत्थिवेद० उक्क० पदे०वि० मिच्छ०-सोलसक०-अट्ठणोक० गियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । एवं णवुंसयवेदस्स । पुरिसवेदस्स एवं चेव । णवरि सम्म०-सम्मामि० असंखे०गुणहीणा, उक्कड्डणाए विणा देवेसु होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है ।

विशेषार्थ—यहाँ पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय छह नोकषाय और चार संज्वलनका, क्रोध संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय पुरुषवेद और मान आदि तीन संज्वलन का, मान संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय शेष तीन संज्वलनोंका, मायासंज्वलनकी उत्कृष्ट-प्रदेशविभक्तिके समय मान संज्वलन और लोभसंज्वलनका तथा लोभसंज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिके समय मायासंज्वलनका भी सत्त्व रहता है, -इसलिए जहाँ जिन प्रकृतियोंका सन्निकर्ष सम्भव है वह कहा है । मात्र विवक्षितकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति जिन प्रकृतियोंके अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका पतन होने पर होती है उन प्रकृतियोंकी प्रदेशविभक्ति असंख्यात-गुणी हीन पाई जाती है और जिन प्रकृतियोंके स्थितिकाण्डकोंका घात होना शेष रहता है उनकी प्रदेशविभक्ति संख्यातगुणी हीन पाई जाती है ।

§ ६६. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला जीव सोलह कषाय और छह नोकषायोंकी नियमसे विभक्तिवाला होता है । किन्तु वह इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति-वाला भी होता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला भी होता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिवाला होता है तो उसके इनकी दो स्थान पतित अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है—या तो अनन्तभाग हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है या असंख्यातभाग हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है । तीन वेदोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । यह सन्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सत्त्व से रहित होता है । इसी प्रकार सोलह कषाय और छह नोकषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जाना चाहिये । सम्य-क्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति-वाले जीवके सम्यक्त्वकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है । मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभागहीन होती है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, सोलह कषाय और आठ नोकषायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यात भाग हीन होती है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणी हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है, क्योंकि उत्कर्षणके जिन

गलिदासंखेज्जगुणहाणितादो । गुणिदकम्मंसियउकड्ढिमिच्छत्तदव्वे जहासरूवेण सम्मत्त-
सम्मामिच्छत्तेसु संकंते असंखे०भागहीणं किण्ण जायदे ! ण, सम्मादिद्विओकड्ढणाए
थूलीकयहेट्टिमगोवुच्छासु असंखे०गुणहाणिमेत्तासु गलिदासु असंखे०गुणहाणिदंसणादो ।
एवं पढमाए । विदियादि जाव सत्तमि ति एवं चेव । णवरि सम्म० उक्क० पदे०-
विहत्तिगो मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० णियमा अणुक० असंखे०भागहीणा ।
सम्मामि० णियमा उक्क० । एवं सम्मामि० ।

§ ६७. तिरिक्ख०--पंचिदियतिरिक्ख--पंचि०तिरि०पज्जत्त० देवगदीए देव०
सोड्ढमादि जाव उवरिमगेवज्जा ति गेरइयभंगो । पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु विदिय-
पुढविभंगो । एवं भवण०--वाण०--जोदिसियाणं । पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ताणं
पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तभंगो । णवरि सम्म० उक्क० पदेसविहत्ति० सम्मामि० तं तु
वेट्ठाणपदिदं अणंतभागहीणं असंखे०भागहीणं । सेसपदा णियमा अणुक० असंखे०-

देवोमें असंख्यात गुणहानियों गल जाती हैं ।

शंका—गुणितकमांशिक जीवके द्वारा मिथ्यात्वके द्रव्यका उत्कर्षण करके और उसे उसी
रूपमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रान्त कर देने पर इनका द्रव्य असंख्यातभाग हीन क्यों
नहीं होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सम्यग्दृष्टिके अपकर्षणके द्वारा अधस्तन गोपुच्छाओंके स्थूल
हो जानेसे असंख्यात गुणहानियोंके गल जाने पर असंख्यातगुणहानि देखी जाती है ।

इसी प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिये । दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके
नारकियोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट
प्रदेशविभक्तियाले जीवके मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंकी नियमसे अनुकृष्ट
प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । इसके सम्यग्मिथ्यात्वकी नियम-
से उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष
जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—सामान्यसे नारकियोंमें और पहली पृथिवीमें कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीव
उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनमें सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके समय मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व
और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका सत्त्व नहीं होनेसे उनका सन्निकर्ष नहीं कहा । परन्तु द्वितीयादि
पृथिवियोंमें कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते, इसलिए वहाँ सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-
विभक्तिके समय सबका सत्त्व स्वीकार किया है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ६७. तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त, देवगतिमे सामान्य देव
और सौधर्म कल्पसे लेकर उपरिम भ्रूवेयक तकके देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । पञ्चेन्द्रिय-
तिर्यञ्च योनिनियोंमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है । इसी प्रकार भवनवासी, ज्यन्तर और
ज्योतिर्षी देवोंमें जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च
पर्याप्तकोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाले
जीवके सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भी होती है और अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति भी
होती है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तभाग

भागहीणा । एवं सम्मामि० । एवं मणुस्सअपज्ज० ।

§ ६८. मणुसतियम्मि ओघं । णवरि मणुस्सिणीसु पुरिसवेद० उक्क० पदेस-
विह० इत्थिवेद० णियमा अणुक्क० असंखे०गुणहीणा । अणुदिसादि जाव सच्चइसिद्धि
त्ति मिच्छ० उक्क० पदे०वि० सम्मामिच्छत्त-सोलसक०-इण्णोक० णियमा तं तु
विट्ठाणपदिदा अणंतभागहीणा असंखे०भागहीणा वा । सम्मत्त० णियमा अणुक्क०
असंखे०भागहीणं । तिण्हं वेदार्णं णियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । एवं
सोलसक०-इण्णोक०-सम्मामिच्छत्ताणं । सम्मत्त० उक्क० पदे०विहत्ति० वारसक०-
णवणोक० णियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । इत्थिवेद० उक्क० पदे०वि० मिच्छ०-
सम्मामि०-सोलसक०-अट्ठणोक० णियमा अणुक्क० असंखे०भागहीणा । सम्म०

हीन होती है या असंख्यातभाग हीन होती है । शेष प्रकृतियोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । इसी प्रकार सम्यग्मिध्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें इसी प्रकार अर्थात् पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—जो विशेषता सामान्य नारकियोंमें बतला आये हैं वही यहाँ तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त, सामान्य देव और सौधर्म कल्पसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोंमें घटित हो जाती है, इस लिए इनमें सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है । दूसरी पृथिवीके समान पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी और ज्वनत्रिकमें कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग वन जानेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तक यह मार्गणा ऐसी है जिसमें मात्र मिध्याद्यष्टि जीव होते हैं इसलिए इसमें अन्य प्ररूपणा तो पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोके समान वन जाने से उनके जाननेकी सूचना की है । किन्तु इसके सिवा जो विशेषता है उसका अलगसे निर्देश किया है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है यह स्पष्ट ही है ।

§ ६८. मनुष्यत्रिकमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें पुरुष-
वेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभवाले जीवके स्त्रीवेदकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी हीन होती है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यग्मिध्यात्व, सोलह कषाय और छह नोकषायोंकी नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भी होती है और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तभाग हीन होती है या असंख्यातभागहीन होती है । सम्यक्त्वकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुण हीन होती है । तीन वेदोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यतभागहीन होती है । इसी प्रकार सोलह कषाय, छह नोकषाय और सम्यग्मिध्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातभाग हीन होती है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व, सोलह कषाय और आठ नोकषायोंकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति

णियमा अणुक० असंखे०गुणहीणा । एवं णवुंस० । पुरिसवेदस्स देवोधं । एवं पेदत्वं
प्राच अणाहारि ति ।

§ ६६. जहणणए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण
मिच्छत्तस्स जहणणपदेसविहत्तिओ सम्म०-सम्माभि०-एकारसक०-तिण्णिवेद० णियमा
अजहणण० असंखेज्जगुणभ्रहिया । लोभसंज०-द्धणोको० णियमा अजह० असंखेज्जभाग-
भ्रहिया । सम्मतगुणेण पंचिदिएसु वेच्चावट्टिसागरोवभाणि हिंडंतेण संचिददिवट्टगुण-
हाणिमेत्तपंचिदियसमयपवद्धाणं सगसगजहणणदब्बादो असंखेज्जगुणत्तं मोत्तूण
णासंखेज्जभागभ्रहियत्तं, एइदियउक्कस्सजोगादो वि पंचिदियजहणणजोगस्स असंखे०-
गुणत्तुत्तंभादो । एत्थ परिहारो बुच्चदे—जदि वि वेच्चावट्टिसागरोवभेसु लोभसंजलणं
णिरंतरं बंधंतो वि सगजहणणदब्बादो विसेसाहियं चव, अप्पदरकालम्मि भीणदब्बादो

होती है जो असंख्यातभागहीन होती है । सम्यक्त्वकी नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है जो
असंख्यातगुणी हीन होती है । इसीप्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।
पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष सामान्य देवोंके समान है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक
जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ओघसे जो सन्निकर्ष कहा है वह मनुष्यत्रिकमें अविकल घटित हो जाता
है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र मनुष्यिनियोंमें पुरुषवेदकी
मुख्यतासे सन्निकर्षमें कुछ विशेषता है, इसलिए उसका अलगसे निर्देश किया है । अनुदिश
आदिमें सब देव सम्यग्दृष्टि होते हैं, इसलिए उनमें अन्य देवोंसे विशेषता होनेके कारण उनमें
सब प्रकृतियोंकी मुख्यतासे सन्निकर्षका अलगसे निर्देश किया है । विशेष स्पष्टीकरण स्वामित्वको
देखकर कर लेना चाहिए । आगे अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार अपनी अपनी विशेषताको
जानकर सन्निकर्ष घटित कर लेना चाहिए ।

इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

§ ६६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, ग्यारह कषाय और
तीन वेदकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । लोभ-
संज्वलन और छह नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवर्षे भाग
अधिक होती है ।

शंका—सम्यक्त्व गुणके साथ जो पञ्चेन्द्रियोंमें दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण
करता है उसके सञ्चित हुए डेढ़ गुणहानिप्रमाण पञ्चेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबद्ध अपने
अपने जघन्य द्रव्यकी अपेक्षा असंख्यातगुणो होते हैं असंख्यातवर्षे भाग अधिक नहीं, क्योंकि
एकेन्द्रिय जीवके उत्कृष्ट योगसे भी पञ्चेन्द्रिय जीवका जघन्य योग असंख्यातगुणा पाया
जाता है ?

समाधान—यहाँ उक्त शंकाका समाधान करते हैं—दो छयासठ सागर कालके भीतर
लोभसंज्वलनका त्रिरन्तर बन्ध करता हुआ भी अपने जघन्य द्रव्यसे वह विशेष अधिक ही होता

भुजगारकालम्भि संचिदद्वस्से असंखे० भागवभहियंत्तादो । केसि पि संगजं हण्ण-
दव्वादो संखे० भागवभहियं संखे० गुणमसंखेज्जगुणं वा किण्ण जायदे ? ण, असंखेज्ज-
भागवभहियं चेव, उक्खसजोगेण वेत्थावट्ठिसांगरोवमाणि पेरिभमिदसंम्मादिद्विम्मि वि
अप्परकालादो भुजगारकालस्स णियमेण विसेसाहियस्सेवुवलांभादो । एदं कुदो उव-
लब्भदे । 'णियमा असंखे० भागवभहिया' त्ति उच्चारणाइरियवयणादो । कम्मपदेसाणं
भुजगारप्पदरभावो किंणिबंधणो ? ण, सुक्कंधारपवस्वचंदमंडलभुजगारप्पदराणं व
साहावियत्तादो । जदि अप्पदरकालम्भि भ्नीणमाणदव्वादो भुजगारकालम्भि संचिद-
दव्वं विसेसाहियं चेव होदि तो खविदकम्मंसियदव्वादो गुणिदकम्मंसियदव्वेण वि
विसेसाहिपणेव होदव्वं ? ण च एवं, वेदणाए चुण्णिमुत्तेण च सह विरोहादो
त्ति सच्चं विसेसाहियं चेव, किं तु ण विरोहो, सवयणविरोहं
मोत्तुण तंततरत्थेण विरोहाणवभुवगमादो । वेयणा-चुण्णिमुत्ताणमुवएसो

है, क्योंकि अल्पतर कालके भीतर ज्ञको प्राप्त होनेवाले द्रव्यसे भुजगार कालके भीतर सञ्चित हुआ द्रव्य असंख्यातवें भाग अधिक होता है ।

शंका—किन्हीं जीवोंके अपने जघन्य द्रव्यसे संख्यातवें भाग अधिक, संख्यातगुणा अधिक या असंख्यातगुणा अधिक क्यों नहीं होता है ?

समाधान—नहीं क्योंकि असंख्यातवें भाग अधिक ही होता है, क्योंकि उच्छ्रय योगके साथ दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करनेवाले सम्यग्दृष्टि जीवके भी अल्पतर कालसे भुजगार काल नियमसे अधिक हों उपलब्ध होता है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे उपलब्ध होता है ?

समाधान—उच्चारणाचार्यके 'नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक है' इस वचनसे उपलब्ध होता है ।

शंका—कर्म प्रदेशोंका भुजगार और अल्पतर पद किस निमित्तसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जिस प्रकार शुक्ल और कृष्णपद्ममें चन्द्रमण्डल स्वभावतः बढ़ता और घटता है उसी प्रकार यहाँ पर कर्मप्रदेशोंका भुजगार और अल्पतर पद स्वभावसे होता है ।

शंका—यदि अल्पतर कालके भीतर नष्ट होनेवाले द्रव्यसे भुजगार कालके भीतर सञ्चित होनेवाला द्रव्य विशेष अधिक ही होता है तो क्षणिककर्मांशिकके द्रव्यसे गुणितकर्मांशिक जीवका द्रव्य भी विशेष अधिक होना चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं है, क्यों कि ऐसा मानने पर वेदना और चूर्णिसूत्रके साथ विरोध आता है ?

समाधान—विशेष अधिक है यह सत्य है तो भी वेदना और चूर्णिसूत्रके साथ विरोध नहीं आता, क्योंकि स्ववचन विरोधको छोड़ कर दूसरे ग्रन्थमें प्रतिपादित अर्थके साथ आनेवाले विरोधको नहीं स्वीकार किया गया है ।

वेदना और चूर्णिसूत्रोंका उपदेश है कि अल्पतर कालके भीतर ज्ञको प्राप्त होनेवाले द्रव्यसे

अप्पदरकालम्मि भिज्जमाणदव्वादो भुजगारकालम्मि गुणिदकम्मंसियविसयम्मि संचिज्जमाणदव्वं कत्थ वि असंखेज्जभागब्भहियं, कत्थ वि संखेज्जभागब्भहियं, कत्थ वि संखेज्जगुणब्भहियं, कत्थ वि असंखेज्जगुणमत्थि । तेण तत्थ गुणिदकम्मंसियकालो कम्मट्ठिदिमेत्तो । खविदकम्मंसियम्मि पुण भुजगारकालम्मि संचिददव्वादो अप्पदरकालम्मि भीणदव्वमसंखे०भागब्भहियं, कत्थ वि संखेज्जभागब्भहियं संखेज्जगुणब्भहियमसंखेज्जगुणब्भहियं च । एदं कुदो णव्वदे ? कम्मट्ठिदिमेत्तखविदकम्मंसियकालपटुप्पायणादो । उच्चारणाए पुण गुणिदकम्मंसियम्मि अप्पदरकालम्मि भीणदव्वादो भुजगारकालम्मि संचिददव्वं विसेसाहियं चेव । एदं कुदो णव्वदे ? लोभसंजलणस्स जहण्णदव्वादो वेद्धावट्ठिकालब्भंतरे पंचिंदियजोगेण संचिदं पि लोभसंजलणदव्वं विसेसाहियं चेवे ति वयणादो । जदि एवं तो उच्चारणाए कम्मट्ठिदिमेत्तो गुणिदकम्मंसियकालो किमट्ठं परूविदो ? भुजगारकालम्मि सगअसंखेज्जदिभागमेत्तदव्वसंगहणट्ठं ।

§ १००. सम्माभिच्छत्तस्स जहण्णपदेसविहृत्तिओ मिच्छ०-पण्णारसक०-तिण्णिण-

गुणितकर्मांशिकके विषयरूप भुजगार कालके भीतर सञ्चित हुआ द्रव्य कहीं पर असंख्यातवें भाग अधिक है, कहीं पर संख्यातवें भाग अधिक है, कहीं पर संख्यातगुणा अधिक है और कहीं पर असंख्यातगुणा अधिक है । इस लिए वहाँ गुणितकर्मांशिकका काल कर्मस्थितिप्रमाण है । परन्तु क्षपितकर्मांशिकके भुजगार कालके भीतर सञ्चित हुए द्रव्यसे अल्पतर कालके भीतर क्षयको प्राप्त होनेवाला द्रव्य कहीं पर असंख्यातवें भाग अधिक है, कहीं पर संख्यातवें भाग अधिक है, कहीं पर संख्यातगुणा अधिक है और कहीं पर असंख्यातगुणा अधिक है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—क्षपितकर्मांशिकका काल कर्मस्थितिप्रमाण कहा है । उससे जाना जाता है ।

परन्तु उच्चारणाके अनुसार गुणितकर्मांशिकसम्बन्धी अल्पतरकालके भीतर क्षयको प्राप्त हुए द्रव्यसे भुजगारकालके भीतर सञ्चित हुआ द्रव्य विशेष अधिक ही है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—लोभसंज्वलनके जघन्य द्रव्यसे दो छयासठ सागर कालके भीतर षड्चेन्द्रिय जीवके योग द्वारा सञ्चित हुआ भी लोभसंज्वलनका द्रव्य विशेष अधिक ही है इस वचनसे जाना जाता है ।

शंका—यदि ऐसा है तो उच्चारणमें गुणितकर्मांशिकका काल कर्मस्थितिप्रमाण किसलिए कहा है ?

समाधान—भुजगार कालके भीतर अपना असंख्यातवों भाग अधिक द्रव्यका संग्रह करनेके लिए कहा है ।

§ १००. सम्यग्यथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, पन्द्रह कषाय और

वेद० णियमा अज० असंखे०गुणवभहिया । लोभसंज०-द्वण्णोको० णियमा अज० असंखे०भागवभहिया । सम्मत्त० णियमा अविहत्तिओ । सम्मत्तस्स जहण्णपदेस-विहत्तिओ मिच्छ०-सम्मामि०-पण्णारसक०-तिण्णिवेदाणं णियमा अज० असंखे०-गुणवभहिया । लोभसंज०-द्वण्णोको० णियमा अज० असंखे०भागवभहि० । कारणं पुवं परुविदं ति णेह परुविज्जदे ।

§ १०१. अणंताणु०कोध० जहण्णपदे० माण-माया-लोभाणं णियमा तं तु विद्वाणपदिदा अणंतभागवभहि० असंखे०भागवभहिया वा । मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-एकारसक०-तिण्णिवेदाणं णियमा अज० असंखे०भागवभहिया । लोभ-संज०-द्वण्णोको० णियमा अज० असंखे०भागवभहिया । एवं माण-माया-लोभाणं । अपञ्चक्खाणकोध० जह० पदेसविहत्तिओ सत्तकसायाणं णियमा विहत्तिओ । तं तु वेद्वाणपदिदा अणंतभागवभहिया असंखे०भागवभहिया । तिण्णिसंजल०-तिण्णिवेद० णियमा अज० असंखे०गुणवभहि० । लोभसंज०-द्वण्णोको० णियमा अज० असंखे०-

तीन वेदोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । लोभसंज्वलन और छह नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । तथा वह सम्यक्त्वका नियमसे अविभक्तिवाला होता है । सम्यक्त्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, पन्द्रह कषाय और तीन वेदोंकी, नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । लोभसंज्वलन और छह नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । कारण पहले कह आये हैं, इसलिए यहाँ उसका कथन नहीं करते ।

§ १०१. अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मान, माया और लोभकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, ग्यारह कषाय और तीन वेदोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । लोभसंज्वलन और छह नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार मान, माया और लोभकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अपत्याख्यानावरणे क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सात कषायोंकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति या अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । तीन संज्वलन और तीन वेदोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । लोभसंज्वलन और छह नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । वह शेष प्रकृतियोंका नियमसे

१. आ०प्रती 'असंखे०भागवभहिया वा । एवं' इति पाठः । २. आ०प्रती 'वृषयोको० अज०' इति पाठः ।

भागब्भ० । सेसाणं पयडीणं गियमा अविहत्तिओ । एवं सत्तकसायाणं । कोधसंज० जह० पदेसविहत्तिओ माण-मायासंज० गियमा अज० असंखे०गुणब्भ० । लोभसंज० गियमा अज० असंखे०भागब्भ० । सेसाणं पयडीणं गियमा अविहत्तिओ । माणसंज० जहणपदेमविहत्तिओ मायासंज० गियमा अज० असंखे०गुणब्भ० । लोभसंजल० गियमा अज० असंखे०भागब्भ० । मायासंज० जह० पदेसविहत्तिओ लोभसंज० गियमा अज० असंखे०गुणब्भहियाँ । सेसाणमविहत्तिओ । लोभसंज० जह० पदे-विह० एकारस०-तिण्णिवेद० गियमा अज० असंखे०गुणब्भ० । छण्णोक० गियमा अज० असंखे०भागब्भ० ।

§ १०२. इत्थिवेद० जह० पदे०विहत्तिओ तिण्णिसंज०-पुरिस० गियमा अज० असंखे०गुणब्भ० । लोभसंज०-छण्णोक० गियमा अज० असंखे०भागब्भहियँ । एवं णवुंसयवेदस्स । पुरिसवेद० जह० पदेस० तिण्णिसंज० गियमा अज० असंखे०गुणब्भ० । लोभसंज० गियमा अज० असंखे०भागब्भ० । हस्स० जह० पदे०-विहत्तिओ तिण्णिसंज०-पुरिसवेद० गियमा अज० असंखे०गुणब्भहि० । लोभसंज०

अविभक्तिवाला होता है । इसी प्रकार सात कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । क्रोधसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मानसंज्वलन और मायासंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । वह शेष प्रकृतियोंका नियमसे अविभक्तिवाला होता है । मानसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मायासंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । मायासंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । वह शेष प्रकृतियोंका अविभक्तिवाला होता है । लोभसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके ग्यारह कषाय और तीन वेदोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । छह नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है ।

§ १०२. स्त्रीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके तीन संज्वलन और पुरुषवेदकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । लोभ संज्वलन और छह नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । पुरुषवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके तीन संज्वलनोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । हास्यकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके तीन संज्वलन और पुरुषवेदकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है ।

णियमा अजह० असंखे०भागबभ० । पंचणोक० णियमा तं तु वेद्वाणपदिदा अणंत-
भागबभ० असंखे०भागबभहि० । एवं पंचणोकसायाणं ।

§ १०३. आदेसेण णेरइएसु मिच्छं जह० पदेसविहत्तिओ सम्म०सम्मामि०
णियमा अज० असंखे०गुणबभहिया । वारसक०णवणोक० णियमा अज० असंखे०-
भागबभहिया । इत्थिणनुंसयवेदाणं होहु णाम असंखे०भागबभहियत्तं, मिच्छत्तं गंतुण
पडिवक्खबंधगद्धाए चरिमसमयम्मिं जहणसंतकम्मत्तुवलंभादो । ण सेसकम्माणं,
तेत्तीससागरोवमेसु पंचिदियजोगेण एइदियजोगं पेक्खिदूण असंखे०गुणेण संचिदत्तादो
त्ति ? ण एस दोसो, खविदकम्मंसियजहणणदच्चं पेक्खिदूण गुणिदकम्मंसियभुजगार-
कालम्मि संचिददव्वस्स असंखे०गुणहीणत्तादो । एवं कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चेव
सण्णियासादो । एवं संते जहणणदव्ववादो उक्कस्सदव्वमसंखे०गुणं ति भणिदवेयणा
चुण्णिमुत्तेहि विरोहो होदि त्ति ण पच्चवट्ठेयं, भिण्णोवएसत्तादो । सम्म० जह०

लोभसंज्वलनकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक
होती है। पाँच नोकषायोंकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है या अजघन्य प्रदेश-
विभक्ति होती है। यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या
तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है। इसी प्रकार पाँच
नोकषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

§ १०३. आदेशसे नारकियोमे मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी
अधिक होती है। वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है
जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है।

शंका—बीवेद और नपुंसकवेदकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति असंख्यातवें भाग अधिक
होओ, क्योंकि मिथ्यात्वमें जाकर प्रतिपन्न प्रकृतिके बन्धक कालके अन्तिम समयमें जघन्य
सत्कर्म उपलब्ध होता है। परन्तु शेष कर्मोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति असंख्यातवें भाग
अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि तेतीस सागरकी आयुवाले जीवोमे एकेन्द्रिय जीवके योगको
देखते हुए असंख्यातगुणे पञ्चेन्द्रिय जीवके योगद्वारा उनका द्रव्य सञ्चित होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्षपितकर्मांशिक जीवके जघन्य द्रव्यको
देखते हुए गुणितकर्मांशिक जीवके भुजगार कालके भीतर सञ्चित हुआ द्रव्य असंख्यातगुणा हीन
होता है।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है।

समाधान—इसी सन्निकर्षसे जाना जाता है।

शंका—ऐसा होने पर जघन्य द्रव्यसे उल्लूक्य द्रव्य असंख्यातगुणा होता है ऐसा कथन
करनेवाले वेदना चूषिणिसूत्रोंके साथ विरोध आता है ?

समाधान—ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भिन्न उपदेश है।

पदेसविहत्तिओ मिच्छत्तं-वारसक०-णवणोक० गियमा अज० असंखे०भागब्भहि० ।
सम्मामि०-अणंताणु०चउक० गियमा अज० असंखे०गुणब्भ० । सम्मामि० जह०
पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त-वारसक०-णवणोक० गियमा अज० असंखे०भागब्भ० ।
अणंताणु०चउक० गियमा० अज० असंखेज्जगुणब्भहिया ।

§ १०४. अणंताणु०कोध० जह० पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त-वारसक०-णवणोक०
गियमा अज० असंखेज्जभागब्भहिया । सम्म०-सम्मामि० गियमा अज० असंखे०-
गुणब्भ० । माण-माया-लोभाणं गियमा तं तु विट्ठाणपदिदा अणंतभागब्भहिया
असंखे०भागब्भ० वा । एवं माण-माया--लोभाणं । अपच्चक्खाणकोध० जह०
पदेसविहत्तिओ मिच्छत्त-सत्तणोक० गियमा अज० असंखे०भागब्भ० । सम्म०-
सम्मामि०-अणंताणु०चउक० गियमा अज० असंखे०गुणब्भ० । एक्कारसक०-भय-
दुगुंज्ज० गियमा तं तु विट्ठाणपदिदा -अणंतभागब्भहिया असंखे०भागब्भहिया वा ।
एवमेक्कारसक०-भय-दुगुंज्जाणं ।

सम्यक्त्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेश-विभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है ।

§ १०४ अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व और सात नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । ग्यारह कषाय, भय और जुगुप्साकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार ग्यारह कषाय, भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १०५. इत्थिवेद० जह० पदेसविहृत्तियो मिच्छत्त-वारसक०-अट्टणोक० णियमा अज० असंखे०भागब्भहिया । सम्म०-सम्मापि०-अणंताणु०चउक० णियमा अज० असंखे०गुणब्भहिया । एवं पुरिस-गवुंसयवेदानं । गवुंसयवेदे जहण्णे संते मिच्छत्तस्स असंखे०भागब्भहियत्तं होदु णाम, पुरिसवेदे पुण जहण्णे संते मिच्छत्तस्स असंखे०-गुणब्भहियत्तं मोत्तूण णासंखेज्जभागब्भहियत्तं, सम्मत्तं घेतूण तेत्तीससागरोवममेत्तकालं बंधेण विणा अवट्ठिदत्तादो ति ? ण, तेत्तीससागरोवमाणि सम्मत्तगुणेण अवट्ठिदस्स मिच्छत्तदत्तं पि पुरिसवेदजहण्णसंतकम्मियमिच्छत्तदत्तादो असंखे०भागहीणं चेव । एदस्साइरियस्स उवदेसेण गुणिद-खविदकम्मंसिएसु चरिमणिसेगप्पडुडि विसेसहीण-कमेण हेहा जाव समयाहियआवाहा ति द्विदि पडि पदेसावट्टाणादो । कुदो एदं णव्वदे ? एदम्हादो चेव सणियासादो । अणुलोम-विलोमपदेसरयणासु का एत्थ सच्चल्लिया ण णव्वदे आणाकणिट्ठदाए तेण दोण्हमुचएसाणमेत्थ संगहो कायव्वो ।

§ १०६. हस्सस्स जह० पदेसविहृत्तियो मिच्छत्त०-वारसक०-सत्तणो०क० णियमा अज० असंखे०भागब्भहिया । सम्म०-सम्मापि०-अणंताणु०चउक० णियमा

§ १०५. स्त्रीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, वारह कपाय और आठ नोकधार्योकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । इसी प्रकार पुरुषवेद और नपुंसवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

शंका—नपुंसकवेदके द्रव्यके जघन्य रहने पर मिथ्यात्वका द्रव्य असंख्यातवें भाग अधिक होवे, परन्तु पुरुषवेदके द्रव्यके जघन्य रहने पर मिथ्यात्वका द्रव्य असंख्यातगुणु अधिकको छोड़ कर असंख्यातवें भाग अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक्त्वको ग्रहण करके तेतीस सागर प्रमाण काल तक बन्धके बिना वह अवस्थित रहता है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि तेतीस सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ अवस्थित रहनेवाले जीवके जो मिथ्यात्वका द्रव्य होता है वह भी पुरुषवेदके जघन्य सत्कर्मवाले जीवके मिथ्यात्वके द्रव्यसे असंख्यातवें भागप्रमाण कम ही होता है । इस आचार्यके उपदेशानुसार गुणितकर्मांशिक और क्षणितकर्मांशिक जीवके अन्तिम निषेकसे लेकर नीचे एक समय अधिक आवाधाकालके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिके प्रति विशेष हीन क्रमसे प्रदेशोंका अवस्थान पाया जाता है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान इसी सन्निकर्षसे जाना जाता है ?

अनुलोम और विलोम प्रदेशरचनाके मध्य कौनसी प्रदेशरचना समीचीन है यह उत्तरोत्तर जिनवाणीके क्षीण होते जानेसे ज्ञात नहीं होता, इसलिए दोनों उपदेशोंका यहाँ पर संग्रह करना चाहिए ।

§ १०६. हास्यकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, वारह कपाय और सात नोकधार्योकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है ।

अज० असंखे०गुणब्भ० । रदि० गियमा तं तु विढाणपदिदा अणंतभागब्भ०
असंखे०भागब्भहिया वा । एवं रदीए ।

§ १०७. अरदि० जह० पदेसविहत्तिओ मिच्छ०-धारसक०-सत्तणोको० गियमा
अज० असंखे०भागब्भहिया । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० गियमा अज०
असंखे०गुणब्भ० । सोग० गियमा तं तु विढाणपदिदं अणंतभागब्भ० असंखे०-
भागब्भ० वा । एवं सोगस्स । एवं सत्तमाए । पढमादि जाव छट्ठि ति एवं चेव ।
णवरि इत्थि-णवुंसयवेदाणं जहण्णपदेसवि० अणंताणु०चउक्क० अविहत्तिओ ।

§ १०८. तिरिक्खगदीए तिरिक्खाणं पढमपुढविभंगो । णवरि इत्थि-णवुंसय-
वेद० जह० विहत्तिओ मिच्छ०-सम्म०--सम्मामि०-अणंताणु०चउक्काणं गियमा
अविहत्तिओ । एवं पंचिंदियतिरिक्ख-पंचि०तिरि०पज्जत्ताणं । पंचि०तिरि०जोणिणीणं
पढमपुढविभंगो ।

§ १०९. पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छत्त० जह० पदेसविहत्तिओ सम्म०-
सम्मामि० गियमा अज० असंखे०गुणब्भ० । सोलसक०-भय-दुयुंढ० गियमा तं तु

सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । रतिकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है । या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये ।

§ १०७ अरतिकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, वारह कषाय और सात नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तावन्धीचतुष्ककी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । शोककी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है । या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । सातवीं पृथिवीमें इसी प्रकार जानना चाहिए । पहिलीसे लेकर छठी पृथिवी तक इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाला जीव अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अविभक्तिवाला होता है ।

§ १०८. तिर्यञ्चगतियें तिर्यञ्चोका भङ्ग पहली पृथिवीके समान है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाला जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी नियमसे अविभक्तिवाला होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोमे पहिली पृथिवीके समान भङ्ग है ।

§ १०९. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी

विद्वाणपदिदा—अणंतभागम्भ० असंखे०भागम्भ० वा । सत्तणोक० णियमा अज० असंखे०भागम्भ० । एवं सोलसक०-भय-दुगुंछाणं ।

§ ११०. सम्म० जह० पदेसविहत्तिओ सम्मामि० णियमा अज० असंखे०-गुणम्भ० । मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक० णियमा अज० असंखे०भागम्भ० । एवं सम्मामि० । णवरि सम्मत्तस्स णियमा अविहत्तिओ ।

§ १११. इत्थिवेद० जह० पदे०वि० सम्म०-सम्मामि० णियमा अज० असंखे०-गुणम्भ० । मिच्छ०-सोलसक०-अट्ठणोक० णियमा अज० असंखे०भागम्भ० । एवं पुरिस-णवुंसयवेदाणं ।

§ ११२. हस्सस्स जह० पदेसविहत्तिओ रदि० णियमा तं तु विद्वाणपदिदा—अणंतभा० असंखेज्जभागम्भहिया वा । सेसमित्थिवेदभंगो । एवं रदीए ।

§ ११३. अरदि० जह० पदे०विहत्तिओ सोग० णियमा तं तु विद्वाणपदिदं । सेसं हस्सभंगो । एवं सोगस्स । एवं मणुसअपज्जत्तारणं ।

अधिक होती है । सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । सात नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी मुख्यता सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ११०. सम्यक्त्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यग्मिध्यात्वकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । मिध्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार सम्यग्मिध्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि यह सम्यक्त्वकी नियमसे अविभक्तिवाला होता है ।

§ १११. स्त्रीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है । मिध्यात्व, सोलह कषाय और आठ नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ११२. हास्यकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके रतिकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है । या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । शेष भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ११३. अरतिकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके शोककी नियमसे जघन्य प्रदेश-विभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है । शेष भङ्ग हास्यके समान है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसी प्रकार अर्यात् पञ्चेन्द्रिय तिर्यश्च अपर्याप्तकोंके समान मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए ।

§ ११४. मणुसगदीए मणुस्साणमोघं । मणुसपज्ज० एवं चेव । णवरि इत्थिवेद० जम्हि जम्हि भणदि तम्हि णियमा अज० असंखे० भागब्भहिया । इत्थिवेद० जह० पदे० विहत्तिओ णवुंस० सिया अत्थि सिया णत्थि । जदि अत्थि णियमा अज० असंखे० गुणब्भ० ।

§ ११५. मणुसिणीसु ओघं । णवरि पुरिसवेद-णवुंसयवेद० जम्हि जम्हि भणदि तम्हि तम्हि णियमा अज० असंखे० भागब्भ० । णवुंस० जह० पदे० विहत्तिओ इत्थिवेद० किं जहण्णा किमजहण्णा ? णियमा अज० असंखे० गुणब्भ० । पुरिसवेद० जह० पदे० विहत्तिओ एकारसक०-इत्थिवेद० णियमा अज० असंखे० गुणब्भ० । लोभसंज०-सत्तणोक्क० णियमा अज० असंखे० भागब्भ० । एत्थ लोभसंजलण-पुरिसवेदाणमधाववत्तकरणचरिममए जहण्णसामित्ते अवसिट्ठे संते तेसिमण्णोणं पेक्खियुण तं तु विट्ठाणपदिदा त्ति वत्तव्वे असंखे० भागब्भहियत्तणियमो किं णिवंधणो त्ति चिंत्थिय वत्तव्वं ।

§ ११६. देवगदीए देवाणं तिरिक्खोघं । भवण०-वाण०-जोदिसि० पढम-पुढविभंगो । सोहम्मसिणाणप्पहुडि जायुवरिमगेवज्जो त्ति देवोघो । अणुदिसादि जाव सव्वट्ठसिद्धि त्ति मिच्छ० जह० पदेविहत्तिओ सम्म०-सम्मामि० णियमा तं तु

§ ११४. मनुष्यगतिमें मनुष्योंका भङ्ग ओषके समान है । मनुष्य पर्याप्तकोंमें इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद जहाँ जहाँ कहा जाय वहाँ वहाँ वह नियमसे अजघन्य असंख्यातवां भाग अधिक होता है । स्त्रीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके नपुंसकवेद प्रदेशविभक्ति स्यात् है और स्यात् नहीं है । यदि है तो नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति है जो असंख्यातगुणी अधिक होती है ।

§ ११५. मनुष्यनियमोंमें ओषके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेद प्रदेशविभक्ति जहाँ जहाँ कही जाय वहाँ वहाँ नियमसे अजघन्य असंख्यातवें भाग अधिक होती है । नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके स्त्रीवेद प्रदेशविभक्ति क्या जघन्य होती है या अजघन्य होती है ? नियमसे अजघन्य असंख्यातगुणी अधिक होती है । पुरुषवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके ग्यारह कषाय और स्त्रीवेदकी नियमसे असंख्यातगुणी अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है । लोभसंज्वलन और सात नोक्कषायोंकी नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है । यहाँ पर लोभसंज्वलन और पुरुषवेदका अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें जघन्य स्यामित्त्व अवशिष्ट रहने पर परस्पर देखते हुए उनकी परस्पर जघन्य प्रदेशिकि भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । उसमें भी अजघन्य प्रदेशविभक्ति दो स्थान पतित होती है इस प्रकार कथन करने पर असंख्यातवें भाग अधिकका नियम किंनिमित्तक होता है इस बातका विचार कर कथन करना चाहिए ।

§ ११६. देवगतिमें देवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग है । सौधमें और पेशान कल्पसे लेकर उपरिम प्रवेयक तक दोनोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें

विट्ठाणपदिदा-अणंतभागब्भ० असंखे०भागब्भ० वा । वारसक०-णवणोक० णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छताणं ।

§ ११७. अणंताणु०कोध० जह० पदे०विहत्तिओ मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-वारसक०-णवणोक० णियमा [अजह०] असंखे०भागब्भ० । माण-माया-लोहाणं णियमा तं तु विट्ठाणपदिदा—अणंतभागब्भ० असंखे०भागब्भहिया वा । एवं माण-माया-लोभाणं ।

§ ११८. अपञ्चवत्वाणकोध० जह० पदे० एकारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछ० णियमा तं तु विट्ठाणपदिदा—अणंतभाग० असंखे०भागब्भहिया वा । छणोक० णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । एवमेकारसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुंछाणं ।

§ ११९. इत्थिवेद० जह० पदे०विहत्तिओ वारसक०-अट्टणोक० णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । एवं णवुंसयवेदस्स । हस्स० जह० पदेस०विहत्तिओ वारसक०-सत्तणोक० णियमा अज० असंखे०भागब्भ० । रदि० णियमा तं तु

मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ११७. अनन्तानुबन्धी क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी जघन्य प्रदेश-विभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान, माया और लोभकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ११८. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके ग्यारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । छह नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार ग्यारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ ११९. स्त्रीवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके वारह कषाय और आठ नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । हास्यकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके वारह कषाय और सात नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें

विद्याणपदिदा—अणंतभागवभ० असंखे०भागवभहिया वा । एवं रदीए ।

§ १२०. अरदि० जह० पदे०विहत्तिओ वारसक०-सत्तणोक० णियमा अज० असंखे०भागवभ० । सोगस्स णियमा० तं तु विद्याणपदिदा—अणंतभागवभ० असंखे०भागवभ० वा । एवं सोगस्स । एवं जाणिदूण पेदव्वं जाव अणाहारि त्ति ।

§ १२१. भावो सव्वत्थ ओदइओ भावो । एवं पेदव्वं जाव अणाहारि त्ति ।

❀ अल्पाबहुअं ।

१२२. सुगममेदं ।

❀ सव्वत्थोवमपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं ।

§ १२३. सत्तमाए पुढवीए गुण्णिकम्मंशियणेरइयम्मि तेत्तीसाउअचरिमसमए वट्टमाणम्मि जदि वि उक्कस्सं जादं तो वि थोवं, साहावियादो ।

भाग अधिक होती है । रतिकी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेश-विभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १२०. अरतिकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवके वारह कषाय और सात नोकषायोंकी नियमसे अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है जो असंख्यातवें भाग अधिक होती है । शोककी नियमसे जघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है और अजघन्य प्रदेशविभक्ति भी होती है । यदि अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है तो वह दो स्थान पतित होती है—या तो अनन्तवें भाग अधिक होती है या असंख्यातवें भाग अधिक होती है । इसी प्रकार शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानकर ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—पहले जघन्य स्वामित्वका निर्देश कर आये हैं । उसे देखकर ओष और आदेशसे जघन्य सन्निकर्ष घटित कर लेना चाहिए । जहां कुछ विशेषता है या तन्त्रान्तरसे भिन्न मतका निर्देश किया है वहां वीरसेनस्वामीने उसका अलगसे विचार किया ही है ।

इस प्रकार सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

§ १२१. भाव सर्वत्र औद्यिक भाव है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार भाव समाप्त हुआ ।

❀ अल्पबहुत्व ।

§ १२२. यह सूत्र सुगम है ।

❀ अप्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशासत्कर्म सबसे स्तोक है ।

§ १२३. सातवीं वृथिवीमें गुणितकर्मांशिक नारकीके तेतीस सागर आयुके अन्तिम समयमें विद्यमान रहते हुए यद्यपि अप्रत्याख्यान मानका द्रव्य उत्कृष्ट हुआ है तो भी वह स्तोक है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है ।

❀ कोधे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १२४. पुण्विल्लुत्तादो अपच्चक्खाणं ति अपुवड्ढे तेण अपच्चक्खाण-कोधे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ति संबंधो कायव्वो । केत्तियमेत्तो विसेसो ? आवलि० असंखे० भागेण माणदव्वे खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्तो । एदं कुदो णव्वदे ? सुत्ताविरोहिआइरियवयणादो ।

❀ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १२५. जदि वि एकम्मि चैव द्वाणे पदेससंतकम्ममुक्कस्सं जादं तो वि कोध-पदेसग्गादो मायापदेसग्गभावलियाए असंखे० भागपडिभागेण विसेसाहियं । कुदो ? साहावियादो ।

❀ लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १२६. केत्तियमेत्तेण ? आवलि० असंखे० भागपडिभागेण ।

❀ पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १२७. के०मेत्तेण ? आवलि० असंखे० भागेण लोभदव्वे खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्तेण । कुदो ? पयडिविसेसादो ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १२४. पूर्वोक्त सूत्रसे अप्रत्याख्यान इस पदकी अनुवृत्ति होती है, इसलिये अप्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ऐसा सम्वन्ध करना चाहिए । विशेषका प्रमाण कितना है ? अप्रत्याख्यान मानके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—सूत्राविरुद्ध आचार्यवचनसे जाना जाता है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १२५. यद्यपि एक ही स्थानमें प्रदेशसत्कर्म उत्कृष्ट हुआ है तो भी क्रोधके प्रदेशप्रसे मायाका प्रदेशाप्र आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १२६. कितना अधिक है ? आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

❀ उससे प्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १२७. कितना अधिक है ? लोभके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर वहां जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है, क्योंकि यह भिन्न प्रकृति है ।

- ❀ कोथे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 § १२८. सुगमं ।
- ❀ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 § १२९. सुगमं ।
- ❀ लोभस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 § १३०. सुगमं ।
- ❀ अणंताणुबंघिमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 § १३१. सुगमं ।
- ❀ कोथे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 § १३२. सुगमं ।
- ❀ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 § १३३. सुगमं ।
- ❀ लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 § १३४. सुगमं ।
- ❀ सम्मामिच्छुत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

- ❀ उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
 § १२८. यह सूत्र सुगम है ।
- ❀ उससे प्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
 § १२९. यह सूत्र सुगम है ।
- ❀ उससे प्रत्याख्यान लोभका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
 § १३०. यह सूत्र सुगम है ।
- ❀ उससे अनन्तानुबन्धी मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
 § १३१. यह सूत्र सुगम है ।
- ❀ उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
 § १३२. यह सूत्र सुगम है ।
- ❀ उससे अनन्तानुबन्धी मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
 § १३३. यह सूत्र सुगम है ।
- ❀ उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।
 § १३४. यह सूत्र सुगम है ।
- ❀ उससे सम्यग्मिध्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १३५. सत्तमाए पुढवीए अणंताणुवंधिलोभज्कस्सदव्वादो आवलि० असंखे०भागपडिभागेण अब्भहियमिच्छत्तुक्कस्सदव्वपमाणत्तादो । सत्तमपुढवीदो उव्वट्टिय तसकाइएसु उप्पज्जिय तत्थ तसट्ठिदिं समाणिय पुणो ईदिएसु दो-तिण्णि-भवग्गहणाणि गमिय मणुस्सेसुअवज्जिय तत्थ अंतोमुहुत्तव्भहियअट्ठवस्साणि गमिय सम्मतं पडिवज्जिय मिच्छत्तदव्वे सम्मामिच्छत्तस्सुवरि पक्खित्ते सम्मामिच्छत्तपदेसग्ग-मुक्कस्सं होदि । ण च एदं दव्वमणंताणुवंधिलोभदव्वादो विसैसाहियं, सम्मतसरूवेण असंखेज्जपल्लिदोवमपढमवग्गमूलमेत्तसमयपवद्धाणं गयत्तादो' गुणसेडिणिज्जराए पडि-समयमसंखे०गुणं समयपद्धाणं गलिदत्तादो च ? ण, दोहि वि पयारेहि णट्ठदव्वस्स अणंताणुवंधिलोभदव्वे आवलियाए असंखे०भागेण खंडेदो तत्थ एयखंडमेत्तमिच्छत्त-पयडिविसेसस्स असंखे०भागमेत्तदंसणादो । तं पि कुदो ? सम्मतदव्वस्स गुण-संकमभागहारेण खंडिदमिच्छत्तदव्वस्स एयखंडपमाणत्तादो । गुणसेटीए णट्ठदव्व-भागहारस्स गुणसंकमभागहारं पेक्खिदूण असंखेज्जगुणत्तादो च । तम्हा अणंताणु-वंधिलोभदव्वादो सम्मामिच्छत्तदव्वं विसैसाहियं ति सिद्धं ।

§ १३५. क्योकि सातवीं पृथिवीमें अनन्तानुबन्धी लोभके उत्कृष्ट द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना मिथ्यात्वका उत्कृष्ट द्रव्य सम्यग्मिथ्यात्वमें अधिक पाया जाता है ।

शंका—सातवीं पृथिवीसे निकल कर और त्रसकाधिकोमें उत्पन्न होकर वहां त्रसस्थिति-को समाप्त करके पुनः एकेन्द्रियोंमें दो तीन भव विताकर मनुष्योंमें उत्पन्न होकर वहां अन्त-मुहूर्त अधिक आठ वर्ष जाने पर सम्यक्त्वको प्राप्त करके मिथ्यात्वके द्रव्यके सम्यग्मिथ्यात्वके ऊपर प्रक्षिप्त करने पर सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त होता है । परन्तु यह द्रव्य अनन्तानुबन्धी लोभके द्रव्यसे विशेष अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय तक मिथ्यात्वके द्रव्यमेंसे पत्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण समयप्रवद्ध सम्यक्त्वप्रकृतिरूपसे परिणत हो जाते हैं और गुणश्रेणिनिर्जपके द्वारा प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणे समयप्रवद्धोंका गलन हो जाता है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि इन दोनों प्रकारों से जो मिथ्यात्वका द्रव्य नष्ट होता है वह अनन्तानुबन्धी लोभके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे तत्रमाण मिथ्यात्व प्रकृति विशेषके असंख्यातवें भागमात्र देखा जाता है ।

शंका—वह भी क्यों है ?

समाधान—क्योकि गुणसंकमभागहारके द्वारा मिथ्यात्वके द्रव्यके भाजित करने पर जो एक भाग लब्ध आवे तत्रमाण सम्यक्त्वका द्रव्य है और गुणश्रेणिके द्वारा नष्ट होनेवाले द्रव्यका भागहार गुणसंकमभागहारको देखते हुए असंख्यातगुणा है, इसलिए अनन्तानुबन्धी लोभके द्रव्यसे सम्यग्मिथ्यात्वका द्रव्य विशेष अधिक है यह सिद्ध हुआ ।

❀ सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१३६. सम्मामिच्छतादो सम्मत्तस्स विसेसाहियत्तं ण घट्ठे, गुणिदकम्मंसिय-
लक्खणेणागतूण मणुस्सेसुववज्जिय अट्ट वस्साणि गमिय पुणो दंसणमोहं खवेंतेण
मिच्छत्तदव्वे सम्मामिच्छत्तस्सुवरि पक्खित्ते सम्मामिच्छत्तमुक्कस्सं होदि । पुणो तत्तो
उवरि अंतोसुहुत्तं गुणसेदिणिज्जराए सम्मामिच्छत्तदव्वस्स णिज्जरणं करिय पुणो
सम्मामिच्छत्ते सगुक्कस्सदव्वादो असंखे०भागहीणे सम्मतस्सुवरि पक्खित्ते सम्मत्त-
दव्वस्सुक्कस्सत्तुवलंभादो त्ति ? ण एस दोसो, सम्मामिच्छत्ते उक्कस्से जदि संते पच्छा
गुणसेदिणिज्जराए णिज्जरीदसम्मामिच्छत्तदव्वादो पुव्वं सम्मतसख्वेण द्विददव्वस्स
असंखे०गुणत्तुवलंभादो । ण च असंखेज्जगुणत्तमसिद्धं, ओकड्डु कड्डुभागहारादो गुण-
संकमभागहारस्स असंखे०गुणहीणत्तणेण तस्सिद्धिदंसणादो ।

❀ मिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

१३७. भवद्विदीए चरिमसमयद्विदसत्तमपुढविणेरेइयमिच्छत्तुक्कस्सदव्वं
पेक्खिदूण सम्मतुक्कस्सदव्वम्मि गुणसेदिणिज्जराए णिज्जिण्णपलिदोवमस्स असंखेज्जदि-
भागमेत्तसमयपबद्धाणमूणत्तुवलंभादो ।

❀ हस्से उक्कस्सपदेससंतकम्ममणंतगुणं ।

❀ उससे सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१३६. शंका—सम्यग्मिध्यात्वके द्रव्यसे सम्यक्त्वका द्रव्य विशेष अधिक घटित नहीं
होता, क्योंकि गुणितकर्मांशिक लक्षणसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न होकर और आठ वर्ष बितारकर
पुनः दर्शनमोहका क्षण करनेवाले उसके द्वारा मिध्यात्वके द्रव्यके सम्यग्मिध्यात्वमें प्रक्षिप्त करने
पर सम्यग्मिध्यात्वका द्रव्य उत्कृष्ट होता है । पुनः उसके बाद अन्तर्मुहूर्त काल तक गुणश्रेणि-
निर्जराके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वके द्रव्यकी निर्जरा करके पुनः अपने उत्कृष्ट द्रव्यके असंख्यातवें भागहीन
सम्यग्मिध्यात्वके द्रव्यके सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त करने पर सम्यक्त्वका उत्कृष्ट द्रव्य उपलब्ध होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यद्यपि सम्यग्मिध्यात्वके उत्कृष्ट होनेके बाद
गुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वका द्रव्य निर्जीर्ण होता है तो भी उस द्रव्यके निर्जीर्ण होनेके
पूर्व ही उससे सम्यक्त्वरूपसे स्थित हुआ द्रव्य असंख्यातगुणा पाया जाता है । और उसका
असंख्यातगुणा होना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारसे गुणसंक्रमभागहार
असंख्यातगुणा हीन होता है, इससे उसके निर्जीर्ण होनेवाले द्रव्यसे असंख्यातगुणे होनेकी सिद्धि
हो जाती है ।

❀ उससे मिध्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१३७. क्योंकि भवस्थितिके अन्तिम समयमें स्थित हुए सातवीं पृथिवीके नारकीके
मिध्यात्वके उत्कृष्ट द्रव्यको देखते हुए सम्यक्त्वका उत्कृष्ट द्रव्य गुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा निर्जीर्ण
होनेसे पल्यके असंख्यातवें भागमें जितने समय हों उतने समयप्रबद्धप्रमाण कम पाया जाता है ।

❀ उससे हास्यमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है ।

§ १३८. कुदो ? देसघादिचादो । पुव्वुत्तासेसपयडीओ जेण सव्वघाइलक्खणाओ तेण तासिं पदेसग्गं हस्सपदेसग्गस्स अणंतिमभागो ति भणिदं होदि । जदि सव्वघाइफइयाणं पदेसग्गमणंतिमभागो होदि तो हस्सस्स देसघादिफइयपदेसग्गस्स अणंतिमभागेण तस्सव्वघादिफइयाणं पदेसग्गेण होदव्वं ? होदु णाम, देसघादिफइएसु अणंताणमणुभागपदेसगुणहाणीणं संभयुवलांभादो ।

❀ रवीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १३९. केत्तियमेतेण ? हस्ससव्वदव्वे आवलियाए असंखे० भागेण खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्तेण । दोण्हं पयडीणं बंधगद्धासु सरिसासु संतीसु कुदो रदिपदेसग्गस्स विसेसाहियत्तं ? ण, हुक्कमाणकाले एव तेण सरूवेण हुक्कणुवलांभादो ।

❀ इत्थिवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ १४०. इत्थिवेदबंधगद्धादो जेण हस्स-रदिवंधगद्धा संखे० गुणा तेण रदिदव्वस्स संखे० भागेण इत्थिवेदव्वेण होदव्वमिदि ? सच्चं, एवं चेव जदि कुरवे मोत्तुण अण्णत्थ इत्थिवेदव्वस्स संचओ कदो । किंतु कुरवेसु हस्स-रदिवंधगद्धादो इत्थिवेद-

§ १३८. क्योंकि यह देशघाति प्रकृति है । यतः पूर्वोक्त अशेष प्रकृतियाँ सर्वघाति हैं, अतः उनके प्रदेश हास्यके प्रदेशोके अनन्तवें भागप्रमाण होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—यदि सर्वघाति स्पर्धकोके प्रदेश अनन्तवें भागप्रमाण होते हैं तो हास्यके प्रदेशाग्रे अनन्तवें भागप्रमाण उसके रूर्वघातिस्पर्धकोके प्रदेश होने चाहिए ?

समाधान—होवें, क्योंकि देशघाति स्पर्धकोमें अनन्त अनुभाग प्रदेश गुणहानियाँ उपलब्ध होती हैं ।

❀ उससे रतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १३९. कितना अधिक है ? हास्यके सब द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

शंका—दोनों प्रकृतियोंके बन्धक कालोके समान होने पर रतिका प्रदेशाग्र विशेष अधिक कैसे हो सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, बन्ध होनेके समयमें ही उस रूपसे उसका बन्ध उपलब्ध होता है ।

❀ उससे स्त्रीवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म संख्यातरुणा है ।

§ १४०. शंका—स्त्रीवेदके बन्धक कालसे यतः हास्य और रतिका बन्धक काल संख्यातरुणा है, अतः रतिके द्रव्यके संख्यातवें भागप्रमाण स्त्रीवेदका द्रव्य होना चाहिए ?

समाधान—सत्य है, यदि कुरूको छोड़कर अन्यत्र स्त्रीवेदके द्रव्यका सञ्चय किया है तो इसी प्रकार ही सञ्चय होता है । किन्तु देवकुरु और उत्तरकुरूमें हास्य और रतिके बन्धक कालसे

बंधगद्दा संखे०गुणा, लद्धणवुंसयवेदबंधगद्दावहुभागत्तादो । इत्थिवेदस्स च कुरवेसु संचओ कदो । तेण रदिदव्वादो इत्थिवेददव्वं संखेज्जगुणं ति सिद्धं ।

❀ **सोगे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ १४१. कुदो ? कुरवित्थिवेदबंधगद्दादो तत्थतणसोगबंधगद्दाए विसेसाहियत्तादो । केत्तियमेत्तो विसेसो ? इत्थिवेदबंधगद्दाए संखे०भागमेत्तो ।

❀ **अरदीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ १४२. केत्तियमेत्तेण ? सोगदव्वे आवलियाए असंखे०भागेण खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्तेण ।

❀ **णवुंसयवेदउक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ १४३. कुदो ? ईसाणदेवअरदि-सोगबंधगद्दादो तत्थतणणवुंसयवेदबंधगद्दाए विसेसाहियत्तुवलंभादो । केत्तियमेत्तो विसेसो ? हस्स-रदिवंधगद्दं संखेज्जखंडं करिय तत्थ वहुखंडमेत्तो ।

❀ **दुगुंझाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ १४४. ईसाणदेवेसु णवुंसयवेदबंधगद्दादो दुगुंझाबंधगद्दाए ईसाणं गदिधि-

स्त्रीवेदका बन्धक काल संख्यातगुणा है, क्योंकि वहां पर नपुंसकवेदके बन्धक कालकी अपेक्षा स्त्रीवेदका बन्धक काल बहुभागप्रमाण उपलब्ध होता है और देवकुरु तथा उत्तरकुरुमे स्त्रीवेदका सञ्चय प्राप्त किया गया है, इसलिए रतिके द्रव्यसे स्त्रीवेदका द्रव्य संख्यातगुणा है यह सिद्ध होता है ।

❀ **उससे शोकमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।**

§ १४१. क्योंकि देवकुरु और उत्तरकुरुमें प्राप्त होनेवाले स्त्रीवेदके बन्धक कालसे वहां पर शोकका बन्धक काल विशेष अधिक है । विशेषका प्रमाण कितना है ? स्त्रीवेदके बन्धक कालके संख्यातवें भागप्रमाण है ।

❀ **उससे अरतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।**

§ १४२. कितना अधिक है ? शोकके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

❀ **उससे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।**

§ १४३. क्योंकि ईशान कल्पके देवोंमें प्राप्त होनेवाले अरति और शोकके बन्धक कालसे वहां पर नपुंसकवेदका बन्धक काल विशेष अधिक उपलब्ध होता है । विशेषका प्रमाण कितना है ? हास्य और रतिके बन्धक कालके संख्यात खण्ड करने पर उनमेंसे बहुभागप्रमाण है ।

❀ **उससे जुगुप्सामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।**

§ १४४. क्योंकि ईशान कल्पके देवोंमें नपुंसकवेदके बन्धक कालसे जुगुप्साका बन्धक

पुरिसवेदबंधगद्धामेत्तेण विसेसाहियत्तुवलंभादो ।

❀ भये उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४५. केत्तियमेत्तेण ? दुगुंझादव्वे आवलियाए असंखे० भागेण खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्तेण ।

❀ पुरिसवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४६. केत्तियमेत्तेण ? भयदव्वे आवलियाए असंखे० भागेण खंडिदे तत्थ एयखंडमेत्तेण ।

❀ क्रोधसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ १४७. को गुणगारो ? सादिरेयद्धरूवाणि । तं जहा—मोहणीयदव्वस्स अद्धं णोकसायभागो $\frac{१}{२}$ । कसायभागो वि एत्तिओ चेव । तत्थ हस्स-सोगाणमेगो, रदि-अरदीणमेगो, भयस्स अण्णेगो, दुगुंझाए अवरेगो, वेदस्स अण्णेगो त्ति । एवं णोकसायदव्वे पंचहि विहत्ते पुरिसवेददव्वं मोहणीयदव्वस्स दसमभागमेत्तं $\frac{१}{१०}$ । क्रोधसंजलणदव्वं

काल ईशान कल्पमे गये हुए जीवोंके छीनेद और पुरुषवेदके वन्धक कालप्रमाण होनेसे विशेष अधिक उपलब्ध होता है ।

❀ उससे भयमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४५. कितना अधिक है ? जुगुप्साके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

❀ उससे पुरुषवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४६. कितना अधिक है ? भयके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

❀ उससे क्रोध संज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ १४७. गुणकार क्या है ? साधिक छह अंक गुणकार है । यथा—मोहनीयके द्रव्यका अर्ध भागप्रमाण नोकषायका द्रव्य है $\frac{१}{२}$ । कषायका हिस्सा भी इतना ही है । नोकषायके द्रव्यमेंसे हास्य और शोकका एक भाग है, रति और अरतिका एक भाग है, भयका अन्य एक भाग है, जुगुप्साका अन्य एक भाग है और वेदका अन्य एक भाग है । इस प्रकार नोकषायके द्रव्यमें पाँचका भाग देने पर पुरुषवेदका द्रव्य मोहनीयके द्रव्यके दसवें भागप्रमाण प्राप्त होता है $\frac{१}{१०}$ । क्रोधसंज्वलनका द्रव्य भी मोहनीयके द्रव्यके पाँच बटे आठ भागप्रमाण प्राप्त होता है,

१. ता० प्रती 'हस्ससोगाणमेगो भयस्स अण्णेगो' इति पाठः ।

२. ता० प्रती $\frac{२}{३०}$ । 'क्रोधसंजलणदव्वं' इति पाठः ।

पि मोहणीयदव्वस्स पंचद्वभागमेत्तं, संगहिदसयलणोकसायदव्वत्तादो $\frac{५}{८}$ । पुब्बिन्ल-

पुरिसवेददव्वेण एदम्मि कोधदव्वे भागे हिदे सादिरियद्धरूवाणि गुणगारो होदि ।

❀ माणसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४८. के०मेत्तेण ? सगपंचमभागमेत्तेण ।

❀ मायासंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १४९. के०मेत्तेण ? सगद्वभागमेत्तेण ।

❀ लोभसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५०. के०मेत्तेण ? सगसत्तमभागमेत्तेण ।

❀ गिरयगदीए सव्वत्थोवं सम्मामिच्छुत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मं ।

§ १५१. कुदो ? गुणिककम्मंसियलक्खणेणागंतूण सत्तमाए पुढवीए उप्पजिय

अंतोमुहुत्तेण मिच्छत्तमुक्कस्सं काहिदि ति विवरीयं गंतूण उवसमसम्मत्तं पडिवजिय

क्योंकि इसमें नोकषायका समस्त द्रव्य सम्मिलित है $\frac{५}{८}$ । इसलिए पूर्वोक्त पुरुषवेदके द्रव्यका

इस क्रोधके द्रव्यमें भाग देने पर साधिक छह अंकप्रमाण गुणकार होता है ।

उदाहरण— $\frac{५}{८} \div \frac{१}{१०} = \frac{५}{८} \times \frac{१०}{१} = \frac{५०}{८} = ६ \frac{१}{४}$ । इससे स्पष्ट है कि पुरुषवेदके द्रव्यसे

क्रोध संज्वलनका द्रव्य साधिक छह गुणा है ।

❀ उससे मानसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४८. कितना अधिक है ? अपने पाँचवें भागप्रमाण अधिक है ।

उदाहरण—क्रोधसं० $\frac{५}{८} + \frac{१}{८} = \frac{६}{८}$ मानसंज्वलनका उत्कृष्ट द्रव्य ।

❀ उससे मायासंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १४९. कितना अधिक है अपने छठे भागप्रमाण अधिक है ।

उदाहरण— $\frac{६}{८} \times \frac{१}{६} = \frac{१}{८}$; $\frac{६}{८} \div \frac{१}{८} = \frac{७}{८}$ मायासंज्वलनका उत्कृष्ट द्रव्य ।

❀ उससे लोभसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५०. कितना अधिक है ? अपने सातवें भागप्रमाण अधिक है ।

उदाहरण— $\frac{७}{८} \times \frac{१}{७} = \frac{१}{८}$; $\frac{७}{८} \div \frac{१}{८} = \frac{८}{८}$ लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट द्रव्य ।

❀ नरकगतिमें सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म सबसे स्तोके है ।

§ १५१. क्योंकि गुणितकर्माशिकविधिसे आकर और सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्तमें मिध्यात्वको उत्कृष्ट करेगा पर विपरीत जाकर और उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त कर

सामित्चरिमसमए द्विदजीवम्मि मिच्छत्तपदेसगं पलिदोवमस्स असंखे०भागमेत्तगुण-
संकमभागहारेण खंडिय तत्थ एयखंडस्स सम्मादिच्छत्तसखेण परिणदस्सुवलंभादो ।

❀ अपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ १५२. सत्तमतुहविणेरइयचरिमसमए सयलदिवडुगुणहाणिमेत्तसमयपवद्दाण-
सुवलंभादो । को गुणगारो ऽ सव्वजहण्णगुणसंकमभागहारो ।

❀ कोथे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५३. सुगमं ।

❀ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५४. सुगमं ।

❀ लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५५. सुगममेदं, पयडिविसेसमेत्तकारणत्तादो ।

❀ पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५६. केत्तियमेत्तेण ? अपच्चक्खाणलोभउक्कस्सपदेससंतकम्मे आवलियाए
असंखेज्जदिभागेण खंडिदे तत्थेयखंडमेत्तेण । कुदो ? सहावदो ।

जो जीव स्वामित्वके अन्तिम समयमें स्थित है उसके मिथ्यात्वके प्रदेशोंमें पत्यके असंख्यातवें
भागप्रमाण गुणसंक्रम भागहारका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे वह सम्यग्मिथ्यात्वरूपसे
परिणत हो जाता है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

१५२. क्योंकि सातवीं पृथिवीके नारकीके अन्तिम समयमें समस्त द्रव्य डेढ़ गुणहानि-
गुणित समयप्रवद्धप्रमाण उपलब्ध होता है । गुणकार क्या है ? सबसे जघन्य गुणसंक्रमभागहार
गुणकार है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५३. यह सूत्र सुगम है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५४. यह सूत्र सुगम है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५५. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि इसका कारण प्रकृति विशेष है ।

❀ उससे प्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५६. कितना अधिक है ? अप्रत्याख्यान लोभके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्ममें आवलिके
असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है, क्योंकि ऐसा
स्वभाव है ।

❖ कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५७. सुगमं, अणंतरपरुविदकारणत्तादो ।

❖ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५८. कुदो ? सहावदो चेय, तहा भावेणावट्टाणदंसणादो ।

❖ लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १५९. पहिल्लसुत्तट्टिदपच्चक्खाण० लोभे उक्क० पदेससंतकम्मं विसे० एसु सुत्तेसु तिसु वि संबंधणिज्जं । सेसं सुगमं ।

❖ अणंताणुबंधिमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❖ कोधे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❖ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❖ लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६०. सुगममेदं सुत्तचउट्टयं ।

❖ सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६१. कुदो ? गुण्णिकम्मंसियलक्खणेणागंतूण सत्तमपुढवीदो उव्वट्टिय दो-तिण्णिभवग्गहणाणि तसकाइएसुप्पज्जिय पुणो समाणित्तसट्टिट्ठितादो एइदिएसुव-

❖ उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५७. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि अनन्तर पूर्व कारणका कथन कर आये हैं ।

❖ उससे प्रत्याख्यानमायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५८. क्योंकि स्वभावसे ही उस रूपसे अवस्थान देखा जाता है ।

❖ उससे प्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १५९. पहले सूत्रमें स्थित प्रत्याख्यान पदका 'लोभका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है' यहाँ तकके इन तीनों ही सूत्रोंमें सम्बन्ध कर लेना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

❖ उससे अनन्तानुबन्धी मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❖ उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❖ उससे अनन्तानुबन्धी मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❖ उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६०. ये चारों सूत्र सुगम हैं ।

❖ उससे सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६१. क्योंकि जो जीव गुणितकर्माशिकविधिसे आकर और सातवीं पृथिवीसे निकलकर त्रसकायिकोमे दो तीन भव धारण कर अनन्तर त्रसस्थितिको समाप्त कर एकेन्द्रियोंमें

वज्जिय बद्धमणुसाउओ मणुसेसुप्पज्जिय पज्जतीओ समाणिय गिरयाउअवंधपुरस्सरं पढमसम्मत्तमुप्पाइय दंसणमोहणीयक्खवणं पारभिय कदकरणिज्जो होदूण अंतोमुहुत्तमेत्तसम्मत्तगुणसेट्ठिगोबुच्छासु अणंताणुबंधिलोभमावत्तियाए असंखे०भागेण खंडिय तत्थेगखंडमेत्तेण तत्तो अब्भहियदिवडूगुणहाणिपमाणं मिच्छत्तसयलदव्वं पयडिविसेसदव्वादो असंखेज्जगुणहीणगुणसेट्ठिणिज्जराणिज्जिण्णदव्वमेत्तेणूणं धरिउण ट्ठिदजीवम्मिणेइएसुप्पण्णपढमसमए वट्टमाणम्मि सम्मत्तुक्कस्सपदेससामियम्मि तहाभावुवलंभादो ।

❀ मिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६२. केत्तियमेत्तेण ? गिरयादो उव्वट्ठिय सम्मत्तमुक्कस्सं करेमाणस्स अंतराले जहाणिसेयसरूवेण गुणसेट्ठिणिज्जराए च णट्टदव्वमेत्तेण । तं च केत्तियं ? सगदव्वे पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तभागहारेण खंडिदे तत्थेयखंडमेत्तं । ण च एदं मिच्छत्तुक्कस्सपदेससामियम्मि असिद्धं, चरिमसमयणेइयम्मि गुणिदकम्मंसियलक्खणेण समाणिदकम्मट्ठिदिचरिमसमए वट्टमाणम्मि अविणट्टसरूवेण तस्सुवलंभादो ।

❀ हस्से उक्कस्सपदेससंतकम्ममणंतगुणं ।

§ १६३. कुदो ? देसघादित्तेणे सुलहपरिणामिकारणत्तादो । ण च अणंतिम-

उत्पन्न हो और मनुष्यायुका बन्ध कर मनुष्योमें उत्पन्न हो तथा पर्याप्तियोंको पूर्ण कर नरकायुके बन्धपूर्वक प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न कर तथा दर्शनमोहनीयके क्षयका प्रारम्भ कर कृतकृत्य होकर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण सम्यक्त्वकी गुणश्रेणि गोपुच्छाओंमें, अनन्तानुबन्धी लोभको आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देकर जो एक भाग लब्ध आवे उससे अधिक डेढ़ गुणहाणिप्रमाण मिथ्यात्वके समस्त द्रव्यको प्रकृतिविशेषके द्रव्यसे असंख्यातगुणें हीन गुणश्रेणि निर्जराके द्वारा निर्जीर्ण हुए द्रव्यसे हीन द्रव्यको, धारण कर स्थित है उसके नारकियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके स्वामीरूपसे विद्यमान रहते हुए उस प्रकारसे प्रदेशसत्कर्म देखा जाता है ।

❀ उससे मिथ्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६२. कितना अधिक है ? नरकसे निकलकर सम्यक्त्वको उत्कृष्ट करनेवाले जीवके अन्तराल कालमें यथानिपेक क्रमसे और गुणश्रेणिनिर्जाराकूपसे जितना द्रव्य नष्ट होता है उतना अधिक है ।

शंका—वह कितना है ?

समाधान—अपने द्रव्यमें पत्यके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना है । और यह मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशके स्वामित्व कालमें असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि जो गुणितकर्मांशिकविधिसे आकर कर्मस्थितिको समाप्त करनेके अन्तिम समयमें नरकपर्यायके अन्तिम समयवाला होता है उसके मिथ्यात्वका समस्त द्रव्य उक्त प्रकारसे नष्ट हुए बिना पाया जाता है ।

* उससे हास्यमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है ।

§ १६३. क्योंकि देशघाति होनेसे इसके सञ्चयका कारण सुलभ परिणाम है । अनन्तघं

भागत्तणेण त्थोवयरारणं चैव सन्वघादिसखेण परिणमणमसिद्धं, भागाभागपरूवणाए तहा परूवियत्तादो । तदो देसघादिपाहम्मेण सुव्विल्लादो एदस्साणंतगुणत्तमिदि सिद्धं । को गुण० ? अभवसिद्धिएहि अणंतगुणो सिद्धाणमणंतभागमेत्तो ।

❀ रदीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६४. सुवोहमेदं सुत्तं, पयडिविसेसमेत्तकारणत्तादो ।

❀ इत्थिवेदे उक्कसपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ १६५. कुदो ? गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण असंखेज्जवस्साउएसु इत्थिवेदपदेससंतकम्मं गुणेदूण अगदिकागदिण्णाएण दसवस्ससहस्साउअदेवसुप्पज्जिय तसद्धिदीए समत्ताए एदिएसु सन्वजहणमंतोमुहुत्तमच्छिय णांतरीयण्णाएण पंचिदिएसु-ववज्जिय णिरयाउअं बंधिदूण णेरइएसुप्पण्णपढमसमए वट्टमाणम्मि इत्थिवेदुक्कसपदेस-सामियणेरेइयम्मि ओघपरूविदबंधगद्धामाहण्णमस्सियूण कुरवेसु लद्धओघुक्कसपदेस-संतकम्मादो किंचूणस्स पयडिइत्थिवेदुक्कसदव्वस्स रदीए संखेज्जगुणहीणबंधगद्धा-संचिदुक्कससंतकम्मादो संखेज्जगुणत्तं पडि विरोहाभावादो । ण च अवंतराले णट्टदव्वं पेक्खिदूण तस्स तहाभावविरोहो आसंकणिज्जो, असंखे०भागत्तणेण तस्स पाहणिया-

भागरूपसे स्तोक परमाणुओंका ही सर्वधातिरूपसे परिणमन होता है यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि भागभागपरूपणमें उस प्रकार कथन कर आये हैं । इसलिए देशघातिकी प्रधानता होनेसे पूर्वोक्त प्रकृतिसे यह अनन्तगुणी है यह बात सिद्ध है । गुणकार क्या है ? अभव्योंसे अनन्तगुणा और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण गुणकार है ।

❀ उससे रतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६४. यह सूत्र सुबोध है, क्योंकि इसका कारण प्रकृतिविशेष है ।

❀ उससे स्त्रीवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ १६५. क्योंकि जो गुणितकर्मांशविधिसे आकर असंख्यात वर्षकी आयुवाले जीवोंमें उत्पन्न होकर और स्त्रीवेदके प्रदेशसत्कर्मको गुणित करके अगतिका गति न्यायके अनुसार दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होकर तथा त्रसस्थितिके समाप्त होने पर एकेन्द्रियोंमें सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त काल तक रहकर नान्तरीय न्यायके अनुसार पञ्चन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर और नरकायुका बन्ध करके नारकियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म करके स्थित है उसके यद्यपि ओषमें कहे गये बन्धक कालके माहात्म्यके अनुसार देवकुरु और उत्तरकुरुमें प्राप्त हुए ओष उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मसे कुछ कम द्रव्य पाया जाता है फिर भी प्रकृति स्त्रीवेदका उत्कृष्ट द्रव्यके रतिके संख्यातगुणे हीन बन्धक कालके भीतर सञ्चित हुए उत्कृष्ट प्रदेश-सत्कर्मसे संख्यातगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं आता ! यदि कोई ऐसी आशंका करे कि जिस स्थलमें ओष उत्कृष्ट द्रव्य प्राप्त होता है उस स्थलसे लेकर यहाँ तकके अन्तरालमें नष्ट हुए द्रव्यको देखते हुए उसका तत्प्रमाण होनेमें विरोध आता है सो उसकी ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अन्तरालमें जो द्रव्य नष्ट होता है वह कुल द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए

भावादो इत्थिवेदपयडिविसेसादो वि तस्स असंखे०गुणहीणत्तादो च ।

❀ सोगे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६६. सुगममेदं सुत्तं, ओघम्मि परुविदकारणत्तादो ।

❀ अरदीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६७. के०मेत्तेण ? सोगदव्वमावलिआए असंखे०भागेण खंडिदेयखंडमेत्तेण ।

कुदो ? पयडिविसेसादो ।

❀ एणुं सयवेदे उक्कस्सपदे ससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६८. ण एत्थ किंचि वत्तव्वमत्थि, ओघम्मि परुविदबंधगद्धाविसेसमासेज्ज विसेसाहियत्तिसिद्धीदो । ण च बंधगद्धाविसेससंचओ णेरइयम्मि असिद्धो, ईसाण-देवेचरणेरइयम्मि परमणिरुद्धकालेण पत्ततप्पज्जायम्मि किंचूणसगोघुक्कस्ससंचयसिद्धीए बाहाणुवलंभादो ।

❀ दुयुं छाए उक्कस्सपदे ससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६९. धुवबंधित्तेण इत्थि-पुरिसवेदबंधगद्धासु वि संचयुवलंभादो ।

❀ भए उक्कस्सपदे ससंतकम्मं विसेसाहियं ।

उसकी कोई प्रधानता नहीं है । तथा स्त्रीवेदरूप प्रकृतिविशेष होनेके कारण भी वह असंख्यातगुणा हीन है ।

* उससे शोकमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६६. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि कारणाका निर्देश ओघ प्ररूपणाके समय क्र आये हैं ।

* उससे अरतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६७. कितना अधिक है ? शोकके द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है, क्योंकि इसका कारण प्रकृति विशेष है ।

* उससे नपुंसकवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मा विशेष अधिक है ।

§ १६८. यहाँ पर कुछ वक्तव्य नहीं है, क्योंकि ओघमें कहे गये बन्धक कालका आश्रय लेकर इसके विशेष अधिकपनेकी सिद्धि होती है । यदि कहा जाय कि बन्धक काल विशेषमें होनेवाला सञ्चय नारकियोमें नहीं बनता सो भी बात नहीं है, क्योंकि जो ईशान कल्पका देव क्रमसे नारकियोमें उत्पन्न होता है उसके यथासम्भव क्रमसे कम कालके द्वारा उस पर्यायके प्राप्त होने पर कुछ कम अपने ओघ उत्कृष्ट द्रव्यके सञ्चयकी सिद्धि होनेमें कोई बाधा नहीं आती ।

* उससे पुण्यप्सामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६९. क्योंकि यह ध्रुवबन्धिनी प्रकृति है, इसलिए इसका स्त्रीवेद और पुरुषवेदके बन्धक कालोंमें भी सञ्चय होता रहता है ।

* उससे भयमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

३. भा०प्रतौ 'ईसाणदेवे च णेरइयम्मि' इति पाठः ।

§ १७०. पयडिविसेसस्स तारिसत्तादो ।

❁ पुरिसवेदे उक्कस्सपदे ससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १७१. अपडिवक्खत्तेण ध्रुवबंधिणो भयस्स गिरंतरसंचिदुक्कस्सदव्वादो सप्यडिवक्खपुरिसवेदपदेसग्गस्स कथं विसेसाहियत्तं ? ण, एदस्स वि सोहम्मो पल्लिदो-
वमाउट्ठिदिअब्भंतरे सम्मत्तगुणपाहम्मणेण असवत्तस्स ध्रुवबंधित्तेण पूरण्वलंभादो । ण
च गिरयगईए इदमसिद्धं, सब्वलहुएण कालेण अविणट्ठेणेयत्तेण संचिददव्वेण गेरइए-
सुप्पण्णपढमसमए तस्सिद्धीदो । एवमविं दोण्हं ध्रुवबंधीणं पदेसग्गेण सरिसेण
होदव्वमिदि ण वोत्तुं जुत्तं, पयडिविसेसेण आवलियाए असंखेज्जदिभागेण खंडिदेय-
खंडमेत्तेण उवसमसेदीए गुणसंकमभागहारेण पडिच्छिदणोकसायदव्वमेत्तेण च पुरिस-
वेदस्स विसेसाहियत्तवलंभादो ।

❁ माणसंजलणे उक्कस्सपद ससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १७२. कुदो ? पुरिसवेदभागादो माणसंजलणस्स भागस्स चउवभाग-

§ १७०. क्योंकि प्रकृति विशेष होनेसे यह इसी प्रकारकी है ।

* उससे पुरुषवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १७१. शंका—भय अप्रतिपत्त और ध्रुवबन्धिनी प्रकृति है, अतः निरन्तर सञ्चित
हुए उसके उत्कृष्ट द्रव्यसे सप्रतिपत्तरूप पुरुषवेदका प्रदेशसमूह विशेष अधिक कैसे अधिक हो
सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सौधर्म कल्पमें आयुकी एक पल्यप्रमाण स्थितिके भीतर
सम्यक्त्व गुणकी प्रधानतासे प्रतिपत्त रहित इस प्रकृतिमें भी ध्रुवबन्धीरूपसे प्रदेशोंकी पूर्ति
उपलब्ध होती है । यदि कहा जाय कि नरकगतिमें यह असिद्ध है सो भी बात नहीं है, क्योंकि
अतिशीघ्र कालके द्वारा इस प्रकार सञ्चित हुए द्रव्यको नष्ट किये बिना जो नारकियोंमें उत्पन्न
होता है उसके वहां उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उसकी सिद्धि होती है ।

शंका—इस प्रकार होने पर भी दोनों ही ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंका प्रदेशसमूह समान
होना चाहिए ?

समाधान—यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक तो प्रकृतिविशेष होनेके कारण
आवृत्तिके असंख्यातवधे भागसे भयका द्रव्य भाजित होकर जो एक भाग लब्ध आवे उतना पुरुष-
वेदमें विशेष अधिक द्रव्य उपलब्ध होता है । दूसरे उपशमश्रेणियोंमें गुणसंक्रमणभागहारेके द्वारा
नोकषायोंका द्रव्य इसमें संक्रान्त हो जानेसे भी इसका द्रव्य विशेष अधिक उपलब्ध होता है ।
इसलिए ध्रुवबन्धिनी होते हुए भी इन दोनों प्रकृतियोंका द्रव्य एक समान नहीं है ।

* उससे मानसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १७२. क्योंकि पुरुषवेदके भागसे मानसंज्वलनका भाग एक चौथाई अधिक उपलब्ध

६. आ०प्र० 'पद्मवि' इति पाठः ।

बहियत्तुवलंभादो । तं जहा—पुरिसवेदद्वं मोहणीयसव्वद्वं पेक्खियूण दसमभागो होदि, मोहसव्वद्वस्स कसाय-णोकसायाणं समपविभत्तस्स पंचमभागत्तादो कसाय-णोकसायदव्वेसु पुरिसवेदभागपमाणेण कीरमाणेसु पुथ पुथ पंचसळागाणसुवलंभादो च । माणसंजलणद्वं पुण मोहणीयसव्वद्वं पेक्खियूण अहमभागो, कसायभागस्स संजलणेसु चउद्धा विहज्जिय द्विदत्तादो । तदो मोहसयलदव्वदसमभागभूदपुरिसवेद-सव्वसंचयादो तदहमभागमेत्तमाणसंजलणपदेससंचओ चउभ्भागव्वह्मिओ त्ति सिद्धं, तम्मि तप्पमाणेण कीरमाणे चउभ्भागव्वहियसयलेगसळागुवलंभादो ।

§ १७३. एत्थ अन्वुप्पणवुप्पायणद्वं संदिद्विविहिं वत्तइस्सामो । तं जहा—मोहणीयसयलदव्वपमाणं चालीस ४० । तदद्वमेत्तो कसायभागो एसो २० । णोकसायभागो वि तत्तिओ चैव २० । पुणो णोकसायभागो पंचहि भागे हिदे भाग-लद्धमेत्तमेत्तियं पुरिसवेददव्वपमाणमेदं होदि ४ । कसायभागो वि चहुहि भागे हिदे लद्धमेत्तं पमाणं संजलणदव्वमेत्तियं होदि ५ । एदं च पुरिसवेदभागो चउहि भागे हिदे जं भागलद्धं तम्मि तत्थेव पक्खित्ते उप्पज्जदि त्ति तस्स तदो चउभ्भागव्वहियत्त-

होता है । यथा—पुरुषवेदका सब द्रव्य मोहनीयके सब द्रव्यको देखते हुए दसवें भागप्रमाण है, क्योंकि एक तो मोहनीयके सब द्रव्यको कषाय और नोकषायमें समानरूपसे विभक्त कर देने पर पुरुषवेदका द्रव्य प्रत्येकके पाँचवें भागप्रमाण प्राप्त होता है । दूसरे कषाय और नोकषायके द्रव्यके पुरुषवेदका जो भाग हो तत्प्रमाणरूपसे विभक्त करने पर अलग अलग पाँच शलाकाएँ उपलब्ध होती हैं । परन्तु मानसंज्वलनका द्रव्य मोहनीयके सब द्रव्यको देखते हुए उसके आठवें भाग-प्रमाण है, क्योंकि कषायका द्रव्य संज्वलनमें चार भागरूप विभक्त होकर स्थित है । इसलिए मोहनीयके सब द्रव्यके दसवें भागरूप पुरुषवेदके समस्त सञ्चयसे मोहनीयके समस्त द्रव्यके आठवें भागरूप मानसंज्वलनका प्रदेशसञ्चय एक चतुर्थांशप्रमाण अधिक है यह सिद्ध हुआ, क्योंकि इस द्रव्यको पुरुषवेदके द्रव्यके प्रमाणरूपसे करने पर चतुर्थ भाग अधिक एक शलाका उपलब्ध होती है ।

विशेषार्थ—तात्पर्य यह है कि पहिले मोहनीयके सब द्रव्यको आधा कषायमें और आधा नोकषायमें विभक्त कर दो । उसके बाद कषायके द्रव्यका एक चौथाई मानसंज्वलनको दो और नोकषाय द्रव्यका एक पञ्चमांश पुरुषवेदको दो । इस प्रकारसे विभाग करने पर मानसंज्वलनका द्रव्य मोहनीयके समस्त द्रव्यके आठवें भागप्रमाण प्राप्त होता है और पुरुषवेदका द्रव्य मोहनीयके समस्त द्रव्यके दसवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए यहां पुरुषवेदके द्रव्यसे मानसंज्वलनका द्रव्य एक चौथाई अधिक कहा है ।

§ १७३. अब यहाँ पर अन्युत्पन्न जीवोंकी व्युत्पत्ति बढ़ानेके लिए संदृष्टिविधि बतलाते हैं । यथा—मोहनीयके समस्त द्रव्यका प्रमाण ४० है । उसके अर्धभागप्रमाण कषायका द्रव्य यह है २० । नोकषायका भाग भी उतना ही है २० । पुनः नोकषायके भागमें पाँचका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना पुरुषवेदका द्रव्य होता है । उसका प्रमाण यह है ४ । कषायके भागमें भी चारका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आता है वह मानसंज्वलनका द्रव्य होता है । उसका प्रमाण यह है ५ । पुनः पुरुषवेदके भागमें चारका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उसे उसीमें मिला देने पर यह मानसंज्वलनका द्रव्य उत्पन्न होता है, इसलिए यह मानसंज्वलनका

पदेससंतकम्मं । सेसपयडिपडिसेहफलो सम्मत्तणिदे सो । अणुक्कस्सादिवियप्पणिवारण-
फलो उक्कस्सपदेससंतकम्मणिदे सो । उवरि बुच्चमाणासेसपयडिपदेसुक्कस्ससंचयादे
सम्मत्तुक्कस्सपदेससंतकम्मं थोवयरं ति बुत्तं होइ ।

❀ **सम्माभिच्छत्त उक्कस्सपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।**

§ १८१. को गुणगारो ? सम्मत्तगुणसंकमभागहारस्स असंखेज्जदिभागो ।
तस्स को पडिभागो ? सम्माभिच्छत्तगुणसंकमभागहारपडिभागो । कुदो ? गुणिद-
कम्मंसियलक्खणेणागंतूण सत्तमाए पुढवीए उप्पज्जिय सगाउट्ठिदीए अंतोमुहुत्ताव-
सेसियाए विवरीयभावं गंतूण उवसमसम्मत्तं पडिवज्जिय सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणि
सव्वजहण्णगुणसंकमभागहारेणावूरिय सव्वलहुं मिच्छत्तं गंतूणुवट्ठिदसमाणे पच्छायद-
पंचिंदियतिरिक्खभवग्गहणे एइदिएमुप्पण्णपढमसमयवट्ठमाणजीवे सम्मत्तादेसुक्कस्स-
दब्बादो सम्माभिच्छत्तुक्कस्सपदेससंतकम्मस्स गुणसंकमभागहारविसेसादो तहाभावुव-
लंभादो । भागहारविसेसो च कत्तो णव्वदे ? गुणसंकमपढमसमए मिच्छत्तादो जं
सम्मत्ते संकमदि पदेसगं तं थोवं । तम्मि चैव समए सम्माभिच्छत्ते संकमदि पदेसग-
मसंखेज्जगुणं । पढमसमए सम्माभिच्छत्तसरूवेण संकंतपदेसपिंडादो विदियसमए
सम्मत्तसरूवेण संकमंतपदेसगमसंखेज्जगुणं । तम्मि चैव समए सम्माभिच्छत्ते संकंत-

सर्वस्तोक क्या है ? सम्यक्त्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म । सूत्रमें 'सम्यक्त्व' पदके निर्देशका फल
शेष प्रकृतियोंका प्रतिषेध करना है । 'उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म' पदके निर्देशका फल अनुत्कृष्ट आदि
विकल्पोंका निवारण करना है । आगे कहे जानेवाले समस्त प्रकृतियोंके प्रदेशोंके उत्कृष्ट सञ्चयसे
सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म स्तोकोत्तर है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

❀ **उससे सम्यग्मिध्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।**

§ १८१. गुणकार क्या है ? सम्यक्त्वके गुणसंकमभागहारके असंख्यातवें भागप्रमाण
गुणकार है । उसका प्रतिभाग क्या है ? सम्यग्मिध्यात्वका गुणसंकमभागहार प्रतिभाग है, क्योंकि
जो जीव गुणितकर्मांशिक विधिसे आकर और सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न होकर अपनी आयु-
स्थितिमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर मिध्यात्वसे विपरीत भावको जाकर और उपशमसम्यक्त्वको
प्राप्त कर सबसे जघन्य गुणसंकम भागहारके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वको पूरकर और अतिशीघ्र
मिध्यात्वको प्राप्त कर मर कर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न हो अनन्तर मर कर एकेन्द्रियोंमें
उत्पन्न होकर उसके प्रथम समयमें विद्यमान है उसके सम्यक्त्वके आदेश उत्कृष्ट द्रव्यकी अपेक्षा
सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म गुणसंकमभागहार विशेषके कारण उस प्रकारका अर्थात्
सम्यक्त्वके उत्कृष्ट द्रव्यसे असंख्यातगुणा अधिक पाया जाता है ।

शंका—भागहारविशेष किस कारणसे जाना जाता है ?

समाधान—गुणसंकमके प्रथम समयमें मिध्यात्वमेंसे जो प्रदेशसमूह सम्यक्त्वमें संक्रमण
को प्राप्त होता है वह स्तोकोत्तर है । उसी समयमें जो प्रदेशसमूह सम्यग्मिध्यात्वमें संक्रमणको प्राप्त
होता है वह उससे असंख्यातगुणा है । प्रथम समयमें सम्यग्मिध्यात्वमें संक्रमणको प्राप्त हुए
प्रदेशपिण्डसे दूसरे समयमें सम्यक्त्वमें संक्रमणको प्राप्त हुआ प्रदेशपिण्ड असंख्यातगुणा है ।

पदेसग्गमसंखेज्जगुणं ति एदस्स' अत्यविसेसस्स उवरि सुत्तणिबद्धस्स दंसणादो । अंतोप्पुहुत्तगुणसंकमकालभंतरावूरिद'सम्मत्तसव्वदव्वसंदोहादो गुणसंकमकालचरिमेग-समयपडिच्छिदसम्माभिच्छत्तपदेसपु'जस्स असंखेज्जगुणत्तवलादीदो च ततो तस्स तहा-भावो ण विरुज्झदे ।

❁ अपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

१८२. एत्थ कारणं बुच्चदे । तं जहा-सम्माभिच्छत्तं मिच्छत्तसयल-दव्वस्स असंखे०भागो, गुणसंकमभागहारेण खंडिदेयखंडमेत्तसेव मिच्छत्तदव्वादो' सम्मत्त-सम्माभिच्छत्तसखेण परिणमणुवलंभादो । अपच्चक्खाणमाणो. पुण मिच्छत्त-सरिसो चेव, पयडिविसेसस्स अप्पाहणियादो । तदो मिच्छत्तस्स असंखे०भागमेत्त-सम्माभिच्छत्तदव्वादो थोरुचपण मिच्छत्तसरिसअपच्चक्खाणमाणपदेससंतकम्ममसंखेज्ज-गुणं ति ण एत्थ संदेहो । को गुणगारो ? सव्वजहण्णगुणसंकमभागहारो ।

❁ कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १८३. पयडिविसेसेण पुत्तिव्वल्लदव्वे आवलियाए असंखे०भागेण खंडिदे तत्थेयखंडपमाणेण ।

तथा उसी समयमें सम्यग्मिध्यात्वमें संक्रमणको प्राप्त हुआ प्रदेशपिण्ड उससे असंख्यातगुणा है इस प्रकार यह अर्थविशेष आगे सूत्रमें निबद्ध हुआ देखा जाता है । तथा गुणसंक्रमके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण कालके भीतर जो द्रव्यसमूह सम्यक्त्वको मिलता है उससे गुणसंक्रम कालके अन्तिम एक समयमें सम्यग्मिध्यात्वमें संक्रान्त हुआ प्रदेशपुञ्ज असंख्यातगुणा है, इसलिए संक्रम भागहारके उस प्रकारके होनेमें विरोध नहीं आता ।

* उससे अप्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ १८२. यहाँ पर कारणका कथन करते हैं । यथा—सम्यग्मिध्यात्वका द्रव्य मिध्यात्वके समस्त द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योंकि गुणसंक्रम भागहारका भाग देने पर लब्ध एक भागप्रमाण द्रव्य ही मिध्यात्वके द्रव्यमे से सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वरूपसे परिणामन करता हुआ उपलब्ध होता है । परन्तु अप्रत्याख्यान मानका द्रव्य मिध्यात्वके ही समान है, क्योंकि प्रकृतिविशेषकी प्रधानता नहीं है । इसलिए मिध्यात्वके असंख्यातवें भागप्रमाण सम्यग्मिध्यात्वके द्रव्यसे भौटे रूपसे मिध्यात्वके समान अप्रत्याख्यान मानका प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है इसमें सन्देह नहीं है । गुणकार क्या है ? सबसे जघन्य गुणसंक्रम भागहार गुणकार है ।

* उससे अप्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १८३. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है । यहाँ पूर्वोक्त द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

१. ता०प्रती 'असंखेज्जगुणं एदस्स' इति पाठः । २. ता०प्रती 'गुणसंकमविहाल्लभंतरा-परिद' इति पाठः । ३. ता०प्रती 'मिच्छत्तादो दव्वादो' इति पाठः ।

❀ **मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ १८४. कुदो ? पयडिविसेसादो ? केत्तियमेत्तेण ? कोधदव्वमावळियाए असंखे-
भागेण खंडेयूण तत्थेयखंडमेत्तेण । एदं कुदो णव्वदे ? परमगुरुणमुव्वदेसादो । ण
चप्पलओ', णाणत्रिष्णाणसंपण्णाणं तेसि भयवताणं मुसावादे पयोजणाभावादो ।

❀ **लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ १८५. कुदो, पयडिविसेसेण, पुव्वुत्तपमाणेण पयडिविसेसादो चेय एदस्स
अहियत्तुवलांभादो ।

❀ **पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

§ १८६. जइ वि सव्वेसि कसायाणमोघुक्कस्सपदेससंतकम्मसामियणेरइयचर-
जीवे पच्चआयदपंचिदियतिरिक्खभदग्गाहणम्मि एइदिएसुप्पण्णपट्टमसमए चट्टमाणम्मि
अक्केमेण सामित्तं जादं तां वि विस्सतादो चेय पुच्चिक्खादो एदस्स विसेसाहियत्तं
पडिक्खजेयव्वं, जिणाणमण्णहावाइत्तादो । ण हि रागादिअविज्जासंधुम्मुका जिणिंदा
वितथमुव्वइसंति', तेसु तक्कारणाणमणुव्वलदीए ।

❀ **कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।**

* उससे अप्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १८४. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है । कितना अधिक है ? क्रोधके द्रव्यमें आवलिके
असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—परम गुरुके उपदेशसे जाना जाता है । परन्तु वे चपल नहीं हो सकते, क्योंकि
ज्ञान-विज्ञान सन्पन्न भगवत्स्वरूप उनके मृपा भाषण करनेका कोई प्रयोजन नहीं है ।

* उससे अप्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १८५. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है, अतः प्रकृतिविशेष होनेके कारण ही इसका प्रमाण
पूर्वोक्त प्रकृतिके प्रमाणसे अधिक पाया जाता है ।

* उससे प्रत्याख्यान मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १८६. यद्यपि सभी कथायुक्तोंको ओघसे उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म नारकियोंके अन्तिम समयमें
प्राप्त होता है, इसलिये वहाँसे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें भव धारण करनेके बाद एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न
होने पर उसके प्रथम समयमें विद्यमान रहते हुए सबका एक साथ उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त हुआ
है तो भी स्वभावसे ही पहलेकी प्रकृतिके इसका द्रव्य विशेष अधिक जानना चाहिए, क्योंकि
जिनदेव आन्यथावादी नहीं होते । तात्पर्य यह है कि रागादि अविद्या संघसे रहित जिनेन्द्रदेव
अस्त्य उपदेश नहीं करते, क्योंकि उनमें असत्य उपदेश करनेका कारण नहीं पाया जाता ।

* उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

१. आ० प्रती 'अपकलओ' इति पाठः । २. आ० प्रती 'वितथ (य) मुव्वइसंति' आ० प्रती
'वितथमुव्वइसंति' इति पाठः ।

§ १८७. कुदो ? सहावविसेसादो । न हि भावस्वभावाः पर्य्यनुयोज्याः, अन्यत्रापि तथातिप्रसङ्गात् । विशेषप्रमाणं सुगमं, असकृद्विमृष्टत्वात् ।

✽ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १८८. सुगममेदं, पयडिविसेसवसेण तहाभावुलंभादो ।

✽ लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १८९. एदं पि सुगमं, विस्ससापरिणामस्स तारिसत्तादो ।

✽ अणंताणुबंधिमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १९०. पयडिविसेसेण आवल्लियाए^१ असंखे०भागपडिभागिणण । कुदो ? पयडिविसेसादो ।

✽ कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १९१. सुगममेदं, पयडिविसेसेण तहावट्ठिदत्तादो ।

✽ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १९२. विस्ससादो आवल्लियाए असंखे०भागेण खंडिदपुव्विल्लदव्वमेत्तेण

§ १८७. क्योंकि ऐसा स्वभावविशेष है । और पदार्थोंके स्वभाव शंका करने योग्य नहीं होते, क्योंकि अन्यत्र वैसा मानने पर अतिप्रसङ्ग दोष आता है । विशेषका प्रमाण सुगम है, क्योंकि उसका अनेक वार परामर्श कर आये हैं ।

✽ उससे प्रत्याख्यान मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १८८. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि प्रकृतिविशेष होनेके कारण उसरूपसे उसकी उपलब्धि होती है ।

✽ उससे प्रत्याख्यान लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १८९. यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि स्वभावसे इसका इसप्रकारका परिणामन होता है ।

✽ उससे अनन्तानुबन्धी मानमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १९०. कारण कि प्रकृतिविशेष आवल्लिके असंख्यातवें भागके प्रतिभागरूपसे है, क्योंकि प्रकृतिविशेष है ।

✽ उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १९१. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि प्रकृतिविशेष होनेके कारण यह उस प्रकारसे अचस्थित है ।

✽ उससे अनन्तानुबन्धी मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १९२. क्योंकि पूर्वोक्त प्रकृतिके द्रव्यमें आवल्लिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना इसमें स्वभावसे अधिक उपलब्ध होता है ।

अहियत्तुवलंभादो । एदं कुदो णव्वदे ? परमाइरियाणमुवएसदो ।

❀ लोभे उक्कस्सपदे ससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६३. सुगममेत्थ कारणं, अणंतरणिहिट्ठादो ।

❀ मिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६४. जदि वि दोण्हमेदासिं पयडीणमेयत्थ चेव' गुणिदकम्मंसियणेरइयचर-
पच्छायदपंचिदियतिरिक्खभवग्गहणमिच्छाइडिजीवे एइंदिएसुप्पणपढमसमयसंठिदे
साभितं जादं तो विं पयडिबिसेसेण विसेसाहियत्तं मिच्छत्तस्स ण विरुद्धदे, बज्झ-
कारणादो अब्भंतरकारणस्स बलिंठ्ठादो ।

❀ हस्से उक्कस्सपदेससंतकम्ममणंतगुणं ।

§ १६५. कुदो ? संवघाइत्तेण पुब्बुत्तासेसपयडीणं पदेसपिंडस्स देसघादि-
हस्सपदेसपुंजं पेक्खियूणाणंतिमभागत्तादो । णेदमसिद्धं, भागाभागपरूवणाए तथा
साहियत्तादो ।

❀ रवीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६६. जइ वि दोण्हमेदासिं पयडीणं बंधगद्धाओ सरिसाओ तो वि पयडि-

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—परम, आचार्यों के उपदेशसे जाना जाता है ।

❀ उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६३. यहाँ कारणका निर्देश सुगम है, क्योंकि उसका अनन्तर निर्देश कर आये हैं ।

❀ उससे मिथ्यात्वमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६४. यद्यपि अनन्तानुबन्धी लोभ और मिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियोंका गुणित
कर्मांशिक नारकियोंमें से आकर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च मिथ्यादृष्टि होनेके बाद एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न
होनेके प्रथम समयमें स्थित रहते हुए एक ही स्थानमें उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त हुआ है तो भी
प्रकृतिविशेष होनेके कारण मिथ्यात्वके द्रव्यका विशेष अधिक होना विरोधको नहीं प्राप्त होता,
क्योंकि बाह्य कारणकी अपेक्षा आभ्यन्तर कारण बलिष्ठ होता है ।

❀ उससे हास्यमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है ।

§ १६५. क्योंकि पूर्वोक्त अशेष प्रकृतियाँ सर्ववाति हैं । उनका प्रदेशपिण्ड देशवाति
हास्य प्रकृतिके प्रदेशपुंजकी अपेक्षा अनन्तवें भागप्रमाण है । और यह असिद्ध नहीं है, क्योंकि
भागाभागपरूपणामें उस प्रकारसे सिद्ध कर आये हैं ।

❀ उससे रतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६६. यद्यपि इन दोनों प्रकृतियोंका बन्धक काल समान है तो भी, प्रकृतिविशेष होनेके

विसेसासेज्ज विसेसाहियत्तं ण विरुद्धं, इक्कयाणकाले चैय तद्वाभावेण परिणाम-
दंशणादो ।

❁ इत्थिवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं सखेज्जगुणं ।

§ १६७. कुरवेसु हस्स-रदिवंधगद्धादो संखेज्जगुणसगबंधगद्धाए इत्थिवेदं पूरेज्जण
दसवस्ससहस्साज्जवेत्तु थोवयरद्वमथद्विदीए गालेयूण एइंदपसुप्पणपठमसमय-
महियद्वियजीवम्मि तस्स तदो संखेज्जगुणत्तुवत्तंभादो ।

❁ सोगे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६८. सुगममेदं, ओघपरुद्विदबंधगद्धाविसेसवसेण संखे०भागवभद्वियत्तुव-
त्तंभादो ।

❁ अरदीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ १६९. सुगमं, पयडिविसेसस्स असइं परुद्विदत्तादो ।

❁ णवुंसयवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २००. कुदो ईसाणदेवाणमरदि-सोगबंधगद्धादो विसेसाहियतत्थतणतस-
थावरबंधगद्धासबंधिणवुंसयवेदबंधकाले संचिदत्तादो ।

कारण इसका विशेष अधिक होना विशेषको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इस प्रकृतिरूप बन्ध होते
समय या संकनण होते समय ही इस प्रकारका परिणयन देखा जाता है ।

❁ उससे स्त्रीवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ १६७. क्योंकि जो जीव देवकुरु और उत्तरकुरुमें हास्य और रतिके बन्धक कालसे
संख्यातगुणे अपने बन्धक कालके भीतर स्त्रीवेदको पूरकर अनन्तर दस हजार वर्षकी आयुवाले
देवोंमें अधःस्थितिगलनाके द्वारा अत्यन्त स्तोत्र द्रव्यको गला कर एकैन्द्रियों उत्पन्न होता
है उसके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें स्थित रहते हुए स्त्रीवेदमें रतिके द्रव्यसे संख्यातगुणा
द्रव्य पाया जाता है ।

❁ उससे शोकमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६८. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि ओघमें कहे गये बन्धक काल विशेषके वशसे
शोकमें संख्यातवौं भाग अधिक द्रव्य उपलब्ध होता है ।

❁ उससे अरतिमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ १६९. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि प्रकृतिविशेषरूप कारणका अनेक बार कथन कर
आये हैं ।

* उससे नपुंसकवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २००. क्योंकि ईशान कल्पके देवोंमें अरति और शोकके बन्धक कालसे वहाँ के इस
और स्थावरके बन्धककालसम्बन्धी विशेष अधिक कालमें नपुंसकवेदका सञ्चय होता है ।

❁ दुगुं छाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २०१. धुवबंधित्तेण इत्थि-पुरिसवेदबंधगद्धासु वि संचज्वलंभादो ।

❁ भए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २०२. कुदो ? पयडिविसेसादो ।

❁ पुरिसवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २०३. केत्तियमेत्तेण ? भयदव्वमावलियाए असंखेज्जदिभाएण खंडेयुण तत्थेयखंडमेत्तेण । कुदो ? सोहम्मे सम्मत्तपहावेण धुवबंधित्ते संते पुरिसवेदस्स पयडि-विसेसादो अहियत्तुवलंभादो ।

❁ माणसंजलण्ये उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २०४. के०मेत्तेण ? पुरिसवेददव्वचउव्वभागमेत्तेण । सेसं सुगमं ।

❁ कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २०५. एत्थ पुण्विज्जलसुत्तादो संजलणगहणमणुवट्टे । पयडिविसेसादो च विसेसाहियत्तं । सेसं सुगमं ।

❁ मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

* उससे जुगुप्सामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २०१. क्योंकि ध्रुवबन्धी होनेसे इसका स्त्रीवेद और पुरुषवेदके बन्धक कालोंमें भी सख्य उपलब्ध होता है ।

* उससे भयमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २०२. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है ।

* उससे पुरुषवेदमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २०३. कितना अधिक है ? भयके द्रव्यमें आचलिके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है, क्योंकि सौधर्म कल्पमें सम्यक्त्वके प्रभाववशा पुरुषवेद ध्रुवबन्धी हो जाता है, इसलिए प्रकृतिविशेष होनेके कारण उसमें अधिक द्रव्य उपलब्ध होता है ।

* उससे मानसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २०४. कितना अधिक है ? पुरुषवेदके द्रव्यका एक चौथाई अधिक है । शेष कथन सुगम है ।

* उससे क्रोधसंज्वलनमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २०५. यहाँ पर पूर्वके सूत्रसे संज्वलन पदकी अनुवृत्ति होती है और प्रकृतिविशेष होनेके कारण इसका द्रव्य विशेष अधिक सिद्ध होता है । शेष कथन सुगम है ।

* उससे संज्वलन मायामें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❀ लोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २०६. एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि, पयडिविसेसमेत्तकारणत्तादो' । एवं जाव अणाहारए त्ति सुत्ताविरोहेण आगमणिउणेहि उक्कस्सप्पावहुअं चितिय पेदव्वं । किमट्ठमेदस्स एइंदियउक्कस्सपदेसप्पावहुअदंडयस्स देसामासियभावेण संगहियासेस-मग्गणाविसेसस्स विसेसपरूवणा तुम्हेहि ण कीरदे? ण, सुगमत्थपरूवणाए फळाभावेण तदकरणादो । ण सेसमग्गणप्पावहुअपरूवणाए सुगमत्तमसिद्धं, ओघगइमग्गणेइंदिय-दंडएहि चेव सेसासेसमग्गणाणं पाएण गयत्थत्तदंसणादो । संपहि उक्कस्सप्पावहुअ-परिसमत्तिसमणंतरं जहावसरपत्तजहण्णपदेसप्पावहुअपरूवणट्ठं जइवसहभयवंतो पइज्जासुत्तमाह ।

❀ जहण्णदंडओ ओघेण सकारणो भण्हिहिदि ।

§ २०७. एदस्स वत्तव्वपइज्जासुत्तस्स अत्थविवरणं कस्सामो । तं जहा—अप्पावहुअं दुविहं—जहण्णमुक्कस्सयं चेदि । तदुभयविसेसयत्तेण दंडयाणं पि तव्ववएसो । तत्थ सउक्कस्सदंडयपडिसेहफलो जहण्णदंडयणिदे सो । जइ एवं ण वत्तव्वमेदं, उक्कस्स-

❀ उससो संज्वलन लोभमें उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २०६ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं, क्योंकि विशेष अधिकका कारण प्रकृति विशेषमात्र है । इस प्रकार आगममें निपुण जीवोंको सूत्रके अविरोधरूपसे अनाहारक मार्गणा तक उत्कृष्ट अल्पबहुत्वका विचार कर ले जाना चाहिए ।

शंका—देशामर्षकरूपसे जिसमें समस्त मार्गणासम्बन्धी विशेषता का संग्रह हो गया है ऐसे इस एकेन्द्रियसम्बन्धी उत्कृष्ट प्रदेश अल्पबहुत्व दण्डककी विशेष प्ररूपणा आप क्यों नहीं करते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि इसकी अर्थप्ररूपणा सुगम है, उसका कोई फल नहीं है, इस लिए अलगसे प्ररूपणा नहीं की है । यदि कहा जाय कि शेष मार्गणाओंमें अल्पबहुत्वप्ररूपणाकी सुगमता असिद्ध है सो भी वात नहीं है, क्योंकि ओघदण्डक, गतिमार्गणादण्डक और एकेन्द्रिय-दण्डकके कथनसे प्रायः कर समस्त मार्गणाओंका ज्ञान देखा जाता है ।

अब उत्कृष्ट अल्पबहुत्वकी समाप्तिके अनन्तर यथावसर प्राप्त जघन्य प्रदेशअल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए यतिवृषभ भगवान् प्रतिज्ञासूत्र कहते हैं—

❀ जघन्य दण्डक कारण सहित ओघसे कहेंगे ।

§ २०७. इस वक्तव्यरूप प्रतिज्ञासूत्रके अर्थका विवरण करते हैं । यथा—अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । इन दोनोंसे विशेषित होकर दण्डकोंकी भी वही संज्ञा है । उनमेंसे जघन्य दण्डकके निर्देश करनेका फल अपने उत्कृष्ट दण्डकका निषेध करना है ।

शंका—यदि ऐसा है तो 'जघन्य दण्डक' पदका निर्देश नहीं करना चाहिए, क्योंकि

१. ता०प्रतौ '-विसेसकारणत्तादो' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'स (य) उक्कस्स-' इति पाठः ।

दंडयस्स पुन्वमेव परुविदत्तादो पारिसैसियण्णाएण एदस्स अणुत्तसिद्धीदो त्ति ? ण एस दोसो, मंदबुद्धिसिस्साणुग्गहट्ठं तथा परुवणादो । अदो चेव एदस्स वि पइज्जासुत्तस्स सदाणुसारिसिस्सस्स पोच्छाहणफलस्स उवण्णासो सहलो, अण्णाहा पेक्खापुन्वयारीणमणादरणीयत्तादो । एदेण सव्वसत्ताणुग्गहकारित्तं भयवंताण सूचिदं । अहवा जहण्णसामित्तमि परुविदअजहण्णट्ठाणवियप्पाणमणंतभेयभिण्णाणं गिरायरणहं जहण्णदंडयणिहेसो त्ति वत्तवं ।

§ २०८. तस्स दुविहो णिहेसो --ओघेण आदेसेण य । तत्थ आदेसंबुदासट्ठमोघेणे त्ति वयणं । वक्खाणकारयाणमाइरियाणं पोच्छाहणफलां सकारणो भणिहिदि त्ति सुत्तावयवणिहेसो, अण्णाहा अवलंबणाभावेण छट्ठमत्थाणं थोवबहुत्तकारणावगमणपरुवणाणं तंतजुत्तिविरयाणमणुववत्तीदो । दिसादरिसणमेत्तं चेदं, सम्मत्तजहण्णपदेससंतकम्मादो सम्माभिच्छत्तजहण्णपदेससंतकम्भवहुत्तमेत्ते चेव उवरिमपदाणं बीजपदभावेण सुत्ते कारणपरुवणादो । एत्थ सह कारणेण वट्टमाणो जहण्णदंडओ ओघेण भणिहिदि त्ति पदसंबंधो कायव्वो । सेसं सुगमं ।

✽ सव्वत्थोवं सम्मत्ते जहण्णपदेससंतकम्मं ।

उत्कृष्ट दण्डकका पहले ही कथन कर आये है, इसलिए पारिशेष न्यायके अनुसार बिना कहे ही इसकी सिद्धि हो जाती है ?

समाधान — यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि भन्दबुद्धि शिष्यका अनुग्रह करनेके लिए उस प्रकारसे कथन किया है और इसीसे ही शब्दानुसारी शिष्यकी पृच्छाके फलस्वरूप इस प्रतिज्ञासूत्रका भी उपन्यास सफल है, अन्यथा प्रेक्षापूर्वक व्यवहार करनेवालोंके लिए यह आदरणीय नहीं हो सकता । इससे भगवान् सब जीवोंका अनुग्रह करनेवाले होते हैं यह सूचित होता है । अथवा जघन्य स्वाभित्वके समय कहे गये अनन्त भेदोंके लिए हुए अजघन्य स्थानोंके विकल्पोंका निराकरण करनेके लिए सूत्र में 'जघन्य दण्डक' पदका निर्देश करना चाहिए ।

§ २०८. उसका निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे आदेश निर्देशका निराकरण करनेके लिए सूत्रमें 'ओघसे' पदका निर्देश किया है । व्याख्यानकारक आचार्योंकी पृच्छाके फलस्वरूप 'संकरण कहेंगे' इस सूत्रावयवका निर्देश किया है, अन्यथा अल्पबहुत्तके कारणका जो भी ज्ञान है उसका कथन छद्मस्थोंके बिना अवलम्बनके आगमयुक्ति पुरस्सर है यह नहीं बन सकता । यह सूत्र दिशाका आभासमात्र करता है, क्योंकि सम्यक्त्वके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे सम्यग्निर्मधात्वका जघन्य प्रदेशसत्कर्म बहुत है इतने मात्रसे उपरिम पद बीजपदरूपसे सूत्रमें कारणका निरूपण करते हैं । यहाँ पर कारण सहित विद्यमान जघन्य दण्डक ओघसे कहेंगे इस प्रकार पदसम्बन्ध करना चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

✽ सम्यक्त्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म सबसे स्तोत्र है ।

§ २०६. एदस्स जहणप्पावहुअदंडयमूलसुत्तस्स अवयवत्थपरुवणं कस्सामो । तं जहा—सव्वेहितो उवरि बुच्चमाणासेसपयडिजहणपदेसपडिवद्धपदेहितो थोवमप्पयरं सव्वथोवं । किं तं ? सम्मत्ते^१ जहणपदेससंतकम्मं । एत्थ सेसपयडिपडिसेहफलो सम्मत्तणिद्दसो ; जहणणिद्दसो अजहणणादित्रियप्पणिवारणफलो । द्विदि-अणुभागादिवुदासट्ठो पदेसणिद्दसो । बंधादिविसेसपडिसेहद्धं संतकम्मं ति वयणं । खविदकम्मंसियलक्खणेणागतूण णिरदिचारेहि असिधाराचरियाए कम्मट्ठिदि-भेतकालं संचरिय थोवाउएसु असणिणपंचिदिएसुववज्जिय देवाउअबंधवसेण देवेसुप्पज्जिय छप्पज्जितिसमागणवावारेण अंतोमुहुत्ते गदे उक्कस्सअपुव्वकरणादिपरिणामेहि गुणसेट्ठि-णिज्जरमुक्कस्सं काऊण उवसमसम्मत्तलभपढमसमयप्पहुडि सव्वजहणगुणसंकमकालेण सव्वुकस्सगुणसंकमभागहारेण च थोवयरं मिच्छत्तदव्वं सम्मत्तसरुवेण परिणमाविय वेदगसम्मत्तं पडिवज्जिय वेद्धावट्ठिसागरोवमाणि परिभमिय मिच्छत्तं गंतूण दीहुव्वेज्जण-कालेणुव्वेज्जिय सम्मत्तचरिमफालिं मिच्छत्तसरुवेण परिणमाविय एगणिसेगं हुसमय-कालं धरेयुगं द्विदजीवस्स य सम्मत्तजहणपदेससंतकम्मं सेसपयडिजहणपदेसेहितो^२

§ २०६. जघन्य अल्पबहुत्व दण्डकके मूलरूप इस सूत्रके अचयवोके अर्थका कथन करते हैं। यथा—सबसे अर्थात् आगे कही जानेवाली सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंसे सम्बन्ध रखनेवाले प्रदेशोंसे स्तोत्र अर्थात् अल्पतर सर्वस्तोक बहलाता है। वह सर्वस्तोक क्या है? सम्यक्त्वमें जघन्य प्रदेशस्तकर्म। यहाँ सम्यक्त्व पदके निर्देशका फल शेष प्रकृतियोंका प्रतिषेध करना है। जघन्य पदके निर्देश करनेका फल अजघन्य आदि विकल्पोंका निवारण करना है। स्थिति और अनुभाग आदिका निवारण करनेके लिए 'प्रदेश' पदका निर्देश किया है। बन्ध आदि विरोधोका निषेध करनेके लिए 'सत्कर्म' यह वचन दिया है। जो क्षापितकर्मांशिक विधिसे आकर निरतिचाररूपसे असिधारा चर्याके द्वारा कर्मस्थितिप्रमाण काल तक परिभ्रमण करके पुनः स्तोत्र आयुवाले असंज्ञी पञ्चोन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर और देवायुका बन्ध होनेसे देवोंमें उत्पन्न होकर छह पर्याप्तियोंको पूर्ण करने रूप व्यापारके द्वारा अन्तर्मुहूर्त काल जाने पर अपूर्वकरण आदि परिणामोके द्वारा उत्कृष्ट गुणश्रेणिनिर्जण करके उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर सबसे जघन्य गुणसंक्रम काल और सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रमभागहारके द्वारा मिथ्यात्वके स्तोत्रतर द्रव्यको सम्यक्त्वरूपसे परिणामा कर अनन्तर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर उसके साथ दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करके अनन्तर मिथ्यात्वमें जाकर सबसे दीर्घ उद्वेलना कालके द्वारा अन्तमे सम्यक्त्वकी अन्तिम फालिको मिथ्यात्वरूपसे परिणामा कर दो समय कालकी स्थितिवाले एक निषेधको धारण कर स्थित है उसके सम्यक्त्वका जघन्य प्रदेशसत्कर्म शेष प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंको देखते हुए स्तोत्रतर होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

शंका—इसका स्तोत्रपना कैसे है ?

१. ता०प्रतौ किं (तं) सम्मत्ते आ०प्रतौ किं सम्मत्ते इति पाठः । २. ता०प्रतौ '—जहण्य-पदेहितो' इति पाठः ।

थोवरं ति वुत्तं होदि । कुदो एदस्स थोवत्तं ? ओकङ्कुक्कणभागहारगुणिदग्गुणसंक्र-
मुक्कस्सभागहारपदुप्पण्णाए वेज्जावट्टिसागरोवमणाणागुणहाणिसत्तागाणमण्णोण्णब्भत्थ-
रासीए दीहुव्वेज्जकालब्भंतरणाणागुणहाणिसत्तागाणमण्णोण्णब्भत्थरासिणा चरिम-
फालिआयामेण च गुणिदाए ओवट्टिददिवड्ढुगुणहाणिमेत्तेईदियंसमयपवद्धपमाणत्तादो ।
एदं च दव्वं उवरिमपयडिपदेसेहितो थोवरत्तस्स णायसिद्धत्तादो । हींतं वि सव्वत्थोव-
मसंखेज्जसययपवद्धपमाणं ति घेत्तव्वं, हेट्ठिमासेसभागहारकलावादो समयपवद्धगुणगार-
भूददिवड्ढुगुणहाणीए असंखेज्जगुणत्तादो । समयपवद्धगुणगारकारणो जहण्णदंडओ
भणिहिदि ति पइज्जं काऊण एदस्स मूलपदस्स थोवत्ते कारणमभणंतस्स सुत्तयारस्स
पुव्वावरविरोहदोसो ति णासंक्कणिज्जं, थोवादो एदम्हादो अण्णोसिं वहुत्तकारण-
परूवणाए सुत्तयारेण पइण्णाए कदत्तादो । सुगमं वा एत्थ कारणमिदि तदपरूवण-
माइरियभडारयस्स ।

❀ सम्मामिच्छत्ते जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २१०. कुदो ? सम्मत्तस्स पमाणेगेगट्ठिदीहितो सम्मामिच्छत्तपमाणेगेग-
ट्ठिदीणमसंखेज्जगुणत्तुव्वलंभादो । कुदो उभयत्थ भज्ज-भागहारारणं सरिसत्ते संते सम्मत्त-

समाधान—अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारका गुणसंक्रम भागहारके साथ गुणा कर जो
लब्ध आवे उससे उत्पन्न हुई जो दो छयासठ सागरोंकी नानागुणहानि शलाकाओंकी अन्योन्या-
भ्यस्तराशि उसे दीर्घ उद्वेलन कालके भीतर नानागुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिसे
और अन्तिम फालिके आयामसे गुणित करने पर जो लब्ध आवे उसका डेढ़ गुणहानिमात्र
एकेन्द्रियोके समयप्रबद्धोंमें भाग देने पर इसका प्रमाण आता है और यह द्रव्य उपरिम
प्रकृतियोंके प्रदेशोंसे स्तोकोत्तर है यह न्यायसिद्ध है । यह सबसे स्तोको होता हुआ भी असंख्यात
समयप्रबद्धप्रमाण है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए. क्योंकि नीचेके समस्त भागहारकलापसे
समयप्रबद्धकी गुणकारभूत डेढ़ गुणहानि असंख्यातगुणी है ।

शंका—समयप्रबद्धके गुणकारके कारणके साथ जघन्य दण्डक कहेंगे ऐसी प्रतिज्ञा
करके इस मूलपदके स्तोकोपनेके कारणको नहीं कहनेवाले सूत्रकार पूर्वापर विरोधरूप दोषके भागी
ठहरते हैं ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूत्रकारने स्तोकरूप सम्यक्त्वके
द्रव्यसे अन्य प्रकृतियोंके द्रव्यके बहुत होनेका कारण कहेंगे ऐसी प्रतिज्ञा की है । अथवा यहाँ पर
कारण सुगम है, इसलिए आचार्य भट्टारकने उसका कथन नहीं किया ।

❀ उससे सम्यग्मिध्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २१०. क्योंकि सम्यक्त्वप्रमाण एक एक स्थितिसे सम्यग्मिध्यात्वप्रमाण एक एक स्थिति
असंख्यातगुणी उपलब्ध होती है ।

शंका—उभयत्र भण्यमान और भागहारराशिके समान होते हुए सम्यक्त्व और

गुणहाणीओ संभवति तो तासिमण्णोण्णम्भत्थरासी गुणसंकमभागहारेण किं सरिसी संखेज्जगुणा असंखेज्जगुणा संखेज्जगुणहीणा असंखेज्जगुणहीणा वा त्ति ण गिच्छओ काळं सक्किज्जदि । तथा च कथमेदस्स असंखेज्जगुणत्तं परिद्विज्जदे ? ण च तत्थ असंखेज्जाओ गुणहाणीओ णत्थि चेवे त्ति वोत्तुं जुत्तं, तदभावग्गाहयपमाणशुव-लंभादो त्ति । एवं विरुद्धबुद्धीए सिस्सेण कारणविसयाए पुच्छाए कदाए कारण-परूवणादुवारेण तस्संदेहणिरायरणद्वमुत्तरसुत्तमाइरिओ भणदि—

❁ सम्मत्तो उव्वेल्लिदे सम्माभिच्छत्तं जेण कालेण उव्वेल्लोदि एदम्मि काले एकं पि पदेसगुणहाणिद्वान्तरं णत्थि एदेण कारणेण ।

§ २१२. एदस्स सुत्तस्स अवयवत्थो सुगमो । एत्थ पुण पदसंबंधो एवं कायव्वो । सम्मत्ते उव्वेल्लिदे संते जेण कालेण सम्माभिच्छत्तमुव्वेल्लेदि एदम्मि काले एकं पि पदेसगुणहाणिद्वान्तरं जेण णत्थि एदेण कारणेण सम्मत्तादो, सम्मा-भिच्छत्तस्स असंखेज्जगुणत्तं ण विरुद्धभदे इदि । जइ वि पुव्वमेव सम्मत्तसंतकम्मे जहण्णे जादे पत्तिदोवमस्स असंखे०भागमेत्तमद्धानमुवरि गंतूण सम्माभिच्छत्तपदेस-संतकम्मं जहण्णं जादं तो वि तदो तस्स असंखेज्जगुणत्तं जुज्जदे, तस्स कालस्स एग-गुणहाणीए असंखे०भागत्तेण तेत्तियमेत्तमद्धानं गदस्स वि थोवयरगोवुच्छाविसैसाणं

भीतर असंख्यात गुणहानियाँ सम्भव होवें तो उनकी अन्योन्याभ्यस्तराशि गुणसंक्रमभागहारके क्या समान होती है या संख्यातगुणी होती है या असंख्यातगुणी होती है या संख्यातगुण हीन होती है या असंख्यातगुण हीन होती है यह निश्चय करना शक्य नहीं है और ऐसी अवस्थामें इसका असंख्यातगुणा होना कैसे जाना जाता है ? वहाँ असंख्यात गुणहानियाँ नहीं ही हैं ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि उनके अभावका ग्राहक प्रमाण नहीं उपलब्ध होता । इस प्रकार विरुद्ध बुद्धिवाले शिष्यके द्वारा कारणविषयक पुच्छा करने पर कारणकी प्ररूपणा द्वारा उसके सन्देहका निराकरण करनेके लिए आचार्य आगोका सूत्र कहते हैं—

❁ इसका कारण यह है कि सम्यक्त्वकी उद्वेलना होने पर जितने कालमें सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना होती है उस कालके भीतर एक भी प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर नहीं है ।

§ २१२. इस सूत्रका अवयवरूप अर्थ सुगम है । यहाँ पर पदसम्बन्ध इस प्रकार करना चाहिए—सम्यक्त्वकी उद्वेलना हो जाने पर जितने काल द्वारा सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना करता है इस कालमें यतः एक भी प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर नहीं है इस कारणसे सम्यक्त्वके द्रव्यसे सम्यग्मिध्यात्वके द्रव्यका असंख्यातगुणा होना विरोधको प्राप्त नहीं होता । यद्यपि सम्यक्त्वका सत्कर्म पहले ही जघन्य हो गया है और उससे पत्त्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान आगे जा कर सम्यग्मिध्यात्वका प्रदेशसत्कर्म जघन्य हुआ है तो भी सम्यक्त्वके द्रव्यसे सम्यग्मिध्यात्वका द्रव्य असंख्यातगुणा है यह बात बन जाती है, क्योंकि वह काल एक गुणहानिके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए उतने स्थान जाकर भी बहुत थोड़े गोपुच्छाविशेषोंकी ही हानि देखी जाती है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

परिहाणितं सणादो चि युक्तं होदि । एदम्मि अद्धाणे पदेसगुणहाणिद्वान्तंरं णत्थि
 एदं कुदो परिच्छिज्जदे ? एदम्हादो चेव जिणवयणादो । ण च पमाणं पमाणंतर-
 २, अणवत्थापसंगादो । ण च एदस्स पमाणत्तं सज्झसमं, जिणवयणत्तण्णाहा-
 णुववत्तीदो एदस्स पमाणभावसिद्धीदो । कथं सज्झ-साहणाणमेयत्तमिदि ण पच्चवट्ठेयं,
 स-परप्पयासयपदीव-पमाणादीहि परिहरिदत्तादो । तदो सुत्तं पमाणत्तादो पमाण-
 तरणिवेक्खमिदि सिद्धं ।

❁ अणंतागुणंधिमाणे जह्वणपदे ससं तकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २१३. एत्थ समणंतरादीददेसामासियमुत्तेण आदिदीवयभावेण सूचिदं
 कारणपरुवणं भणिस्सामो । तं जहा—दिवट्टगुणाहाणिगुणिदेगेइंदियसमयपवद्धे
 अंतोमुहुत्तोवट्टिदओकुट्टुकुट्टुण-अधापवत्तभागहारेहि वेळावट्टिअब्भंतरणाणागुणहाणि-
 सत्तागाणमण्णोण्णवत्थरासिणा च चरिमफालिगुणिदेणोवट्टिदे असंखेज्जसमयपवद्ध-
 पमाणमणंतागुणंधिमाणजह्वणदव्वमागच्छदि । एदं पुण पुत्तिवत्तजह्वणदव्वादो
 अमंखेज्जगुणं, तत्थ इह बुत्तासेसभागहारेसु संतेसु दीहुव्वेत्तणकालब्भंतरणाणागुणहाणि-

शंका—इस अध्यानमें प्रदेशगुणाहानिस्थानान्तर नहीं है यह किस प्रमाणसे जाना
 जाता है ।

समाधान—इसी जिनवचनसे जाना जाता है । और एक प्रमाण दूसरे प्रमाणकी
 अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि ऐसा होने पर अनवस्था दोष आता है । इसकी प्रमाणात्ता साध्यसम
 है यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि अन्यथा वह जिनवचन नहीं बन सकता, इसलिए उसकी
 प्रमाणात्ता सिद्ध है ।

शंका—साध्य और साधन एक ही कैसे हो सकता है ?

समाधान—ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दीपक और प्रमाण आदिक स्व-पर
 प्रकाशक होते हैं, इनसे उस शंकाका परिहार हो जाता है । इसलिए सूत्र प्रमाण होनेसे प्रमाणा-
 न्तरकी अपेक्षा नहीं करता यह सिद्ध हुआ ।

❁ उससे अनन्तानुबन्धी मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २१३. यहाँ पर इससे अनन्तर पूर्व कहा गया देशामर्षक सूत्र आदिदीपक भावरूप है,
 इसलिए उस द्वारा सूचित होनेवाले कारणका कथन करते हैं । यथा—डेड गुणहानिगुणित
 एकेन्द्रिय सम्बन्धी समयप्रवद्धमें अन्तमुहूर्तसे भाजित अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार, अधःप्रवृत्त-
 भागहार और अन्तिम फालिसे गुणित दो छयासठ सागरके भीतरकी नाना गुणहानिशला-
 काओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशि इन सबका भाग देने पर अनन्तानुबन्धी मानका असंख्यात
 समयप्रवद्धप्रमाण जघन्य द्रव्य आता है । परन्तु यह सन्यग्मिथ्यात्वके जघन्य द्रव्यसे
 असंख्यातगुणा है, क्योंकि यहाँपर यहाँ कहे गये समस्त भांगहार तो हैं ही । साथ ही दीर्घ उद्वेलना

१. आ०प्रती 'पच्चवट्टियं' इति पाठः । २. ता०प्रती 'एदेण पुत्तिवत्तजह्वणदव्वादो' इति पाठः ।
 १४

सलागाणमणोण्णभत्थरासिभांगहारस्स अहियत्तुवल्लंभादो । ण च अधापवत्तभागहारो तत्थ णत्थि त्ति तस्स तहाभावविरोहो आसंक्कणिज्जो, तदुज्जसे गुणसंक्रमभागहारस्स सच्चुक्कट्टस्सुवल्लंभादो । ण च अधापवत्तभागहारदो गुणसंक्रमभागहारस्स असंखेज्ज-गुणहीणत्तं, तहाभावपडिबंध्यमधापवत्तभागहारस्स असंखे०भागादो गुणसंक्रमभागहार-पडिभागियादो दीहुव्वेल्लणकालभंत्तरणाणागुणहाणिसलागाणमणोण्णभत्थरासिस्स असंखेज्जगुणत्तादो अणंताणुबंधिविसंजोयणचरिमफालीदो उव्वेल्लणचरिमफालीए असंखेज्जगुणत्तुवल्लंभादो च । एदं पि कुदो णव्वदे ? जहण्णट्टिदिसंक्रमप्पावहुए णिरयगइमग्गणापडिवद्धे अणंताणुबंधीणं विसंजोयणचरिमफालीए जहण्णभावमुव्वगय-जहण्णट्टिदिसंक्रमदो उव्वेल्लणाचरिमफालीए जहण्णभावंसम्मामिच्छत्तजहण्णट्टिदि-संक्रमस्स असंखेज्जगुणत्तपरुव्वयमुत्तादो । करणपरिणामेहि पत्तघादाणंताणुबंधिचरिम-फालीदो मिच्छादिट्टिपरिणामेहि घादिदावसेसिदसम्मामिच्छत्तचरिमफालीए असंखेज्ज-गुणत्तस्स णायसिद्धत्तादो च । तदो चेव सच्चुक्कट्टस्सुव्वेल्लणकालणोण्णभत्थरासीदो असंखे०गुणो गुणगारो एत्थ वक्खणाइरिएहि परुविदो ण विरुज्जभूदे । गुणसंक्रम-भागहारोवद्धिदधापवत्तभागहारदो चरिमफालिगुणगारस्स गुरुव्वएसवलेण असंखे०-

कालके भीतर नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिरूप भागहार अधिक उपलब्ध होता है । यदि कोई ऐसी आशंका करे कि वहाँ पर अधःप्रवृत्तभागहार नहीं है, इसलिए उसके उस प्रकारके माननेमें विरोध आता है सो ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी पूर्तिस्वरूप वहाँ पर सर्वोत्कृष्ट गुणसंक्रमभागहार उपलब्ध होता है । यदि कहा जाय कि अधः-प्रवृत्तभागहारसे गुणसंक्रमभागहार असंख्यातगुणा हीन होता है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उस प्रकारको प्रतिबन्ध करनेवाला अधःप्रवृत्तभागहार असंख्यातवै भागप्रमाण है, गुणसंक्रमभागहारका प्रतिभागी होनेसे दीर्घ उद्वेलना कालके भीतर नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशि असंख्यातगुणी है और अनन्तानुबन्धी विसंयोजनाकी अन्तिम फालिसे उद्वेलनाकी अन्तिम फालि असंख्यातगुणी उपलब्ध होती है ।

शंका—यह भी किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—तरकगतिमार्गणा से सम्बन्ध रखनेवाले जघन्य स्थितिसंक्रम अल्पबहुत्वके प्रकरणमें अन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाकी अन्तिम फालिमेंसे जघन्यपनेको प्राप्त हुआ सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिसंक्रम असंख्यातगुणा है ऐसा कथन करनेवाले सूत्रसे जाना जाता है ।

तथा करण परिणामोके द्वारा घातको प्राप्त हुई अनन्तानुबन्धीकी अन्तिम फालिसे मिथ्या-दृष्टिसम्बन्धी परिणामोंके द्वारा घात होकर शेष बची सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम फालि असंख्यात-गुणी होती है यह न्यायसिद्ध बात है और इसलिए ही यहाँ पर व्याख्यानाचार्योंके द्वारा सर्वो-त्कृष्ट उद्वेलनाकालकी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे असंख्यातगुणा कहा गया गुणकार विरोधको प्राप्त नहीं होता । गुणसंक्रमभागहारसे भाजित अधःप्रवृत्तभागहारसे अन्तिम फालिका गुणकार गुरुके

गुणतन्त्रुवगमादो । एसो च गुणमारो विगिदिगोबुच्छमवत्तंविद्य पखुविदो । परमत्थदो पुण ततो वि असंखे०गुणो पल्लिदो० असंखे०भागमेत्तो । एत्थ गुणमारो विगिदिगोबुच्छादो असंखेज्जगुणो, गुणसेदिगोबुच्छं मोत्तूण तिससे एत्थ पाहणिया-भावादो ।

❁ कोहे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २१४. एत्थ पुण्विल्लसुत्तादो अणंताणुबंधिग्गमहणमणुवट्टवेदव्वं । जइ वि अणंताणुबंधिचउक्कस्स समाणसामियत्तं तो वि पयडिविसेसवसेण विसेसाहियत्तं ण विरुज्जदे । सेसं सुगमं ।

❁ मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २१५. कारणमेत्थ सुगमं, अणतरपरुविदत्तादो ।

❁ लोभे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २१६. सुगममेदं सुत्तं, पयडिविसेसमेत्तकारणत्तादो ।

❁ मिच्छत्ते जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २१७. कुदो अणताणुबंधिलोभ-मिच्छत्ताणं अणंताणुबंधीणं मिच्छत्तभंगो ति सामित्तसुत्तवत्तंभेण समाणसामियाणमण्णोणं पेक्खियूण असंखेज्जगुणहीणाहिय-

उपदेशबलसे असंख्यातगुणा स्वीकार किया गया है। यह गुणकार विकृतिगोपुच्छाका अवलम्बन लेकर कहा गया है। परमार्थसे तो उससे भी असंख्यातगुणा है जो पत्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है। यहाँ पर गुणकार विकृतिगोपुच्छासे असंख्यातगुणा है, क्योंकि गुणश्रेणिगोपुच्छाको छोड़कर उसको यहाँ पर प्रधानता नहीं है।

* उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २१४. यहाँ पर पहलेके सूत्रसे अनन्तानुबन्धी पदको ग्रहण कर उसकी अनुवृत्ति करनी चाहिए। यद्यपि अनन्तानुबन्धी चतुष्कका स्वामी समान है तो भी प्रकृतिविशेष होनेसे विशेष अधिकपना विरोधको नहीं प्राप्त होता। शेष कथन सुगम है।

* उससे अनन्तानुबन्धी मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विरोध अधिक है ।

§ २१५. यहाँ पर कारण सुगम है, क्योंकि उसका पहले कथन कर आये हैं।

* उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २१६. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि विशेष अधिकका कारण प्रकृतिविशेष है।

* उससे मिथ्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २१७. शंका—अनन्तानुबन्धियोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है इस प्रकारके स्वामित्व सूत्रके उपलब्ध होनेसे समान स्वामीवाले अनन्तानुबन्धी लोभ और मिथ्यात्वका द्रव्य एक दूसरेको देखते हुए असंख्यातगुणा हीन और असंख्यातगुणा अधिक कैसे बन सकता है ?

भावो ? ण, खविदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण देवेसुववज्जिय अणंताणुबंधि विसंजोएयूण पुणो अंतोसुहुत्तसंजुत्तावथाए सेसकसायदव्वं दिवडुगुणहाणिगुणिदेगेइंदियसमय-पवद्धादो उक्कड्ढिदमेत्तमधापवत्तभागहारेण खंडिय तत्थेयखंडपमाणं तदसंखेज्जदिभागत्तेण अप्पहाणीकयणक्कबंधमणंताणुबंधिसखेण, परिणमाविय सम्मत्तलाभेण वेच्चावट्ठीओ गालिय विसंजोयणाए दुचरिमसमयद्विदजीवम्मि पत्तजहण्णभावस्स अणंताणुबंधि-लोभदव्वस्स अथापवत्तभागहारेण विणा जहण्णभावमुवणयमिच्छत्तजहण्णपदेससंत-कम्मादो असंखेज्जगुणहीणत्तस्स णाइयत्तादो । एत्थ गुणगारो अथापवत्तभागहारादो असंखेज्जगुणो । कथं मूलदव्वादो मूलदव्वस्स अथापवत्तभागहारे गुणगारे संते तं मोत्तूण तत्तो असंखेज्जगुणत्तं गुणगारस्स ? ण, अणंताणु०विसंजोयणाचरिम-फालीदो दंसणमोहक्खवणचरिमफालीए असंखेज्जगुणहीणत्तेण तहाभावं पडि विरोहा-भावादो । ण च चरिमफालीणं तहाभावो असिद्धो, जहण्णद्विदिसंकम्पाबहुअसुत्त-बलेण तस्सिद्धीदो । एसो विगिदिगोपुच्छागुणगारो वुत्तो । समुदायगुणगारो पुण तप्पाओग्गो पत्तिदो० असंखे०भागमेत्तो, पुण्विबल्लगुणसेट्ठिगोवुच्छादो एत्थतणगुण-सेट्ठिगोवुच्छाए दंसणमोहक्खवणपरिणामपाहम्मेण तावदिगुणत्तुवलंभादो । एसो

समाधान—नहीं, क्योंकि जिस जीवने क्षयितकर्मांशिक विधिसे आकर और देवोंमें उत्पन्न होकर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की है। पुनः जिसने अन्तर्मुहूर्त काल तक उसकी संयुक्तावस्थामें रहते हुए डेढ़ गुणहानिसे गुणित एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबलद्धमेंसे उत्कर्षणको प्राप्त हुए द्रव्यमें अधःप्रवृत्तभागहारका भाग देकर जो एक भाग लब्ध आवे तत्प्रमाण शेष कषायोंके द्रव्यको अनन्तानुबन्धीरूपसे परिणमावा है। यद्यपि यहाँ पर उस एक भागका असंख्यातवां भाग नक्कबन्धका द्रव्य भी अनन्तानुबन्धीरूपसे परिणत होता है पर उसकी प्रधानता नहीं है। उसके बाद जो सम्यक्त्वको प्राप्त कर दो छयासठ सागर काल तक उक्त द्रव्यको गलाते हुए विसंयोजनाके द्विचरम समयमें स्थित है उसके जघन्य भावको प्राप्त हुआ अनन्तानुबन्धी लोभका द्रव्य अधःप्रवृत्तभागहारके बिना जघन्य भावको प्राप्त हुए मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशसत्कर्मसे असंख्यात-गुणा हीन होता है यह बात न्याय है। यहाँ पर गुणकार अधःप्रवृत्तभागहारसे असंख्यातगुणा है।

शंका—मूल द्रव्यसे मूल द्रव्यका अधःप्रवृत्तभागहार रूप गुणकार रहते हुए उसे छोड़कर गुणकार उससे असंख्यातगुणा कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाकी अन्तिम फालिसे दर्शन-मोहक्षपणाकी अन्तिम फालि असंख्यातगुणा हीन होनेसे गुणकारके उस प्रकारके होनेमें कोई विरोध नहीं आता। और अन्तिम फालियोंका उस प्रकारका होना असिद्ध है यह बात भी नहीं है, क्योंकि जघन्य स्थितिसंक्रमके अल्पबहुत्वका कथन करनेवाले सूत्रके बलसे उसकी सिद्धि होती है। यह विकृतिगोपुच्छाका गुणकार कहा है। समुदायरूप गुणकार तो तत्प्रायोग्य पत्यके असंख्यातवंतं भागप्रमाण है, क्योंकि पहलेकी गुणश्रेणि गोपुच्छामे यहाँकी गुणश्रेणि गोपुच्छा दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवोंके परिणामोंकी प्रधानतावश उतनी गुणी उपलब्ध होती

च गुणगारो एत्थ पहाणो विसोहिपरिणामाइसयवसेण । गुणसेदिमाहणं कुदो परिच्छिज्जदे ?

सम्मत्तुप्पत्ती वि य सावयविरए अणंतकम्मंसे ।
दंसणमोहक्खवए कसायउवसानए य उवसंते ॥१॥
खवए य खीणमोहे जिण्णे य णियमा भवे असंतेज्जा ।
तच्चिवरीदो कालो संखेज्जगुणा य सेठीए ॥२॥

इदि एदम्हादो गाहासुत्तादो ।

❀ अपच्चक्खाणमाणे जहणएणपदेस तं कम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २१८. कुदो ? खविदकम्मंसियलक्खणेण अथवसिद्धियपाआंगजहणण-संतकम्मं काऊण पुणो तसेसु पल्लिदो० असंखे० भागमेत्तकालं संजमासंजम-संजम-सम्मत्त-परिणमणवारोहि बहुकम्मपुगलगाळणं काऊण चत्तारि वारे कसाए उवसांमेयूण पुणो वि एइदिएसुववज्जिय पल्लिदो० असंखे० भागमेत्तकालेण कम्मं इदसमुपत्तियं काऊण समयाविरोहेण मणुसेसुववज्जिय देसूणपुण्वकोडिमेत्तकालं संजमगुणसेदिणिज्जरं काऊण कदासेसकरणिज्जो होदूण अंतोमुहुत्तावसेसे सिज्जिभद्ववए चारित्तमोहक्खवणाए अब्बुद्धिय अभियट्ठिअद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु अट्ठकसायचरिमफालिं परसख्वेण संछुहिय उदयावलयपविट्ठोवुच्छाआं गालिय द्विदजीवम्मि पुण्वमपरिभमिद-वेज्जावट्ठिसागरोवमज्जि एगणिसेगे दुसमयकालट्ठिदिगे सेसे पत्तजहणणभावस्स

है । और विशुद्धिरूप परिणामोंके अतिशयवशा यह गुणकार यहाँपर प्रदान है ।

शंका—गुणश्रेणिका माहात्म्य किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—सन्न्यक्त्योत्पत्ति, श्रावक, चिरत, अनन्तानुबन्धी कपायको विसंयोजना करनेवाला, दर्शनमोहका क्षपक, चारित्रमोहका उपशामक, उपशान्तकपाय, क्षपक, क्षीणमोह और जिन इन स्थानोंमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निर्जरा होती हैं । परन्तु उस निजरामें लगनेवाला काल उससे विपरीत अर्थात् अन्तके स्थानसे प्रथम स्थानतक प्रत्येक स्थानमें संख्यातगुणा संख्यातगुणा हैं ॥१-२॥ इसप्रकार इन गाथासूत्रोंसे गुणश्रेणिका माहात्म्य जाना जाता है ॥१-२॥

* उससे अप्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २१८. क्योंकि क्षपितकर्मांशविधिसे अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कर्म करके पुनः त्रसोंमें पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक संयमासंयम, संयम और सन्न्यक्त्ररूप परिणामए वारोंके द्वारा कर्मके बहुत पुद्गलोंको गलाकर तथा चार वार कपायोंका उपशमन करके अनन्तर पुनः एकैन्द्रियोमें उत्पन्न होकर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा कर्मको इतमनुत्पत्तिकर करके यथाशास्त्र मनुष्योंमें उत्पन्न होकर कुछ कर्म एक पूर्वकोटिप्रमाण काल तक मंत्रन गुणश्रेणिक-निर्जरा करके, पूरी तरह कृतकल्प होकर सिद्ध होनेके लिए अन्तर्बुद्धी काल श्रेय रहने पर चारित्र-मोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत होकर अनिवृत्तिकरणके कालमें संख्यात बहुभाग जानेपर याद कपायोंकी अन्तिम फालिको पररूपसे संक्रमण करके तथा उदयावलिमें प्रविष्ट दुर्दृष्ट गान्धुजा योद्धो गलाकर जो जीव स्थित है वह भिद्यत्त्व का जघन्य द्रव्य करनेवालेके समान दो अयाम्भुत्त तामर

एदस्स पुविल्लजहण्णदब्बादो गालिदवेच्चावट्ठिसागरोवममेत्तणिसेगादो असंखेज्जगुणत्तस्स
णायसिद्धत्तादो । गुणगारो पुण ओकहु क्कण्णभागहारगुणिदवेच्चावट्ठिसागरोवम-
णाणागुणहाणिसलागाणं अण्णोण्णवत्थरासीदो दंसण-चरित्तमोहक्खवचरिमफालि-
विसेसमासेज्ज असंखेज्जगुणो ति वेत्तव्वो, विगिदिगोबुच्चाणं . तहाभावदंसणादो
गुणसेट्ठिवाहम्मंण पुण तप्पाओग्गंपलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तो पहाणगुणगारो साहेयव्वो
तत्थ परिणामाणुसारिगुणगारं भोत्तुण दब्बाणुसारिगुणगाराणुवत्तंभादो ।

❊ कोहे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २१६. कयमंदेसि समाणसामियाणं हीणाहियभावो ? ण, हुकमाणकाले चे-
पयडिविसेसेण तहासरूवेण हुक्कमाणुवत्तंभादो । विसेसपमाणमेत्थ सुगमं ।

❊ मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२०. एत्थ कारणमणंतरपरुविदत्तादो सुगमं ।

❊ लोभे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२१. कारणपरुवणं सुगमं ।

❊ पच्चक्खाणमाणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

काल तक परिभ्रमण नहीं करता, इसलिए उसके दो समय कालवाली एक स्थितिके शेष रहने पर जो जघन्य द्रव्य होता है वह दो छयासठ सागर कालप्रमाण निषेकोको गलाकर प्राप्त हुए मिथ्यात्वके जघन्य द्रव्यसे असंख्यातगुणा होता है यह न्यायसिद्ध बात है। परन्तु गुणकार अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे गुणित दो छयासठ सागरप्रमाण नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे दर्शनमोहनीय और चरित्रमोहनीयके क्षणिकी अन्तिम फालि विशेषको देखते हुए असंख्यातगुणा है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि विद्वृत्तिगोपुच्छाएँ उस प्रकारकी देखी जाती हैं। परन्तु गुणश्रेणिकी मुख्यतासे तत्प्रायोग्य पत्त्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण प्रधान गुणकार साथ लेना चाहिए, क्योंकि वहाँपर परिणामानुसारी गुणकारको छोड़कर द्रव्यानुसारी गुणकार उपलब्ध होता है।

❊ उससे अपत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २१६ शंका—समान स्वामीवाले इन कर्मों में हीनाधिक भाव कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सञ्चय होते समय ही प्रकृतिविशेष होनेके कारण उस रूपसे इनका सञ्चय होता है। विशेष प्रमाण यहाँ पर सुमम है।

❊ उससे अपत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२०. यहाँ पर कारण सुगम है, क्योंकि उसका अनन्तर पूर्व ही कथन कर आये हैं।

❊ उससे अपत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२१. कारणका कथन सुगम है।

❊ उससे प्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२२. कुदो ? पयडिविसेसादो ।

✽ कोहे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२३. कुदो ? विस्ससादो ।

✽ मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२४. कुदो ? सहावदो । सेसं सुगमं ।

✽ लोभे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२५. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । केत्तियमेत्तेण ? आवलियाए असंखे०-
भागपडिभागियपयडिविसेसमेत्तेण ।

✽ कोहसंजलणे जहणपदेससंतकम्ममणंतगुणं ।

§ २२६. कुदो ? देसघादित्तेण सुत्तहपरिणामिकारणत्तादो । अदो चेव कथ-
मसंखेज्जसमयपबद्धमेत्तपच्चक्खाणलोभगुणसेदिसरूवजहणदव्वादो समयपबद्धस्स
असंखे०भागपमाणकोहसंजलणजहणदव्वमणंतगुणं ति णासंकणिज्जं, समयपबद्धगुण-
गारादो देसघादिपदेसगुणगारस्स अणंतगुणत्तादो । जदि वि सुहुमणिगादजहणवव्वाद-
जोगेण बद्धसमयपबद्धमेत्तं कोधसंजलणजहणदव्वं होज्ज तो वि सव्वघाइयपच्चक्खाण-

§ २२२. क्योंकि यह प्रकृति विशेष है ।

✽ उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२३. क्योंकि ऐसा स्वभाव है ।

✽ उससे प्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२४. क्योंकि ऐसा स्वभाव है । शेष कथन सुगम है ।

✽ उससे प्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२५. ये सूत्र सुगम हैं । कितना अधिक है ? आवलिके असंख्यातवें भागका भाग
देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना प्रत्याख्यान लोभमें विशेषका प्रमाण है ।

✽ उससे क्रोध संज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है ।

§ २२६. क्योंकि यह देशघाति है, इसलिये इस रूप परिणामानेका कारण सुलभ है ।

शंका—क्रोधमें संज्वलन देशघाति है केवल इसलिये असंख्यात समयप्रबद्ध प्रमाण
प्रत्याख्यान लोभके गुणश्रेणिरूप जघन्य द्रव्यसे समयप्रबद्धके असंख्यातवें भागप्रमाण क्रोध-
संज्वलनका जघन्य द्रव्य अनन्तगुणा कैसे है ?

समाधान—पेसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि समयप्रबद्धके गुणकारसे देशघाति
प्रदेशोंका गुणकार अनन्तगुणा है । यद्यपि क्रोधसंज्वलनका जघन्य द्रव्य सूक्ष्म निगोदियाके
जघन्य उपपाद योग द्वारा बांधे गये समयप्रबद्धप्रमाण होते तो भी वह सर्वघाति प्रत्याख्यान

१. आ०प्रती 'विसे० । विस्ससादो' इति पाठः । २. आ०प्रती 'विसे० । सहावदो ।'
इति पाठः ।

लोभजहणदवाद्दो अणंतगुणमेव । किं पुण तदो असंखे०गुणपंचिदियगोलमाणजहण-
जोगवद्धसमयपवद्धस्स असंखेज्जभागमेत्तचग्मिफालिदव्वमिदि वुत्तं होदि ।

❀ माणसंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२७. एत्थ कारणं वुच्चदे—क्रोधसंजलणजहणदव्वमेगसमयपवद्धमेत्तं
होदूण मोहसव्वदव्वस्स चउव्वभागपमाणं, चउव्विहवंधगेण वद्धत्तादो । एदं पुण एगसमय-
पवद्धमोहणीयदव्वस्स तिभागमेत्तं माण-माया-लोभेसु तिहा विहंजिय द्विदत्तादो ।
तदो विसेसाहियत्तं जुज्जदे तिभागव्वहियमिदि उत्तं होदि । एत्थ संदिट्ठीए चउवीस
२४ पमाणमोहणीपदव्वपडिवद्धाए अव्वुत्पणसिस्साणं पवोहो कायव्वो ।

❀ पुरिसवेदे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२८. कुदो ? मोहणीयदव्वस्स दुभागपमाणत्तादो । तं पि कुदो ? पंचविध-
बंधयस्स मोहणीयसमयपवद्धमेत्तणोकसायभागभागित्तादो मोहणीयतिभागमेत्तमाण-
संजलणदवाद्दो तदद्वमेत्तपुरिसवेददव्वं दुभागणेव्वहियं होदि ति भावत्थो ।

लोभके जघन्य द्रव्यसे अनन्तगुणा ही है । तिसपर चरसफालिका द्रव्य सूक्ष्म तिगोदियाके
जघन्य उपपादयोगसे असंख्यातगुणे पंचेन्द्रियके घोलमाण जघन्य योगद्वारा बांधे गये समय-
प्रबद्धके असंख्यातवर्षे भागप्रमाण है इसलिए उसका कहना ही क्या है यह इसका तात्पर्य है ।

❀ उससे मानसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२७. अब यहाँ इसका कारण कहते हैं—क्रोधसंज्वलनका जघन्य द्रव्य एक समय-
प्रबद्धप्रमाण होता हुआ भी मोहके सब द्रव्यके चौथे भागप्रमाण है, क्योंकि उसका संज्वलनका
बन्ध होते समय बन्ध हुआ है, किन्तु वह एक समयप्रबद्धप्रमाण होता हुआ भी मोहनीयके सब
द्रव्यका तीसरा भाग है, क्योंकि वह मान, माया और लोभ इन तीनों भागोंमें विभक्त होकर
स्थित है । इसलिए जो क्रोध संज्वलनके जघन्य द्रव्यसे मान संज्वलनका जघन्य द्रव्य विशेष
अधिक कहा है वह युक्त है । क्रोधसंज्वलनके जघन्य द्रव्यसे मानसंज्वलनका जघन्य द्रव्य तीसरा
भाग अधिक है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब यहाँ संदृष्टिसे मोहनीयके सब द्रव्यको
२४ मानकर अव्युत्पन्न शिष्योंको ज्ञान कराना चाहिये ।

उदाहरण—मोहनीयका सब द्रव्य २४; संज्वलन क्रोध ६, संज्वलन मान ६, संज्वलन
माया ६, संज्वलन लोभ ६ । संज्वलन क्रोधकी बन्ध व्युच्छिति हो जाने पर 'संज्वलन मानका
जघन्य प्रदेशसत्कर्म होता है उस समय, संज्वलनमान ८, माया ८, लोभ ८ इसप्रकार बँटवारा
होता है । $८ - ६ = २ = \frac{६}{३}$

❀ उससे पुरुषवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२८. क्योंकि यह सब मोहनीय द्रव्यके दूसरे भाग प्रमाण है ।

शंका—यह सब मोहनीय द्रव्यके दूसरे भाग प्रमाण कैसे है ?

समाधान—जो जीव पुरुषवेद और चार संज्वलन इन पाँच प्रकृतियोंका बन्ध कर रहा
है उसके मोहनीयका जो समयप्रबद्ध नोकषायको प्राप्त होता है वह सब पुरुषवेदको मिल जाता है,
इसलिये यह सब मोहनीय द्रव्यके दूसरे भाग प्रमाण है । इसका यह आशय है कि मोहनीयके

❁ मायासंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २२६. दोण्हं पि मोहणीयस्स अद्धपमाणत्ते संते कुदो पुब्बिन्ल्लादो एदस्स विसेसाहियत्तं ? ण, पयडिविसेसेण पुब्बिन्ल्लदव्वमावलि० असंखे० भागेणं खंडियं तत्थेयखंडमेत्तेण एदस्स अहियत्तवलंभादो ।

❁ णवुंसयवेदे जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २३०. एत्थ कारणं बुच्चदे । तं जहा—मायासंजलणस्स चरिमसमयणवकबंधो दुसमयूणदोआवलियमेत्तद्वाणमुवरि गंतूण एगसमयपवद्धस्स असंखेज्जा भागा होदूण जहणपदेससंतकम्मं जादं । णवुंसयवेदस्स पुण असंखेज्जपंचिंदियसमयपवद्धसंजुत्तगुणसेट्ठिद्वं जहणं जादं । तदो किंचूणसमयपवद्धमेत्तजहणणदव्वादो असंखेज्जसमयपवद्धपमाणणवुंसयवेदजहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं होदि त्ति ण एत्थ संदेहो ।

❁ इत्थिवेदस्स जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २३१. कुदो सरिसपरिणामेहि कयगुणसेठीणं दोण्हं पि सरिसत्ते संते णवुंसयवेदपयडिविगिदिगोबुच्छाहितो इत्थिवेदपयडिविगिदिगोबुच्छाणमसंखेज्जगुणत्तादो । तं पि

तीसरे भागप्रमाण मान संज्वलनके द्रव्यसे मोहनीयका आधा पुरुषवेदका द्रव्य दूसरा भाग अधिक होता है ।

* उससे माया संज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २२६. शंका—पुरुषवेद और मायासंज्वलन इन दोनोंकी ही मोहनीयका आधा आधा प्रमाण प्राप्त है फिर पहलेसे यह विशेष अधिक क्यों है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि प्रकृतिविशेषके कारण इसमें विशेष अधिक द्रव्य पाया जाता है । पुरुषवेदके द्रव्यमे आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतना इसमें विशेष अधिक है ।

* उससे नपुंसकवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २३०. अब यहाँ इसका कारण कहते हैं । जो इस प्रकार है—माया संज्वलनका जो अन्तिम समयका नवक बन्ध है वह दो समय कम दो अवलिप्रमाण स्थान आगे जाकर एक समयप्रवद्धका असंख्यात बहुभाग प्रमाण रह जाता है और वही जघन्य प्रदेशसत्कर्मरूप होता है । किन्तु नपुंसकवेदका पञ्चन्द्रियके असंख्यात समयप्रवद्धसे संयुक्त गुणश्रेणीका द्रव्य जघन्य प्रदेशसत्कर्मरूप होता है, इसलिए कुछ कम समयप्रवद्धप्रमाण माया संज्वलनके जघन्य द्रव्यसे असंख्यात समयप्रवद्धप्रमाण नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है इसमें कोई सन्देह नहीं ।

* उससे स्त्रीवेदका जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २३१. क्योंकि यद्यपि दोनोंकी गुणश्रेणियों सहस्र परिणामोसे की जाती हैं, इसलिये वे समान हैं तो भी नपुंसकवेदकी प्रकृति गोपुच्छाओंसे स्त्रीवेदकी प्रकृति और विधृति गोपुच्छाएँ असंख्यातगुणी होती हैं ।

कुदो ? बंधाभावे णवुंसयवेदस्सेव तिसु पलिदोवमेसु इत्थिवेदगोवुच्छाणं गलणाभावादो । तदो चेव सामित्तसुते 'तिपलिदोवमिएसु णो उववण्णो' इदि वुत्तं, वेच्चावडिसागरोवमेसु व तत्थुववादे' पओजणाभावादो । एत्थ गुणगारो तिपलिदोवमब्धंतरणाणागुण-
हाणिसत्तागणमण्णोण्णभत्थरासी । दोण्हं पि गुणसेदीओ सरिसीओ त्ति पुध द्वविय पुणो णवुंसयवेदगोवुच्छं तत्तो असंखे०गुणइत्थिवेदगोवुच्छादो अवणिय द्वविदे जं सेसं सगअसंखेज्जभागमेत्तमहियदव्वं तेण विसेसाहियं ति वुत्तं होदि । एदं विसेसाहियवयणं णावयं, जहा सव्वत्थ गुणसेदिविण्णासो परिणामाणुसारिओ चेव ण दव्वाणुसारि त्ति । अण्णहा पयददव्वस्स पुव्विन्लदव्वादो असंखे०गुणत्तं मोत्तूण विसेसाहिय-
भावाणुववचीदो ।

❀ हस्से जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २३२. कुदो ? अभवसिद्धियपाओग्गजहण्णसंतकम्मेण तसेसु आगंतूण बहुएहि संजमासंजम-संजमपरियट्ठणवारोहि चउहि कसायउवसमणवारोहि य बहुकम्मपदेसणिज्जरं

शंका—ऐसा क्यों होता है ?

समाधान—बन्धके अभावमें नपुंसकवेदके समान तीन पल्य कालके भीतर स्त्रीवेदकी गोपुच्छाएँ नहीं गलती हैं । अर्थात् जिसके नपुंसकवेदका जघन्य द्रव्य प्राप्त होता है वह पहले जिस प्रकार उत्तम भोगमूमिमें तीन पल्य काल तक नपुंसकवेदकी गोपुच्छाएँ गला आता है उस प्रकार स्त्रीवेदके जघन्य द्रव्यवालेको पहले यह क्रिया नहीं करनी पड़ती है, इसलिये इसके तीन पल्य कालके भीतर गलनेवाली गोपुच्छाएँ बच जाती हैं और इसीलिये स्वामित्व सूत्रमें स्त्री-वेदके जघन्य द्रव्यको प्राप्त करनेवाला 'तीन पल्यकी आयुवालोमें नहीं उत्पन्न होता' यह कहा है क्योंकि इसे दो छयासठ सागर काल तक सम्यग्दृष्टियोंमें परिभ्रमण करना है। अब इस कालके भीतर तीन पल्यकी आयुवालोंमें भी उत्पन्न कराया जाता है तो कोई विशेष प्रयोजन नहीं सिद्ध होता ।

तीन पल्यके भीतर नानागुणहानि शलाकाओंकी जो अन्योन्याभ्यस्त राशि प्राप्त हो वह यहाँ गुणकारका प्रमाण है। दोनोकी गुणश्रेणियाँ समान हैं, अतः उन्हें अलग स्थापित करो। अनन्तर नपुंसकवेदकी गोपुच्छाओंसे असंख्यातगुणी स्त्रीवेदकी गोपुच्छाओंमेंसे नपुंसकवेदकी गोपुच्छाओंको घटा कर स्थापित करने पर जो अपनेसे असंख्यातवां भाग अधिक द्रव्य शेष रहता है उतना स्त्रीवेदका जघन्य द्रव्य विशेष अधिक है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। सूत्रमें जो यह 'विशेषाधिक' वचन है सो वह ज्ञापक है जिससे यह ज्ञापित होता है कि गुणश्रेणिका विन्यास सब जगह परिणामोंके अनुसार होता है द्रव्यके अनुसार नहीं होता। यदि ऐसा न माना जाय तो प्रकृत द्रव्य पिछले द्रव्यसे असंख्यातगुणा प्राप्त होता है उसे छोड़कर विशेषाधिकता नहीं बन सकती है।

❀ उससे हास्यमें जघन्य प्रदेशसूक्तम् असंख्यातगुणा है ।

§ २३२. क्योंकि अभव्योंके योग्य जघन्य सूक्तर्मके साथ त्रसोंमें आया और वहाँ अनेक-
बार संयमासंयम और संयमकी पलटन करते हुए तथा चार बार कषायोंकी उपशमना कर बहुत

काऊण फलाभावेण वेच्चावट्टीओ अपरिभमिय तदो कमेण पुच्चकोडाउअमणुत्सभवे दीहद्धं संजमगुणसेदिणिज्जरं काऊण खवणाए अब्भुद्धिदजीवेण चरिमद्धिदिखंडए चरिमसमयअणिन्त्तेविदे छण्णोकसायाणं जहण्णसामित्तविहाणादो । एत्थ गुणगारो उक्कड्डणभागहारगुणिट्चरिमफालिपट्टुप्पणवेच्चावट्टिं सागरोवमणाणागुणहाणिसळागाण-
पण्णोण्णभत्थरासी पुच्चिन्ल्लगुणसेदिगोबुच्चागमणट्ठत्पाओग्गपल्लिदो० असंखे०-
भागमेत्तरूवोवट्टिदो । कुदो ? वेच्चावट्टिसागरोवमाणमपरिभमणादो । सयलसमत्थाए
चरिमफालीए पत्तसामित्तभावादो च हेट्टिल्लारासिस्स तच्चिवरीयसरूवत्तादो च ।

❀ रदीए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २३३. एदेसि सरिससामियत्ते वि पयडिविसेसेण विसेसाहियत्तमेत्थ दहन्वं । सुगमं ।

❀ सोगे जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ २३४. कुदो ? पुच्चिल्लवंधगद्दादो संपहियवंपगद्दाए संखेज्जगुणत्तादो ।

❀ अरदीए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २३५. कुदो ? पयडिविसेसादो ।

❀ दुगुंछाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

कर्मप्रदेशोंकी निर्जरा की । यथा विशेष लाभ न होनेसे दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण नहीं किया । तदनन्तर क्रमसे एक पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्य भवमें दीर्घ काल तक संयमको पालकर और गुणश्रेणि निर्जरा करके जब यह जीव क्षपणाके लिये उद्यत होता है तब अन्तिम स्थितिकाण्डकके पतन होनेके अन्तिम समयमें छह नोकषायोंका जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता है । यहाँ पर गुणकारका प्रमाण उत्कर्षणभागहार गुणित अन्तिम फालि प्रत्युत्पन्न दो छयासठ सागरकी नानागुणदानियोंकी अन्यान्याभ्यस्तराशिमें पहलेकी गुणश्रेणियोंको पुच्छाओंको लानेके लिए स्थापित किये गये तत्प्रयोग्य पत्थके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना है, क्योंकि दो छयासठ सागर कालके भीतर परिभ्रमण नहीं कराया है और पूरी तरहसे समर्थ अन्तिम फालिमें स्वामित्वकी प्राप्ति हुई है । तथा पिछली राशि इससे विपरीत स्वरूपवाली है ।

❀ उससे रतिमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २३३. इन दोनोंका स्वामी समान है तो भी प्रकृतिविशेषके कारण पूर्व प्रकृतिसे इस प्रकृतिमें विशेष अधिक द्रव्य जानना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

❀ उससे शोकमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ २३४. क्योंकि पूर्व प्रकृतिके बन्धकालसे इस प्रकृतिका बन्धकाल संख्यातगुणा है ।

❀ उससे अरतिमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २३५. इसका कारण प्रकृतिविशेष है ।

❀ उससे जुगुप्सामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २३६. ध्रुवबंधितादो हस्स-रदिबंधगद्दाए वि एदिस्से बंधुवलंभादो । केत्तिय-
मेत्तो विसेसो ? हस्स-रदिबंधगद्दाजणिदसंचयमेत्तो । सेसं सुगमं ।

❀ भए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २३७. कुदो ? पयडिविसेसादो विशेषमात्रमत्रकारणमुद्घोषयामः ।

* लोभसंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २३८. एत्थं कारणं वुच्चदे । तं जहा-भयदब्बं^१ मोहणीयसव्वदव्वस्स दसम-
भागो । लोभसंजलणदव्वं पुण मोहदव्वस्स अहमभागो, कसायभागस्स चचमु वि
संजलणेसु विहंजिय द्विदत्तादो । अण्णं च लोभसंजलणदव्वमधापवत्तकरणचरिम-
समयम्मि जहणं जादं । भयपदेसगं पुण तत्तो उवरि अंतोमुहुत्तमेत्तगुणसेदि-
गोवुच्छामु गल्लिदामु गुणसंकमदव्वे च परिहीणे अणियद्विअद्दाए संखेज्जे भागे गंतूण
पत्तजहणभावमेदेण कारणेण एदासिं पयडीणं पदेसस्स हीणाहियभावो ण विरुद्धदे ।

एवमोघजहणदंडओ सकारणो समत्तो ।

❀ शिरयगईए सव्वत्थोवं सम्मत्ते जहणपदेससंतकम्मं ।

§ २३९. एदस्स आदेसजहणणपोवहुअमूलपदपरुवयसुत्तस्स अत्थपरुवणा

§ २३६. क्योंकि जुगुप्सा प्रकृति ध्रुवबन्धिनी है । हास्य और रतिके बन्धकालमें भी
इसका बन्ध पाया जाता है । कितना अधिक है ? हास्य और रतिके बन्धकालमें जितना
सञ्चय होता है उतना अधिक है । शेष कथन सुगम है ।

* उससे भयमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विरोध अधिक है ।

§ २३७. क्योंकि प्रकृति विशेष ही इस विशेषका कारण है यहाँ हम यह कहते हैं ।

* उससे लोभ संज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विरोध अधिक है ।

§ २३८. अब यहाँ इसका कारण कहते हैं जो इस प्रकार है—भयका द्रव्य तो मोहनीयके
सब, द्रव्यका दसवां भाग है । परन्तु, लोभसंज्वलनका द्रव्य मोहनीयके सब द्रव्यके आठवाँ
भाग है, क्योंकि कषायोंका हिस्सा चारों संज्वलनोंमें विभक्त होकर स्थित है । दूसरा कारण
यह है कि लोभ संज्वलनका द्रव्य अथःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें जघन्य हो जाता
है परन्तु भयका द्रव्य इसके आगे अन्तर्मुहूर्तप्रमाण गुणश्रेणि गोपुच्छाओंके गला देने पर और
गुणसंक्रमके द्रव्यके घट जानेपर अतिवृत्तिकरणके कालके संख्यात बहुभाग व्यतीत हो जानेपर
जघन्य होता है इसलिये इन दोनों प्रवृत्तियोंका हीनाधिकभाव विरोधको नहीं प्राप्त होता ।

इस प्रकार कारणसहित ओषसे जघन्य दण्डकका कथन समाप्त हुआ ।

* नरकगतिमें सम्यक्त्वका जघन्य प्रदेशसत्कर्म सबसे थोड़ा है ।

§ २३९. आदेशसे जघन्य अल्पबहुत्वके, मूलपदका कथन करनेवाले इस सूत्रका

१. वा०प्रतौ 'वुच्चदे भयदब्बं' इति पाठः ।

सुगमा ।

✽ सम्मामिच्छत्ते जहणपदे ससं तकम्ममसं खेज्जगुणं ।

§ २४०. सुगममेदं सुत्तं, ओघादो अविसिद्धकारणत्तादो ।

✽ अणंताणुवांधिमाणे जहणपदे ससं तकम्ममसं खेज्जगुणं ।

§ २४१. एत्थ सुगमारो तप्पाओग्गपल्लिदोवभासंखेज्जभागमेत्तो । कुदो ? सुग-
सेदीदरगोत्तुच्छाकयविसेसादो चरिमफालिविसेसावलंबणदो च सेसोवट्टणादिविण्णासो
अवहारिय पुब्बावरारणं सिस्साणं सुगमो ।

✽ कोहे जहणपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ २४२. पयडिविसंसादो ।

✽ मायाए जहणपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ २४३. विस्ससादो ।

✽ लोमे जहणपदे ससं तकम्मं विसेसाहियं ।

§ २४४. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । वज्झकारणणिरवेक्खो वत्थुपरिणामो ।

✽ मिच्छत्ते जहणपदे ससं तकम्ममसं खेज्जगुणं ।

अर्थ सरल है ।

✽ उससे सम्यग्मिध्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २४०. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि ओघप्ररूपणाके समय जो इसका कारण कहा है उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । दोनों जगह कारण एक समान हैं ।

✽ उससे अनन्तानुबन्धी मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २४१. यहाँ गुणकारका प्रमाण तद्योग्य पत्यका असंख्यातवर्षों भाग है, क्योंकि यहाँ गुणश्रेणि और उनसे भिन्न गोच्छाओंके कारण तथा अन्तिम फालिविशेषके कारण विशेषता आजाती है । आगे पीछेका विचार करके शेष अपवर्तन आदिका विन्यास सब शिष्योंको सुगम है ।

✽ उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २४२. इसका कारण प्रकृतिविशेष है ।

✽ उससे अनन्तानुबन्धी मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २४३. क्योंकि ऐसा स्वभाव है ।

✽ उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २४४. ये सूत्र सुगम हैं, क्योंकि यहाँ विशेषाधिकका बाह्य कारण नहीं है, वस्तुका परिणामन ही ऐसा है ।

✽ उससे मिध्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २४५. को गुणकारो ? अधापवत्तभागहारो चरिमफाली च अण्णोण-
गुणाओ । कुदो ? हेट्टिमरासिणा तेतीससागरोवमणाणागुणहाणिसत्तागाण-
मण्णोण्णब्भत्थरासीए ओकड्डु कड्डुणभागहारपदुप्पण्णअधापवत्तभागहारेण चरिमफालीए
च गुणिदाए ओवट्टिददिवट्टुगुणहाणिगुणिदेगेईदियसमयपवद्धपमाणेण उवरिमरासिम्मि
अधापवत्तचरिमफालिगुणगारविरहिदपुव्वुत्तभागहारोवट्टिददिवट्टुगुणहाणिगुणिदेगेईदिय-
समयपवद्धपमाणम्मि भागे हिदे एत्तियमेत्तगुणगारुवलंभादो । पुच्चिल्लविगिदि-
गोवुच्छमस्सियूण एसा गुणगारपरुवणा कया । तत्थतणगुणसेट्टिगोवुच्छमस्सियूण
भण्णमाणे पुच्चिल्लगुणगारो तप्पाओगपलिदोवमासंखेज्जभागेण ओवट्टेयव्वो ।
कारणं सुगमं ।

❁ अपचक्खाणमाणे जहणणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २४६. कुदो ? असण्णपच्छायदपढमपुढविउप्पण्णपढमसमयवट्टमाखविद-
कम्मंसियम्मि पत्तजहण्णसामित्तणेण एक्किस्से वि गुणहाणीए गलणाभावादो ।
मिच्छत्तस पुण अंतोमुहुत्तूणतेतीससागरोवममेत्तकालं गालिय जहण्णसामित्तविहाणेण
तेत्तियमेत्तगोवुच्छाणं गलणुवलंभादो । अदो चेय तेतीससागरोवमब्भंतरणाणागुण-
हाणिसत्तागाण्णोण्णब्भत्थरासी उक्कड्डुणभागहारपदुप्पाइदो एत्थ गुणगारो ।

§ २४५. गुणकार क्या है ? अधःप्रवृत्तभागहार और अन्तिम फालि इनको परस्पर गुणा
करनेपर जो लब्ध आवे उतना गुणकार है, क्योंकि तेतीस सागरकी नानागुणहानिशलाकाओंकी
अन्योन्याभ्यस्त राशिसे, अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार गुणित अधःप्रवृत्तभागहारसे और अन्तिम
फालिसे गुणित करके जो लब्ध आवे उसका डेढ़ गुणहानिगुणित एकेन्द्रियसम्बन्धी समय-
प्रबद्धमे भाग देनेपर जो लब्ध आवे तत्प्रमाण अधस्तन राशिको अधःप्रवृत्तकी अन्तिम फालिरूप
गुणकारसे रहित पूर्वोक्त भागहारसे भाजित जो डेढ़ गुणहानिगुणित एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबद्ध
तत्प्रमाण उपरिम राशिमे भाग देनेपर उक्त प्रमाण गुणकार उपलब्ध होता है । पूर्वोक्त विकृति
गोपुच्छाका आश्रय लेकर यह गुणकारकी प्ररूपणा की है । वहाँकी गुणश्रेणिगोपुच्छाका आश्रय
लेकर कथन करने पर पूर्वोक्त गुणकारको तत्प्रायोग्य पर्यके असंख्यातत्वं भागसे भाजित करना
चाहिए । कारण सुगम है ।

❁ उससे अप्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २४६. क्योंकि असंखियोंसे आकर जो क्षणित कर्माशिक जीव प्रथम पृथिवीमें उत्पन्न
होता है उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें अप्रत्याख्यान मानका जघन्य स्वामित्व प्राप्त होनेसे
एक भी गुणहानिका गलन नहीं हुआ है । परन्तु मिथ्यात्वका अन्तर्मुहूर्त कम तेतीस सागर काल
व्यतीत कर जघन्य स्वामित्व प्राप्त होनेसे वहाँ उसकी उतनी गोपुच्छाएँ गल गई हैं । और
इसीलिए ही उत्कर्षणभागहारसे उत्पन्नकी गई तेतीस सागरके भीतरकी नानागुणहानिशलाकाओं-
की अन्योन्याभ्यस्त राशि यहाँ पर गुणकार है ।

१. आ०प्रत्तो 'गुणितेनेसमयपवद्ध' इति पाठः । २. ता०प्रत्तो 'सत्तागा [यं] अण्णोययम्भत्थ-
रासी' इति पाठः ।

❖ कोहे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २४७. ण एत्थ किं चि वत्तव्वमत्थि, पयडिविसेसमेत्तस्स कारणत्तादो ।

❖ मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २४८. सुगममेदं, अणंतरपरुविदकारणत्तादो ।

❖ लोभे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २४९. एत्थ पञ्चओ सुगमो ।

❖ पञ्चक्खाणमाणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २५०. सुगममत्र कारणं, स्वभावमात्रानुबन्धित्वात् ।

❖ कोहे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २५१. ण एत्थ वत्तव्वमत्थि । कुदो' ? विस्ससादो । केत्थियमेत्तो विसेसो ? आवलि० असंखे० भागपडिभागियपयडिविसेसमेत्तो ।

❖ मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २५२. एत्थ कारणमणंतरपरुविदत्तादो सुगमं ।

* उससे अप्रत्याख्यात क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २४७. यहाँपर कुछ भी वक्तव्य नहीं है, क्योंकि प्रकृतिविशेष मात्र ही विशेष अधिक होनेका कारण है ।

* उससे अप्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २४८. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि कारणका अनन्तर पूर्व कथन कर आये हैं ।

* उससे अप्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २४९. यहाँ पर कारणका कथन सुगम है ।

* उससे प्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २५०. यहाँ पर कारण सुगम है, क्योंकि वह स्वभावमात्रका अनुवन्धी है ।

* उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २५१. यहाँ पर कुछ वक्तव्य नहीं है, क्योंकि प्रत्याख्यान क्रोधमें प्रदेशसत्कर्म स्वभावसे अधिक है । विशेषका प्रमाण कितना है ? प्रत्याख्यानमानके जघन्य द्रव्यमें आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना इस प्रकृतिमें विशेषका प्रमाण है ।

* उससे प्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २५२. यहाँ पर कारण सुगम है, क्योंकि उसका अनन्तर पूर्व कथन कर आये हैं ।

१. भा०प्रतौ 'विसेसाहियं । कुदो' इति पाठः ।

❀ लोभे जहणपदे ससंतकम्मं विसैसाहियं ।

§ २५३. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । एदम्हादो चैव रागाइअविज्जा-संभुत्तिण्णजिणवरवयणादो । ण च तारिसेसु आरिसकारएसु चप्पलस्स संभवो, विरोहादो ।

❀ इत्थिवेदे जहणपदे ससंतकम्मं मणंतगुणं ।

§ २५४. कथं सम्भत्तपाहम्मेण बंधविरहिदसरूवत्तादो आपण विणा तेत्तीस-सागरोवमेसु गलिदावसिद्धस्सेदस्स पुव्विज्जादो तव्विवरीदसरूवादो अणंतगुणत्तमिदि णासंकणिज्जा, देसघाइत्तेण सुलहपरिणामिकारणस्सेदस्स तंदो तप्पडिणीयसहावादो अणंतगुणत्तस्स णाइयत्तादो ।

❀ एवुंसयवेदे जहणपदे ससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ २५५. दोण्णहेदांसि पयडीणं पुव्वुत्तकालभंतरे सरिसीसु वि गुणहाणीसु गलिदासु बंधगद्धावसेण पुव्विज्जजहणपदवादो एदस्स संखेज्जगुणत्तं ण विरुज्जभदे । सेसं सुगमं ।

❀ पुरिसवेदे जहणपदे ससंतकम्मं मसंखेज्जगुणं ।

❀ उससे प्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २५३. य सूत्र सुगम हैं, क्योंकि रागादि अविद्यासंधसे उत्तीर्ण हुए जिनवरके ये वचन हैं । आर्षकर्ता जिनवरोंके उस प्रकार होनेपर उनमें चपलता सम्भव नहीं है, क्योंकि उनके ऐसा होनेमें विरोध आता है ।

* उससे स्त्रीवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है ।

§ २५४. शंका—एक तो सम्यक्त्वकी प्रमुखतासे बंधनेवाली प्रकृतियोंसे यह विरुद्ध-स्वभाववाली है । दूसरे आयके बिना तेतीस सागर कालके भीतर गलकर यह अवशिष्ट रहती है, इसलिए भी यह पूर्वोक्त प्रकृतिकी अपेक्षा उससे विपरीत स्वभाववाली है, अतएव यह प्रत्याख्यान लोभसे अनन्तगुणी कैसे हो सकती है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देशघाति होनेसे तथा सुलभ परिणाम कारणक यह प्रकृति होनेसे यह प्रत्याख्यान लोभसे प्रत्यनीक स्वभाववाली है, अतः इसके द्रव्यका अनन्तगुणा होना न्यायप्राप्त है ।

* उससे नपुंसकवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ २५५. इन दोनों ही प्रकृतियोंकी पूर्वोक्त कालके भीतर समान गुणहानियोंका गलन होता है तो भी बन्धक कालवश पूर्वोक्त प्रकृतिके जघन्य द्रव्यसे इसका द्रव्य संख्यातगुणा होता है इसमें कोई विरोध नहीं है । शेष कथन सुगम है ।

* उससे पुरुषवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म अक्षरख्यातगुणा है ।

§ २५६. एत्थ गुणगारो तेत्तीससागरोवमणाणागुणहाणिसलागाणंमणोण्ण-
न्मत्थरासी संखेज्जखुवोवट्ठिदोक्कडुक्कडुण भागहारगुणियो, असणियापच्छायदपढमपुढवि-
योरइयम्मि वोलाविदपडिवक्खबंधगद्धम्मि पत्तजहएणभावत्ते अगळिदअंतोमुहुत्तुण-
तेत्तीससागरोवममेत्तणिसेगस्स पुण्विज्जलादो तप्पडिवक्खसहावादो तावदि गुणत्ते विरोहा-
णुवत्तंभादो ।

☉ हस्से जहएणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ २५७. एत्थ कारणां व'धगद्धाए संखेज्जगुणत्तं । ण च बंधगद्धाणुरूवो ण
होइ, विरोहादो ।

☉ रदीए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २५८. पयडिविसेसो एत्थ पच्चओ सुगमो ।

☉ सोगे जहएणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ २५९. बंधगद्धावसेण ।

☉ अरदीए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २६०. पयडिविसेसवसेण ।

☉ दुगु'छाए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २५६. यहाँ पर गुणाकारका प्रमाण अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारमें संख्यातका भाग
देकर जो लब्ध आवे उससे तेत्तीस सागरकी नामागुणहानिशालाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिके
गुणित करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो उतना है, क्योंकि असंज्ञियोंमेंसे आकर पहली पृथिवीके
नारकीमे प्रतिपत्त प्रकृतिके बन्धककालके व्यतीत होने पर जघन्यपनेके प्राप्त होनेसे अन्तर्मुहूर्त
क्रम तेत्तीस सागरप्रमाण इस निषेकका पहलके उसके प्रतिपत्त स्वभाव निषेकसे उतना गुणा
होनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

☉ उससे हास्यमें जघन्य प्रदेशासत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ २५७. इसका कारण बन्धक कालका संख्यात होना है । और बन्धककालके अत्ररूप
सञ्चय नहीं होता है यह बात नहीं है, क्योंकि बन्धककालके अत्ररूप सञ्चय नहीं होने पर विरोध
आता है ।

☉ उससे रतिमें जघन्य प्रदेशासत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २५८. प्रकृतिविशेष ही यहाँ पर कारण है, इसलिए यह सुगम है ।

☉ उससे शोकमें जघन्य प्रदेशासत्कर्म विरोध अधिक है ।

§ २५९. क्योंकि उसका कारण बन्धककाल है ।

☉ उससे अरतिमें जघन्य प्रदेशासत्कर्म विरोध अधिक है

§ २६०. क्योंकि इसका कारण प्रकृतिविशेष है ।

☉ उससे जुगुप्सामें जघन्य प्रदेशासत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २६१. ध्रुवबंधितेण हरस-रइबंधगद्धाए वि एदिस्से बंधुलंभादो ।

❀ भए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २६२. दोण्हं पि मोहणीयस्स दसमभागतं कुदो हीणाहियभावो ? ण पयडिविसेसमस्सियुण तहाभाबुवलंभादो ।

❀ माणसंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २६३. मोहणीयसव्वदव्वस्स अट्टमभागत्तादो ।

❀ कोहसंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❀ मायासंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❀ लोहसंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २६४. एदाणि तिण्णिण वि सुत्ताणि अब्भंतरीकयपयडिविसेसकारणाणि सुगमाणि । संपहि एदेण णिरयगइसामण्णपडिवद्धजहएणप्पावहुअदंडएण सर्गतो-णिक्खित्तासेसणिरयगइमग्गणानयणेण पुध पुध सत्तण्हं पि पुढवीणमप्पावहुअं परुविदं चेव । णवरि सामित्तविसोसो तदणुसारेण च गुणयारविसोसो णायव्वो । णत्थि अण्णो विसोसो ।

एवं णिरयगइजहएणदंडओ समत्तो ।

§ २६१. क्योंकि यह ध्रुवबन्धिनी प्रकृति होनेसे हास्य और रतिके बन्धकालमें भी इसका बन्ध पाया जाता है ।

* उससे भयमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २६२. शंका—ये दोनों प्रकृतियाँ मोहनीयके दसवें भागप्रमाण हैं, इसलिए इनके प्रदेशोंमें हीनाधिकपना कैसे बन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि प्रकृतिविशेषके आश्रयसे उस प्रकार हीनाधिकरूपसे प्रदेश पाये जाते हैं ।

* उससे मानसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २६३. क्योंकि मोहनीयके सब द्रव्यके आठवें भागप्रमाण इसका द्रव्य है ।

* उससे क्रोधसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे मायासंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे लोभसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २६४. ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं, क्योंकि इन सूत्रोंमें जितना अल्पबहुत्व कहा है वे अलग अलग प्रकृतियाँ हैं । अब समस्त नरकगतिके अन्तर्मेंद नरकगतिके अन्तर्लीन हैं, इसलिए नरकगति सामान्यसे सम्बन्ध रखनेवाले इस अल्पबहुत्व दण्डके द्वारा अलग अलग सार्तो ही पृथिवियोंका अल्पबहुत्व कह ही दिया है । इतनी विशेषता है कि स्वामित्त्वविशेष जान लेना चाहिए । यहाँ अन्य कोई विशेषता नहीं है ।

❀ जहा णिरयगईए तथा सव्वासु गईसु ।

§ २६५. एदस्स अप्पणासुत्तस्स आलावसामणमवेक्खिय पयट्टस्स सामित्त-
तदणुसारिगुणमारविसोसणिरवेक्खस्स अत्थपरूवणा अवहारिय सामित्तविसोसाणं
सुगमा । एदेण गइसामणप्पणासुत्तेण मणुसगईए वि णिरओघभंगे अइयप्पसत्ते
तव्बुदासदुवारेण तत्थ अववादपरूवणद्वमुत्ता सुत्तं भणदि—

❀ एवरि मणुसगदीए ओघं ।

§ २६६. एत्थ णवरि सद्दो पुच्चिल्लप्पणादो एदस्स विसेससूचओ । को सो
विसेसो ? मणुसगईए ओघमिदि मणुसगईओघालावमणूणाहियं लहदि चिं वुत्तं होइ ।
तदो ओघालावो अणूणाहिओ एत्थ कायव्वो, मणुसगइसामणप्पणाए तदविरोहादो ।
विसेसप्पणाए पुण अत्थि भेदो, मणुसपज्जराएसु सुवदो बहिब्भूदइत्थिवेदोदएसु
णत्तुंसयवेदस्सुवरि ओघम्मि विसेसाहियभावेण पदिदइत्थिवेदस्स चरिमफालिमाहप्पेण
असंखेज्जगुणत्त वल्लंभादो । मणुसिणीसु वि माणसंजलस्सुवरि प्रायासंजलणे जहप्पण-
पदेससंतकम्मं विसेसाहियं । इत्थिवेदे जहप्पणपदेससंतकम्मं असंखेज्जगुणं;
गुणसेदीए पाहणियादो । णत्तुंसयवेदे जहप्पणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं, वेद्धानदीण-

* जिस प्रकार नरकगतिमें अल्पबहुत्व है उसी प्रकार सब मार्गणाओंमें
जानना चाहिए ।

§ २६५. स्वानित्व और उसके अनुसार गुणकारविशेषकी अपेक्षा किये बिना आलाप-
सामान्यकी अपेक्षा प्रवृत्त हुए इस अर्पणा सूत्रकी अर्थप्ररूपणा सुगम हैं । इस गतिमार्गणा-
सयन्धी अर्पणासूत्रके आश्रयसे मनुष्यगतिमें भी सामान्य नारकियोके समान भङ्गका अतिप्रसङ्ग
प्राप्त होने पर उसके निराकरण द्वारा वहाँ पर अपवादका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र
कहते हैं—

❀ इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिमें ओघके समान भङ्ग है ।

§ २६६. यहाँ पर 'एवरि' शब्द पहलेके सूत्रसे इसमें विशेषका सूचक है ।

शंका—वह विशेष क्या है ?

समाधान—'मनुष्यगतिमें ओघके समान है' ऐसा कहनेसे मनुष्यगतिमें ओघ आलाप
न्यूनताधिकतासे रहित होकर प्राप्त होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है, इसलिए न्यूनता और
अधिकतासे रहित ओघ आलाप यहाँ करना चाहिए, क्योंकि मनुष्यगति सामान्यकी विवक्षा होने
पर उसमें ओघ आलापके घटित होनेसे विरोध नहीं आता । विशेषकी विवक्षा होनेपर तो भेद
है ही, क्योंकि स्त्रीवेदके उदयसे रहित मनुष्यपर्याप्तकोसे नपुंसकवेदके ऊपर ओघमें विशेष
अधिकरूपसे प्राप्त हुआ स्त्रीवेद अन्तिम फालिके माहात्म्यसे असंख्यातगुणा उपलब्ध होता है ।
मनुष्यनियोगों में भी मान संज्वलनके ऊपर माया संज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक
है । उससे स्त्रीवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है, क्योंकि यहाँ पर गुणश्रेणिकी प्रधानता

मगलणादो अधापवत्तचरिमसमए देसूणपुव्वकोडिणिज्जरादव्वपरिहीणसगसयल-
दव्वेण सह जहण्णसामित्तिविधानादो । हस्से जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं, दोण्हं
पि देसूणपुव्वकोडिणिज्जराए सरिसीए संतीए बंधगद्धावसेण संखेज्जगुणत्तुवलंभादो
त्ति । एसो च विसेसो दव्वद्वियणयमस्सियूण सुत्तयारेण ण विवविस्वओ । पज्जवद्विय-
णयावलंबणे पुण वक्खाणाइरिएहिं वक्खाणियव्वो, व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिरिति
न्यायात् । सुगममन्यत् । संपहि सेसमग्गणाणं देसामासियभावेण ईदियमग्गणावयव-
भूदएइदिएसु जहण्णप्पावहुअपरूवणद्वमुत्तरमुत्तपबंधमाह—

❀ एइदिएसु सव्वत्थोवं सम्मत्तो जहण्णपदे ससंतकम्मं ।

§ २६७. कुदो ? खविदकम्मंसियस्स भमिदवेच्छावद्विसागरोवमस्स दीहुव्वेज्जण-
कालदुचरिमसमए वट्टमाणस्स दुसमयकालद्विदिएयणिसेयद्विदसुहुत्थोवयरजहण्ण-
दव्वग्गहणादो

❀ सम्माभिच्छत्तो जहण्णपदे ससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २६८. एत्थ कारणमोवसिद्धं । गुणगारो च सुगमो ।

❀ अणंताणुबंधिमाणे जहण्णपदे ससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

है । उससे नपुंसकवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म अन्तिम फालिके कारण असंख्यातगुणा है । उससे
पुरुषवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है, क्योंकि दो छयासठ सागर प्रमाण निषेकोंके
नहीं गलनेसे अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण निर्जराको प्राप्त
हुए द्रव्यसे हीन अपने समस्त द्रव्यके साथ जघन्य स्वाभित्वका विधान किया गया है । उससे
हास्यमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है, क्योंकि दोनों ही कर्मोंकी कुछ कम एक पूर्वकोटि-
काल तक होनेवाली निर्जराके समान होते हुए भी बन्धक कालके वशसे पुरुषवेदके जघन्य प्रदेश-
सत्कर्मसे हास्यका जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा उपलब्ध होता है । इस प्रकारके इस
विशेषकी द्रव्यार्थिकनयका आश्रय लेकर सूत्रकारने विवक्षा नहीं की है । परन्तु पर्यायार्थिकनयका
अवलम्बन लेकर व्याख्यानाचार्योंको व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि व्याख्यानसे विशेष
प्रतिपत्ति होती है ऐसा न्यायवचन है । शेष कथन सुगम है । अब शेष मार्गणाओंके देशामर्षक-
रूपसे इन्द्रियमार्गणाके अवान्तर भेद एकेन्द्रियोंमें जघन्य अल्पबहुत्वके कथन करनेके लिए
आगेके सूत्रकलापको कहते हैं—

❀ एकन्द्रियोंमें सम्यक्त्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म सबसे स्तोक है ।

§ २६७. क्योंकि जो क्षपितकर्मांशिक जीव दो छयासठ सागर कालतक परिभ्रमण कर
चुका है उसके दीर्घ उद्वेलनकालके द्विचरम समयमें विद्यमान रहते हुए दो समय कालकी स्थिति-
वाले एक निषेकमें स्थित अत्यन्त स्तोकतर जघन्य द्रव्यका ग्रहण किया है ।

❀ उससे सम्यग्मिध्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २६८. यहाँ पर कारण ओषके समान सिद्ध है और गुणकार भी सुगम है ।

❀ उससे अनन्तानुबन्धी मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २६६. को गुणगारो ! वेच्चावट्टिसागरोवमदीहुब्बेव्वल्लणकालणाणागुणहाणि-
सत्तागाणमएणोएणअभत्थरासी गुणसंकमोड्डुक्कड्डुणभागहारचरिमफालीहि गुणिय
अधापवत्तभागहारेणोवट्टिदो । कुदो ? खविदकम्मसियस्स अभवसिद्धियपाओग्गजहण-
संतकम्मियस्स तसेसुप्पज्जिय विसंजोइदअणंताणुबंधिचउक्कस्स पुणो अंतोसुहुत्तसंजुत्तस्स
फलाभावेण अभमादिदवेच्चावट्टिसागरोवमस्स एइदिएसुप्पणपढमसमए जहण-
सामित्तपरूवणादो । कुदो वेच्चावट्टिसागरोवमपरिभमणे फलाभावो ? ण, एइदिएसु-
प्पत्तिअण्णहाणुवत्तीए । पुणो वि मिच्छत्तं गच्छमाणेण अधापवत्तेण पडिच्छिज्जमाण-
वेच्चावट्टिसागरोवमअंतरसंचिददिवड्डुणहाणिगुणिदपंचिदियसमयपवद्धमेत्तसेसकसाय-
दव्वस्स पुव्वपरूविदसामियजहणपदवादो जोअगुणगारमाहप्पेण असंखेज्जगुणत्तेण
फलाणुवल्लंभादो । णिरयगईए वि अणंताणुबंधिचउक्कसामियस्स अपरिभमिद-
वेच्चावट्टिसागरोवमस्स एइदियजहणसंतकम्मेणेव पवेसणे एदं चेव कारणं वत्तव्वं,
तत्थेव इत्थिवेदजहणसंतकम्मादो बंधगद्धावसेण णत्तंसयवेदजहणसंतकम्मस्स संखेज्ज-
गुणत्ते एवं तिपल्लिदोवमवेच्चावट्टिसागरोवमाणमपरिभमणं कारणत्तेणै परूवेयव्वं ।

§ २६६. गुणकार क्या है ? दो छयासठ सागरोपम दीर्घ उद्वेलन कालके भीतर प्राप्त नाना
गुणहानि शलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशिको गुणसंक्रमभागहार, अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार
और अन्तिम फालिसे गुणित करके अधःप्रवृत्तभागहारका भाग देने पर जो लब्ध आये उतना
गुणकार है, क्योंकि जो क्षपितकर्मांशिक जीव अभव्योके योग्य जघन्य सत्कर्म करके त्रसोमे
उत्पन्न हुआ । पुनः अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके और अन्तमुहूर्तमे
उससे संयुक्त होकर कोई लाभ न होनेसे दो छयासठ सागर काल तक भ्रमण किये बिना
एकेन्द्रियोमे उत्पन्ना हुआ है उसके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे जघन्य स्वामित्यका
कथन किया है ।

शंका—दो छयासठ सागर कालके भीतर परिभ्रमण करना निष्फल क्यों है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अन्यथा उसकी एकेन्द्रियोमे उत्पत्ति वन नहीं सकती है ।
फिर भी मिथ्यात्वमें जाकर अधःप्रवृत्तभागहारके द्वारा संक्रमणको प्राप्त हुए और दो छयासठ
सागर कालके भीतर सञ्चित हुए डेढ़ गुणहानिगुणित पञ्चोन्द्रियके समयप्रवद्धमात्र शेष कथायोंके
द्रव्यके पहले कहे गये स्वामित्वविषयक जघन्य द्रव्यसे योग गुणकारके माहात्म्य वश असंख्यात-
गुण होनेके कारण कोई फल नहीं उपलब्ध होता ।

नरकजातिमे भी अनन्तानुबन्धीचतुष्कका स्वामित्व कहते समय उसे दो छयासठ
सागर काल तक परिभ्रमण न करा कर एकेन्द्रियोमें जघन्य सत्कर्मरूपसे प्रवेश कराने में यही
कारण कहना चाहिए । तथा वहाँ खीवेदके जघन्य सत्कर्मसे बन्धक काल वश नपुसंकवेदके
जघन्य सत्कर्मके संख्यातगुण होने पर इसी प्रकार तीन पल्य और दो छयासठ सागर कालके
भीतर परिभ्रमण नहीं करना कारणरूपसे कहना चाहिए ।

❀ कोहे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❀ मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❀ लोभे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २७०. एदाणि सुत्ताणि सगंतोविस्वत्तपयडिविसेसपच्चयाणि सुगमाणि त्ति ण वक्खाणायरो कीरदि ।

❀ मिच्छत्ते जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।

§ २७१. एत्थ चोदओ भणइ—जहा तुम्हेहि पुण्विल्लमणंताणुबंधीणं जहण-
सामित्तं परूविदं तथा मिच्छत्तादो तेसिं जहणपदेससंतकम्मेणासंखेज्जगुणेण होदव्वं,
मिच्छत्तस्स वेखावट्ठीओ भमादियसम्मत्तादो परिवडिय एइदिएसुप्पणपढमसमए जहण-
सामित्तदंसणादो तेसिमणहा सामित्तविहाणादो च । ण च मिच्छत्तजहणसामिणा
वि वेखावट्ठिसागरोवमाणि ण हिंदिदाणि त्ति वोत्तुं जुत्तं, अणहा तस्स जहण-
भावाणुववत्तीदो तदपरिभमणे कारणाणुवत्तंभादो च । एदम्हादो उवरिमअपच्चक्खाण-
माणजहणपदेससंतकम्मस्स असंखेज्जगुणत्तणहाणुववत्तीए च तस्सिद्धीदो । ण च
अधापवत्तभागहारदो वेखावट्ठिसागरोवमभंतरणाणागुणहाणिसत्तागाणमणोणणवत्त-

❀ उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❀ उससे अनन्तानुबन्धी मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❀ उससे अनन्तानुबन्धी लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २७०. उत्तरोत्तर विशेष अधिक होनेका कारण प्रकृतिविशेष होना यह बात इन सूत्रोंमें ही गभित होनेसे ये सुगम हैं, इसलिए इनका व्याख्यान नहीं करते हैं ।

❀ उससे मिथ्यात्वमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २७१. शंका—यहाँ पर प्रश्न करनेवाला कहता है कि जिस प्रकार तुमने पहले अनन्तानुबन्धियोंका जघन्य स्वाभित्व कहा है उसी प्रकार मिथ्यात्वसे उनका जघन्य प्रदेश-
सत्कर्म असंख्यातगुणा होना चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्वके साथ दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करके और मिथ्यात्वमें गिर कर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मिथ्यात्वका जघन्य स्वाभित्व देखा जाता है और अनन्तानुबन्धियोंका इससे अन्यथा प्रकारसे जघन्य स्वाभित्वका विधान किया है । यदि कहा जाय मिथ्यात्वका जघन्य स्वामी भी दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण नहीं करता है सो उसका ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर मिथ्यात्वका जघन्यपना नहीं बन सकता है, दूसरे दो छयासठ सागरके भीतर परि-
भ्रमण नहीं करनेका कारण उपलब्ध नहीं होता । इससे तथा आगे जो अप्रत्याख्यान मानका जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यतगुणा कहा है वह अन्यथा बन नहीं सकता इससे भी उक्त कथनकी सिद्धि होती है । कोई कहे कि उत्कर्षणभागहारके द्वारा उत्पन्न की गई दो छयासठ सागर कालके भीतर जो नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशि है वह अधःप्रवृत्तभागहारसे

रासीए उक्कङ्कणभागहारपटुप्पणाए असंखेज्जगुणहीणत्तावलंवेणेण पयददोसपरिहारो समंजसो, तत्तो तिससे असंखेज्जगुणत्तपटुप्पाययउवरिमैप्पावहुअदंडएण सह विरोह-
प्पसंगादो । वेच्चावट्टिसागरोवमणाणागुणहाणिसत्तागाणं पि तत्थ तत्तो असखेज्ज-
गुणत्तुवलंभादो उव्वेत्तणकालणाणागुणहाणिसत्तागाणमण्णोण्णभत्थरासीदो वि तस्सा-
संखेज्जगुणहीणत्तस्साणंतरमेव परूविदत्तादो च । तम्हा सामित्ताहिप्पाएणेवंविहेण
हेट्टुवरि णिवदेयव्वमेदेणप्पावहुएण ? ण तहाब्भुवगमो जुज्जंतओ, सुत्तेणेदेण सह
विरोहादो । ण चेदमण्णहा काउं सक्किज्जइ, त्रिणाणमण्णहावाइत्तादो । तदो ण
पुच्चुत्तमणंताणुवंधिजहण्णसामित्तगुणमारो वा घटंतओ त्ति ? एत्थ परिहारो वुचदे—
सच्चमेवेदं जइ सामित्तं तहाविहमेत्थ जहणत्तेणावलंबियं, तत्थ समणंतरपरूविददोसस्स
परिहरेउमसक्रियत्तादो । किं तु अणंताणुवंधीणं पि मिच्छत्तस्सेव वेच्चावट्टीओ भमाडिय
जहण्णसामित्तविहाणेण पयददोसपरिहारो दट्टव्वो, तस्स णिरवज्जत्तादो । ण एत्थ
विं पुव्वपरूविददोसो आसंकणिज्जो, वयाणुसारिआयावलंवेणेण तस्स परिहारादो ।
ण संजुत्तावस्थाए वि एस पसंगो, तदण्णत्थ एवंविहणियमब्भुवगमादो भमिदवेच्चावट्टि-

असंख्यातगुणी हीन होती है, अतः इस बातका अवलम्बन लेनेसे प्रकृत दोषका परिहार वन जायगा सो उसका ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो इस कथनका उससे अर्थात् अधःप्रवृत्तभागहारसे उसे अर्थात् दो छयासठ सागर कालके भीतर प्राप्त हुई अन्योन्याभ्यस्त राशिको असंख्यातगुणा उत्पन्न करनेवाले उपरिम अल्पवहुत्वदण्डके साथ विरोधका प्रसङ्ग आता है, दूसरे वहाँ पर दो छयासठ सागर कालके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानिशलाकाएँ भी उससे असंख्यातगुणी, उपलब्ध होती हैं, तीसरे उद्वेलन कालके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानि-शलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे भी वह अधःप्रवृत्तभागहार असंख्यातगुणा हीन होता है यह अनन्तर पूर्व ही कह आये हैं, इसलिए स्वामित्वके अभिप्रायके अनुसार इस अल्प-वहुत्वको इस प्रकार अर्थात् हमारे द्वारा बतलाई गई विधिके अनुसार आगे पीछे रखना चाहिए । परन्तु वैसा मानना युक्त नहीं है, क्योंकि इस सूत्रके साथ विरोध आता है और इस सूत्रको अन्यथा कर नहीं सकते, क्योंकि जिनेन्द्रदेव अन्यथावादी नहीं होते । इसलिए अनन्तानुवन्धीके जघन्य स्वामित्वका पूर्वोक्त गुणकार घटित नहीं हाता ?

समाधान—अब यहाँ पर इस शंकाका परिहार करते हैं—यह सत्य ही है यदि उस प्रकारके जघन्य स्वामित्वका यहाँ पर अवलम्बन किया जावे, क्योंकि उस प्रकारसे जघन्य स्वामित्वके अवलम्बन करने पर अनन्तर पूर्व कहे गये दोषका परिहार करना अशक्य है । किन्तु मिथ्यात्वके समान ही दो छयासठ सागर कालके भीतर परिध्रमण करारकर अनन्तानु-वन्धियोंके जघन्य स्वामित्वका विधान करनेसे प्रकृत दोषका परिहार जान लेना चाहिए, क्योंकि यह कथन निर्दोष है । यदि कोई यहाँ पर भी पहले कहे गये दोषकी आशंका करे तो उसका ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि व्ययके अनुसार आयाका अवलम्बन करनेसे उसका परिहार हो जाता है । संयुक्तावस्थामे भी यही प्रसङ्ग आता है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो उस

सागरोवमखविदकम्मसियम्मि तहाविहणियमावलंवणादो च । जइ एवं, णिरयगईए मिच्छत्ताणंताणुबंधीणं वेळावट्ठीओ भमादिय परिणामपच्चएण मिच्छत्तं णेदूण णेरईएसु-
प्पाइय तेत्तीससागरोवमाणि थोवूणाणि सम्मतमणुपालविय जहण्णसामित्तं दायव्व-
मिदि ? ण एदं पि दोसाय, विरोहाभावेण तहाब्भुवगमादो । ण च वेळावट्ठि-
सागरोवमाणि परिभमिदस्स तेत्तीससागरोवमपरिभमणासंभवेण पच्चवट्ठेयं, वेळावट्ठि-
बहिब्भूदसागरोवमपुधत्तमेत्तसम्मत्त कालपरुवयसंकमसामित्तमुत्तवलेण तदविरोहसिद्धीए
ण सो पसंगो । इत्थि-णनुंसयवेदाणमादेसजहण्णसामियस्स वि तद्धुवएसंतरमस्सियूण
पयारंतरेण सामित्तविहाणादो । तं जहा—एत्थ वे उवएसा एक्को ताव सव्वासिं
बंधपयडीणमाएण वयाणुसारिणा होदव्वमिदि । अण्णेगो णायाणुसारी वओ, वयाणु-
सारी वा आओ' । किंतु सव्वपयडीणमप्पणो मूलदव्वाणुसारेण समयाविरोहेण
संकमो होइ ति । तत्थ पढमोवएसमस्सिदूण पयट्ठमेदं मिच्छत्ताणंताणुबंधीणमादेस-
जहण्णसामित्तप्पाबहुमं च इत्थि-णनुंसयवेदाणमोवजहण्णसामित्तं पि तदणुसारी' चेव ।

अवस्थाके सिवा अन्यत्र इस प्रकारका नियम स्वीकार किया गया है । दूसरे जो क्षपितकर्माशिक
जीव दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर चुका है उसके उस प्रकारके नियमका अव-
लम्बन लिया गया है ।

शंका—यदि ऐसा है तो दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करा कर और
परिणामोंके निमित्तसे मिथ्यात्वमें ले जाकर तथा नारकियोंमें उत्पन्न कराकर कुछ कम तेतीस
सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन कराकर नरकगतिमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका
जघन्य स्वामित्व देना चाहिए ?

समाधान—यही भी दोषाधायक नहीं है, क्योंकि विरोधका अभाव होनेसे उस प्रकारसे
उक्त प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व स्वीकार किया है । यदि कोई कहे कि जो दो छयासठ सागर
काल तक परिभ्रमण करता रहा है उसका तेतीस सागर काल तक परिभ्रमण करना असम्भव है सो
ऐसा निश्चय करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दो छयासठ सागरप्रमाण कालके बाहर सागर
पृथक्त्वप्रमाण सम्यक्त्वके कालका कथन करनेवाले संक्रमस्वामित्वसूत्रके बलसे उक्त कथन
अविरोधी सिद्ध होनेसे उक्त दोषका प्रसङ्ग नहीं आता है । तथा स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके आदेश
जघन्य स्वामीका भी वहाँ पर उपदेशान्तरका आश्रय लेकर प्रकारान्तरसे स्वामित्वका विधान
किया है । यथा—इस विषयमें दो उपदेश हैं—प्रथम उपदेश तो यह है कि सब बन्ध प्रकृतियोंके
व्ययके अनुसार आय होना चाहिए । दूसरा उपदेश यह है कि आयके अनुसार व्यय नहीं होता
तथा व्ययके अनुसार आय भी नहीं होता किन्तु सब प्रकृतियोंका अपने अपने मूल द्रव्यके
अनुसार आगममें प्रतिपादित विधिके अनुसार संक्रम होता है । उनमेंसे प्रथम उपदेशके अनुसार
मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धियोंका आदेश जघन्य स्वामित्वविषयक अल्पबहुत्व प्रवृत्त हुआ

१. ता०प्रती 'वयाणुसारी आओ' इति पाठः । २. ता०प्रती '—जहण्णं वि सामित्तं तदणुसारी'
इति पाठः ।

तत्थ सोदएण सामित्तिविहाणङ्गं वेद्धावढ्ढीओ भमाडिय मिच्छत्तढोवणादो तेसिमेव जहण्ण-
सामित्तमादेसपडिबद्धं विदियउवएसावत्तवणेण पयट्टं, तत्थ तदणुसारणेवप्पावहुअ-
परुवणुवत्तंभादो । तम्हा अहिप्पायभेदमिममासेज्ज सव्वत्थ सुत्ताणमविरोहो घढावेयव्वो
त्ति ण किंचि दुग्घडं पेच्छामो । तदो सिद्धमायाणुसारिवयावत्तंवितामिच्चत्तवत्तवणे-
णाणंताणुवंधिलोभादो मिच्छत्तमसंखेज्जगुणमिदि । एत्थ गुणगारो अधापवत्तभागहारो
पुव्वसुत्ते वि उव्वेज्जण०णाणागुणहाणिसत्तागाणमण्णोण्णभत्थरासीदो असंखेज्जगुणो
त्ति घेत्तव्वो, हेट्ठिमरासिणा उवरिमरासिम्मि भागे हिदे तहोवत्तंभादो ।

❀ अपवत्तवत्तामाणे जहण्णपदेससंतकम्मसंखेज्जगुणं ।

§ २७२. एत्थ गुणगारो वेद्धावट्ठिसागरोवमणाणागुणहाणिसत्तागाणमण्णोण्ण-
भत्थरासीदो असंखे०गुणो ।

❀ कोथे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❀ मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❀ लोभे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २७३. एदाणि सुत्ताणि सुट्ठु सुगमाणि ।

है । तथा स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका अधो जघन्य स्वामित्व भी उसीके अनुसार प्रवृत्त हुआ है । उनमेंसे स्वोदयसे स्वामित्वका कथन करनेके लिए दो छथासठ सागर काल तक भ्रमण कराकर मिथ्यात्वका संक्रमण हो जानेसे उर्हाँका आदेशप्रतिबद्ध जघन्य स्वामित्व द्वितीय उपदेशका अवलम्बन लेकर प्रवृत्त हुआ है, क्योंकि वहाँ पर उसीके अनुसार ही अल्प-बहुत्वका कथन उपलब्ध होता है, इसलिए इस भिन्न अभिप्रायका आश्रय लेकर सर्वत्र सूत्रोंमें अविरोध स्थापित कर लेना चाहिए, इसलिए हम कुछ भी दुर्घट नहीं देखते हैं ।

इसलिए सिद्ध हुआ कि आयके अनुसार व्ययका अवलम्बन लेनेवाले स्वामित्वका अव-लम्बन लेनेसे अनन्तानुबन्धी लोभसे मिथ्यात्वका द्रव्य असंख्यतगुणा है । यहाँ पर गुणकार अधः-प्रवृत्तभागहार है जो पहलेके सूत्रमें भी उद्वेलन भागहारकी नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्यान्याभ्यस्त राशिसे असंख्यातगुणा है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अधःस्तन राशिका उपरिम राशिमें भाग देने पर उसकी उपलब्धि होती है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म असंख्यातगुणा है ।

§ २७२. यहाँ पर गुणकार दो छथासठ सागरकी नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्यान्याभ्यस्त राशिसे असंख्यातगुणा है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❀ उससे अप्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २७३. ये सूत्र अत्यन्त सुगम हैं ।

❀ पञ्चक्खाणमाणे जहणणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❀ कोहे जहणणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❀ मायाए जहणणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❀ लोहे जहणणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २७४. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

❀ पुरिसवेदे जहणणपदेससंतकम्ममणंतगुणं ।

§ २७५. कुदो ? देसघाइत्तादो बहूणं परिणामिकारणाणमुवलंभादो ।

❀ इत्थिवेदे जहणणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ २७६. कुदो ? पुरिसवेदबंधगद्धादो इत्थिवेदबंधगद्धाए संखे०गुणत्तादो । एत्थ चोदओ भणइ, कथं वेच्चावट्टिसागरोवमाणि परिभमिय एइदिएसुप्पणपढमसमए जहणणभावमुवगयस्सेदस्स तन्विवरीदसरूवादो पुरिसवेददच्चादो असंखेज्जगुणहीणत्तं मुच्चा संखेज्जगुणत्तं जुज्जे । ण च एदमविवक्खिय एइदियजहणणसंतकम्मस्सेव संगहो ति वोत्तुं जुत्तं, एदम्हादो तस्स असंखे०गुणत्तेण जहणणभावाणुववत्तीदो तद्विवक्खाए फलाणुवलंभादो च । तदो ण एदं सुत्तं समंजसमिदि । एत्थ परिहारो चुच्चदे—ण एसो

* उससे प्रत्याख्यान मानमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यान क्रोधमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यान मायामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यान लोभमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २७४. ये सूत्र सुगम हैं ।

* उससे पुरुषवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म अनन्तगुणा है ।

§ २७५. क्योंकि देशघाति होनेसे इसके परिणामन करानेके बहुतसे कारण पाये जाते हैं ।

* उससे स्त्रीवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ २७६. क्योंकि पुरुषवेदके बन्धक कालसे स्त्रीवेदका बन्धक काल संख्यातगुणा है ।

शंका—यहाँ पर शंकाकार कहता है कि दो ब्रथासठ सागर काल तक परिभ्रमण करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें जघन्य भावको प्राप्त हुआ वेद उसके विपरीत स्वभाववाला होनेसे पुरुषवेदके द्रव्यसे असंख्यातगुणे हीनको छोड़कर संख्यातगुणा कैसे बन सकता है । यदि कहा जाय कि इसकी अविवक्षा करके एकेन्द्रियके जघन्य सत्कर्मका ही संग्रह किया है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे एकेन्द्रियका जघन्य सत्कर्म असंख्यातगुणा होनेसे जघन्यभावकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और उसकी अविवक्षा करनेमें कोई फल नहीं उपलब्ध होता, इसलिए यह सूत्र ठीक नहीं है ?

समाधान—यहाँ इस शंकाका परिहार करते हैं—इस स्त्रीवेदके जघन्य स्वामीको दो

इत्थिवेदजहण्णसामिओ' वेद्धावट्टिसागरोवमाणि भमादेयव्वो, तव्वमणे फलाणुवलंभादो । सो च कुदो ? वेद्धावट्टिसागरोवमाणि परिभभिय सम्मत्तादो परिवडिय इत्थिवेदं बंधमाणस्स पुरिसवेदादो अधापवत्तभागहारेण इत्थिवेदम्मि संकममाणदव्वस्स असंखेज्ज-पंचिदियसमयपवद्धमेत्तस्स एइंदियपाओग्गजहण्णपदेससंतकम्मं पेक्खियूण असंखेज्ज-गुणत्तादो । तं पि कुदो णव्वदे ? अधापवत्तभागहारादो जोगुणगारस्स असंखेज्ज-गुणत्तपरूवयमुत्तादो । तदो एइंदियसंचयस्स पाहण्णियादो बंधगद्धावसेण संखेज्ज-गुणत्तमविरुद्धं सिद्धं ।

❀ हस्से जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

§ २७७. कुदो ? इत्थिवेदबंधगद्धादो एइंदिएसु हस्स-रइबंधगद्धाए संखेज्ज-गुणत्तादो ।

❀ रदीए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २७८. पयडिविसेसेण ।

❀ सोगे जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।

छायासठ सागर काल तक नहीं घुमाना चाहिए, क्योंकि उस कालके भीतर घुमानेमे कोई फल नहीं पाया जाता ।

शंका—यह किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि दो छायासठ सागर काल तक भ्रमण करके और सम्यक्त्वसे च्युत होकर स्त्रीवेदका बन्ध करनेवाले जीवके पुरुषवेदमेसे अधःप्रवृत्तभागहारके द्वारा स्त्रीवेदमें संक्रमणको प्राप्त होनेवाला पञ्चेन्द्रियके असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण द्रव्य एकेन्द्रियके योग्य जघन्य प्रदेशसत्कर्मको देखते हुए असंख्यातगुणा होता है ।

शंका—वह भी किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—अधःप्रवृत्त भागहारसे योगगुणकार असंख्यातगुणा होता है ऐसा कथन करनेवाले सूत्रसे जाना जाता है ।

इसलिए एकेन्द्रियके सञ्चयकी प्रयानता होनेसे बन्धक कालके वशसे पुरुषवेदके द्रव्यसे स्त्रीवेदका द्रव्य अविरोधरूपसे संख्यातगुणा सिद्ध होता है ।

❀ उससे हास्यमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

§ २७७. क्योंकि स्त्रीवेदके बन्धक कालसे एकेन्द्रियोंने हास्य और रतिका बन्धक काल संख्यातगुणा है ।

❀ उससे रतिमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २७८. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है ।

❀ उससे शोकमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म संख्यातगुणा है ।

१. ता०प्रती 'ए पस दोसो इत्थिवेदजहण्णसामिओ' इति पाठः । २. ता०प्रती 'फलाणुवलंभादो च । सो' इति पाठः ।

§ २७६. बंधगद्धाए तहवद्वाणादो ।

❊ अरवीए जहएणपदेससंतकमं विसेसाहियं ।

§ २८०. पयडिविसेसादो ।

❊ एवुंसयवेदे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

२८१. कुदो ? एइंदियअरदि-सोगबंधगद्धादो तत्थतणणवुंसयवेदबंधगद्धाए विसेसाहियत्तादो । केत्तियमेत्तो बंधगद्धाविसेसो ? हस्स-रदिवंधगद्धाए संखेज्जभाग-मेत्तो । तदणुसारेण च दव्वविसेसो परूवेयव्वो ।

❊ दुगुंछ्वाए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २८२. धुवबंधित्तादो ।

❊ भए जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २८३. पयडिविसेसेण तहावद्वाणादो ।

❊ माणसंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २८४. मोहणीयदसमभागं पेक्खियूण तददमभागस्स विसेसाहियत्ते संदेहा-भावादो ।

❊ कोहसंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

❊ मायासंजलणे जहएणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

§ २७६. क्योंकि बन्धक काल उस प्रकारसे अवस्थित है ।

* उससे अरतिमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २८०. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है ।

* उससे नपुंसकवेदमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २८१. क्योंकि एकेन्द्रियोमें अरति और शोकके बन्धक कालसे वहाँ पर नपुंसकवेदका बन्धक काल विशेष अधिक है । बन्धककाल विशेषका प्रमाण कितना है ? हास्य और रतिके बन्धककालके संख्यातवें भागप्रमाण है । और उसीके अनुसार द्रव्यविशेषका कथन करना चाहिए ।

* उससे जुगुप्सामें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २८२. क्योंकि यह ध्रुवबन्धिनी प्रकृति है ।

उससे भयमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २८३. क्योंकि प्रकृतिविशेष होनेसे उसका उस रूपसे अवस्थान है ।

* उससे मानसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २८४. क्योंकि मोहनीयके दसम भागको देखते हुए उसका आठवाँ भाग विशेष अधिक होता है इसमें सन्देह नहीं है ।

* उससे क्रोध संज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

* उससे माया संज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

❀ लोभसंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहिंयं ।

§ २८५. सुगमं ।

एदेण देसाभासियदंडएण सूचिदसेसासेसमगणाओ अणुमग्गिदब्बाओ जाव अणाहारि ति ।

एवमप्पावहुअं समत्तं ।

❀ एत्तो भुजगारं पदणिकखेव-वड्डीओ च कादब्बाओ ।

§ २८६. एत्तो उवरि भुजगारं परूविय तदो पदणिकखेव-वड्डीओ कायब्बाओ ति उवरिमाणंतरसुत्तावेकखो सुत्तथसंबंधो कायब्बो । संपहि एदस्स अत्थसमप्पणा-सुत्तस्स सूचिदासेसपरूवणस्स दव्वद्वियणयावलंसिसिस्साणुग्गहारिणो भगवदीए उचारणाए पसाएण पज्जवद्वियपरूवणं भणिस्सामो । तं जहा—भुजगारविहत्तीए तत्थ इमाणि तेरसाणियोगद्वाराणि - समुक्तिपणा जाव अप्पावहुए ति । तत्थ समुक्तिपणाणु-गमेण दुविहो णिद्वेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मिच्चत्त-वारसक०-पुरिस०-भय-दुग्गुद्धाणमत्थि भुज० अप्प० अवद्विद्विहत्तीओ । सम्म०-सम्मामि० अत्थि० भुज० अप्प० अवत्तव्वमवद्विदं च । अणंताणुवंचिचउक्कस्स अत्थि भुज० अप्प० अवद्विद० अवत्तव्वं । इत्थिवेद०-णवुंसय०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमत्थि भुज० अप्प०विहत्तीओ । अवद्विदं च उवसमसेदीए । एवं सव्वणेरइय--सव्वतिरिक्ख-

❀ उससे लोभसंज्वलनमें जघन्य प्रदेशसत्कर्म विशेष अधिक है ।

§ २८५. ये सूत्र सुगम हैं । इस देशामर्षकदण्डकका अवलम्बन लेकर अनाहारक मार्गणा तक समस्त मार्गणाओका अनुमार्गण करना चाहिए ।

इस प्रकार अल्पवहुत्व समाप्त हुआ ।

❀ इससे आगे भुजगार, पदनिक्षेप और वृद्धि करनी चाहिए ।

§ २८६. इससे आगे भुजगारका कथन करके अनन्तर पदनिक्षेप और वृद्धिका कथन करना चाहिए इस प्रकार उपरिम अनन्तर सूत्रकी अपेक्षा करके इस सूत्रके अर्थका सम्बन्ध करना चाहिए । अब समस्त प्ररूपणाओको सूचन करनेवाले और द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन करनेवाले शिष्योंका अनुग्रह करनेवाले और मुख्यरूपसे अधिकारका सूचन करनेवाले इस सूत्रकी भगवती उच्चारणाके प्रसादसे विशेष प्ररूपणा करते हैं । यथा—भुजगार विभक्तिमें ये तेह अनुयोगद्वार होते हैं—समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पवहुत्व तक । उनमेंसे समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघसे मिथ्यात्व, वारह कथाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्ति है । सन्यक्त्व और सन्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्ति है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, आरति और शोककी भुजगार और अल्पतरविभक्ति है । तथा उपशमश्रेणियोंमें अवस्थितविभक्ति है । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य, देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम

सन्वमणुस्स-देव-भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति । णवरि मणुसतियवदिरित्तेसु इत्थि-णवुंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणमवट्ठिदं णत्थि । अपणं च पंचिंतिरिक्ख-अपज्ज०-मणुसअपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंछ० अत्थि भुज० अप्प० अवट्ठि० । सत्तणोकसायाणमत्थि भुज० अप्प० । सम्मत्त०-सम्मामि० अत्थि अप्पदरविहती । अणुदिसादि जाव सन्वद्वसिद्धिं ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क०-इत्थि-णवुंस० अत्थि अप्पदरविहती । णवरि सम्म०-सम्मामि० भुजगारो वि दीसइ उवसमसेदीए कालं कानूण तत्थुप्पणणउवसमसम्माइट्ठिमि ति तमेत्थ ण विवक्खियं, तदविवक्खाए कारणं जाणिय वत्तव्वं । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछ० अत्थि भुज० अप्प० अवट्ठि० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमत्थि भुज० अप्प०विहत्तिओ, उवसमसेदीदो अण्णत्थ एदेसिमवट्ठिदपदाभावादो । एवं जाव अणाहारि ति ।

समुक्कित्तण, गदा ।

§ २८७. सामित्ताणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण मिच्छ० भुज०विहती कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्ठिस्स । अवट्ठि० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइट्ठिस्स वा सासणसम्माइट्ठिस्स वा । अप्प० कस्स ? अण्णद० सम्माइट्ठिस्स वा मिच्छाइट्ठिस्स वा । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवत्त० कस्स ?

त्रैवैयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकको छोड़कर शेषमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी अवस्थितविभक्ति नहीं है । और भी—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्ति है । सात नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति है । तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतरविभक्ति है । अनुदिशासे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्ति है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगारविभक्ति भी दिखलाई देती है जो उपशमश्रेणियोंमें मरकर वहाँ उत्पन्न हुए उपशमसम्यग्दृष्टिके होती है परन्तु उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है । उसकी विवक्षा न होनेका कारण जानकर कहना चाहिए । वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्ति है । हास्य, रति, अरति और शोककी भुजगार और अल्पतरविभक्ति है, क्योंकि उपशमश्रेणिके सिवा अन्यत्र इसका अवस्थितपद नहीं पाया जाता । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

इस प्रकार ससुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

§ २८७. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है । अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टिके होती है । अल्पतरविभक्ति किससे होती है । अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होती है । सम्यक्त्व

अण्णद० सम्माइद्विस्स । अवट्ठि० कस्स ? अण्ण० सासणसम्माइद्विस्स । अप्प० कस्स ? अण्ण० सम्माइद्वि० मिच्छाइद्विस्स वा । अणंताणु०चउक्कस्स मिच्छत्त-भंगो । एववरि अवट्ठि० कस्स ? अण्ण० मिच्छाइद्विस्स । अवत्त० कस्स ? अण्णद० विसंजोइय पुणो संजुत्तपढयसमए वट्टमाणयस्स । वारसक०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० कस्स ? अण्ण० सम्माइद्वि० मिच्छाइद्वि० । इत्थि०-णनुंस० भुज०-विहत्ति० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइद्विस्स । अप्प० कस्स ? अण्णद० सम्माइद्वि० मिच्छाइद्वि० वा । इस्स-रदि-अरदि-सोगाणं भुज०-अप्पद० कस्स ? अण्ण० सम्मा० मिच्छाइद्विस्स वा । एदेसिं छण्णं पि खोकसायाणं अवट्ठि० कस्स ? अण्णद० चारिच्च-मोहउवसाभयस्स सव्वुवसामणाए वट्टमाणयस्स । पुरिस० भुज०-अप्प० कस्स ? अण्णद० सम्माइद्वि० मिच्छाइद्विस्स वा । अवट्ठि० कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स । एवं सव्वणोरइय--तिरिक्ख--पंचिदियतिरिक्खतिय--मणुसतिय--देवगइदेवा भवणादि जाव उरिमगेवज्जा ति । एववरि छण्णोक्कसायाणमवट्ठिदविहत्ती मणुसतियवदिरिच्चमग्गणासु णत्थि । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० कस्स ? अण्णद० सम्म० सम्मामि० । अप्प० कस्स० अण्णद० । सत्तणोक० भुज०-अप्प० कस्स ? अण्ण० । अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा ति मिच्छ०-

और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होती है । अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सासादनसम्यग्दृष्टिके होती है । अल्पतर-विभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होती है । अनन्तानुबन्धी-चतुष्कका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है । अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर विसंयोजना करनेके बाद पुनः संयुक्त होनेके प्रथम समयमें विद्यमान जीवके होती है । चारह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होती है । स्त्रीवेद और नर्पुसकवेदकी भुजगारविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है । अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होती है । हास्य, रति, अरति और शोककी भुजगार और अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होती है । इन छहों नोकपयोंकी अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? सर्वोपशामनाके साथ विद्यमान चारित्रसोहनीयकी उपशामना करनेवाले अन्यतर जीवके होती है । पुरुषवेदकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होती है । अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होती है । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, देवगतिमे सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम त्रैवेयक तकके देवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि छह नोकपयोंकी अवस्थितविभक्ति मनुष्यत्रिकके सिवा अन्य मार्गणात्रोमे नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अर्थात् और मनुष्य अर्थात् जीवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टिके होती है । अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतरके होती है । सात नोकपयोंकी भुजगार और

सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०-चउक०-इत्थि०-णवुंस० अप्प० कस्स ? अएणद० ।
 वारसक०-पुरिस०-भय-दुग्गुं० तिण्णिं वि पदाणि कस्स ? अण्णद० । चउणोको०
 भुज०-अप्प० कस्स ? अण्णद० । एवं जाव अणाहारए ति ।

सामिन्तं गदं ।

§ २८८. कालाणु० दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-
 अणंताणु०-चउक्काणं भुज०-विहती केवचिरं ? जहएणेण एगसमओ, उक्क० पल्लिदो०
 असंखे०भागो । अप्प०विह० जह० एगस०, उक्क० वेखावट्ठि० सागरोवमाणि
 सादिरैयाणि । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । एवरि मिच्छ०
 उक्क० छावलियाओ । अणंताणु०-चउक० अवत्त० जहण्णुक्क० एगस० । सम्म०-
 सम्मामि० भुज० जहण्णुक्क० अंतोमु० । अप्प० जह० अंतोमु०, उक्क० वेखावट्ठि-
 सागरो० सादिरैयाणि पल्लिदो० असंखे०भागेण । अवत्त० जहण्णुक्क० एगस० ।
 अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० छावलियाओ । वारसक०-पुरिस०-भय-दुग्गुं० भुज०-
 अप्प० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क०
 संखेज्जा समया अंतोमुहुत्तं वा उवसमसेट्ठिं पडुच्च । इत्थि०-णवुंस० भुज० जह०

अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतरके होती है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें
 मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी
 अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतरके होती है । बारह कथाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्सा
 के तीनों पद किसके होते हैं ? अन्यतरके होते हैं । चार नोकषायोंकी भुजगार और
 अल्पतरविभक्ति किसके होती है ? अन्यतरके होती है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक
 जानना चाहिए ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

§ २८८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
 मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगारविभक्तिका कितना काल है ? जघन्य काल एक
 समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल
 एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका
 जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । इतनी विशेषता है कि मिध्यात्वकी
 अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल छह आवलि है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका
 जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगारविभक्तिका
 जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतर विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और
 उत्कृष्ट काल पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक दो छयासठ सागर है । अवक्तव्यविभक्तिका
 जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और
 उत्कृष्ट काल छह आवलि है । बारह कथाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतर
 विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।
 अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय अथवा

एगस०, उक्क० अंतोमु० । अप्प० जह० एगसमओ, उक्क० वेच्चावडिसागरो० सादिरैयाणि । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं भुज०-अप्प० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । एदेसिं वण्णोक्क० अवडि० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० ।

अन्तर्मुहूर्त है उपशमश्रेणिकी अपेक्षा । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागर है । हास्य, रति, अरति और शोककी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इन छह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—ओषसे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कर्की भुजगारविभक्ति मिथ्या-दृष्टि जीवके होती है । मिथ्यात्वमें भुजगारका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनके इस पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । इनकी अल्पतरविभक्ति मिथ्यादृष्टि और सन्यग्दृष्टि दोनोंके होती है, इसलिए इनके इस पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक दो छथासठ सागर कहा है । यहाँ प्रारम्भमें उपशमसम्यक्त्वके साथ रखकर और मध्यमें सन्यग्मिथ्यात्वमें ले जाकर वेदकसम्यक्त्वके साथ उत्कृष्ट काल तक रखकर मिथ्यात्वमें भी यथासम्भव काल तक अल्पतर-विभक्ति करानेसे यह काल प्राप्त होता है । इनकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है यह स्पष्ट ही है । मात्र सासादनगुणस्थानमे मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्ति उसके पूरे उत्कृष्ट काल तक वनी रहे यह सम्भव है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल छह आवलिप्रमाण कहा है । अवक्तन्यविभक्ति वन्ध या सत्वके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमें होती है, इसलिए अनन्तानुबन्धीचतुष्कर्की अवक्तन्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । सम्यक्त्व और सन्यग्मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्ति उपशमसम्यक्त्वके समय होती है और इसका काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए यहाँ इन दो प्रकृतियों की भुजगारविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । इनकी अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । इनकी अवक्तन्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय अनन्तानुबन्धीके समान तथा अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवलि मिथ्यात्वके समान घटित कर लेना चाहिए । बारह कपाय आदिकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति मिथ्यादृष्टि और सन्यग्दृष्टि दोनोंके होती है पर इनका उत्कृष्ट काल मिथ्यादृष्टिके ही सम्भव है, क्योंकि वहाँ पर इनके ये दोनों पद पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक हो सकते हैं, इसलिए इनके इन दोनों पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । इनकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है यह स्पष्ट ही है । तथा उपशमश्रेणिमे अन्तर्मुहूर्त काल तक इनका अवस्थितपद सम्भव है, इसलिए इस अपेक्षासे इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका भुजगारपद तो अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त काल तक ही होता है पर इनका अल्पतरपद साधिक दो छथासठ सागर काल तक भी सम्भव है, इसलिए इनके इन दोनों पदोंका जघन्य काल एक समय तक भुजगारका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त और अल्पतरका उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण कहा है । हास्यादिका वन्ध

§ २८६. आदेशेण णेरइएसु मिच्छ० भुज० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीससागरोवमाणि देसूणाणि । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया धावलिया वा । एवमर्णताणु०चउक्कस्स । णवरि अवत्त० जहण्णुक्क० एगस० । अवट्ठिदस्स वि संखेज्जा चेव समया उक्कस्स-कालो वत्तव्वो । सम्म०-सम्मापि० भुज० जह० उक्क० अंतोमु० । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीस सागरोवमाणि । अवत्त० जहण्णुक्क० एगसमत्तो । अवट्ठि० ओघभंगो । बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंझ० भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० सत्तट्ठ समया । इत्थि०-णवुंस० भुज० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीस सागरो० देसूणाणि । हस्स-रइ-अरइ-सोग० भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । एवं सत्तमाए पुढवीए ।

सम्यग्दृष्टिके भी बदलता रहता है, इसलिए इनके अल्पतर और भुजगारपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे उक्त कालप्रमाण कहा है । इन छह नोकषायोंका अवस्थितपद उपशमश्रेणियों भी सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ २८६. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है अथवा छह आवलि है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी-चतुष्कका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । तथा अवस्थितविभक्तिका भी उत्कृष्ट काल संख्यात समय ही कहना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थित-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । स्त्रीवेद और नर्पुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । हास्य, रति, अरति और शोककी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका काल ओघकी देखकर घटित कर लेना चाहिए । मात्र अल्पतरविभक्तिके उत्कृष्ट कालमें जहाँ विशेषता है उसे और उपशमश्रेणिके कारण अवस्थित पदके कालमें जो विशेषता आती है वह यहाँ सम्भव न होनेसे उसे अलगसे घटित कर जान लेना चाहिए ।

§ २६०, पदमाए जाव छट्टि ति मिच्छ० भुज० ओघं । अप्प० जह० एगस०, उक्क० सगट्टिदी भाणिट्ठवा । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० सत्तइसमया छावलिया वा । सम्म०-सम्मामि० भुज० जह० उक्क० अंतोसु० । अप्प० जह० एगस०, उक्क० सगट्टिदीओ । अवत्त०-अवट्टि० ओघभंगो । अणंताणु०-चउक्कस्स मिच्छत्तभंगो । णवरि अवत्त० जहणुक्क० एगस० । अवट्टिद० उक्क० संखेज्जा चेव समया । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंख० ओघो । इत्थि-णवुंस० भुज० जह० एगस०, उक्क० अंतोसु० । अप्पद० जह० एगसमओ, उक्क० सगट्टिदी देसणा । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं णिरओघभंगो ।

§ २६१. तिरिक्खगईए तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खतिए मिच्छ०-अणंताणु०-चउक्काणमोघो । णवरि अप्प० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पलिदो० असंखे०-भागोए सादिरैयाणि । पंचिंदियतिरिक्खतियम्मि तिण्णि पलिदो० पुव्व-कोट्टिपुधत्तेणभहियाणि । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवट्टि०-अवत्त० ओघं । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पलिदो० असंखे०-भागोए सादिरैयाणि । पंचिंदियतिरिक्खतियम्मि तिण्णि पलिदो० पुव्वकोट्टिपुधत्तेणभहियाणि । वारसक०-

§ २६०. पहली पृथिवी से लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्वकी भुजगार विभक्तिका काल ओघके समान है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहना चाहिए । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय अथवा छह आवलि है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । अवक्तव्य और अवस्थित-विभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थित-विभक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यात ही समय है । वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग ओघके समान है । खीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग सामान्य नारकियोंके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका काल अपनी स्थितिप्रमाण कहा है वहाँ अपने अपने नरककी उत्कृष्ट स्थिति लेनी चाहिए । शेष कथन सुगम है ।

§ २६१. तिर्यञ्जगतियें तिर्यञ्ज और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जत्रिकयें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तिर्यञ्जोमे पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तीन पत्य है तथा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जत्रिकमे पूर्व कोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अव्यक्तव्यविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तिर्यञ्जोमें पत्यका असंख्यातवां भाग अधिक तीन पत्य है और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जत्रिकयें पूर्व कोटिपृथक्त्व अधिक

पुरिस०-भय-दुगुंढ० ओषो । गवरि अवट्टि० अंतोमुहुतं गत्थि । इत्थि०-गवुंस०
भुज० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । अप्प० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि
पलिदोवमाणि । जोणिणीसु देसूणाणि । हसस-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । गत्रि
अवट्टिदं गत्थि ।

§ २६२. पंचि०तिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०--सोलसक०--भय-दुगुंढ० भुज०-
अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा
समया । सम्म०-सम्माभि० अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । सत्तणोक०
भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । एवं मणुसअपज्जत्तएसु ।

§ २६३. मणुसतिए पंचिदिअतिरिक्खभंगो । गवरि इत्थि०-गवुंस० अप्प०
जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडितिभागेण सादिरेयाणि ।
मणुसणीसु देसूणाणि । वारसक०-गवणोक० अवट्टि० ओघभंगो ।

तीन पल्य है । वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग ओषधके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिका अन्तर्मुहूर्त काल नहीं है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतर विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पल्य है । मात्र योनिनी जीवोंमें यह काल कुछ कम तीन पल्य है । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओषधके समान है । इतनी विशेषता है कि इनका अवस्थित पद नहीं है ।

विशेषार्थ—पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी कायस्थिति पूर्व कोटिष्यक्त्व अधिक तीन पल्य है । इसलिए इनमें जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका काल उक्तप्रमाण कहा है वह अपनी अपनी कायस्थितिको ध्यानमे रखकर घटित कर लेना चाहिए । मात्र तिर्यञ्चोकी कायस्थिति अनन्त काल है पर इनमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अल्पतर-विभक्ति पल्यके असंख्यातवें भाग अधिक तीन पल्य काल तक ही बन सकती है, इसलिए यह काल उक्त प्रमाण कहा है । इसी प्रकार शेष कालको भी विचार कर घटित कर लेना चाहिए ।

§ २६०. पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तक जीवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सात नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए ।

§ २६३. मनुष्यनिकमें पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य है । मात्र मनुष्यनियोंमें कुछ कम तीन पल्य है । वारह कषाय और नौ नोकषायोंके अवस्थित पदका भङ्ग ओषधके समान है ।

विशेषार्थ—सामान्य मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त एक पूर्वकोटिके त्रिभाग अधिक तीन पल्य काल तक सम्यक्त्वी हो सकते हैं और इनके इतने काल तक स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका

§ २६४. देवर्गईए देवेसु मिच्छत्त-अणंताणु० चउक० भुज०-अवट्ठि० अणंताणु० चउक० अवत्त० ओघो । अप्प० जह० एगस०, उक० तेत्तीसं सागरोवमाणि । सम्म०-सम्मापि० भुज०-अवट्ठि०-अवत्त० ओघो । अप्प० जह० एगस०, उक० तेत्तीसं सागरोवमाणि । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछ०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछ० अवट्ठि० उक० संखेज्जां समया । चटुणोकसाय० अवट्ठिदं णत्थि । इत्थि०-णवुंस० भुज० जह० एगस०, उक० अंतोद्यु० । अप्प० जह० एगसमओ, उक० तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवं भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति । एवरि जत्थ तेत्तीसं सागरोवमाणि तत्थ सगट्ठिदी भाणिदव्वा । भवण०-वाण०-जोदिसि० इत्थि०-णवुंस० सगट्ठिदी देसूणा ।

§ २६५. अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा ति मिच्छ०-सम्मापि०-इत्थि०-णवुंस० अप्पद० जहणुक्कस्से० जहणुक्कस्सट्ठिदीओ । सम्म० अप्प० जह० एगस०

अल्पतर पद वन जाता है । मात्र मनुष्यनीमें यह काल कुछ कम तीन पत्य ही प्राप्त होता है । इसलिए इन तीन प्रकारके मनुष्योंमें उक्त दो वेदोंके अल्पतर पदका उक्त काल कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ २६४. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका तथा अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका भङ्ग ओषके समान है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य विभक्तिका भङ्ग ओषके समान है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विरोधता है कि वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । तथा चार नोकषायोंकी अवस्थितविभक्ति नहीं है । ऋग्वेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतर-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इसीप्रकार भवन-वासियोंसे लेकर उपरिम अथैवेयककके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विरोधता है कि जहां पर तेतीस सागर कहे हैं वहां पर अपनी स्थिति कहनी चाहिए । तथा भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें ऋग्वेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण कहना चाहिए ।

विशेषार्थ—सौधर्मादिकमें सम्यग्दृष्टि जीव अपने पूरे काल तक पाये जाते हैं और भवनत्रिकमें नहीं, इसलिए यहाँ भवनत्रिकमें ऋग्वेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहा है और सौधर्मादिकमें पूरी अपनी अपनी स्थितिप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ २६५. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, ऋग्वेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी जघन्य और

कदकरणिजं पडुच्च, उक० सगट्टिदी । अणंताणु०चउक० अप्प० जह० अंतोमु०,
उक० सगट्टिदी । वारसक०-सत्तणोक० देवोधं । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

कालाणुगमो समत्तो ।

§ २६६. अंतराणुगमेण दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्च०
भुज०विहत्तीए अंतरं जह० एगस०, उक० वेद्धावट्टिसागरो० सादिरेयाणि । अप्प०
जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० जह० एगस०, उक०
असंखेज्जा लोगा । भुजगार-अप्पदरकालाणमण्णोणमणुसंधिय ट्टिदाणमवट्टिदविहत्तीए
अंतरत्तेण गहणादो । कथं पादेवर्कं पलिदो० असंखे०भागपमाणाणमण्णोणसंबंधेण
एम्महत्तं ? ण, बहुल्लेयरपक्खाणं व असंखेज्जपरियट्टणवारेहि तेसिं तहाभावे विरोहा-
भावादो । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अप्प० जह० अंतोमु०, अवत्त०-अवट्टि० जह०
पलिदो० असंखे०भागो, उक० सन्वेसिं पि उवट्टुपोगलपरियट्टं । अणंताणु०चउक०

उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्वकी अल्पतरविभक्तिका कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टिकी अपेक्षा
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । अनन्तानुबन्धी-
चतुष्ककी अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण
है । वारह कषाय और सात नोकषायोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । इसीप्रकार अनाहारक
मार्गाद्यातक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—अनुदिशसे लेकर सब देव सम्यग्दृष्टि ही होते हैं, इसलिए इनमें मिथ्यात्व,
सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका एक अल्पतर पद
होता है, अतः इन प्रकृतियोंके उक्त पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिको
ध्यानमें रख कर कहा है । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ ।

§ २६६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो
छयासठ सागरप्रमाण है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और
उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । यहाँ पर भुजगार और अल्पतरविभक्तिके कालोंको
परस्पर रोककर स्थित हुए जीवोंकी अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल ग्रहण किया है ।

शंका—भुजगार और अल्पतरविभक्तिमेंसे प्रत्येकका काल पत्यके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण है, इसलिए इन दोनोंके सम्बन्धसे इतना बड़ा काल कैसे बन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कृष्णपक्ष और शुक्लपक्षके समान असंख्यात वार परिवर्तनोंका
अवलम्बन लेकर भुजगार और अल्पतरविभक्तिके उसप्रकारके होनेमें कोई विरोध नहीं आता ।

सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है, अवक्तव्य और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण है और सबका उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी

भुज० मिच्छत्तभंगो । अप्प० जह० एगस०, उक्क० वेच्चावट्टिसागरो० सादिरेयाणि । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० उवड्डुपोग्गलपरियट्ठं । वारसक०-भय-दुग्गुंक्खं भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० मिच्छत्तभंगो । एवं पुरिस० । णवरि अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० उवड्डुपोग्गलपरियट्ठं । इत्थि० भुज० जह० एगस०, उक्क० वेच्चावट्टिसागरो० सादिरेयाणि । अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । एवं णवुंस० । णवरि भुज० जह० एगसमओ, उक्क० वेच्चावट्टिसागरो० तीहि पल्लिदोवमेहि सादिरेयाणि । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । छण्णोक्क० अवट्ठि० जह० अंतोमु०, उक्क० उवड्डुपोग्गलपरियट्ठं ।

भुजगारविभक्तिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो द्व्यासठ सागरप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्त्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इसीप्रकार पुरुषवेदके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो द्व्यासठ सागरप्रमाण है । अल्पतर-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार नपुंसकवेदके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तीन पत्त्य अधिक दो द्व्यासठ सागरप्रमाण है । हास्य, रति, अरति और शोककी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । छह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्ति मिथ्यात्व गुणस्थानमे होती है और मिथ्यात्व गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर दो द्व्यासठ सागरप्रमाण है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो द्व्यासठ सागर कहा है । यहाँ साधिकसे मिथ्यात्व गुणस्थानमे मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका काल ले लिया है । मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट काल पत्त्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए यहाँ इसकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर काल असंख्यात लोकप्रमाण है इस बातका स्पष्टीकरण मूलमें ही किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका कमसे कम काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनके उक्त दोनों पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । इनकी अवक्तव्यविभक्ति उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त करनेके प्रथम समयमें ऐसे जीवके होती है जिसके इनका सत्त्व नहीं है और उपशम-सम्यक्त्वको प्राप्त करनेका जघन्य अन्तर पत्त्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए तो इनकी अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्त्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तथा इनकी अवस्थित-

§ २६७. आदेसेण णेरइएसु मिच्छ० भुज०-अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० तेतीसं सागरो० देसूणाणि । अप्प० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे० भागो । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवट्टि०-अवत्त० जह० पल्लिदो० असंखे० भागो, अप्प०

विभक्ति सासादन गुणस्थानमें होती है, इसलिए इनकी अवस्थितविभक्तिका भी जघन्य अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यह सम्भव है कि अर्ध पुद्गल परिवर्तनके प्रारम्भमें और अन्तमें इन दोनों प्रकृतियोंके उक्त चार पद हों और मध्यमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेगना हो जानेसे न हों, अतः यहाँ इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है। वेदकसम्यग्दृष्टि जीव यदि अनन्तानुवम्भीकी विसंयोजना न करे तो दो छयासठ सागर काल तक अल्पतरविभक्ति होती है, इसलिए तो इनकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिके समान उक्त कालप्रमाण कहा है और यदि विसंयोजना कर दे तथा मिथ्यात्वमें जाकर संयुक्त होकर अल्पतरविभक्ति करे तो इनकी अल्पतरविभक्तिका भी उक्त कालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होनेसे वह भी उक्त कालप्रमाण कहा है। इनकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक जैसा मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिका घटित करके मूलमें बतलाया है उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। इनकी दो बार विसंयोजना होकर पुनः संयुक्त होनेमें जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त लगता है और विसंयोजना होकर संयुक्त होनेकी क्रिया अर्ध पुद्गल परिवर्तन कालके प्रारम्भमें एक बार हो तथा दूसरी बार अन्तमें हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके अवकल्प पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है। बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनके इन दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर भी उक्त कालप्रमाण प्राप्त होनेसे उतना कहा है। इनकी अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिके समान है यह स्पष्ट ही है। पुरुषवेदके स्व पदोंका भङ्ग इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र इसकी अवस्थितविभक्ति सम्यग्दृष्टिके होती है और सम्यग्दृष्टिका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है, इसलिए इसके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। ऋग्वेदकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है और भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए यहाँ इसकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण और अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। नपुंसकवेदकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र भोगभूमिमें पर्याप्त होनेपर नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता, इसलिए इसकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर तीन पत्य अधिक दो छयासठ सागर प्राप्त होनेसे उक्त काल प्रमाण कहा है। हास्यादि चार सप्रतिपन्न प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ ऋग्वेद आदि उक्त छह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्ति उपशमश्रेणियोंमें प्राप्त होती है और उपशमश्रेणिका उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है, इसलिए इनके इस पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ सब प्रकृतियोंके सब पदोंका जघन्य अन्तर सुगम होनेसे घटित करके नहीं बतलाया है सो जान लेना।

§ २६७. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अल्पतर विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और

जह० अंतोमु०, उक्क० सव्वेसिं पि तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अणंताणु०चउक्क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० जह० एगस०, अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० चत्तारिं वि पदाणि तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । वारसक०-पुरिस०-भय-दुयुंढ० भुज०-अप्प० ओघं । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । इत्थि०-णवुंस० भुज० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं साग० देसूणाणि । अप्प० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । एवं पढमादि जाव सत्तमा त्ति । णवरि सगट्ठिदी देसूणा भाणियच्चा ।

§ २६८. तिरिक्खेसु तिरिक्खेसु मिच्छ० भुज० जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पलिदो० असंखे०भाएण सादिरेयाणि । अप्प०-अवट्ठि० ओघो । सम्म०-सम्पामि० भुज०-अवट्ठि०-अवत्त० जह० पलिदो० असंखे०भागो, अप्प० जह० अंतोमु०, उक्क० उवट्ठुपोगलपरियट्ठं । अणंताणु०चउक्क० भुज०-अप्प० जह० एगसमओ, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । अप्प० देसूणाणि । अवट्ठि०-

सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और चारोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । वारह कषाय, पुरुषवेद, मय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी भुजगार-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । अल्पतर-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनका अवस्थितपद नहीं है । पहली पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

विशेषार्थ—ओघमें हम सब प्रकृतियोंके अलग-अलग पदोंका अन्तर काल घटित करके बतला आये हैं । यहाँ नरकमें अपनी-अपनी विशेषताको ध्यानमें लेकर और यहाँके उत्कृष्ट कालको जानकर वह घटित कर लेना चाहिए । मात्र नरकमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव न होनेसे यहाँ स्त्रीवेद आदि छह नोकषायोंके अवस्थितपदका निषेध किया है । प्रत्येक नरकमें भी इन्हीं विशेषताओंको ध्यानमें लेकर इन्हें अन्तर काल घटित कर लेना चाहिए ।

§ २६८. तिर्यञ्चपातिमें तिर्यञ्चोंमें मिध्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भाग अधिक तीन पत्य है । अल्पतर और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अल्पतर-विभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर उपाधं पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और

अवत्त० ओघो । बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंझा० ओघो । णवरि पुरिस० अवट्टि० जह० एगस०, उक० तिण्णि पल्लिदो० देसूणाणि । इत्थि० भुज० जह० एगस०, उक० तिण्णि पल्लिदो० देसूणाणि । अप्प० जह० एगस०, उक० अंतोसु० । णवुंस० अप्प० ओघो । भुज० जह० एगस०, उक० पुव्वकोटी देसूणा । हस-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि अवट्टि० णत्थि ।

§ २६६. पंचिदियतिरिक्खतिए मिच्छ० भुज०-अवट्टि० जह० एगसमओ, उक० सगट्टिदी देसूणा । अप्प० जह० एगस०, उक० पल्लिदो० असंखे० भागो । अपंताणु० चउक० भुज०-अवट्टि० मिच्छत्तभंगो । अप्प० जह० एगस०, उक० तिण्णि

उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । मात्र अल्पतरविभक्तिका कुछ कम तीन पत्य है । अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनका अवस्थितपद नहीं है ।

विशयार्थ—कोई तिर्थञ्च पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्ति करता रहा । उसके बाद तीन पत्यकी आयुके साथ भोगभूमिमें उत्पन्न हो वहाँ भी आयुके अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने तक मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्ति करता रहा, इस प्रकार भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण प्राप्त होनेसे वह तत्प्रमाण कहा है । अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक तीन पत्य इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अल्पतरविभक्ति उत्तम भोगभूमिमें कुछ कम तीन पत्य ही बन सकती है, क्योंकि तिर्थञ्चोंमें वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल इतना ही प्राप्त होता है, इसलिए इनकी अल्पतरविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है । पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्ति सम्यग्दृष्टिके होती है और तिर्थञ्चोंमें वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है, इसलिए यहाँ पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । सम्यग्दृष्टिके स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्ति नहीं होती और तिर्थञ्चोंमें वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है, इसलिए इनमें स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है । परन्तु नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कर्मभूमिज तिर्थञ्चके ही प्राप्त होता है और इनमें वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, इसलिए तिर्थञ्चोंमें नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§:२६६. पञ्चेन्द्रिय तिर्थञ्चत्रिकमें मिथ्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनन्तानु

पल्लिदो० देसूणाणि । अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्टिदी देसूणा । सम्म०-
सम्मामि० भुज०-अवट्टि०-अवत्त० जह० पल्लिदो० असंखे०भागो, अप्प० जह०
अंतोमु०, उक्क० सव्वपदानं सगट्टिदी देसूणा । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंजा०
भुज०-अप्पदर० ओघो । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० सगट्टिदी देसूणा । पुरिस०
तिणिण पल्लिदो० देसूणाणि । इत्थि०-णवुंसय०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं तिरिक्खोघो ।

§ ३००. पंचि०तिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंजा० भुज०-
अप्प०-अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । सत्तणोक्क० भुज०-अप्प० जह० एग-
समओ, उक्क० अंतोमुहुत्तं । सम्म०-सम्मामि० अप्प० पत्थि अंतरं ।

§ ३०१. मणुस्सगईए मणुस्सतियस्स पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि छण्णोक्क०
अवट्टि० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोटिपुधत्तं । सम्म०-सम्मामि० भुज० जह०

बन्धीचतुष्ककी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । अल्पतरविभक्ति-
का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्यप्रमाण है । अवक्तव्य-
विभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है ।
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सब
पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और
जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थितविभक्तिका
जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । मात्र
पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य,
रति, अरति और शोकका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोके समान है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक
तीन पल्य है । इसे ध्यान में रखकर यहाँ अन्तर काल घटित करके बतलाया गया है । शेष
विशेषता स्वामित्वको ध्यानमें रखकर जान लेनी चाहिए ।

§ ३००. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिकोमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी
भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
अन्तर्मुहूर्त है । सात नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका
अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—इन तिर्यञ्चोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त है, इसलिये इनमें सम्यक्त्व
और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा
है । मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका एक अल्पतरपद होता है, इसलिये उसके अन्तर
कालका निषेध किया है ।

§ ३०१. मनुष्यगतिकें मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता
है कि वह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर

अंतोमु०, उक्० सगद्विदी देसूणा । मणुसअपज्ज० पंचि०तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

§ ३०२. देवगईए देवेसु भिच्छ० भुज०-अवट्ठि० जह० एगसमओ, उक्० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अप्पद० जह० एगस०, उक्० पल्लिदो० असंखे०-भागो । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवट्ठि०-अवत्त० जह० पल्लिदो० असंखे०भागो, उक्० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अप्प० जह० अंतोमु०, उक्० तं चेव । अणंताणु०चउक्क० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० जह० एगस०, अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्० चहुण्हं पि एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं० गेरइयभंगो । इत्थि०-णवुंस० भुज० जह० एग०, उक्० एकत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि । अप्प० जह० एगस०, उक्० अंतोमु० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा त्ति एवं चेव । णवरि सगद्विदी भाणियन्वा ।

पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे और पूर्वकोटिपृथक्त्वके अन्तरसे उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव होनेसे यहाँ छह नोकपायोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण कहा है। तथा मनुष्यत्रिकमें उपशमसम्यक्त्वकी प्राप्तिके समय सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भुजगार होकर कमसे कम अन्तर्मुहूर्तके भीतर त्वायिकसम्यक्त्वकी प्राप्ति होने पर उस समय भी भुजगारपद सम्भव है या अधिकसे अधिक पूर्वकोटि पृथक्त्व कालके अन्तर्में त्वायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होने पर उस समय भी भुजगारपद सम्भव है, इसलिए इन दोनों प्रकृतियोंकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

§ ३०२. देवगतिमें देवोंमें मिध्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर वही है। अनन्तालुबन्धीचतुष्ककी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और चारों ही का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग नारकियोंके समान है। ऋग्वेद और नपुंसकवेदकी भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओषधके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थितपद नहीं हैं। भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रवैयक तकके देवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहलानी चाहिए।

§ ३०३. अणुदिसादि जाव सव्वद्वा ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०-चउक०-इत्थि-णवुंस अप्प० णत्थि अंतरं । वारसक०-पुरिस०-भय०-दुगुंझा० भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक० पळिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० जह० एगस०, उक० समद्विदी देख्खणा । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोयो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । एवं जाव अणाहारि ति ।

अंतरं गर्दं ।

§ ३०४. णाणाजीवेहि भगविचयाणुगमेण दुविहो णिद्वे सो — ओघेण आदेसेण य । ओघेण छव्वीसं पयडीणं सव्वपदाणि गियमा अत्थि । णवरि अणंताणु०चउक० अवत्त० पुरिस०-इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोग० अवट्ठि० भयणिज्जं । सम्म०-सम्मामि० अप्प० गियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि । एवं तिरिक्खेसु । णवरि द्दण्णोक्क० अवट्ठि० णत्थि ।

§ ३०५. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-वारसक०-पुरिस०-भय०-दुगुंझा० भुज०-

विशेषार्थ—देवोंमें नौवें त्रैवेद्यक तक ही मिथ्यादृष्टि होते हैं, इसलिए इस बातको ध्यानमें रखकर अपने स्वामित्वके अनुसार यहाँ पर अन्तर काल घटित कर लेना चाहिए ।

§ ३०३. अनुदिशसे लेकर स्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका अन्तर काल नहीं है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनका अवस्थितपद नहीं है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—अनुदिशसे लेकर आगेके देवोंमें सब सम्यग्दृष्टि होते हैं, इसलिए उनमें मिथ्यात्व आदि नौ प्रकृतियोंकी एक अल्पतरविभक्ति होनेसे उसके अन्तर कालका निषेध किया है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

इस प्रकार अन्तर काल समाप्त हुआ ।

§ ३०४. नाना जीवोंका अवलम्बन लेकर भङ्ग विचयानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे छव्वीस प्रकृतियोंके सब पद नियमसे हैं । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्ति, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी अवस्थितविभक्ति भजनीय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्ति नियमसे है । शेष पद भजनीय हैं । इसी प्रकार तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि छह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्ति नहीं है ।

§ ३०५. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साको

अप्प० णियमा अत्थि । अवट्ठि० भयणिज्जा । एत्थ भंगाणि तिण्णि । सम्म०-सम्मामि०-छण्णोक० ओघो । णवरि छण्णोक० अवट्ठि० णत्थि । अणंताणु०चउक० भुज०-अप्प० णियमा अत्थि । सैसपदाणि भयणिज्जाणि । एवं सव्वणेरइय-पंचिदिय-तिरिक्खतिय-मणुसतिय-देवगइदेवा भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति । णवरि मणुसतिए छण्णोक० अवट्ठि० ओघं ।

§ ३०६, पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प० णियमा अत्थि । सिया एदे च अवट्ठिदविहत्तिओ च । सिया एदे च अवट्ठिदविहत्तिया च । सम्म०-सम्मामि० अप्प० णियमा अत्थि । सत्तणोक० भुज०-अप्प० णियमा अत्थि । मणुस्सअपज्ज० सव्वपयडीसु सव्वपदाणि भयणिज्जाणि । अणुदिसादि जाव सबट्ठा ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक०-इत्थि०-णवुंस० अप्प० णियमा अत्थि । वारसक०-पुरिस०-भय०-दुगुंछ० णेरइयभंगो । चट्ठणोकसायाणमोघो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । एवं जाव अणाहारि ति ।

पाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो समत्तो ।

§ ३०७, भागाभागानुगमेण दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण

भुजगार और अल्पतरविभक्ति नियमसे है । अवस्थितविभक्ति भजनीय है । यहाँ पर भङ्ग तीन हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और छह नोकषायोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि छह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्ति नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी भुजगार और अल्पतरविभक्ति नियमसे है । शेष पद भजनीय हैं । इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, देवगतिमें देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम भ्रूवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकमें छह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है ।

§ ३०६, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति नियमसे है । कदाचित् इन विभक्तियोंवाले नाना जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाला एक जीव है । कदाचित् इन विभक्तियोंवाले नाना जीव हैं और अवस्थित-विभक्तिवाले नाना जीव हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्ति नियमसे है । सात नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति नियमसे है । मनुष्यअपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके सब पद भजनीय हैं । अनुदिशसे लेकर सर्वाथिसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, ह्यीवेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्ति नियमसे हैं । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग नारकियोंके समान है । चार नोकषायोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति नहीं है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचयानुगम समाप्त हुआ ।

§ ३०७, भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे

मिच्छत्वं-सोलसक०-भय-दुयुद्ध० भुज०विहत्तिया सव्वजीवाणं केवडिओ भागो ? संखेज्जा भागा । अप्प० सव्वजी० केव० ? संखे०भागो । अवट्ठि० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । णवरि अयांताणु०चउक० अवत्त० सव्वजी० केव० ? अणंतिमभागो । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवत्त०-अवट्ठि० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । अप्प० असंखेज्जा भागा । इत्थि-हस्स-रइ० भुज० सव्व० केव० ? संखे०भागो । अप्प० संखेज्जा भागा । पुरिस० एवं चेव । णवरि अवट्ठि० अणंतिमभागो । णवुंस०-अरदि-सोग० भुज० सव्वजी० केव० ? संखेज्जा भागा । अप्प० सव्वजी० केव० ? संखे०-भागो । छण्णोक० अवट्ठि० सव्वजी० के० ? अणंतिमभागो । एवं तिरिक्खा० । णवरि छण्णोक० अवट्ठि० णत्थि ।

§ ३०८, आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-सम्म०--सम्मामि०-वारसक०--अट्ठणो-कसायाणमोघो । णवरि छण्णोक० अवट्ठि० णत्थि । अणंताणु०चउक० भुज० सव्वजी० केव० ? संखेज्जा भागा । अप्प० सव्वजी० केव० ? संखे०भागो । सेसपदट्ठिद० असंखे०भागो । पुरिस० ओघो । णवरि अवट्ठि० सव्वजी० के० ? असंखे०भागो ।

मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगारविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अवचक्यविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार, अवचक्य और अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । खीवेद, हास्य और रतिकी भुजगारविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । पुरुषवेदका भङ्ग इसीप्रकार है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं । नपुंस्कवेद, अरति और शोककी भुजगारविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । छह नोकपायोंके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें अवस्थितविभक्ति नहीं है ।

§ ३०८. आदेशसे नारिक्योंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, वारह कपाय और आठ नोकपायोंका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि छह नोकपायोंकी अवस्थित-विभक्ति नहीं है । अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी भुजगारविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । शेष पदविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । पुरुषवेदका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब

एवं सत्तसु पुढवीसु पंचि०तिरिक्खतिय० मणुस्सोघो देवगइ भवणादि जाव सहस्सारे चि देवेसु णेदव्वं । णवरि मणुस्सेसु छण्णोक० अवट्ठि० असंखे०भागो ।

§ ३०६. पंचि०तिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोत्तसक०-भय-दुगुंछ० भुज० सव्वजी० केव० ? संखेज्जा भागा । अप्प० सव्वजी० केव० ? संखे०भागो । अवट्ठि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० णत्थि भागाभागो । कुदो ? एयपदत्तादो । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रइ० भुज० सव्वजी० केव० ? संखे०भागो । अप्प० सव्वजी० केव० ? संखेज्जा भागा । णवुंस०-अरदि-सोग० भुज० संखेज्जा भागा । अप्प० संखे०भागो । एवं मणुसअपज्जत्ताणं ।

§ ३१०. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छत्त-वारसक०-भय-दुगुंछ० भुज० संखेज्जा भागा । अप्प०-अवट्ठि० संखे०भागो । एवमणंताणु०चउक्कस्स । णवरि अवत्त० संखे० भागो । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवट्ठि०-अवत्त० सव्वजी० के० ? संखे०भागो । अप्प० संखेज्जा भागा । इत्थि-हस्स-रइ० भुज० संखे०भागो । अप्प० संखेज्जा भागा । एवं पुरिस० । णवरि अवट्ठि० संखे०भागो । णवुंस०-अरदि०-सोग० भुज० संखेज्जा

जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार सातों पृथिवियोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य मनुष्य, देवगतिमें देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्रारकल्प तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्योंमें छह नोकषायोंकी अवस्थित-विभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं ।

§ ३०६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगारविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं । संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भागाभाग नहीं है, क्योंकि उनका एक पद है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य और रतिकी भुजगार-विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतर-विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । नपुंसकवेद, अरति और शोककी भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए ।

§ ३१०. मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसीप्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । स्त्रीवेद, हास्य और रतिकी भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्ति-वाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । नपुंसकवेद, अरति और

भागा । अप्प० संखे०भागो । ङण्णोक्क० अवट्ठि० संखे०भागो ।

§ ३११. आणदादि जाव उवरिग्गोवज्जा त्ति मिच्छ०-अणंताणु०चउक्क० भुज० संखे०भागो । अप्प० संखेज्जा भागा । अवट्ठि० अणंताणु०चउक्क० अवत्त० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि०-बारसक०-भय-दुगुंछ० देवोघो । पुरिस० कसाय-भंगो । इत्थि०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । णवुंस० इत्थिवेद-भंगो । अणुहिसादि जाव अदराइदो त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणुचउक्क०-इत्थि०-णवुंसयवेदाणमेयपदत्तादो णत्थि भागाभागो । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछ० आणदभंगो । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । सव्वट्ठे एवं चेव । णवरि बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछ० भुज० सव्वजी० केव० ? संखेज्जा भागा । अप्प०-अवट्ठि० संखे०भागो । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमोघो । णवरि अवट्ठि० णत्थि । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

भागाभागो समत्तो ।

§ ३१२. परिमाणानुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण

शोककी भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । छह नोक्कपायोंकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं ।

§ ३११. आनतकल्पसे लेकर उपरिम प्रवैयकतकके देवोंमें मिथ्यात्व और अनन्तानु-बन्धीचतुष्ककी भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिवाले जीव और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्य-विभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । पुरुषवेदका भङ्ग कषायोंके समान है । स्त्रीवेद, हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति नहीं है । नपुंसकवेदका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । अनुदिशसे लेकर अपराजित विमानतकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका एक पद होनेसे भागाभाग नहीं है । बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग आनतकल्पके समान है । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति नहीं है । सर्वार्थसिद्धिमें इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगारविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके संख्यातवें भागप्रमाण हैं । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति नहीं है । इसीप्रकार अनाहारकर्माणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

§ ३१२. परिणामानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश ।

मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-भय०-दुगुंछ० भुज०-अप्प०-अवट्टि० केत्तिया ? अणंता : अणंताणु०चउक० अवत्तव्व० पुरिस० अवट्टि० केत्तिया ? असंखेज्जा । सम्म०-सम्मामि० पदचउकट्टिदजीवा केत्तिया ? असंखेज्जा । छण्णोक० भुज०-अप्प० केत्तिया ? अणंता । अवट्टि० के० ? संखेज्जा । एवं तिरिक्खा० । णवरि छण्णोक० अवट्टि० णत्थि ।

§ ३१३. आदेशेण णेरइय० अट्टावीसं पयडीणं सव्वपदा केत्तिया ? असंखेज्जा । एवं सव्वणेरइय-सव्वपंचिंदियतिरिक्ख-मणुस्सअपज्ज०-देवगइदेवा भवणादि जाव अवराइद ति ।

§ ३१४. मणुस्सेसु मिच्छ०-सोलसक०-भय०-दुगुंछ० तिण्णि पदा सम्म०-सम्मामि० अप्प० सत्तणोक० भुज०-अप्प० केत्ति० ? असंखेज्जा । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवट्टि०-अवत्त० अणंताणु०चउक० अवत्त० पुरिस०-छण्णोक० अवट्टि० केत्तिया ? संखेज्जा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु सव्वट्टिसिद्धीसु सव्वपयडीणं सव्वपदा केत्तिया ? संखेज्जा । एवं जाव अणाहारि ति ।

परिमाणानुगमो समत्तो ।

ओषसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्य और पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके चार पदोंमें स्थित जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । छह नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अवस्थितविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि छह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्ति नहीं है ।

§ ३१३. आदेशसे नारकियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, देवगतिते देव और भवनवासियोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

§ ३१४. मनुष्योंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साके तीन पदवाले जीव, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर पदवाले जीव तथा सात नोकषायोंके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य पदवाले जीव, अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदवाले जीव तथा पुरुषवेद और छह नोकषायोंके अवस्थित पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ ।

§ ३१५. खेत्ताणुगमेण दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुग्गुंझा० तिण्णिपदा केवडि खेत्ते ? सच्चलोगे । अणंताणु०चउक्क० अवत्त० के० खेत्ते ? लोग० असंखे०भागे । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अप्प०-अवत्त०-अवट्ठि० के० खेत्ते ? लोग० असंखे०भागे । छण्णोक० भुज०-अप्प० के० खेत्ते ? सच्चलोगे । अवट्ठि० लोग० असंखे०भागे । एवं पुरिस० । एवं तिरिक्खोघो । णवरि छण्णोक० अवट्ठियं णत्थि ।

§ ३१६. आदेसेण णिरय० मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-भय-दुग्गुंझा० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० अणंताणु०चउक्क० अवत्तः केव० खे० ? लोगस्स असंखे०भागे । सम्म०-सम्मामि० सच्चपदा छण्णोक० भुज०-अप्प० के० खेत्ते ? लोगस्स असंखे०-भागे । एवं सच्चणेरइय-पंचिंदियतिरिक्खतिय-मणुसतिय-देवगइदेवा भवणादि जाव णवरिमगेवज्जा त्ति ! णवरि मणुसतिए छण्णोक० अवट्ठि० ओघं । पंचि०तिरिक्ख-अपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुग्गुंझा० तिण्णि पदाणि सम्म०-सम्मामि० अप्प० सत्तणोक० भुज०-अप्प० केव० ? लोग० असंखे०भागे । एवं मणुसअपज्ज० ।

§ ३१५. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साके तीन पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है। अनन्तानुवन्धीचतुष्कके अवकन्व्य पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है। लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार, अल्पतर, अवकन्व्य और अवस्थित पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। छह नोकपायोके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र है। अवस्थित विभक्तिवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा क्षेत्र जानना चाहिए। इसीप्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें छह नोकपायोका अवस्थित पद नहीं है।

विशेषार्थ—यहाँ जिन प्रकृतियोंके जो पद एकेन्द्रिय जीवोंके होते हैं, उनका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है और शेषका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण। इसीप्रकार आगे भी अपने अपने क्षेत्रको जानकर घटित कर लेना चाहिए।

§ ३१६. आदेशसे नारिकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदवाले जीवोंका तथा अनन्तानुवन्धीचतुष्कके अवकन्व्य पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदवाले जीवोंका तथा छह नोकपायोके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। इसीप्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, देवगतिमें सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम-ग्रंथैकतकरे देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकमें छह नोकपायोके अवस्थित पदका क्षेत्र ओघके समान है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साके तीन पदवाले जीवोंका, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर पदवाले जीवोंका तथा सात नोकपायोके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ?

अणुदिसंपपहुडि जाव सव्वट्ठा ति मिच्छ०-सम्म०-सम्माभि०-अणंताणु०-चउक्क० इत्थि०-णवुंस० अप्प० वारसक०-पुरिस०-भय--दुगुंझा० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं भुज०-अप्प० केव० ? लोग० असंखे०भागो । एवं जाव अणाहारि ति ।

खेत्तं गदं ।

§ ३१७. पोसणाणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंझ० भुज०-अप्प०-अवट्ठिदविहत्तिएहि केव० पोसिदं ? सव्वलोगो । अणंताणु०-चउक्क० अवत्त० लोगस्स असंखे०भागो अट्ठचोदसं । सम्म०-सम्माभि० भुज०-अवत्तव्वविहत्तिएहि लोगस्स असंखे०भागो अट्ठचोदसं । अप्प० के० ? लोग० असंखे०भागो अट्ठचोदसं सव्वलोगो वा । अवट्ठि० केव० पो० ? लोग० असंखे०भागो अट्ठ-वारहचोदसं । छण्णोक० भुज०-अप्प० केव० पोसिदं ? सव्वलोगो । तेसिं चैव अवट्ठि० लोगस्स असंखे०भागो । एवं पुरिस० । णवरि अवट्ठि० केव० पोसिदं ? लोग० असंखे०भागो अट्ठचोदसं देसूणा ।

लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए । अनुदिशसे लेकर सर्वाथिसिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी-चतुष्क, 'स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अल्पतर पदवाले जीवोंका, वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित 'पदवाले जीवोंका तथा हास्य, रति, अरति और शोकके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण क्षेत्र है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ ।

§ ३१७. स्पर्शनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अर्वास्थितविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवत्तन्यविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवत्तन्यविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अल्पतरविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह लोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिवाले जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । उन्हींकी अवस्थित-विभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार पुरुष-वेदकी अपेक्षा स्पर्शन जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अवस्थितविभक्तिवाले

§ ३१८. आदेशेण गेरइ० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंइ० भुज०-अप०-
अवट्टि० केव० पोसिदं ? लोग० असंखे०भागो छचोइस० । अणंताणु०चउक०
अवत्त० लोग० असंखे०भागो । सम्म०-सम्माभि० भुज०-अवत्त० खेतभंगो । अप्पदर०
सत्तणोक० भुज०-अप० केव० फोसिदं ? लोगस्स असंखे०भागो-छचोइस० ।
पुरिस० अवट्टि० केव० पोसिदं ? लोग० असंखे०भागो । सम्म०-सम्माभि० अवट्टि०

जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—मिध्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पद एकेन्द्रियोंके भी होते हैं, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्य पद ऐसे जीवोंके होता है जो इनकी विसंयोजना करके पुनः इनसे संयुक्त होते हैं । ऐसे जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन देवोंके विहार आदिकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण प्राप्त होनेसे तद्रूपक कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तियाँ जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए । इनकी अल्पतर विभक्तियाँलोकका उक्त स्पर्शन तो वन ही जाता है । तथा यह विभक्ति एकेन्द्रियादिके भी सम्भव है, इसलिए सर्व लोक प्रमाण स्पर्शन भी वन जाता है । इन दोनों प्रकृतियोंकी अवस्थितविभक्ति सासादनसम्यग्दृष्टियोंके होती हैं, इसलिए इस अपेक्षासे इनके अवस्थित पदका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । छह नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति एकेन्द्रियादि जीवोंके भी होती है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है । तथा इनकी अवस्थितविभक्ति उपशमश्रेणियों होती हैं, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । पुरुषवेदके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका स्पर्शन तो छह नोकपायोंके ही समान है, इसलिए इसका भङ्ग छह नोकपायोंके समान जानने की सूचना की है । मात्र इसके अवस्थित पदके स्पर्शनमें अन्तर है । वात यह है कि पुरुषवेदका अवस्थित पद सम्यग्दृष्टि जीवोंके होता है, इसलिए इसके उक्त पदवाले जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है ।

§ ३१८. आदेशसे नारकियोंमें मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्सार्की भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तियाँले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके भुजगार और अवक्तव्यविभक्तियाँले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । इनकी अल्पतरविभक्तियाँले जीवोंने और सात नोकपायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तियाँले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तियाँले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अवस्थितविभक्तियाँले जीवोंने कितने

केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो पंचचोदस० । पढपपुदवीए खेतभंगो । विद्यादि जाव सत्तमि ति एवं चेव । णवरि अप्पणो रज्जूओ फोसणं कायव्वं । सत्तमाए सम्म०-सम्मामि० अवट्ठि० खेतभंगो । -

§ ३१६. तिरिक्खवर्गईए तिरिक्खेहि मिच्छ०-सोळसक०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० केव० फोसिदं ? सव्वलोगो । अणंताणु०चउक्क० अवत्त० सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवत्त० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० अप्प० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । अवट्ठि० लोग० असंखे०भागो सत्त-चोदस० । सत्तणोक० भुज०-अप्प० केव० फोसिदं ? सव्वलोगो । णवरि पुरिस० अवट्ठि० लोगस्स असंखे०भागो ।

क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पहली पृथिवीमें क्षेत्रके समान भङ्ग है । दूसरीसे लेकर सातवीं तकके नारकियोंमें इसीप्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपने अपने राजुओंमें स्पर्शन करना चाहिए । तथा सातवीं पृथिवीमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ सामान्य नारकियोंमें जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका स्पर्शन उपपादपद या मारणान्तिक पदके समय सम्भव है उनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा शेष पदोंका स्पर्शन मात्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । मात्र सासादनसम्यग्दृष्टि नारकी जीव छठवें नरकतकके ही मरकर अन्य गतिमें उत्पन्न होते हैं, इसलिए सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अवस्थित पदवाले जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा सातवीं पृथिवीका सासादनसम्यग्दृष्टि मरकर अन्य गतिमें नहीं जाता, इसलिए इसमें उक्त दोनों प्रकृतियोंके अवस्थित पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३१६. तिर्यञ्चगतिमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अद्यक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सात लोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सासादन तिर्यञ्चोंके ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्ति सम्भव होनेसे इनके उक्त पदवाले जीवोंका

§ ३२०. पंचिदियतिरिखतिए मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प०-अवट्टि० केव० ? लो० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । अणंताणु०चउक्क० अवत्त० सम्म०-सम्मापि० भुज०-अवत्त० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो । दोण्हमप्पद० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । अवट्टि० लोग० असंखे०भागो सत्तचोइस० । इत्थि० भुज० केव० ? लो० असंखे०भागो । अप्प० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । कुदो ? एणुंसयवेदबंधेण एईदिएसुववज्जमाण पंचिदियतिरिखतियस्स अप्पदरीकयइत्थिवेदस्स सव्वलोगवावित्तदंसणादो । पुरिस० भुज० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो छचोइस० । अवट्टि० लोग० असंखे०भागो । कुदो छचोइसभागा ण फुसिज्जंति ? ण, असंखेज्जवासाउअपंचिदियतिरिखतियसम्माइंटिं मोत्तए अणण्ठय अवट्टिदपदस्सासंभवादो । तं पि कुदो ? पत्तिदो० असंखे०भागमेत्तकालेण विणा अवट्टिदपाओग्गत्ताणुवलंभादो । अप्प० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो

स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३२०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिकमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है । लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दोनोंकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है, क्योंकि नपुंसकवेदके बन्धके साथ एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाले पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिकका स्त्रीवेदके अल्पतर पदके साथ समस्त लोकमें स्पर्शन देखा जाता है । पुरुषवेदकी भुजगारविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

शंका—पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन क्यों नहीं करते ?

समाधान—नहीं, असंख्यात वर्षकी आयुवाले पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिक सम्यग्दृष्ट जीवको छोड़कर अन्यत्र अवस्थित पदकी प्राप्ति असम्भव है ।

शंका—वह भी कैसे है ?

समाधान—क्योंकि पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके विना अवस्थितपदकी योग्यता नहीं उपलब्ध होती है ।

पुरुषवेदकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके

सव्वलोगो वा । पंचणोक० भुज०-अप्प० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा ।

§ ३२१. पंचित्तिरि०अपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सम्म०-सम्मामि० अप्प० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । इत्थि-पुरिस० भुज० लोग० असंखे०भागो । अप्प० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । णवुंस०-चट्ठणोक० भुज०-अप्प० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । एवं मणुसअपज्जत्तएमु ।

§ ३२२. मणुसत्तिए मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछ० भुज०-अप्प०-अवट्ठि० लोग० असं०भागो, सव्वलोगो वा । अणंताणु०चउक० अवत्त० सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवत्त० लोग० असंखे०भागो । दोण्हमप्प० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा ।

असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पाँच नोकपायोकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—यहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अवस्थित पदवालोंका लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन जिस प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमें घटित करके बतला आए हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए । स्त्रीवेदकी अल्पतरविभक्तिवाले उक्त जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन तथा पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले उक्त जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन क्यों किया है इसका स्पष्टीकरण मूलमें ही किया है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३२१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तक जीवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थित विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ; स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी भुजगारविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अल्पतर विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । ननुसकवेद और चार नोकषायोकी भुजगार और अल्पतर-विभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—जो पञ्चेन्द्रिय लक्ष्यपर्याप्त तिर्यञ्च एकेन्द्रियोमे मारणात्मिक समुद्रघात करते हैं उनके स्त्रीवेद और पुरुषवेदका बन्ध न होनेसे भुजगारपद सम्भव नहीं है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ३२२. मनुष्यत्रिकमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दोनोंकी अल्पतरविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और

अवट्टि० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो सत्तचोइस० । इत्थि०-पुरिस० भुज० पुरिस० अवट्टि० लोग० असंखे०भागो । दोण्हमप्प० णत्तुंस०-चट्टुणोक० भुज०-अप्प० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । छण्णोकं० अवट्टि० खेतभंगो ।

§ ३२३. देवगईए देवेसु मिच्छ०-सोत्तसक०-भय-दुणुं छं० भुज०-अप्प०-अवट्टि० लोग० असंखे०भागो अट्ट-णवचोइस० । अणंताणु०चउक्क० अवत्त० सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवत्त० लोग० असंखे०भागो अट्टचोइस० । सम्म०-सम्मामि० अप्पद०-अवट्टि० केव० फोसिदं ? लोग० असंखे०भागो अट्ट-णवचोइस० । इत्थि० भुज० पुरिस० भुज०-अवट्टि० लोग० असंखे०भागो अट्टचोइ० । दोण्हमप्प० लोग० असंखे०भागो अट्ट-णवचोइस० । पंचणोक० भुज०-अप्प० लोग० असंखे०भागो अट्ट-णवचोइ० । एवं सोहम्मिसाणेसु ।

सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी भुजगारविभक्तिवाले तथा पुरुषवेद की अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दोनोंकी अल्पतरविभक्तिवाले तथा नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतर-विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । छह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है ।

§ ३२३. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अचन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवकन्वय-विभक्तिवाले तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार और अवकन्वयविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है । लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्तिवाले तथा पुरुषवेदकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनाली के कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दोनोंकी अल्पतरविभक्ति-वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पाँच नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति-वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सौधर्म और पेशान कल्पके देवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्ति तथा पुरुषवेदकी भुजगार और अवस्थित-विभक्ति ऊपर वादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रघात करते समय सम्भव नहीं है, इसलिए

§ ३२४. भवण०-वाण०-जोइसिएसु मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछ० भुज०-
अप्प०-अवट्टि० लोगस्स असंखे०भागो अद्दु हा वा अट्ट-णवचोइस० । अणंताणु०-
चउक० अवत्त० सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवत्त० इत्थिवेद० भुज० पुरिस० भुज०-
अवट्टि० लोग० असंखे०भागो अद्दु हा वा अट्टचोइस० । सम्म०-सम्मामि० अप्प०-
अवट्टि० इत्थि०-पुरिस० अप्प० णत्तुंस०-चटुणोक० भुज०-अप्प० लो० असंखे०-
भागो अद्दु हा वा अट्ट-णवचोइ० ।

§ ३२५. सणकु मारादि जाव सहस्सारा ति मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछा-
पुरिस० भुज०-अप्प०-अवट्टि० अणंताणु०चउक० अवत्त० सम्म०-सम्मामि० भुज०-
अप्प०-अवत्त०-अवट्टि० इत्थि०-णत्तुंस०-चटुणोक० भुज०-अप्प० लोग० असंखे०-
भागो अट्टचोइस० । आणदादि जाव अच्चुदा ति सव्वपयडीणं सव्वपदेहि केव०

इन दोनों प्रकृतियोंके उक्त पदवाले देवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग और विहार
आदिकी अपेक्षा स्पर्शन त्रस नालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । शेष कथन
सुगम है ।

§ ३२४. भवनवासी, न्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और
जुगुप्साकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा
त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले, सम्यक्त्व और
सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार और अवक्तव्यविभक्तिवाले, स्त्रीवेदकी भुजगारविभक्तिवाले तथा
पुरुषवेदकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके
कुछ कम साढ़े तीन और कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले, स्त्रीवेद और पुरुषवेदकी
अल्पतरविभक्तिवाले तथा नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिवाले
जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और
कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—यहाँ भी अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्य पद, सम्यक्त्व और
सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार और अवक्तव्यपद, स्त्रीवेदका भुजगारपद और पुरुषवेदका भुजगार
और अवस्थितपद एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रघात करते समय नहीं होते, इसलिए इनकी
अपेक्षा स्पर्शन कहते समय त्रसनालीका कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन नहीं कहा है ।
शेष कथन सुगम है ।

§ ३२५. सनत्कुमारा से लेकर सहस्वार कल्पतकके देवोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय,
जुगुप्सा और पुरुषवेदकी भुजगार, अल्पतर और अवस्थितविभक्तिवाले, अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी
अवक्तव्यविभक्तिवाले, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगार, अल्पतर, अवक्तव्य और
अवस्थितविभक्तिवाले तथा स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतर
विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आन्त कल्पसे लेकर अच्युत कल्पतकके देवोंमें सब

फोसिदं ? लोम० असंखे०भागो ह्यचोइस० । उवरि खेतभंगो । एवं जा
अणाहारि ति ।

फोसणं समत्तं ।

§ ३२६. णाणाजीवेहि कालाणुगमेण दुविहो णिदं सो—ओघेण आदेसेण य ।
तथ ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुग्धं० शुज०-अप्प०-अवट्ठि० केवचिरं ?
सव्वद्धा । अर्णताणु०चउक०-सम्म०-सम्मामि० अवत्त० पुरिस० अवट्ठि० केव० ?
जह० एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो । पुरिस० अवट्ठि० अंतोमुहुत्तं वा ।
सम्म०-सम्मामि० शुज० जह० अंतोमु०, उक० पलिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि०
जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे०भागो । अप्प० सत्तणोक० शुज०-अप्प०
सव्वद्धा । छणणोक० अवट्ठि० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । एवं तिरिक्खोघो ।
णवरि छणणोक० अवट्ठि० पत्थि । पुरिस० अवट्ठि० अंतोमुहुत्तं पि पत्थि ।

प्रकृतियोंके सव पदवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भाग और
ब्रसवालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । ऊपर के देवोंमें स्पर्शन
का भङ्ग क्षेत्रके समान है । इसप्रकार अनाहारक मार्गीया तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

§ ३२६. नाना जीवोंकी अपेक्षा कालानुगमेण अनुसार निर्देश दो प्रकारका है—ओघ
और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगप्साकी भुजगार,
अल्पतर और अवस्थितविभक्तिका कितना काल है ? सर्वदा काल है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क,
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवकण्यविभक्तिका तथा पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका
कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण
है । अथवा पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्व और
सम्यग्मिथ्यात्वकी भुजगारविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके
असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल
पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अल्पतरविभक्ति तथा सात नोकषायों की भुजगार और
अल्पतर विभक्तिका काल सर्वदा है । छह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक
समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार सामान्य तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए । इतनी
विशेषता है कि इनमें छह नोकषायोंकी अवस्थितविभक्ति नहीं है तथा पुरुषवेदकी अवस्थित-
विभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त भी नहीं है ।

विशेषार्थ—यदि मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित-

द एकेन्द्रिय आदि सब जीवोंके होते हैं, इसलिए नाना जीवोंकी अपेक्षा इनका सर्वदा काल बन
गानेसे वह सर्वदा कहा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवकण्यपद ऐसे जीवोंके होता है जो
संयोजनाके बाद पुनः उससे संयुक्त होते हैं, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अवकण्यपद जो
नकी सत्ता से रहित जीव उपशमसम्यक्त्व प्राप्त करते हैं उनके प्रथम समयमें होता है और
रुषवेदका अवस्थित पद सम्यग्दृष्टि जीवके होता है । यह सम्भव है कि एक या नाना जीव उक्त
प्रकृतियोंके ये पद एक समय तक ही करें और यह भी सम्भव है कि आवलिके असंख्यातवें

§ ३२७. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-भय-दुगुंझ० भुज०-अप्प० सव्वद्धा । अवट्ठि० अणंताणु०चउक्क० अवत्त० सम्म०-सम्मामि० अवत्त० जह० एगसमओ, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवट्ठि० जह० अंतोमु० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अप्प० छण्णोक० भुज०-अप्प० सव्वद्धा । एवं सत्तमु पुढवीसु पंचिदियतिरिक्खतिय-देवगइदेवा भवणादि ज्ञाव उवरिमगेवज्जा त्ति ।

§ ३२८. पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंझा० भुज०-अप्प० सव्वद्धा । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि०

भागप्रमाण काल तक करते रहें। यही कारण है कि इनके उक्त पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा उपशमश्रेणिमें पुरुषवेदके अवस्थितपदका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जानेसे विकल्परूपसे उक्तप्रमाण कहा है। उपशम-सम्यक्त्वकी प्राप्ति होने पर सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगारविभक्ति अन्तर्मुहूर्त काल तक होती है, इसलिए तो इस विभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है और क्रमसे यदि नाना जीव इन प्रकृतियोंकी इस विभक्तिको करते रहें तो पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल प्राप्त होता है, इसलिए इनकी इस विभक्तिका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। नाना जीवोंकी अपेक्षा सासादनका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनके अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। इन दोनों प्रकृतियोंकी अल्पतरविभक्ति तथा सात नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति सर्वदा होती है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि उक्त प्रकृतियोंकी ये विभक्तियाँ एकेन्द्रियादि जीवोंके भी पाई जाती हैं। शेष कथन सुगम है।

§ ३२७. आदेशसे नारकियोंमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल सर्वदा है। इनकी अवस्थितविभक्तिका, अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल क्रमसे अन्तर्मुहूर्त और एक समय है तथा दोनों विभक्तियोंका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इनकी अल्पतरविभक्तिका तथा छह नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल सर्वदा है। इसीप्रकार सातों पृथिवियोंमें, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, देवगतिमें देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम अवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—ओषसे सब प्रकृतियोंके सब पदोंका काल घटित करके बतला आये हैं। यहाँ भी स्मामित्वको ध्यानमें रखकर वह घटित कर लेना चाहिए। विशेष वक्तव्य न होनेसे उसका अलगसे स्पष्टीकरण नहीं किया है। इसीप्रकार आगे भी जान लेना चाहिए।

§ ३२८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल सर्वदा है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और

अप्प० सत्तणोक० भुज०-अप्प० सव्वद्धा ।

§ ३२६. मणुसगईए मणुसाणं णेरइयभंगो । णवरि तिण्हमवत्त० पुरिस० अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । सम्म०-सम्मामि० भुज०-अवट्ठि० जह० अंतोसु० एग०, उक्क० अंतोसुं० । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु । णवरि सव्वेसिं अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । उवसमसेढीए मणुसतियम्मि वारसक०-णवणोक० अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० अंतोसु० ।

§ ३३०. मणुसअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुग्धुवा० भुज०-अप्प० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० अप्पद० सत्तणोक० भुज०-अप्पद० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो ।

सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका तथा सात नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका काल सर्वदा है ।

§ ३२६. मनुष्यगतिमे मनुष्योंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्क, सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व इन तीनकी अवक्तव्यविभक्तिका तथा पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी भुजगार और अवस्थितविभक्तिका क्रमसे जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और एक समय है तथा दोनों विभक्तियोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सबकी अवस्थित-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । उपशमश्रेणिमें मनुष्यत्रिकमे बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ— उपशमश्रेणिमे बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी अवस्थितविभक्ति ऐसे जीवोके भी होती है जो इनका एक समय तक अवस्थित पद करके और दूसरे समयमें मरकर देव हो जाते हैं । तथा जो उपशमश्रेणिमें इनका अवस्थितपद करके आरोहण और अवरोहण करते हैं उनके अन्तर्मुहूर्त काल तक इनकी अवस्थितविभक्ति होती है । कुछ जीव यहाँ अवस्थित-पद करनेके बाद उसके समाप्त होनेके अनन्तर समयमें भी यदि नाना जीव अवस्थितपद करें और इसप्रकार निरन्तर क्रम चले तो भी अन्तर्मुहूर्त काल लगता है, इसलिए मनुष्यत्रिकमें उक्त प्रकृतियोंके इस पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ३३०. मनुष्य अपर्याप्तकोमे मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका तथा सात नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ३३१. अणुदिसादि जाव अवराइदा ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०-चउक०-इत्थिवेद०-णवुंस० अप्प० सव्वद्धा । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं देवोघो । एवं सव्वट्ठे । णवरि जम्हि आवलि० असंखे०-भागो तम्हि संखेज्जा समय । एवं जाव अणाहारि ति ।

णाणाजीवेहि कालो समयो ।

§ ३३२. णाणाजीवेहि अंतरं दुविहो णिद्देसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछा० तिग्णिणपदा णत्थि अंतरं णिरतरं । अणंताणु०-चउक० अवत्त० जह० एगस०, उक० चउवीसमहोरत्ताणि सादिरेयाणि । एवं सम्म०-सम्मामि० अवत्त० । सम्म०-सम्मामि० अप्प० णत्थि अंतरं णिरतरं । भुज० जह० एगस०, उक० सत्त रादिदियाणि । अवट्ठि० जह० एगस०, उक० पत्तिदो० असंखे०-भागो । छण्णोक० भुज०-अप्प० णत्थि अंतरं । अवट्ठि० जह० एगस०, उक० वासपुधत्तं । एवं पुरिस० । णवरि अवट्ठि० जह० एगस०, उक० असंखेज्जा लोमा । उवसमसेद्विवक्खाए पुण वासपुधत्तं ।

विशेषार्थ—यह सांन्तर मार्गणा है, इसलिए इसमें उक्त काल बन जाता है ।

§ ३३१. अनुदिशसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्तिका काल सर्वदा है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । इसीप्रकार सर्वार्थसिद्धिमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल कहा है वहाँ संख्यात समय काल कहना चाहिए । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा काल समाप्त हुआ ।

§ ३३२. नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर कालका निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साके तीन पदोंका अन्तर काल नहीं है वे निरन्तर हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है । इसीप्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवक्तव्यविभक्तिका अन्तर काल जानना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अल्पतर विभक्तिका अन्तर काल नहीं है वह निरन्तर है । भुजगारविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पर्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । छह नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतर-विभक्तिका अन्तर काल नहीं है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । परन्तु उपशमश्रेणिकी विवक्षासे वर्ष पृथक्त्वप्रमाण है ।

§ ३३३. आदेशेण णेरइय० मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-भय-दुगुंझ० भुज०-
अप्प० णत्थि अंतरं णिर० । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा ।
सम्म०-सम्मामि०-इण्णोक्क० ओघो । णवरि इण्णोक्क० अवट्ठि० णत्थि ।
अणंताणु०चउक्क० अवत्त० ओघो । एवं सत्तसु पुढवीसु । पंचि०तिरिक्खतिय-मणुस-
तिय-देवा भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति एवं चेव । णवरि मणुसतियम्मि
सत्तणोक्क० अवट्ठि० ओघं । वारसक०-भय-दुगुंझाणं पि अवट्ठि० उवसमसेद्विवक्खाए

विशेषार्थ—ओघसे मिथ्यात्व आदि उलीस प्रकृतियोंके तीन पदोंकाकाल सर्वदा घटित करके वतला आये हैं, इसलिए यहां उक्त प्रकृतियोंके इन पदोंके अन्तरकालका निषेध किया है। यह सम्भव है कि जिन्होंने अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना की है वे जीव कमसे कम एक समयके अन्तरसे उनसे संयुक्त हों, इसलिए तो इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और जिन्होंने इनकी विसंयोजना की है ऐसा एक भी जीव अधिकसे अधिक साधिक चौबीस दिन रात तक इनसे संयुक्त न हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात कहा है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टि जीव निरन्तर पाये जाते हैं और वे उनकी अल्पतरविभक्ति ही करते हैं, इसलिए इनके अल्पतर पदके अन्तरकालका निषेध किया है। इनकी भुजगार विभक्ति सम्यग्दृष्टिके होती है और उपशमसम्यक्त्वका जघन्य अन्तर एक समय तथा उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात दिन-रात है, इसलिए इनके भुजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात दिन-रात कहा है। तथा इनका अवस्थितपद सासादनसम्यग्दृष्टिके होता है, इसलिए सासादनके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर-कालके समान इनके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। एकेन्द्रियादि जीवोंके भी छह नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति होती रहती है, इसलिए इनके उक्त दोनों पदोंके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा इनकी अवस्थितविभक्ति उपशमश्रेण्यिमे होती है, इसलिए इनके इस पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष पृथक्त्वप्रमाण कहा है। पुरुषवेदका अन्य सब भङ्ग छह नोकषायोंके समान ही हैं। मात्र उसके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल दो प्रकारसे वतलाया है सो विचार कर घटित कर लेना चाहिए।

§ ३३३. आदेशसे नारकियोमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका अन्तर काल नहीं है निरन्तर है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और छह नोकषायोंका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ छह नोकषायोंका अवस्थित पद नहीं है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है। इसीप्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम ग्रैवेयक तकके देवोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकमें सात नोकषायोंके अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है। तथा वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी भी अवस्थितविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर काल उपशमश्रेण्यिकी विवक्षासे

१. आ०प्रतौ 'णिर० । णियमा अवट्ठि०' इति पाठः ।

वासपुधत्तं ।

§ ३३४. तिरिक्खवर्गईए तिरिक्खवाणमोघो । णवरि छण्णोक० अवट्ठि० णत्थि । पुरिस० अवट्ठि० वासपुधत्तं णत्थि । पंचि०तिरि०अपज्ज० पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि सम्म०-सम्मामि० अप्प० पुरिस० भुज०-अप्प० णत्थि अंतरं । सेसपदाणि अणंताणु० अवत्तव्वं च णत्थि । मणुसअपज्ज० छवीसं पयढीणं भुज०-अप्प० सम्म०-सम्मामि० अप्प० जह० एगस०, उक्क० पळिदो० असंखे०भागो । जेसिमवट्ठिद-पदमत्थि तेसिं जह० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । अणुद्दिसादि जाव सव्वट्ठा त्ति मिच्छं०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क०-इत्थि०-णवुंस० अप्प० चउणोक० भुज०-अप्प० णत्थि अंतरं । बारसक०-पुरिस०-भय-दुयुंद्धा० णेरइयभंगो । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

णाणा० अंतरं समत्तं ।

§ ३३५. भावाणुगमेण दु० णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण सव्व-पयढीणं सव्वपदा त्ति को भावो ? ओदइओ भावो । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

भावाणुगमो समत्तो ।

वर्षपृथक्त्वप्रमाण है ।

विशेषार्थ—अपने अपने स्वामित्वको देखकर यहाँ सब प्रकृतियोंके अपने अपने पदोंका अन्तर काल घटित कर लेना चाहिए । विशेष वक्तव्य न होनेसे हमने अलग अलग खुलासा नहीं किया है । तथा इसीप्रकार आगे भी जान लेना चाहिए ।

§ ३३४. तिर्यञ्चगतिमें सामान्य तिर्यञ्चोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि छह नोकषायोंका अवस्थितपद नहीं है । तथा पुरुषवेदके अवस्थित पदका वर्षपृथक्त्वप्रमाण अन्तर काल नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतरविभक्ति तथा पुरुषवेदकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका अन्तर काल नहीं है । इनके शेष पद तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद नहीं है । मनुष्य अपर्याप्तकोमें छव्वीस प्रकृतियोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्ति तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अल्पतरविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातव्वं भागप्रमाण है । जिनका अवस्थितपद है उनके इस पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । अनुद्दिशसे लेकर सर्वाथिसिद्धि तकके देवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी अल्पतरविभक्ति तथा चार नोकषायोंकी भुजगार और अल्पतरविभक्तिका अन्तर काल नहीं है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग नारकियोंके समान है । इसप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर काल समाप्त हुआ ।

§ ३३५. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंके सब पदोंका कौन भाव है ? औदयिकभाव है । इसप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार भावानुगम समाप्त हुआ ।

§ ३३६. अप्पावहुआशुगमेण दुविहो णिई सो—ओघेणा आदेसेण य । ओघेणः मिच्छ०-वारसक०-भय-दुर्गुञ्जणं सव्वत्थोवा अवट्ठिदविहृत्तिया । अप्पद० असंखे०-गुणा । भुज० संखे०गुणा । सम्म०-सम्मामि० सव्वत्थोवा अवट्ठि० अवत्त० असंखे०गुणा । भुज० असंखे०गुणा । अप्प० असंखे०गुणा । अणंताणु०चउकस्स सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० अणंतगुणा । सेसं मिच्छत्तभंगो । इत्थि०-हस्स-रईणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । भुज० अणंतगुणा । अप्प० संखे०गुणा । णवुंसय०-अरदि-सोगाणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अप्प० अणंतगुणा । भुज० संखे०गुणा । पुरिसवेदस्स सव्वत्थोवा अवट्ठि० ॥ भुज० अणंतगुणा । अप्प० संखे०गुणा । एवं तिरिक्खोघो । णवरि द्दण्णोक० अवट्ठि० णत्थि ।

§ ३३७. आदेसेण णेरइय० अणंताणु०चउकस्स सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्ठि० असंखे०गुणा । अप्प० असंखे०गुणा । भुज० संखे०गुणा । पुरिस० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । भुज० असंखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा । सेसाणमोघो । णवरि द्दण्णोक० अवट्ठि० णत्थि । एवं सव्वणेरइय-पंचिदियतिरिक्खतिय-मणुस्सेभं देवगदीए देवा भवणादि जाव सहस्सार ति । णवरि मणुस्सेसु सम्म०-सम्मामि० सव्वत्थोवा अवट्ठि० ।

§ ३३६. अल्पवहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोका हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोका हैं । उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोका हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । शेष भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । स्त्रीवेद, हास्य और रतिके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोका हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसकवेद, अरति और शोकके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोका हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोका हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें छह नोकषायोंका अवस्थितपद नहीं है ।

§ ३३७. आदेशसे नारकियोंमें अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोका हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोका हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि छह नोकषायोंका अवस्थितपद नहीं है । इसीप्रकार सब नारकी, पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य मनुष्य, देवगतिमें देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार कल्प तकके

अवत्त० संखे०गुणा । भुज० संखे०गुणा । अप्प० असंखे०गुणा । इत्थि०-हस्स-रईणं
सव्वत्थोवा अवट्ठि० । भुज० असंखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा । णवुंस०-अरइ-
सोगाणं सव्वत्थोवा अवट्ठि० । अप्प० असंखे०गुणा । भुज० संखे०गुणा ।

§ ३३८. पांचितिरि०अपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंझाणमोघो । णवरि
अणंताणु०चउक्क०अवत्त० णत्थि । सम्म०-सम्मापि० णत्थि अप्पावहुअं, एयपदत्तादो ।
इत्थिवेद०-पुरिसं-हस्स-रदीणं सव्वत्थोवा भुज० । अप्प० संखेज्जगुणा । णवुंस-अरदि-
सोगाणं सव्वत्थोवा अप्प० । भुज० संखे०गुणा । एवं मणुसअपज्जं० ।

§ ३३९. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छ०-बारसक०-भय-दुगुंझा० सव्वत्थोवा
अवट्ठि० । अप्प० संखे०गुणा । भुज० संखे०गुणा । अणंताणु०चउक्क० सव्वत्थोवा
अवत्त० । अवट्ठि० संखे०गुणा । सेसं मिच्छत्तभंगो । सम्म०-सम्मापि० सव्वत्थोवा
अवट्ठि० । अवत्त० संखे०गुणा । भुज० संखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा । पुरिस०
सव्वत्थोवा अवट्ठि० । भुज० संखे०गुणा । अप्प० संखे०गुणा । सेसमोघो । णवरि

देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्योंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके
अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं ।
उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे
हैं । स्त्रीवेद, हास्य और रतिके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे भुजगार-
विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसक-
वेद, अरति और शोकके अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले
जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ३३८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका
भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद नहीं है ।
सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका अल्पवहुत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ इनका एक पद है । स्त्रीवेद,
पुरुषवेद, हास्य और रतिके भुजगारविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरविभक्ति-
वाले जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसकवेद, अरति और शोकके अल्पतरविभक्तिवाले जीव सबसे
स्तोक हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें
जानना चाहिए ।

§ ३३९. मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें मिध्यात्व, बारह कषाय, भय और जुगुप्साके
अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे
हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य-
विभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं ।
शेष भङ्ग मिध्यात्वके समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके अवस्थितविभक्तिवाले जीव
सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले
जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदके अवस्थित-
विभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे
अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । शेष भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है

द्वणोको० अवट्टि० सव्वत्थोवं । उवरि संखेज्जगुणं कायवं ।

§ ३४०. आणदादि जाव उवरिमगेवज्जा ति वारसक०-इत्थि०-हस्स-रइ-अरइ-सोग-भय-हुगुंढा-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं देवोघो । अणंताणु०चउक्कसस सव्वत्थोवा अवत्त० । अवट्टि० असंखे०गुणा । भुज० असंखे०गुणा । अप्प० संखे०-गुणा । एवं मिच्छ० । णवरि अवत्त० णत्थि । पुरिस० कसायभंगो । णवुंस० इत्थिवेदभंगो । अणुदिसादि जाव अवराइद ति दंसणतिय-अणंताणु०चउक्क०-इत्थि०-णवुंस०वेदाणं णत्थि अप्पावहुअं । सेसाणमुवरिमगेवज्जभंगो । सव्वट्ठे एवं चेव । णवरि वारसक०-पुरिस०-भय-हुगुंढा० संखे०गुणं कायवं । एवं जाव अणाहारए ति ।

एवं भुजगारविहत्ती समत्ता ।

❀ पदणिकखेव-वड्डीओ च कायव्वाओ ।

§ ३४१. एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे—पदानुक्कस्स-जहण-वड्ढि-हाणि-अवट्ठाभावत्तवसण्णिणदाणं णिकखेवो समुक्चित्तणा-सामित्तादिविसेसेहि णिच्छयजणणं पदणिकखेवो णाम । भुजगारविसेसो पदणिकखेवो ति वुच्चं होइ । पदणिकखेवविसेसो वड्डी णाम । एदाओ दो वि विहत्तीओ भुजगाराणुसारणेत्थ कायव्वाओ ति अत्थ-

कि छह नोकपायोंकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । आगे संख्यातगुणा करना चाहिए ।

§ ३४०. आनत कल्पसे लेकर उपरिम भ्रूवेयक तकके देवोंमें वारह कषाय, स्त्रीवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अव्यक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुण्ये हैं । उनसे भुजगारविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुण्ये हैं । उनसे अल्पतरविभक्तिवाले जीव संख्यातगुण्ये हैं । इसीप्रकार मिध्यात्वके सम्भव पदोका अल्पवहुत्व है । इतनी विशेषता है कि इसकी अव्यक्तव्यविभक्ति नहीं है । पुरुषवेदका भङ्ग कषायोंके समान है । नपुंसकवेदका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । अनुदिसादे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंसे तीन दर्शनमोहनीय, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका अल्पवहुत्व नहीं है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उपरिम भ्रूवेयकके समान है । सर्वार्थसिद्धिमें इसीप्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका अल्पवहुत्व कहते समय संख्यातगुणा करना चाहिए । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार भुजगारविभक्ति समाप्त हुई ।

❀ पदनिक्षेप और वृद्धि करनी चाहिए ।

३४१. इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—उत्कृष्ट और जघन्य वृद्धि, दानि, अवस्थान और अव्यक्तव्य संज्ञावाले पदोंका निक्षेप अर्थात् समुत्कीर्तना और स्वामित्व आदि विशेषोंके द्वारा निश्चय उत्पन्न करना पदनिक्षेप कहलाता है । भुजगारविशेषको पदनिक्षेप कहते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । तथा पदनिक्षेपविशेषको वृद्धि कहते हैं । ये दोनों ही विभक्तियों भुजगारके

समप्पणा एदेण कदा होइ । संप्रति एदेण सुत्तेण समप्पिदत्तविवरणमुच्चारणवलेण कस्सामो । तं जहा—उत्तरपयडिपदणिक्खेवेत्ति तत्थ इमाणि तिप्पिण अणियोगद्वाराणि—समुक्कित्तणा सामित्तमप्पाबहुए ति ।

§ ३४२. तत्थ समुक्कित्तणा दुविहा—जहण्णा उक्कस्सा । उक्कस्सए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-पुरिस-भय-दु० अत्थि उक्कस्सिया वड्डी हाणी अवट्ठाणं च । सम्मत्त-सम्मामि०-इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं अत्थि उक्क० वड्डी हाणी च । णवरि एत्थावट्ठिदस्स वि संभवो अत्थि, सासणसम्मोइडिम्मि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं तदुवल्लंभादो । सेसायां पि उवसमसेट्ठीए सव्वोवसामणम्मि तदुवल्लंभसंभवाद्दो । तमेत्थ ण विवक्खियमिदि ऐदव्वं । अदो चेव उवरिमो अप्पणायांथो सुसंबद्धो । एवं सव्वणोरइय-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख३-मणुस३-देवा जाव उपरिमंगेवज्जा ति ।

§ ३४३. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुयुंझा० अत्थि उक्क० वड्डी हाणी अवट्ठाणं च । सम्म०-सम्मामि० अत्थि उक्क० हाणी । सत्तणोक्क० अत्थि उक्क० वड्डी हाणी च । एवं मणुसअपज्ज० । अणुदिसादि जाव संबद्धा ति

अनुसार यहाँ करनी चाहिए इसप्रकार इस सूत्र द्वारा अर्थका समर्पण किया गया है । अब इस सूत्र द्वारा समर्पित किए गये अर्थका विवरण उच्चारणके बलसे करते हैं । यथा—उत्तरप्रकृतिपदनिक्षेपका प्रकरण है । उसमें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व ।

§ ३४२. समुत्कीर्तना दो प्रकारकी है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, नर्पुसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट हानि है । इतनी विशेषता है कि यहाँ पर अवस्थितपद भी सम्भव है, क्योंकि सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अवस्थितपद उपलब्ध होता है । तथा शेष प्रकृतियोंकी भी अवस्थितपद उपशमश्रेणिये सर्वोपशामना होने पर उपलब्ध होता है । परन्तु वह यहाँ पर विवक्षित नहीं है ऐसा जानना चाहिए और इसीलिए उपरिम अपेक्षा ग्रन्थ सुसम्बद्ध है । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, मनुष्यत्रिक, देव और उपरिम प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

§ ३४३. पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि है । सात-नोकषायोक्ती उत्कृष्ट वृद्धि और हानि है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए ।

मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अर्णताणु०४-इत्थि०-णजुंस० अत्थि उक्क० हाणी । पवरि
सम्म०-सम्मामि० वड्डीए वि संभवो दीसइ, उवसमसेढीए कालं कादूण तत्थुप्पणए-
उवसमसम्मादिद्विमि दोण्हमेदेसिं कम्ममाणं वड्ढिदंसणादो । एदमेत्थ ए विवविखय-
मिदि णेदव्वं । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमत्थि उक्क० वड्डी हाणी च । वारसक०-
पुरिस०-भय-दुगुंछा० ओघं । एवं जाव अणाहारि ति । एवं जहणणयं पि णेदव्वं,
विसेसाभावादो ।

§ ३४४. सामित्तं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिदेसो—
ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० उक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० जो
हदसमुत्पत्तियकम्मसिओ कम्मं कववेहदि ति विवरीदं गंतूण सत्तमाए पुढवीए णेरइएसु
उववण्णो सव्वलहुं सव्वहिं पज्जतीहि पज्जत्तयदो उक्कस्ससंकिलेसमुक्कस्सगं च जोगं
गदो तस्स उक्कस्सिया वड्डी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवढ्ढायां । खवरि तप्पाओग-
जहणणसंतकम्मिओ खविदकम्मसिओ आणेदव्वो, वंधाणुसारणेदमुक्कस्सवड्ढिसामित्तं
पयदं, अण्णहा पुण गुणिदकम्मसियलक्खणेणागंतूण विवरीयभावेण सम्मत-सम्मा-
मिच्छत्ताणि पूरेदूण तदो मिच्छत्तं गयस्स पढमसमए पयदसामित्तेण होदव्वं, तत्था-
संखेज्जाणं गुणिदसमप्रवढ्ढाणमथापवत्तेण मिच्छत्तस्सुवरि परिवड्ढिदंसणादो । उक्क०

अनुदिशसे लेकर स्वार्थिसिद्धि तकके देवोमें मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुवन्धी-
अनुत्पत्त, श्रौवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट हानि है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और
सम्यग्मिध्यात्वकी वृद्धि भी सम्भव दिखलाई देती है, क्योंकि उपशमश्रेणियों मरण करके वहाँ
उत्पन्न हुए उपशमसम्यग्दृष्टि जीवमें इन दो कर्मों की वृद्धि देखी जाती है । किन्तु यह यहाँ पर
विवक्षित नहीं है ऐसा जानना चाहिए । हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि और
हानि है । ब्राह्म कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार
अनाहारक मागीया तक जानना चाहिए । तथा उत्कृष्टके समान जघन्य भी जानना चाहिए,
क्योंकि उत्कृष्टसे इसमें कोई विशेषता नहीं है ।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

§ ३४४. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश
दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिध्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो
अन्यतर हतसमुत्पत्तिक कर्मांशिक जीव कर्मका रूपण करेगा किन्तु विपरीत जाकर सातवीं
पृथिवीके नारकियोंमें उत्पन्न हो और अति शीघ्र सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो उत्कृष्ट संकलेश और
उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान
होता है । इतनी विशेषता है कि तत्प्रायोग्य जघन्य सत्कर्मवाले क्षणिककर्मांशिक जीवको लाना
चाहिए । बन्धके अनुसार यह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामित्व प्रवृत्त हुआ है, अन्यथा गुणितकर्मांशिक
लक्षणसे आकर विपरीत आचसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वको पूरकर अनन्तर मिध्यात्वको
प्राप्त होने पर उसके प्रथम समयमें प्रकृत स्वामित्व होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर असंख्यात
गुणित समयप्रवद्धोंकी अधःप्रवृत्तभागाहारके द्वारा मिध्यात्वके ऊपर वृद्धि देखी जाती है ।

हाणी कस्स ? अण्णद० जो गुणिदकम्मसिओ सत्तमादो पुढवीदो गिस्सरिदसमाणो दो-तिण्ण भवे पंचिदिएसु वादरेइंदिएसु च गमेदूण तदो मणुस्सेसु गबोवक्कंतिएसु जादो सच्चलहुं जोणिक्खमजम्मणेण जादो अट्टवसिसओ सम्मत्तं पडिवज्जिय दंसणमोहक्खवणाए अब्भुद्धिदो तेण मिच्छत्तं खविज्जमाणं खविदं जाधे अपच्छिम्-
द्विदिखंडगं चरिमसमयसंखुभमाणं संखुद्धं ताधे तस्स मिच्छत्तस्स उक्क० हाणी । सम्मत्त०-सम्माभि० उक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० जो गुणिदकम्मसिओ सत्तमीए पुढवीए णेरइओ अंतोमुहुत्तेण मिच्छत्तमुक्कस्सं काहिदि ति विवरीयं गंतूण सम्मत्तं पडिवण्णो । तत्थ सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताजि गुणसंक्रमेण पूरिदाणि अंतोमुहुत्तमसंखेज्ज-
गुणाए सेठीए सो से काले विज्झादं पडिहिदि ति तस्स उक्क० वड्डी । अथवा दंसणमोहक्खवणेण गुणिदकम्मसिएण जाधे मिच्छत्तं सम्माभिच्छत्ते पक्खित्तं ताधे सम्माभिच्छत्तस्स उक्क० वड्डी । तेणेव जाधे सम्माभिच्छत्तं सम्मत्ते पक्खित्तं ताधे [सम्मत्तस्स उक्क० वड्डी] । सम्म० उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मसियस्स अक्खीणदंसणमोहणीयस्स चरिमसमए वट्टमाणस्स । सम्माभि० उक्क० हाणी कस्स ? गुणिदकम्मसिएण सम्माभिच्छत्तं सम्मत्ते जाधे संपक्खित्तं ताधे तस्स उक्क० हाणी । अणंताणु०४ उक्क० वड्डी अवट्टाणं च मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? अण्ण०

मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव सातवीं पृथिवीसे निकल कर तथा दो तीन भव पञ्चेन्द्रियों और वादर एकेन्द्रियोंमें बिता कर अनन्तर गर्भज मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अतिशीघ्र योनिसे निकलने रूप जन्मसे आठ वर्षका होकर तथा सम्यक्त्वको प्राप्त हो दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । उसने क्षयको प्राप्त होनेवाले मिध्यात्वका क्षय करते हुए जब अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण किया तब उसके मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव सातवीं पृथिवीमें नारकी होकर अन्तर्मुहूर्तमें मिध्यात्वको उत्कृष्ट करेगा किन्तु विपरीत जाकर और सम्यक्त्वको प्राप्त होकर वहाँ सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा अन्तर्मुहूर्त काल तक असंख्यतराणी गुणश्रेणिरूपसे पूरकर अनन्तर समयमे विध्यात्तको प्राप्त होगा ऐसे उस जीवके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । अथवा दर्शनमोहनीयका क्षपक जो गुणितकर्मांशिक जीव जब मिध्यात्वको सम्यग्मिध्यात्वमे प्रक्षिप्त करता है तब उसके सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । तथा वही जब सम्यग्मिध्यात्वको सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त करता है तब सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर दर्शनमोहनीयका क्षय करनेवाला गुणितकर्मांशिक जीव अन्तिम समयमे विद्यमान है उसके सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो गुणितकर्मांशिक जीव जब सम्यग्मिध्यात्वको सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त करता है तब उसके सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर

गुणितकर्मसिद्धो जो सत्तमाए पुढवीए खोरइयो कम्ममंतोमुहुत्तेण गुणोहिदि त्ति
 उम्मत्तं पडिवरणो अंतोमुहुत्तेण अयांताणुवंधी विसंजो जयतेण तेण अपच्छिमे
 द्वेदिखंडए संकामिदे तस्स उक्क० हाणी । अट्टएहं कसायाणमुक्कस्सवड्डी अवट्टाणं
 मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? गुणितकर्मसियस्स अणियट्टिववगस्स अट्टएहं
 कसायाणमपच्छिमे द्विदिखंडए संकामिदे तस्स उक्क० हाणी । तिहं संजलणामट्ट-
 कसायभंगो । लोहसंजलणस्स एवं चेव । णवरि सुहुमसांपराइयस्स चरिमसमए उक्क०
 हाणी । इत्थिणवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमुक्क० वड्डी मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी
 कस्स ? अएणद० गुणितकर्मसियस्स खवगस्स चरिमे द्विदिखंडए चरिमसमय-
 संकामिदे इत्थिणवुंस० उक्क० हाणी । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमुक्क० हाणी गुणित-
 कर्मसियस्स खवगस्स चरिमद्विदिखंडयदुचरिमसमयसंकामयस्स । पुरिसवेद० उक्क०
 वड्डी मिच्छत्तभंगो । अवट्टाणं कस्स ? अएणद० असंजदसम्माइट्टिस्स अवट्टिदपाओग-
 संतकम्मिएण उक्कस्सवड्डी कादुणावट्टिदस्स तस्स उक्क० अवट्टाणं । उक्क० हाणी
 कस्स ? अण्णद० गुणितकर्मसियस्स खवगस्स चरिमद्विदिखंडयं विणासेमाणगस्स
 उक्क० हाणी । भय-दुगुंझाणं वट्टि-अवट्टाणमुक्कस्सं मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ?
 अण्णद० गुणितकर्मसियस्स खवगस्स चरिमद्विदिखंडयदुचरिमसमए वट्टमाणगस्स ।

गुणितकर्मांशिक सातवीं पृथिवीका नारकी जीव कर्मको अन्तर्मुहूर्तके द्वारा गुणित करेगा,
 इसलिये सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अन्तर्मुहूर्तके द्वारा अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना करते हुए
 जब अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रमण करता है तब उसके अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट
 हानि होती है। आठ कषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है।
 इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो गुणितकर्मांशिक अन्तिमचतुष्क जीव आठ कषायोंके
 अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रमण करता है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है। तीन संज्वलनोंका
 भङ्ग आठ कषायोंके समान है। लोभसंज्वलनका भङ्ग इसीप्रकार है। इतनी विशेषता है कि
 सूक्ष्मसांपरायके अन्तिम समयमें इसकी उत्कृष्ट हानि होती है। खीवेद, नपुंसकवेद, हास्य,
 रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इनकी उत्कृष्ट हानि किसके
 होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक चतुष्क जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें
 संक्रमण कर रहा है उसके खीवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट हानि होती है। तथा जो गुणितकर्मांशिक
 चतुष्क जीव हास्य, रति, अरति और शोकके अन्तिम स्थितिकाण्डकके द्विचरम समयमें संक्रमण
 कर रहा है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है। पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धिका भङ्ग मिथ्यात्वके
 समान है। इसका उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ? जो अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि जीव
 अवस्थितप्रायोग्य सत्कर्मके साथ उत्कृष्ट वृद्धि करके अवस्थित है उसके इसका उत्कृष्ट अवस्थान
 होता है। इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक चतुष्क जीव चरम
 स्थितिकाण्डकका विनाश कर रहा है उसके इसकी उत्कृष्ट हानि होती है। भय और जुगुप्साकी
 उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती
 है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक चतुष्क जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकके द्विचरम समयमें विद्यमान
 है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है।

§ ३४५. आदेशेण रोरइय० मिच्छत्त० उक्कस्सवड्ढि-अवट्ठाणमोघभंगो । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? अण्णद० जो गुणिदकम्मसिओ अंतोमुहुत्तेण कम्मं गुणेहिदि त्ति तदो सम्मतं पडिवण्णो सम्मत-सम्मा मिच्छत्ताणि गुणसंकमेण पूरेदूण से काले विज्झादं पडिहिदि त्ति तस्स उक्क० हाणी । सम्मत-सम्मा मिच्छत्ताणमुक्कस्सिया वड्ढी कस्स ? अण्णदरस्स गुणिदकम्मसियस्स जो सत्तमाए पुढवीए णेरइओ अंतोमुहुत्तेण कम्मं गुणेहिदि त्ति सम्मतं पडिवण्णो तदो सम्मत-सम्मा मिच्छत्ताणि गुणसंकमेण पूरेयूण से काले विज्झादं पडिहिदि त्ति तस्स उक्क० वड्ढी । सम्मं उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० जो गुणिदकम्मसिओ चरिमसमयं अवस्वीणदंसणमोहणीओ तस्स उक्कस्सिया हाणी । सम्मामि० उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणसंकमेण सम्मा-मिच्छत्तादो सम्मतं पूरेयूण विज्झादं पदिदपढमसमए तस्स उक्क० हाणी । अणंताणु०४ उक्कस्सवड्ढी अवट्ठाणं मिच्छत्तभंगो । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्म-सियस्स सम्मतं पडिवज्जियूण अणंताणु०४ विसंजोए तस्स तस्स अपच्छिमे द्विद्विखंडए चरिमसमयसंखोहयस्स तस्स उक्क० हाणी । वारसक०-भय-दुगुंझा० उक्कस्सवड्ढी अवट्ठाणं मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णदरस्स गुणिदकम्मसियस्स कदकरणिज्जाभावेण णेरइएसु उववण्णस्स जाथे गुणसेडिसियाणि उदयमागदाणि ताथे तस्स उक्कसिया हाणी । एवं पुरिसवेदस्स । णवरि अवट्ठाणं सम्माइडिस्स ।

§ ३४५. आदेशसे नारकियोमें मिध्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग ओषके समान है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अन्तमुहूर्तके द्वारा कर्मको गुणित करेगा किन्तु सम्यक्त्वको प्राप्त हो सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा पूरकर अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त होगा उसके मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक सातवीं पृथिवीका नारकी जीव अन्तमुहूर्तके द्वारा कर्मको गुणित करेगा किन्तु सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अनन्तर सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा पूरकर अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त होगा उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अन्तिम समयमें दर्शनमोहनीयकी क्षणणा कर रहा है उसके इसकी उत्कृष्ट हानि होती है । सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर जीव गुणसंक्रमके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वसे सम्यक्त्वको पूरकर विध्यातको प्राप्त होता है उसके प्रथम समयमें उसकी उत्कृष्ट हानि होती है । अनन्तालुवन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्वको प्राप्त होकर अनन्तालुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करते समय अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण कर रहा है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है । वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव कृतकृत्यभावसे नारकियों में उत्पन्न हुआ उसके जब गुणश्रेणियोंकी उदयको प्राप्त होता है तब उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है । इसीप्रकार पुरुषवेदके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसका अवस्थान

इद्विस्स । इत्थि-णवुंस०-चदुणोक्साय० [उक्क०] वड्डी मिच्छत्तभंगो । अवट्ठाणं गत्थि । हाणी भय-दुगुंळभंगो । जेसियुदयो गत्थि तेसिं पि थिउक्कसंकमेणं पयदसिद्धी वत्तव्वा । पढमाए एवं चेव । णवरि अप्पणो पुढवीए उववज्जावेयव्वो । विदियादिं जाव सत्तमा त्ति एवं चेव । णवरि अप्पणो पुढवीए णामं घेत्तूण उववज्जावेयव्वो । णवरि सम्मत्तस्स उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स सम्मत्तं पडिवज्जियूण अणंताणुर्वथि विसंजोइय द्विदस्स जाधे गुणसेदिसीसयाणि उदयमागयाणि ताधे तस्स उक्क० हाणी । वारसक०-णवणोक्क० उक्क० हाणी एवं चेव ।

§ ३४६. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु मिच्छत्तस्स उक्कस्सिया वड्डी कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसिओ विवरीदं गंतूण तिरिक्खगईए उववणो सव्वाहि पज्जतीहि पज्जत्तयदो उक्कस्सजोगमुक्कस्ससंकिखेसं च गदो तस्स उक्क० वड्डी । तस्सेव से काले उक्कस्सयभवट्ठाणं । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स संजमासंजम-संजम-सम्मत्तगुण-सेठीओ कादूण मिच्छत्तं गदो तदो अविणट्ठासु गुणसेठीसु तिरिक्खेसु उववणस्स तस्स जाधे गुणसेदिसीसयाणि उदयमागदाणि ताधे मिच्छत्तस्स उक्क० हाणी । अथवा णेरइयभंगो । सम्मत्त०-सम्मामि० उक्कस्सिया वड्डी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मंसिय-

सम्यग्दृष्टिके होता है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इनका अवस्थान नहीं है । इनकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग भय और जुगुप्साके समान है । तथा जिन प्रकृतियोंका उदय नहीं है उनकी भी स्तितुक्कसंक्रमणसे प्रकृत विषयकी सिद्धि करनी चाहिए । पहली पृथिवीसे इसीप्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी पृथिवीमें उत्पन्न कराना चाहिए । दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक इसीप्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी पृथिवीका नाम लेकर उत्पन्न कराना चाहिए । इतनी और विशेषता है कि सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्वको प्राप्त होकर और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके स्थित है उसके जब गुणश्रेणियोंके उदयको प्राप्त होते हैं तब उसके सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । वारद कषाय और नौ नोकषायोंका भङ्ग इसीप्रकार है ।

§ ३४६. तिर्यञ्जगतिमें तिर्यञ्जोंमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर चपितकर्मांशिक जीव विपरीत जाकर तिर्यञ्जगतिमें उत्पन्न हो और सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संकलेशको प्राप्त हुआ उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव संयमासंयम, संयम और सम्यक्त्वकी गुणश्रेणियों करके मिथ्यात्वको प्राप्त हो अनन्तर गुणश्रेणियोंके नष्ट हुए बिना तिर्यञ्जोमें उत्पन्न हुआ उसके जब गुणश्रेणियोंके उदयको प्राप्त हुए तब उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । अथवा इसका भङ्ग नारकियोंके समान है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक

१. ता०प्रती 'विउक्कसंकमेण' इति पाठः । २. ता०प्रती 'एवं चेव । णामं घेत्तूण । विदियादि' इति पाठः ।

तिरिखो सम्मत पडिवण्णो जाधे गुणसंकमेण सम्मत-सम्माभिच्छत्ताणि पूरेयुण से काले वि-भादं पडिहिदि ति ताधे तस्स उक्खिसिया वड्डी । हाणी वि सम्माभिच्छत्तस्स विञ्जादे पदिदस्स पढमसमए कायव्वा । सम्मतस्स उक्खिसिया हाणी ओवं । अणंताणु०४ वड्डी अवट्टाणं च मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणिद-कम्मंसियस्स अणंताणुवंधी विसंजो जेतस्स अपच्छिमे द्विदिखंडए संकामिदे तस्स उक्क० हाणी । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० वड्डी अवट्टाणं मिच्छत्तभंगो । णवरि पुरिस० अवट्टाणं सम्माइडिस्स कायव्वं । उक्खिसिया हाणी णेरइयभंगो । इत्थि-णलुंस०-चदुणोक० उक्क० वड्डी मिच्छत्तभंगो । उक्खिसिया हाणी पुरिसवेदभंगो । एवं पंचिदियतिरिखतिए । णवरि जोणिणीसु सम्म०-वारसक०-णवणोक० उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स संजम-संजमासंजम-सम्मतगुणसेढीओ काट्ठण तदो अविणट्टासु गुणसेढीसु मिच्छत्तं गंतूण जोणिणीसु उववण्णो जाधे गुणसेढीसियाणि उदयमागहाणि ताधे तस्स उक्क० हाणी ।

§ ३४७. पंचि०तिरिख०अपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंछा० उक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसियस्स जो विवरीदं गंतूण पंचिदियतिरिख-अपज्जत्तएसु उववण्णो अंतोसुहुत्तेण उक्खस्सजोगं गदो उक्खस्सयं च संकिलेसं पडिवण्णो तस्स उक्क० वड्डी । तस्सेव से काले उक्खस्सयमवट्टाणं । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद०

तिर्यञ्च जीव सम्यक्त्वको प्राप्त हो जब गुणसंक्रमके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वको पूरक अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त करेगा तब उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । हानि भी सम्यग्मिध्यात्वकी विध्यातको प्राप्त हुए तिर्यञ्चके प्रथम समयमें करनी चाहिए । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग ओषके समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करनेवाला जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रमण करता है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका अवस्थान पद सम्यग्दृष्टिके करना चाहिए । इनकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग नारकियोंके समान है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । तथा इनकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग पुरुषवेदके समान है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि योनिनीतिर्यञ्चोंमें सम्यक्त्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव संयम, संयमासंयम और सम्यक्त्वकी गुणश्रेणियाँ करके अनन्तर गुणिश्रेणियोंके नष्ट हुए बिना मिध्यात्वमें जाकर योनिनी तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ उसके जब गुणश्रेणियाँ उदयको प्राप्त हुए तब उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है ।

§ ३४७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव विपरीत जाकर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हो अन्तर्गृह्यमें उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संकलेशको प्राप्त हुआ उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इनकी

गुणिककम्मसिओ जो सम्मत-संजमासंजम-संजमगुणसेदीओ कोदूण मिच्छत्तं गदो अविणहासु गुणसेदीसु अपज्जत्तएसु उववण्णो तस्स गुणसेदिसीसएसु उदयमागदेषु उक्क० हाणी । सम्मत-सम्मापिच्छत्ताणमुक्कस्सिया हाणी तस्सेव । सत्तणोक० उक्क० वड्ढि-हाणीणं मिच्छत्तर्भगो ।

§ ३४८. मणुसगदीए मणुसेसु मिच्छत्तस्स उक्क० वड्ढी कस्स ? अण्णदरो खविदकम्मसिओ अंतोमुहुत्तेण कम्मं खवेहिदि ति विवरीयं गंतूण मिच्छत्तं गदो उकस्सजोगमुक्कस्ससंकिलेसं च पडिबएणो तस्स उक्क० वड्ढी । तस्सेव से काले उकस्सयमवट्ठाणं । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? अण्णदरो गुणिककम्मसिओ दंसण-मोहक्खवणाए अब्भुट्ठिदो जाये तेण अपिच्छमं ट्ठिदिखंडयं गुणसेदिसीसगस्स संवेज्जदिभागेण सह हदं ताये तस्स उक्क० हाणी । सम्मत-सम्मापि० उक्क० वड्ढी कस्स ? अएणद० गुणिककम्मसियस्स सब्वलहुं मणुसेसु आगदो जोणियिक्खमया-जम्मणेण जादो अट्ठवस्सिगो सम्मत-सम्मापिच्छत्ताणि गुणसंक्रमेण असंखे० गुणए सेदीए अंतोमुहुत्तं पूरेयूण से काले विज्झादं पडिहिदि ति तस्स उक्कस्सिया वड्ढी । अथवा दंसणमोहक्खवगस्स कायव्वं । सम्मतस्स उक्क० हाणी कस्स ? अएणद० गुणिककम्मसियस्स चरिमसमयभवखीणदंसणमोहणीयस्स । सम्मापिच्छत्तस्स एदेणेव दंसणमोहं खव्वंतेण जाये गुणसेदिसीसगेण सह सम्मापि० अपिच्छमट्ठिदिखंडयं

उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्व, संयमासंयम और संयम गुणश्रेणियोंको प्राप्त होकर तथा मिथ्यात्वमें जाकर गुणश्रेणियोंके नष्ट हुए बिना अपर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ उसके गुणश्रेणियोंके उदयको प्राप्त होने पर उत्कृष्ट हानि होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि उसीके होती है । सात नोकपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और हानिका मङ्ग मिथ्यात्वके समान है ।

§ ३४८. मनुष्यगतियों मनुष्योंमें मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर क्षणिककर्मांशिक जीव अन्तर्मुहूर्तमें कर्मों का क्षय करेगा किन्तु विपरीत जाकर मिथ्यात्वको प्राप्त हो उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संकलेशका अधिकारी हुआ उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव दर्शनमोहनीयकी क्षणया करनेके लिए उद्यत हुआ । उसने जब अन्तिम स्थितिकाण्डकका गुणश्रेणियोंके संख्यातर्वे भागके साथ हनन किया तब उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अतिशीघ्र मनुष्योंमें आकर और योनिनिष्क्रमण जन्मसे आठ वर्षका होकर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे अन्तर्मुहूर्तक पूरकर अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त होगा उसके उक्त कर्मों की उत्कृष्ट वृद्धि होती है । अथवा इनकी उत्कृष्ट वृद्धि दर्शनमोहनीयकी क्षणया करनेवाले जीवके करनी चाहिए । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव दर्शनमोहनीयकी क्षणयाके अन्तिम समयमें अवस्थित है उसके सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । तथा यही दर्शनमोहनीयकी क्षणया करनेवाला जीव जब गुणश्रेणियोंके साथ सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम

चरिमसमयं पक्खित्तं ताधे उक्क० हाणी । अणंताणु० उक्क० वट्टी अवट्टाणं च मिच्छत्तभंगो । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? गुणिदकम्मंसियस्स सच्चलहुं जोणिणक्खमण-जम्मणेण जादो अट्टवस्सिओ सम्मत्तं पडिवण्णो भूयो अंतोमुहुत्तेण अणंताणुबंधी विसंजोएदि जाधे तेण गुणसेट्ठिसीसगस्स संखेज्जदिधागेण सह अपच्छिमट्ठिदिखंडयं णिग्गालिदं ताधे अणंताणु० उक्क० हाणी । अट्टण्हं कसायाणमुक्कस्सवट्टि-अवट्टाणं मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स सच्चलहुं जोणि-णक्खमणजम्मणेण जादो अट्टवस्सिओ खवणाए अब्भुट्ठिदो जाधे अपच्छिमट्ठिदिखंडयं गुणसेट्ठिसीसगेहि सह संजलणाए संपक्खित्तं ताधे उक्क० हाणी । कोहसंजलणस्स उक्क० वट्टी कस्स ? अएणद० गुणिदकम्मंसियस्स खवगस्स जाधे पुरिसवेदो झएणो-कसाएहि सह कोधे संपक्खित्तो ताधे कोधसंज० उक्क० वट्टी । ओघसामित्तं पि एदं चेव कायव्वं । अवट्टाणं मिच्छत्तभंगो । उक्क० हाणी कस्स ? जाधे कोधो माणे संपक्खित्तो ताधे कोधस्स उक्क० हाणी । माणस्स उक्क० वट्टी कस्स ? तेणेव जाधे कोधो माणे संपक्खित्तो ताधे माणस्स उक्क० वट्टी । अवट्टाणं मिच्छत्तभंगो । हाणी कस्स ? तस्स चेव जाधे माणो मायाए संपक्खित्तो ताधे उक्क० हाणी । मायाए उक्क० वट्टी कस्स ? तेणेव माणउक्कस्सविभत्तिगेण जाधे माणो मायाए संपक्खित्तो ताधे तस्स उक्क० वट्टी । [अवट्टाणं मिच्छत्तभंगो ।] हाणी कस्स ? जो मायाए उक्कस्ससंतकम्मंसिओ

स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण करता है तब उसके सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क की उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अतिशीघ्र योनिसे निकलने रूप जन्मके द्वारा आठ वर्षका होकर सम्यक्त्वको प्राप्त हो पुनः अन्तर्मुहूर्तमें अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करता है उसके जब गुणश्रेण्यिशीर्षके संख्यातवें भागके साथ अन्तिम स्थितिकाण्डक गलित हुआ तब उसके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट हानि होती है । आठ कषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भंग मिथ्यात्वके समान है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अतिशीघ्र योनिसे निकलनेरूप जन्मसे आठ वर्षका होकर क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । उसने जब अन्तिम स्थितिकाण्डकको गुणश्रेण्यिशीर्षके साथ संज्वलनमें प्रक्षिप्त किया तब उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है । क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक क्षपक जीव जब छह नोकषायोंके साथ पुरुषवेदको क्रोधमें प्रक्षिप्त करता है तब उसके क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । ओघस्यामित्व भी इसी प्रकार करना चाहिए । इसके अवस्थानका भंग मिथ्यात्वके समान है । इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जब क्रोधको मानमें प्रक्षिप्त करता है तब क्रोधकी उत्कृष्ट हानि होती है । मानकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? उसीने जब क्रोधको मानमें प्रक्षिप्त किया तब मानकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । इसके अवस्थानका भंग मिथ्यात्वके समान है । इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? वही जब मानको मायामें प्रक्षिप्त करता है तब मानकी उत्कृष्ट हानि होती है । मायाकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? मानकी उत्कृष्ट विभक्तिवाले उसी जीवने जब मानको मायामें प्रक्षिप्त किया तब उसकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । अवस्थानका भंग मिथ्यात्वके समान है । मायाकी उत्कृष्ट हानि किसके

मायं लोभे संपक्खिवादि तस्स उक्क० हाणी। लोभसंज० उक्क० वड्डी कस्स ? तस्सेव कायब्बा, विसेसाभावादो। अत्रद्वानं मिच्छत्तभंगो। हाणी उक्क० कस्स ? तस्स चैव सुहुमसांपराइयस्स चरिमसमए वट्टमाणगस्स। इत्थिवेद० उक्क० वड्डी कस्स ? जो खविदकम्मसिओ अंतोमुहुत्तेण कम्मं खवेहिदि त्ति विवरीदं गंतूग मिच्छत्तं गदो इत्थिवेद० पवद्धो तदो उक्कस्सजोगमुक्कस्सगं च संकिलोसं गदो तस्स उक्क० वड्डी। हाणी कस्स ? अण्णदरस्स गुणिदकम्मसिओ खवणाए अब्भुद्धिदो तेण जाधे अपच्छिमद्विदि-खंदयं उदयवज्जं संखुब्भमाणगं संखुद्धं ताधे उक्क० हाणी। एवं णवुंसय०। पुरिस० उक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० गुणिद० णवुंसयवेदोदयवक्खवगस्स जाधे इत्थि-णवुंसय-वेदा पुरिसवेदमिह संपक्खित्ता ताधे उक्क वड्डी। एवमोघसामित्तं पि णायच्चं। उक्क० अत्रद्वानं कस्स ? अण्णद० असंजदसम्मादिट्टिस्स अवट्टिदपाओगसंतकम्मियस्स उक्कस्सजोगिस्स उक्कस्सियाए वड्डीए वट्टियूणावट्टिदस्स। उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मसि० पुरिसवेदचिराणसंतकम्मं जाधे कोधम्मि संपक्खित्तं ताधे तस्स उक्क० हाणी। छण्णोकसायाणमुक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मसियस्स खवणाए अब्भुद्धिदस्स, अपुञ्चकरणचरिमसमए उक्कस्सगुणसंकमेण सह उक्कस्सजोगं

होती है ? जो मायाका उत्कृष्ट सत्कर्मवाला जीव जब मायाको लोभमें निश्चित करेगा तब उसके मायाकी उत्कृष्ट हानि होती है। लोभसंज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? उसी जीवके करना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है। इसके अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? वही सूक्ष्मसाम्पराय जीव जब अन्तिम समयमें विद्यमान होता है तब उसके लोभकी उत्कृष्ट हानि होती है। स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो क्षणिककर्मांशिक जीव अन्तर्मुहूर्तके द्वारा कर्मका क्षय करेगा किन्तु विपरीत जाकर मिथ्यात्वको प्राप्त हो स्त्रीवेदका बन्धकर अनन्तर जिसने उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संकलेशको प्राप्त किया उसके स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणित-कर्मांशिक जीव क्षणके लिए उद्यत हुआ। उसने जब उदयको छोड़कर अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रमण करते हुए संक्रमण किया तब उसके स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट हानि होती है। इसीप्रकार नपुंसक-वेदका स्वामी जानना चाहिए। पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणित-कर्मांशिक जीव नपुंसकवेदके उदयके साथ क्षपक है वह जब स्त्रीवेद और नपुंसकवेदको पुरुषवेदमें निश्चित करता है तब उसके पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। इसीप्रकार औष स्वानित्व भी जानना चाहिए। इसका उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ? जो अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि जीव अवस्थितप्रायोग्य सत्कर्मवाला है, उत्कृष्ट योगसे युक्त है और उत्कृष्ट वृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त हो अवस्थित है उसके इसका उत्कृष्ट अवस्थान होता है। इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जिस अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीवने पुरुषवेदके पुराने सत्कर्मको जब क्रोधमें प्रक्षिप्त किया तब उसके इसकी उत्कृष्ट हानि होती है। ब्रह्म नोकपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव क्षणके लिए उद्यत हो अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट

गदस्स तस्स उक्क० वड्डी । णवरि अरदि-सोगाणमधापवत्तचरिमसमए भय-दुगुञ्जोदएण विणा सोदए वट्टमाणस्स । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० खवगस्स गुणिदकम्मंसियस्स अपच्चिच्चेमे द्विदिखंडए दुचरिमसमए वट्टमाणगस्स तस्स उक्क० हाणी । एवं मणुसपज्ज० । णवरि इत्थिवेद० हाणी छण्णोकसायाणं व भाणियच्चा । एवं चेव मणुसिणीसु वि । णवरि पुरिस०-णज्जुंस० छण्णोकसायाणं व भाणियच्चा । मणुस-अपज्ज० पंचि०तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

§ ३४६. देवगदीए देवेसु मिच्छत्त०-वारसक०-भय-दुगुञ्जा० उक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसियस्स जो अंतोमुहुत्तेण कम्मं खवेहदि त्ति विवरीयभावेण मिच्छत्तं गंतूण देवेसुववण्णो सञ्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो उक्कस्सजोगमागदो उक्कस्सयं च संकिलेसं गदो तस्स उक्कस्सिया वड्डी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवट्ठाणं । मिच्छत्तस्स उक्कस्सहाणी णारयभंगो । सेसाणं उक्क० हाणी कस्स ? जो गुणिद-कम्मंसिओ सम्मत्त-संजमासंजम-संजमगुणसेढोओ कादूण तदो मदो देवेसुववण्णो तस्स गुणसेढिसीसगेसु उदयमागदेसु उक्क० हाणी । सम्मत्त-सम्मामि० उक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स सम्मत्तं पडिवण्णज्जयस्स सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि गुणसंकमेण पूरेयूण से काले विज्जभादं पडिहिदि त्ति तस्स उक्क० वड्डी । सम्मत्त०

गुणसंक्रमके साथ उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । इतनी विशेषता है कि अरति और शोककी अधःप्रवृत्तके अन्तिम समयमें भय और जुगुप्साके उदयके विना स्वोदयसे विद्यमान रहते हुए उत्कृष्ट वृद्धि होती है । इनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर क्षपक गुणितकर्मांशिक जीव अन्तिम स्थितिकाण्डके द्विचरम समयमें विद्यमान है उसके इनकी उत्कृष्ट हानि होती है । इसीप्रकार मनुष्यपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट हानि छह नोकपायोंके समान कहनी चाहिए । इसीप्रकार मनुष्यिनियोंमें भी कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेदका भङ्ग छह नोकपायोंके समान कहना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रियतियैश्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है ।

§ ३४६. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व, वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर क्षपितकर्मांशिक जीव अन्तर्मुहूर्तके द्वारा कर्मका क्षय करेगा किन्तु विपरीत भावसे मिथ्यात्वमें जाकर देवोंमें उत्पन्न हो और सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो उत्कृष्ट योगको और उत्कृष्ट संकलेशको प्राप्त हुआ उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानिका भङ्ग नारकियोंके समान है । शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्व, संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके अनन्तर मरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ उसके गुणश्रेणियोंके उदयमें आनेपर शेष कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्वको प्राप्त हो सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा पूरकर अनन्तर समयमें विध्यातकों प्राप्त करेगा उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो

उक्क० हाणी कस्स ? अण्णदरो गुणिदकम्मंसिओ दंसणमोहक्खवगो कदकरणिज्जो
 ोदूण देवेसुववण्णो तस्स दुचरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स उक्क० हाणी ।
 प्रम्मामि० उक्क० हाणी कस्स ? विड्ढादपदिदस्स । अणंताणुबंधीणमुक्कस्सवड्ढि-
 अवद्धानं मिच्छत्तभंगो । हाणी ओघभंगो । इत्थि०-णवुंस० उक्क० वड्ढी कस्स ?
 अण्णदरो खविदकम्मंसिओ मिच्छत्तं गदो तदो उक्कस्सजोगमागदो तप्पाओग्ग-
 संकिल्लिहो इत्थि-णवुंसयवेदं पबद्धो तस्स उक्क० वड्ढी । हाणी भय-दुगुंछभंगो । एवं
 च्चदुणोकसायाणं । पुरिसवेद० एवं चेव । णवरि अवद्धानं वेदगसम्माइडिस्स । एवं
 सोहम्मादिउवरिमगेवज्जा त्ति । भवण०-वाणवें०-जोदिसि० एवं चेव । णवरि
 सम्मत० वड्ढि-हाणी सम्मामिच्छत्तभंगो ।

§ ३५०. अणुहिसादि जाव सच्चहा त्ति वारसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुंछ०
 उक्क० वड्ढी कस्स ? खविदकम्मंसिओ उक्कस्ससंकिल्लिहो उक्कस्सजोगमागदो सम्मत-
 संजम-संजमासंजमगुणसेठीसु पुन्वभवसंबंधिणीसु उदयमागदासु णिग्गलिदासु तदो
 उक्कस्सजोगमागदस्स तस्स उक्क० वड्ढी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवद्धानं । उक्क०
 हाणी कस्स ? तस्सेव संजमासंजम-संजमगुणसेठीसु उदयमागदासु उक्क० हाणी ।
 मिच्छत्त-इत्थि-णवुंस० उक्क० हाणी कस्स ? अण्णद० सम्मत-संजम-संजमासंजम-

अन्यतर गुणितकर्मांशिक दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला जीव कृतकृत्य होकर देवोंमें उत्पन्न
 हुआ उसके द्विचरम समयमें दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करते समय सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि होती
 है । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? विध्यातको प्राप्त हुए जीवके होती है ।
 अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । तथा इनकी
 हानिका भङ्ग ओघके समान है । ऋग्वेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जिस
 अन्यतर क्षपितकर्मांशिक जीवने मिथ्यात्वको प्राप्त हो अनन्तर उत्कृष्ट योग और तत्प्रायोग्य
 संक्लेशके साथ ऋग्वेद और नपुंसकवेदका बन्ध किया उसके इनकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । इनकी
 उत्कृष्ट हानिका भङ्ग भय और जुगुप्साके समान है । इसी प्रकार चार नोकषायोंका भङ्ग जानना
 चाहिए । पुरुषवेदका भंग इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि इसका अवस्थान वेदकसम्यग्दृष्टिके
 होता है । इस प्रकार सौधर्मसे लेकर उपरिमग्रंथक तक जानना चाहिए । भवत्तवासी, व्यन्तर
 और ध्योतिषी देवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वकी
 वृद्धि और हानिका भंग सम्यग्मिथ्यात्वके समान है ।

§ ३५०. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और
 जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो क्षपितकर्मांशिक उत्कृष्ट संक्लेशवाला जीव उत्कृष्ट
 योगको प्राप्त हो पूर्व भवसम्बन्धी सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयम गुणश्रेणियोंके उदयमें
 आकर गलित हो जानेपर अनन्तर उत्कृष्ट योगको प्राप्त हुआ उसके उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि
 होती है । तथा उसीके अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ?
 उसीके संयमासंयम और संयम गुणश्रेणियोंके उदयमें आ लेनेपर उत्कृष्ट हानि होती है ।
 मिथ्यात्व, ऋग्वेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जिस अन्यतर जीवके

गुणसेढीसु तिथउक्केण उदयमागदासु तस्स उक्क० हाणी । सम्मामिच्छ० एवं चेव । सम्मत्त-अणंताणु०४ हाणी ओघं । हस्स-रइ-अरइ-सोग० उक्क० वड्डी कस्स ? अण्णद० संजमगुणसेढिसीसयाणि जाधे उदएण णिग्गलिदाणि ताधे उक्कस्सजोग-मागदस्स संकित्तेसं च तप्पाओग्गं पडिवण्णस्स तस्स उक्क० वड्डी । हाणी कस्स ? अण्णद० सम्मत्त-संजम-संजमासंजमगुणसेढीसु अविणंढासु देवेसुववण्णल्लयस्स जाधे गुणसेढिसीसगाणि उदयमागदाणि ताधे उक्क० हाणी । एवं जाव अणाहारि ति ।

§ ३५१. जहएणए पयदं । दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सोलसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुंछ० जह० वड्डी कस्स ? अण्णद० असंखेज्ज०-भागेण वड्ढियुण वड्डी हाइदूण हाणी अण्णदरस्थ अवट्ठाणं । सम्मत्त-सम्मामि०-इत्थि-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगायां असंखे०भागेण वड्ढियुण वड्डी हाइदूण हाणी । एवं सव्व-एरइय०-सव्वतिरिक्ख-सव्वमणुस्सदेव जाव उवरिमगेवज्जा ति । णवरि अपज्जत्तएसु सम्म०-सम्मामि० वड्डी णत्थि । पुरिसवे० सम्माइट्ठिमि अवट्ठिदं णायव्वं । अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा ति वारसक०-पुरिसवेद०-भय-दुगुंछ० जहण्णवड्ढि-हाणी कस्स ? अण्णद० असंखेज्ज०भागेण वड्ढिदूण वड्डी हाइदूण हाणी ।

सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयम गुणश्रेणियोंके स्तिबुकसंक्रमणके द्वारा उदयमें आ गई हैं उसके उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि होती है। सम्यग्मिध्यात्वका भंग इसी प्रकार है। सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट हानिका भंग ओघके समान है। हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर जीव संयमगुणश्रेणियोंको जब उदयके द्वारा गला देता है तब उत्कृष्ट योग और तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संव्लेशको प्राप्त हुए उस जीवके उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है। उनकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो अन्यतर जीव सम्यक्त्व, संयम और संयमासंयम गुणश्रेणियोंके नाश किये बिना देवोंमें उत्पन्न हुआ है उसके जब गुणश्रेणियों उदयको प्राप्त हुए तब उसके उक्त कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि होती है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए।

§ ३५१. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिध्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य वृद्धि किसके होती है ? अन्यतर जीवके असंख्यातवें भाग वृद्धि करनेसे वृद्धि होती है, इतनी ही हानि करनेसे हानि होती है और इनमेंसे किसी एक स्थानमें अवस्थान होता है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातवें भागप्रमाण वृद्धि होकर वृद्धि और हानि होकर हानि होती है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सामान्य देवोंसे लेकर उपरिम त्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपर्याप्तकोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी वृद्धि नहीं है। पुरुषवेदका अवस्थितपद सम्यग्दृष्टि जीवमें जानना चाहिए। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य वृद्धि और हानि किसके होती है ? अन्यतरके असंख्यातवें भागप्रमाण वृद्धि होकर वृद्धि

अण्णदरत्थ अवट्ठाणं । मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०४-इत्थि-णवुस० ज० हाणी कस्स ? अण्णद० । हस्स-रइ-अरइ-सोग० जहण्णवट्ठि-हाणी कस्स ? अण्णद० । एवं जाव अणाहारि सि ।

§ ३५२. अप्पावहुअं दुविहं—जहण्णमुक्कस्सं च । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्तस्स सव्वत्थोवा उक्क० वट्ठी । अवट्ठाणं तत्तियं चेव । हाणी असंखे०गुणा । सम्मत्तस्स सव्वत्थोवा उक्क० हाणी । वट्ठी असंखेज्जगुणा । सम्मामि० सव्वत्थोवा उक्क० वट्ठी । हाणी असंखेज्जगुणा । बारसक०-भय-दुगुंछा० सव्वत्थोवा उक्क० वट्ठी । अवट्ठाणं तत्तियं चेव । हाणी असंखे०गुणा । तिण्णसंजल० सव्वत्थोवा उक्कस्सयमवट्ठाणं । वट्ठी असंखे०गुणा हाणी विसेसा० । एवं पुरिस० । लोभसंजल० सव्वत्थोव० उक्कस्सयमवट्ठाणं । हाणी असंखे०गुणा । वट्ठी असंखे०गुणा । इत्थि-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं सव्वत्थो० उक्क० वट्ठी । हाणी असंखे०गुणा ।

§ ३५३ आदेसेण मिच्छत्त-सोलसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुंछ० सव्वत्थोवा उक्क० वट्ठी अवट्ठाणं । हाणी असंखे०गुणा । सम्म०-सम्मामि० सव्वत्थोव० उक्क० वट्ठी । हाणी असंखे०गुणा । इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं सव्वत्थो० उक्क० वट्ठी । हाणी

और हानि होकर हानि होती है । तथा इनमेंसे किसी एक स्थानमें अवस्थान होता है । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्मग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, खीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य हानि किसके होती है ? अन्यतरके होती है । हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य वृद्धि और हानि किसके होती है ? अन्यतरके होती है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ३५२. अल्पवहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । अवस्थान उतना ही है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी है । सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । अवस्थान उतना ही है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । तीन संज्वलनोंका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी है । उससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है । इसी प्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा अल्पवहुत्व है । लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी है । खीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है ।

§ ३५३. आदेशसे मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । खीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि

१. आ० प्रती 'उक्क० हाणी । वट्ठी असंखे०गुणा' इति पाठः ।

असंखे०गुणा । एवं सव्वणेरइय०-तिरिक्ख-पंचि०तिरिक्खतिय-देवा जाव उवरिमगेवज्जा
त्ति । पंचि०तिरिक्खअपज्ज० एवं चेव । णवरि पुरिस० इत्थिवेदभंगो । सम्मत-
सम्मामि० णत्थि अप्पावहुअं ।

§ ३५४. मणुसगदी० मणुसाणमोघं । मणुसपज्ज० एवं चेव । एवं मणुसिणीसु ।
णवरि पुरिस० सव्वत्थोवं उक्क० अवट्ठाणं । हाणी असंखे०गुणा । वट्ठी असंखे०गुणा ।
मणुसअपज्ज० पंचिदियतिरि०अपज्जत्तभंगो । अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा त्ति वारसक०-
पुरिस०-भय-दुगुंझा० सव्वत्थोवा उक्क० वट्ठी अवट्ठाणं । हाणी असंखे०गुणा ।
मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु ४-इत्थि-णवुंस० णत्थि अप्पावहुअं । हस-रइ-
अरइ-सोगाणं सव्वत्थो० उक्क० वट्ठी । हाणी असंखे०गुणा । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

§ ३५५. जहणणए पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-
सोलसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुंझा० जहणणवट्ठी हाणी अवट्ठाणं सरिसं । सम्म०-
सम्मामि० सव्वत्थो० जह० हाणी । वट्ठी असंखे०गुणा । इत्थिवेद-णवुंस०-चट्ठुणो०क०
जहणणवट्ठी हाणी सरिसा । एवं सव्वणेर०-सव्वतिरिक्ख-सव्वमणुस-देवा जाव
उवरिमगेवज्जा त्ति । णवरि पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० पुरिस० इत्थिवेदेण सह
भाणिदव्वा । एवं मणुस०अपज्ज० । णवरि उहयत्थ वि सम्मत-सम्मामि० अप्पावहुअं

असंख्यातगुणी है । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक और
सामान्य देवोंसे लेकर उपरिम प्रवेक तकके देवोंमें जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च
अपर्याप्तकोंमें इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें पुरुषवेदका भङ्ग स्त्रीवेदके समान
है । इनमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अल्पबहुत्व नहीं है ।

§ ३५४. मनुष्यगतित्तं मनुष्योंमें ओघके समान भङ्ग है । मनुष्य पर्याप्तकोंमें इसी प्रकार
भङ्ग है । इसी प्रकार मनुष्यनियोंमें है । इतनी विशेषता है कि इनमें पुरुषवेदका उत्कृष्ट अवस्थान
सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी
है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भंग है । अनुदिशसे लेकर
सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान
सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व,
अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, और नपुंसकवेदका अल्पबहुत्व नहीं है । हास्य, रति, अरति और
शोककी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है । इसी प्रकार
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ३५५. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान
समान हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है । उससे जघन्य
वृद्धि असंख्यातगुणी है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी जघन्य वृद्धि और हानि
समान है । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सामान्य देवोंसे लेकर उपरिम
प्रवेक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें
पुरुषवेदको स्त्रीवेदके साथ कहलाना चाहिए । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए ।

णत्थि । अणुदिसादि जाव सन्वढा त्ति वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंझा० जहणवड्डी-
हाणी अवट्ठणं सरिसं । मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु०४-इत्थि-णवुंस० णत्थि
अप्पावहुञ्चं । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं जहणवड्डी हाणी सरिसा । एवं जाव० ।

एवं पदणिकत्वे त्ति समत्तं० ।

§ ३५६. वड्डीविहत्ति त्ति तत्थ इमाणि तेरस अणिओगद्वाराणि—समुक्तिण्णा
जाव अप्पावहुए त्ति । समुक्तिण्णाणु० दुविहो णि०—ओषेण आदेसेण य । ओषेण
मिच्छ०-अट्ठक०-पुरिस० अत्थि असंखे०भागवड्डी-हाणि-अवट्ठिदाणि असंखे०गुण-
हाणी च । सम्म०-सम्मामि० अत्थि असंखे०भागवड्डी हाणी असंखे०गुणवड्डी हाणी
अवत्त०विहत्ती । अणंताणु०४ अत्थि असंखे०भागवड्डी हाणी संखे०भागवड्डी संखे०-
गुणवड्डी असंखे०गुणवड्डी हाणी अवट्ठि० अवत्त०विह० । चट्ठसंज० अत्थि असंखे०-
भागवड्डी हाणी संखे०गुणवड्डी असंखे०गुणहाणी अवट्ठि०विह० । णवरि लोभसंजल०
असंखेज्जगुणहाणी णत्थि । इत्थि-णवुंस० अत्थि असंखे०भागवड्डी हाणी असंखे०-
गुणहाणिविह० । हस्स-रदि-अरदि-सोग० अत्थि असंखे०भागवड्डी हाणी । भय-दुगुंझ०
अत्थि असंखे०भागवड्डी हाणी अवट्ठि० । णवरि पुरिसवेद० संखे०गुणवड्डी-हाणी
संखे०भागवड्डी-हाणी सम्म०-सम्मामि०-तिण्णिसंजल० संखे०गुणहाणि-संखे०भाग-

इतनी विशेषता है कि उभयत्र अर्थात् दोनों अपर्याप्तकोमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका अल्प-
वहुत्व नहीं है। अनुदिससे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और
जुगुप्साकी जघन्य हानि और अवस्थान समान हैं। मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व,
अनन्तानुवन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका अल्पवहुत्व नहीं है। हास्य, रति अरति और
शोककी जघन्य वृद्धि और हानि समान है। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

इस प्रकार पदनिक्षेप अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

§ ३५६. वृद्धिविभक्तिका प्रकरण है। उसमें ये तेरह अनुयोगद्वार होते हैं—समुत्कीर्तनासे
लेकर अल्पवहुत्व तक। समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और
आदेश। ओषसे मिध्यात्व, आठ कपाय और पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात-
भागहानि, अवस्थित और असंख्यातगुणहानि है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यात-
भागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवकण्यवृद्धि है।
अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यात-
गुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि, अवस्थितविभक्ति और अवकण्यविभक्ति है।
चार संज्वलनोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि
और अवस्थितविभक्ति है। इतनी विशेषता है कि लोभसंज्वलनकी असंख्यातगुणहानि नहीं है।
स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानि-
विभक्ति है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि है।
भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति है। इतनी
विशेषता है कि पुरुषवेदकी संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि, संख्यातभागवृद्धि और संख्यात-

हाणीओ च संभवन्ति । एदाओ सव्वाणिओगद्वारेसु जहासंभवमणुमग्गियच्चाओ । एवं मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु । णवरि पज्जत्त० इत्थिवेद० हस्सभंगो । मणुसिणीसु पुरिस०-णवुंस० असंखेज्जगुणहाणी णत्थि ।

§ ३५७. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंढा० अत्थि असंखे०भागवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० । सम्म०-सम्मामि० अत्थि असंखे०भागवट्ठि-हाणि-असंखे०गुणवट्ठि-हाणि-अवत्त० । अणंताणु०४ अत्थि असंखे०भागवट्ठि-हाणि-संखे०-भागवट्ठि-संखे०गुणवट्ठि-असंखे०गुणवट्ठि-हाणि-अवट्ठि०-अवत्त० । इत्थि-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं अत्थि असंखे०भागवट्ठि-हाणी० । एवं सव्वणेरइय-सव्वतिरिक्ख० । मणुसा० ओयं । देवा भवणादि जाव उवरिवगेवज्जा त्ति णारयभंगो ।

§ ३५८. पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंढ० अत्थि असंखे०-भागवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० । सम्म०-सम्मामि० अत्थि असंखे०भागहाणि-असंखे०गुण-हाणि० । इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं अत्थि असंखे०भागवट्ठि-हाणि० । एवं मणुसअपज्ज० । अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०४-इत्थि-णवुंस० अत्थि असंखे०भागहाणि० । णवरि अणंताणु०४

भागहानि तथा सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और तीन संज्वलनोकी संख्यातगुणहानि और संख्यात-भागहानि भी सम्भव हैं । इनका सब अनुयोगद्वारोंमें यथासम्भव अनुमार्गण करना चाहिए । इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोगे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य पर्याप्तकोंमें स्त्रीवेदका भङ्ग हास्यके समान है । तथा मनुष्यनियोगमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यात-गुणहानि नहीं हैं ।

§ ३५७. आदेशसे नारकियोंमें मिध्यात्व, चारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्ति है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्ति है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि है । इसीप्रकार सब नारकी और सब तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । मनुष्योंमें ओषधके समान भङ्ग है । सामान्य देव और भवनवासियोसे लेकर उपरिम प्रवैयक तकके देवोंमें नारकियोके समान भङ्ग है ।

§ ३५८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानि है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि है । इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानि है । इतनी

अत्थि असंखे०गुणहाणिवि० । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० अत्थि असंखे०भागवड्डि-
हाणि०-अवट्ठि० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं अत्थि असंखे०भागवड्डि-हाणि० । एवं
जाव अणाहारि चि ।

§ ३५६. सामित्ताणु० दु० णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०
असंखे०भागवड्डि० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइद्विस्स । असंखे०भागहाणी कस्स ?
सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइद्विस्स वा । असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० दंसण-
मोहक्खवगस्स चरिमद्विदिखंडए अवगदे । अवट्ठिदं कस्स ? अण्णद० मिच्छाइद्विस्स ।
सम्मत्त०-सम्मामि० असंखे०भागवड्डी असंखे०गुणवड्डी अवत्त० कस्स ? अण्णद०
सम्माइद्विस्स । असंखे०भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइद्विस्स
वा । असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० दंसणमोहक्खवगस्स चरिमे द्विदिखंडगे
सम्मत्ते पक्खित्ते सम्मामि० असंखे०गुणहाणी उव्वेत्तणाए वा । सम्मत्तस्स असंखे०-
गुणहाणी कस्स ? अण्णद० उव्वेत्तणचरिमद्विदिखंडगे मिच्छत्ते संपक्खित्ते ताथे ।
अणंताणु० असंखे०भागवड्डी अवट्ठिदं कस्स ? अण्णद० मिच्छाइद्विस्स । [असंखे०-
भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स मिच्छाइद्विस्स वा ।] संखे०भागवड्डी संखे०-

विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि भी है । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय
और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति है । हास्य, रति,
अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि है । इसीप्रकार अनाहारक
मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

§ ३५६. स्वामित्वाणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है । असंख्यात-
भागहानि किसके होती है ? सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है । असंख्यातगुणहानि किसके
होती है ? अन्यतर दर्शनमोहनीयके क्षणिके अन्तिम स्थितिकाण्डकके अपगत होने पर होती है ।
अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है । सम्यक्त्व और सम्य-
ग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है ?
अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होती है । असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्या-
दृष्टिके होती है । असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? जिस दर्शनमोहनीयके क्षणिके अन्यतर जीवने
चरम स्थितिकाण्डकको सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त किया है उसके सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानि
होती है । अथवा उद्वेलनाके समय होती है । सम्यक्त्वकी असंख्यातगुणहानि किसके होती है ?
जिस अन्यतर जीवने उद्वेलनाके समय अन्तिम स्थितिकाण्डकको मिथ्यात्वमें प्रक्षिप्त किया है ।
उसके इस समय सम्यक्त्वकी असंख्यातगुणहानि होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यात-
भागवृद्धि और अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है । असंख्यात-
भागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है । संख्यातभागवृद्धि,

गुणवड्डी असंखे०गुणवड्डी च कस्स ? अण्णद० अणताणु०. विसंजोएदूण मिच्छत्तं गदस्स आवल्लियमिच्छाइद्विस्स । अयत्त० कस्स ? अण्णद० एदमसमयसंजुत्तस्स । असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० अणताणु० विसंजोयस्स चरिमद्विदिखंडए अवणिदे । अदकसाय० असंखे०भागवड्डी अवट्ठि० असंखे०भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइद्विस्स वा । असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० खवगस्स अपच्छिमे द्विदिखंडए गुणसेदिसीसगेण सह आगायिदूण णिन्त्लेविदे । कोहसंजल० असंखे०भागवट्ठि-हाणी अवट्ठिदं अदकसायभंगो । संखेज्जगुणवड्डी कस्स ? अण्णद० पुरिसवेदो कोधे संपक्खित्तो ताधे कोधस्स संखे०गुणवड्डी । माणस्स असंखे०भागवड्डी हाणी अवट्ठि० कोहभंगो । संखे०गुणवड्डी कस्स ? अण्णद० कोधस्स पुब्बसंतकम्मे माणे संपक्खित्ते ताधे तस्स संखे०गुणवड्डी । मायाए असंखे०भागवड्डी हाणी अवट्ठिदं माणभंगो । संखे०गुणवड्डी कस्स ? अण्णद० माणसंजलणं जाधे मायाए संपक्खित्तं ताधे । लोभसंजलण० असंखे०भागवड्डी हाणी अवट्ठि० मायासंजलणभंगो । संखे०-गुणवड्डी कस्स ? अण्णद० खवगस्स मायाए पोरारणसंतकम्मं जाधे लोभे संपक्खित्तं ताधे । तिण्हं संजलणणं असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० खवगस्स चरिम-

संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जिस अन्यतर जीवको अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी विसंयोजना करके मिथ्यात्वमें जाकर मिथ्यादृष्टि हुए एक आवलि हुआ है उसके होती है । अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है ? प्रथम समयमें संयुक्त हुए अन्यतर जीवके होती है । असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करनेवाले अन्यतर जीवके अन्तिम स्थितिकाण्डकके अपगत होने पर होती है । आठ कषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि, अवस्थितविभक्ति और असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है । असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? जिस अन्यतर क्षपक जीवने अन्तिम स्थितिकाण्डकका गुणश्रेणिसीर्षके साथ ग्रहणकर निर्लेपन किया है उसके होती है । क्रोधसंज्वलनकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग आठ कषायोंके समान है । संख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जिस अन्यतर जीवने जब पुरुषवेदको क्रोधमें प्रक्षिप्त किया है तब उसके क्रोधसंज्वलनकी संख्यातगुणवृद्धि होती है । मानसंज्वलनकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग क्रोधसंज्वलनके समान है । संख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जिस अन्यतर जीवने क्रोधसंज्वलनके पूर्वके सत्कर्मको मानसंज्वलनमें प्रक्षिप्त किया है तब उसके उसकी संख्यातगुणवृद्धि होती है । मायासंज्वलनकी असंख्यातवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग मानसंज्वलनके समान है । इसकी संख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जिस अन्यतर जीवने मानसंज्वलनको जब मायासंज्वलनमें प्रक्षिप्त किया तब उसके मायासंज्वलनकी संख्यातगुणवृद्धि होती है । लोभसंज्वलनकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग मायासंज्वलनके समान है । इसकी संख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर क्षपक जीव मायासंज्वलनके प्राचीन सत्कर्मको जब लोभसंज्वलनमें प्रक्षिप्त करता है तब इसकी संख्यातगुणवृद्धि होती है । तीनों संज्वलनोंकी असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? जो अन्यतर क्षपक चरम स्थितिकाण्डकका

द्विदिवंढयं संकामेतस्स । लोभसंजलणाए असंखे० गुणहाणी णत्थि । इत्थिवेद० असंखे० भागवड्डी कस्स ? अण्णद० मिच्छादिद्विस्स । असंखे० भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्मादिद्विस्स वा मिच्छादिद्विस्स वा । असंखे० गुणहाणी कस्स ? अण्णद० खवगस्स चरिमद्विदिवंढयं संकामेतस्स । एवं णलुंस० । पुरिसवे० असंखे० भागवड्डी-हाणी अवद्विदं संजलणभंगो । णवरि अवद्वि० सम्माइद्विस्स । असंखे० गुणहाणी कस्स ? अण्णद० खवगस्स पुव्वसंतकम्मं कोथे संछुभमाणगस्स । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे० भागवड्डी-हाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स मिच्छाइद्विस्स वा । भय-दुगुंत्वा० असंखे० भागवड्डी-हाणी अवद्विदं कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स मिच्छाइद्विस्स वा ।

§ ३६०. आदेसेण मिच्छ० असंखे० भागवड्डी अवद्विदं कस्स ? अण्णद० मिच्छाइद्विस्स । असंखे० भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइद्विस्स वा । सम्म०-सम्मामि० असंखे० भागवड्डी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स । असंखे०-भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइद्विस्स वा । असंखे० गुणवड्डी कस्स ? अण्णद० उवसमसम्माइद्विस्स गुणसंकमेण अंतोमुहुत्तं पूरेमाणस्स जाव से काले विष्मत्तादं पडिहदि त्ति । असंखे० गुणहाणी कस्स ? अण्णद० उव्वेव्वलमाणगस्स

संक्रमण कर रहा है उसके होती है । लोभसंज्वलनकी असंख्यातगुणहानि नहीं होती । स्त्रीवेदकी असंख्यातभागवृद्धि किसके होती है ? अन्यतर मिध्यादृष्टिके होती है । असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टिके होती है । असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? जो अन्यतर क्षुपक चरम स्थितिकाण्डकका संक्रमण कर रहा है उसके होती है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षासे स्वामित्व जानना चाहिए । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग संज्वलनके समान है । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति सम्यग्दृष्टिके होती है । असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? जो अन्यतर क्षुपक पहलेके सत्कर्मको क्रोधमे प्रक्षिप्त कर रहा है उसके होती है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टिके होती है । भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टिके होती है ।

§ ३६०. आदेशसे मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिध्यादृष्टिके होती है । असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टिके होती है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होती है । असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टिके होती है । असंख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर उपशमसम्यग्दृष्टि जीव गुणसंक्रमके द्वारा अन्तर्मुहूर्त तक पूरकर जब अनन्तर समयमें विध्यात-संक्रमको प्राप्त करेगा तब उसके असंख्यातगुणवृद्धि होती है । असंख्यातगुणहानि किसके

चरिमद्विदिखंडगे अवगदे । अवत्तव्वं कस्स ? अण्णद० पढमसमयसम्माइद्विस्स । अणंताणु०४ असंखे० भागवड्डी अवद्वि० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइद्विस्स । असंखे० भागहाणी कस्स ? अण्ण० सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइद्विस्स वा । संखे० भागवड्डी संखे० गुणवड्डी असंखे० गुणवड्डी कस्स ? अण्णद० अणंताणु० विसंजोपदूण संजुत्तस्स आवलिगमिच्छादिद्विस्स । असंखे० गुणहाणी कस्स ? अण्णद० अणंताणु० विसंजो- जेतस्स अपच्छिमे द्विदिखंडगे णिल्लेविदे । अवत्त० कस्स ? अण्णद० पढमसमय- संजुत्तस्स । वारसक० भय-दुग्गुंढा० [असंखे०] भागवड्डी हाणी अवद्वि० कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स वा मिच्छाइद्विस्स वा । इत्थि-णवुंस० असंखे० भागवड्डी कस्स ? अण्णद० मिच्छाइद्विस्स । असंखे० भागहाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्वि० मिच्छाइद्विस्स वा । पुरिस० असंखे० भागवड्डी हाणी कस्स ? अण्णद० सम्माइद्वि० मिच्छाइद्विस्स वा । अवद्विदं कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स । हस्स-रइ-अरइ-सोमाणं असंखे० भागवड्डी हाणी कस्स ? अण्णद० सम्मा० मिच्छाइद्विस्स वा । एवं सत्तमु पुढवीसु तिरिक्खगदित्तिक्खवा पंचिदियत्तिरिक्खइ देवा भवणादि जाव उवरिम- गेवज्जा त्ति ।

§ ३६१. पंचि० तिरि० अपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुग्गुंढा० असंखे०-

होती है ? जो अन्यतर उद्वेलना करनेवाला जीव चरम स्थितिकाण्डकको धिता जुका है उसके होती है । अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टिके होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है । असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्या- दृष्टिके होती है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धि किसके होती है ? जो अन्यतर जीव अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके अनन्तर संयुक्त होकर एक आवलि कालतक मिथ्यादृष्टि रहा है उसके होती है । असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाले जिस अन्यतर जीवने अन्तिम स्थितिकाण्डकका निलेपन किया है उसके होती है । अवक्तव्यविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर जीवके संयुक्त होनेके प्रथम समयमें होती है । वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात- भागहानि और अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है । ऋग्वेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि किसके होती है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होती है । असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है । अवस्थितविभक्ति किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होती है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होती है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें तथा तिर्यञ्चगतियोंमें तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिक, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम श्रेणिक तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

§ ३६१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी

भागवड्डी हाणी अवट्टि० सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणी असंखे०गुणहाणी सत्तणोक० असंखे०भागवड्डी-हाणी कस्स ? अण्णद० । णवरि सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०गुणहाणी क० ? अण्णद० अपच्छिप्रट्टिदिखंडयं गालेमाणस्स ।

§ ३६२. मणुसा० ओघं । एवं मणुसपज्ज-मणुसिणीसु । णवरि मणुसपज्ज० इत्थिवेद० छण्णोकसायभंगो । मणुसिणीसु पुरिस-णवुंस० छण्णोकसायभंगो । अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा ति दंसणतिय-अणंताणु०चउक्क०-इत्थि०-णवुंस० असंखे०-भागहाणी कस्स ? अण्णद० । अणंताणु०४ असंखे०गुणहाणी कस्स ? अण्णद० अणंताणु० विसंजोए'तस्स अपच्छिमे ट्टिदिखंडए गुणसेट्टिसीसणेण सह आगाइदूण णिल्लेविदे । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० असंखे०भागवड्डी हाणी अवट्टिदं हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड्डी हाणी कस्स ? अण्णदरस्स । एवं जाव अणाहारि ति ।

§ ३६३. कालानुगमेण दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्तस्स असंखे०भागवड्डी० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । हाणी० जह० एगस०, उक्क० वेज्जावट्टिसागरो० सादिरैयाणि । असंखे०गुणहाणी०

असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति, सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानि तथा सात नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि किसके होती है । अन्यतरके होती है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? अन्तिम स्थितिकाण्डकको गलाने-वाले अन्यतरके होती है ।

§ ३६२. मनुष्योंमें ओघके समान भङ्ग है । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यपर्याप्तकोमें स्त्रीवेदका भङ्ग छह नोकषायोंके समान है । मनुष्यनियोंमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदका भङ्ग छह नोकषायोंके समान है । अनुदिशसे लेकर सव्यार्थसिद्धितकके देवोंमें तीन दर्शनमोहनीय, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतरके होती है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानि किसके होती है ? अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करनेवाला जो अन्यतर जीव अन्तिम स्थितिकाण्डकको गुणश्रेणिसीर्षके साथ ग्रहण कर निलेपन करता है उसके होती है । वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थित-विभक्ति तथा हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानि किसके होती है ? अन्यतरके होती है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

§ ३६३. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवर्ग भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल

जह० उक० एगस० । अवट्टि० जह० एगस०, उक० सत्तद समया । सम्मत्त०-
सम्माभि० असंखे० भागवट्टी० जह० उक० अंतोमु० । असंखे० भागहाणी० जह० अंतोमु०,
उक० वेच्चावट्टिसाग० पलिदो० असंखे० भागेण सादिरैयाणि । असंखे० गुणवट्टी० जह०
उक० अंतोमु० । असंखे० गुणहाणी० अवत्त० जह० उक० एगस० । अणंताणु०
असंखे० भागवट्टी० जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे० भागो । हाणी० जह०
एगस०, उक० वेच्चावट्टिसागरो० सादिरैयाणि । संखे० भागवट्टी० संखे० गुणवट्टी० जह०
एगस०, उक० आवलि० असंखे० भागो । असंखे० गुणवट्टी० जह० एगस०, उक०
अंतोमु० । अवट्टि० जह० एगस०, उक० सत्तद समया ! अवत्त० असंखे० गुणहाणी०
जहणुक्क० एगस० । अट्टकसाय० असंखे० भागवट्टी० हाणी० जह० एगस०, उक०
पलिदो० असंखे० भागो । अवट्टि० जह० एगस०, उक० सत्तद समया । असंखे०-
गुणहाणी० जह० उक० एगस० । कोह-माण-मायासंजल० असंखे० भागवट्टी० हाणी०
अवट्टि० अपच्चक्खाणभंगो । संखे० गुणवट्टी० असंखे० गुणहाणी० जह० उक० एगस० ।
व्वं लोभसंजल० । णवरि असंखे० गुणहाणी णत्थि । इत्थि० असंखे० भागवट्टी० जह०
एगस०, उक० अंतोमु० । असंखे० भागहा० जह० एगस०, उक० वेच्चावट्टिसागरो०

साधिक दो छ्वासठ सागरप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग अधिक दो छ्वासठ सागर है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनन्तानुबन्धीचतुष्पकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छ्वासठ सागर है । संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । अवक्तव्यविभक्ति और असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । आठ कर्षायोकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । क्रोध, मान और मायासंज्वलनकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग अप्रत्याख्यान कर्षायके समान है । संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । इसीप्रकार भोभसंज्वलनकी अपेक्षासे काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । शीवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो

सादिरेयाणि । असंखे०गुणहाणी० जह० उक्क० एगस० । णडुंस० असंखे०भागवड्डी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० वेळावट्टि-सागरो० तीहि पल्लिदो० सादिरेयाणि । असंखे०गुणहाणी० जह० उक्क० एगस० । पुरिस० असंखे०भागवड्डी० हा० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो० असंखे०गुणहाणी० जह० उक्क० एगस० । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० सत्तट्ट समया । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड्डी० हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । भय-दुगुंळा० असंखे०भागवड्डी० हा० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो० । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० सत्तट्ट समया ।

§ ३६४. आदेसेण णेरइयं मिच्छ० असंखे०भागवड्डी० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो० असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० तेतीसं सागरो० देसूणाणि । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० सत्तट्ट समया । वारसक०-भय-दुगुंळा० असंखे०भागवड्डी० हा० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो० । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० सत्तट्ट समया । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागवड्डी० जह० उक्क० अंतोमु० । हाणी० ज० एगस०, उक्क० तेतीसं सागरोवमाणि । असंखे०गुणवड्डी०

झ्यासठ सागर है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । नपुंसक-वेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पत्य अधिक दो झ्यासठ सागर है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है ।

§ ३६४. आदेशसे नारकियोमे मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त

जह० उक्क० अंतोमु० । असंखे०गुणहाणी० अवत्त० जह० उक्क० एगस० । अणंताणु०४
 असंखे०भागवड्डी० अवट्ठि० मिच्छत्तभंगो । हाणी० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सा०
 देसू० । संखे०भागवड्डी० संखे०गुणवड्डी० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०-
 भागो । असंखे०गुणवड्डी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । असंखे०गुणहाणी०
 अवत्त० ज० उक्क० एगस० । इत्थि०-णवुंस० असंखे०भागवड्डी० ज० एगस०,
 उक्क० अंतोमु० । हाणी० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । पुरिस०
 असंखे०भागवड्डी० हाणी० ज० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि०
 जह० एगसमओ, उक्क० सत्तह समया । चदुणोक० ओघं । एवं सत्तसु पुढवीसु ।
 णवरि जम्हि तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि तम्हि सगट्ठिदी देसूणा । सत्तमपुढविवज्जासु
 मिच्छ०-अणंताणु० सगट्ठिदी ।

§ ३६५. तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छ० असंखे०भागवड्डी० अवट्ठि०
 ओघं । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णिण पलिदो० सादिरेयाणि ।
 वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० असंखे०भागवड्डी० हाणी० अवट्ठि० ओघं । सम्प०-
 सम्पामि० असंखे०भागवड्डी० जह० उक्क० अंतोमु० । असंखे०भागहा० ज० एगस०,

है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितिविभक्तिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तसुहूर्त है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । खीवेद् और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तसुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । चार नोकषायोंका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर कुछ कम तेतीस सागर कहा है वहाँ पर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । तथा सातवीं पृथिवीको छोड़कर शेषमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

§ ३६५. तिर्यञ्जगतिमें तिर्यञ्जोंमें मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थित-विभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । सम्यक्त्व और सन्यमिमिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तसुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक

उक० तिण्णि पल्लिदो० सादिरेयाणि । असंखे०गुणवड्डी० जह० उक० अंतोसु० । असंखे०गुणहा० अवत्त० ज० उक० एगस० । अणताणु० असंखे०भागवड्डी० अवट्ठि० ओघं । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक० तिण्णिपल्लिदो० सादिरेयाणि । संखेज्जभागवड्डी० संखे०गुणवड्डी० ज० एगसमओ, उक० आवल्लि० असंखे०भागो । असंखे०गुणवड्डी० ज० एगस०, उक० आवल्लिया समयूणा । असंखे०गुणहा० अवत्त० ज० उक० एगस० । इत्थि० असंखे०भागवड्डी० जह० एगस०, उक० अंतोसु० । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक० तिण्णि पल्लिदोवमाणि । एवं णवुंस० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड्डी० हाणी० जह० एगस०, उक० अंतोसु० । एवं पंचिदियतिरिक्ख०३ । णवरि जोणिणीसु इत्थि-णवुंस० असंखेभागहा० तिण्णि पल्लिदो० देसूणाणि ।

§ ३६६. पंचि०तिरिक्खअपज्ज० मिच्छत्त०-सोलसक०-भय-दुगुंझा० असंखे० भागवड्डी-हाणी० जह० एगस०, उक० अंतोसु० । अवट्ठि० ज० एगस०, उक० सत्तह समया । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहा० ज० एगस०, उक० अंतोसु०-पुधत्तं । असंखे०गुणहा० जह० उक० एगस० । सत्तणोक० असंखे०भागवड्डी-हाणि० जह० एगस०, उक० अंतोसु० ।

तीन पत्त्य है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओषके समान है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्त्य है । संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवल्लिके असंख्यातवत्तं भाग-प्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक समय कम आवल्लिप्रमाण है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । स्त्रीवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पत्त्य है । इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षासे काल जानना चाहिए । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यात-भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंमें स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्त्य है ।

§ ३६६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त पृथक्त्वप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सात नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल

§ ३६७. मणुसगदि० मणुस० मिच्छ० असंखे० भागवट्टि-अवट्टि० ओघं असंखे० भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । असंखे० गुणहाणी० ज० उक्क० एगस० । सम्म०-सम्मामि० असंखे० भागवट्टी० जह० उक्क० अंतोमुहुत्तं । असंखे० भागहा० ज० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोटि-पुधत्तेणब्भहियाणि । असंखे० गुणवट्टी० जह० उक्क० अंतोमु० । असंखे० गुणहाणी० अवत्त० जह० उक्क० एगस० । अणंताणु०४ असंखे० भागवट्टी० ज० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो० हाणी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । संखे० भागवट्टि-संखे० गुणवट्टी० जह० एगस०, उक्क० आवलिं असंखे० भागो० । असंखे० गुणवट्टी० जह० एगस०, उक्क० आवलिया समयूणा । असंखे० गुणहाणि-अवत्त० जह० उक्क० एगस० । अट्ठक०-पुरिसवेद० असंखे० भागवट्टि हाणी० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो० । असंखे० गुणहाणी० जह० उक्क० एगस० । अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० सत्तट्ठ समया । तिण्णिसंज० असंखे० भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो० । संखे० गुणवट्टि-असंखे० गुणहाणी० जह० उक्क० एगसमओ । अवट्टि० ओघं । एवं लोहसंज० । णवरि असंखे० गुणहाणी

एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३६७. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थित-विभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । असंख्यातभागदानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यात-गुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक समय कम एक आवलि है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । आठ कषाय और पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । तीन संज्वलतोंकी असंख्यात-भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार लोभसंज्वलनकी अपेक्षासे काल

णत्थि । इत्थि० असंखे०भागवद्धी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । असंखे०-
भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० तिण्णि पल्लिदो० सादिरियाणि । असंखे०गुणहाणी०
जह० उक्क० एगस० । एवं णवुंस० । इस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवद्धि-हाणी०
जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । भय-दुगुंछ० असंखे०भागवद्धि-हाणी० जह०
एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० ज० एगस०, उक्क० सत्तह
समया । मणुसपज्ज० एवं चेव । णवरि इत्थिवेद० असंखे०गुणहाणी णत्थि ।
मणुसिणीसु एवं चेव । णवरि पुरिस०-णवुंस० असंखे०गुणहाणी णत्थि । इत्थि-
णवुंस० असंखे०भागहाणी० तिण्णि पल्लिदो० देसूणाणि । मणुसअपज्ज० पंचिदिय-
तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

§ ३६८. देवगदीए देवेषु मिच्छत्त० असंखे०भागवद्धी० जह० एगस०,
उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं
सागरोवभाणि । अवट्ठि० ओघं । सम्भत्त०-सम्माभि० असंखे०भागवद्धी० जह०
उक्क० अंतोमु० । असंखे०भागहा० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० । असंखे०-
गुणवद्धी० जह० उक्क० अंतोमु० । असंखे०गुणहाणि-अवत्त० ज० उक्क० एगस० ।
अणंताणु०४ असंखे०भागवद्धि-अवट्ठि० ओघं । असंखे०भागहाणी० ज० एगस०,

जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि नहीं है । स्त्रीवेदकी असंख्यातभाग-
वृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातभागहानिका जघन्य
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और
उत्कृष्ट काल एक समय है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षासे काल जानना चाहिए । हास्य,
रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक
समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और
असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण
है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है ।
मनुष्यपर्याप्तिकोमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदकी असंख्यातगुण-
हानि नहीं है । मनुष्यनिर्योमें इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी
असंख्यातगुणहानि नहीं है । तथा स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट काल
कुछ कम तीन पत्य है । मनुष्य अपर्याप्तिकोमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिकोके समान भङ्ग है ।

§ ३६८. देवगतिमें देवोमें मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय
है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक
समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओषके समान है ।
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।
असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । असंख्यात-
गुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्ति-
का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और
अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओषके समान है । असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है

उक० तेत्तीस सागरोवमाणि । संखे०भागवट्टि०-संखे०गुणवट्टी० ज० एगस०, उक० आवलि० असंखे०भागो । असंखे०गुणवट्टी० ज० एगस०, उक० अंतोमु० । असंखे०गुणहाणि-अवत्त० ज० उक० एगस० । अवट्टि० ओघं । बारसक०-पुरिसवेद० भय-दुगुंछ० असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०, उक० पल्लिदो० असंखे०-भागो । अवट्टि० ज० एगस०, उक० सचट्ट समया । इत्थि०-णत्तुंस० असंखे०-भागवट्टी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक० तेत्तीस सागरोवमाणि । इस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । एवं भवणवासियादि जाव उवरिमगेवज्जा ति । णवरि जत्थ तेत्तीस सागरो० तत्थ सगट्टिदी भाणियच्चा ।

§ ३६६. अणुदिसादि जाव सब्बटा ति मिच्छत्त० असंखेज्जभागहाणी० जहण्णुक० जहण्णुकस्सट्टिदीओ । अणंताणु०४ असंखे०भागहाणी० जह० आवलिया दुसमयूणा, उक० सगट्टिदीओ । असंखे०गुणहाणी० जह० उक० एगस० । सम्म० असंखे०भागहा० जह० एगस०, उक० सगट्टिदीओ । सम्मामि० असंखे०भागहाणी० जह० जहण्णट्टिदी, उक० उकस्सट्टिदीओ । बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० असंखे०-

और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है । खीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यात-भागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार भयनवासी देवसे लेकर उपरिभ प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहां पर तेतीस सागर कहा है वहां पर अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

§ ३६६. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल दो समय कम एक आवलि है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । सम्यक्त्व की असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति-प्रमाण है । सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यात-

भागवद्धि० हाणी० ज० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । अवद्धि० ओधं । इत्थि-णत्तुंस० असंखे० भागहाणी० जह० जहणद्विदी, उक्क० उक्कस्सद्विदी । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे० भागवद्धी० हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । एवं-जाव अणाहारि चि ।

§ ३७०. अंतराणुगमेण दुविहो णिंदे सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्त० असंखे० भागवद्धी० ज० एगस०, उक्क० वेद्धावद्विसागरो० सादिरेयाणि । असंखे० भागहा० जह० एगस०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । असंखे० गुणहाणी० णत्थि अंतरं । अवद्धि० जह० एगस०, उक्क० असंखे० लोगा । सम्मत-सम्माभि० असंखे० भागवद्धी० जह० पलिदो० असंखे० भागो, उक्क० उवड्डुपोगलपरियट्टं । असंखे० भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० उवड्डुपोगलपरियट्टं । असंखे० गुणवद्धि-हाणि-अवत्त० जह० पलिदो० असंखे० भागो, उक्क० उवड्डुपोगलपरियट्टं । दोणह-मसंखे० गुणवद्धी० सम्माभि० असंखे० गुणहाणी० जह० अंतोमुहुत्तं । अणतताणु० ४ असंखे० भागवद्धि-हाणी० जह० एगसमओ, उक्क० वेद्धावद्विसागरो० सादिरेयाणि । अवद्धि० जह० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । संखे० भागवद्धि-संखे० गुणवद्धि-

भागवद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग ओघके समान है । खीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिका जघन्य काल जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ ।

§ ३७०. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो ऋथासठ सागर है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थित-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवद्धिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यातगुणवद्धि, असंख्यातगुणहानि और अव्यक्तविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । दोनोकी असंख्यातगुणवद्धिका और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो ऋथासठ सागर है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट

असंखे०गुणवट्टि--हाणि--अवत्त० जह० अंतोमु० उक्क० उवड्डुपोगलपरियट्टं ।
 अट्टकसा० असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह० एगसमओ, उक्क० पल्लिदो० असंखे०-
 भागो । असंखे०गुणहाणी० णत्थि अंतरं । अवट्टि० जह० एगस०, उक्क० असंखेज्जा
 लोगा । एवं चदुसंजलणणं । णवरि असंखे०गुणहाणि-संखे०गुणवट्टी० णत्थि अंतरं ।
 लोहमंज० असंखे०गुणहाणी णत्थि । इत्थि० असंखे०भागवट्टी० ज० एगस०, उक्क०
 वेज्जावट्टिसागरो० सादिरेयाणि । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० ।
 असंखे०गुणहाणी० णत्थि अंतरं । पुरिस० असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०,
 उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० उवड्डुपोगलपरियट्टं ।
 असंखे०गुणहाणी० णत्थि अंतरं । णवुंस० असंखे०भागवट्टी० ज० एगस०, उक्क०
 वेज्जावट्टिसागरो० सादिरेयाणि तीहि पल्लिदो० देसूणाणि । असंखे०भागहा० ज०
 एगस०, उक्क० अंतोमु० । असंखे०गुणहाणी० णत्थि अंतरं । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं
 असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । भय-दुगुंवा० असंखे०-
 भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० ज०
 एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा ।

अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । आठ कषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यात-गुणहानिका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । इसी प्रकार चार संज्वलनोंकी अपेक्षासे अन्तरकाल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि और संख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं है । लोभसंज्वलनकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । खीवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ भागरप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहानिका अन्तर-काल नहीं है । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरपल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है । नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ।

§ ३७१. आदेशेण णेरइय० मिच्छ० असंखे०भागवड्डी० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । एवमवड्ढि० । असंखे०भागहाणी० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागवड्ढि०-असंखे०गुणवड्ढि०-हाणि-अवत्त० ज० पलिदो० असंखे०भागो, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । असंखे०-भागहा० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अणंताणु०४ असंखे०-भागवड्डी० अवड्ढि० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । संखे०भाग-वड्डी० संखे०गुणवड्डी० असंखे०गुणवड्डी० हाणी० अवत्त० ज० अंतोमु०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । वारसक०-पुरिस०-भय-दुग्गंढा० असंखे०भागवड्डी० हा० ज० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अवड्ढि० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । इत्थि०-णडुंस० असंखे०भागवड्डी० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । असंखे०भागहाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । हस-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवड्डी० हाणी० जह० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० । एवं सत्तसु पुढवीसु । णवरि जम्हि तेत्तीसं सागरोवमाणि तम्हि समद्विदी देसूणा ।

§ ३७२. तिरिक्खगई० तिरिक्खा० मिच्छ० असंखे०भागवड्डी० जह० एगस०,

§ ३७०. आदेशसे नारकियोंमें मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। इसी प्रकार अवस्थितविभक्तिका अन्तर-काल है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात-गुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनन्तातुवन्धीचतुष्ककी असंख्यात-भागवृद्धि और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवस्थित-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। खीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-मुहूर्त है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहां पर कुछ कम तेतीस सागर कहा गया है वहां पर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहती चाँदिए।

§ ३७२. तिर्यञ्जगतिमें तिर्यञ्जोमे मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक

उक० तिण्णि पलिदो० सादिरियाणि । असंखे० भागहा० ज० एगस०, उक० पलिदो० असंखे० भागो । अवट्ठि० जह० एगस०, उक० असंखेज्जा लोगा । सम्म०-सम्माभिं० असंखे० भागवड्डी० जह० पलिदो० असंखे० भागो, उक० उवड्डुपोगलपरियट्टं । असंखे० भागहा० ज० एगस०, उक० उवड्डुपोगलपरियट्टं । असंखे० गुणवड्डी० हा० अवत्त० ज० पलिदो० असंखे० भागो, उक० उवड्डुपोगलपरियट्टं । अर्णताणु०४ असंखे० भागवड्डी० हा० ज० एगस०, उक० तिण्णि पलिदो० सादिरियाणि । हाणीए देसूणा । संखेज्जभागवड्डी० संखे० गुणवड्डी० असंखे० गुणवड्डी० हाणी० अवत्त० ज० अंतोमुहुत्तं, उक० उवड्डुपोगल० । अवट्ठि० ज० एगस०, उक० असंखेज्जा लोगा । वारसक०-भय-दुगुंझा० असंखे० भागवड्डी० हाणी० जह० एगस०, उक० पलिदो० असंखे० भागो । अवट्ठि० ज० एगस०, उक० असंखेजा लोगा । एवं पुरिस० । गवरिं अवट्ठि० ओर्षां । इत्थि० असंखे० भागवड्डी० ज० एगस०, उक० तिण्णि पलिदो० देसूणाणि । असंखे० भागहा० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । णवुंस० असंखे० भागवड्डी० ज० एगस०, उक० पुक्ककोडी देसूणा । असंखे० भागहा० जह० एगस०, उक० अंतोमु० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे० भागवड्डी० हाणी० ज० एगस०,

समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्भित्थात्वा की असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है । मात्र असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । इसी प्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षासे अन्तरकाल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्तिका अन्तरकाल ओघके समान है । त्रिवेदकी असंख्यात-भागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । असंख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक

उक० अंतोमु० ।

§ ३७३. पंचिदियतिरिक्त्व३ मिच्छ० असंखे०भागवड्डी० ज० एगस०, उक० तिण्णिपल्लिदो० सादिरेयाणि । असंखे०भागहाणी० ज० एगस०, उक० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० ज० एगस०, उक० सगट्ठिदी देसूणा । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागवड्डी० असंखे०गुणवड्डी० हाणी० अवत्त० ज० पल्लिदो० असंखे०भागो, उक० तिण्णिपल्लिदो० पुच्चकोटिपुधत्तेण०भहियाणि । एवमसंखे०भागहाणी० । णवरि जह० एगस० । अणताणु०४ असंखे०भागवड्डी० हा० ज० एगस०, उक० तिण्णिपल्लिदो० सादिरेयाणि । हाणी० देसूणा । अवट्ठि० मिच्छत्तभंगो । संखे०भागवड्डी० संखे०गुणवड्डी० असंखे०गुणवड्डी० हा० अवत्त० ज० अंतोमु०, उक० तिण्णिपल्लिदो० पुच्चकोटिपुधत्तेण०भहियाणि । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंढा० असंखे०भागवड्डी० हाणी० जह० एगस०, उक० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० ज० एगस०, उक० सगट्ठिदी देसूणा । इत्थि० असंखे०भागवड्डी० जह० एगस०, उक० तिण्णिपल्लिदो० देसूणाणि । असंखे०भागहाणी० ज० एगस०, उक० अंतोमु० । णवुंस० असंखे०भागवड्डी० जह० एगस०, उक० पुच्चकोटी देसूणा । असंखे०-

समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३७३. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिकमे मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य-विभक्तिका जघन्य अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । इसी प्रकार असंख्यातभागहानिका अन्तर काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसका जघन्य अन्तर एक समय है । अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है । मात्र असंख्यातभागहानिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । अवस्थितविभक्तिका भङ्ग मिध्यात्वके समान है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात-गुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है । शीवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय

भागहा० ज० एगस०, उक० अंतोमु० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे० भागवट्टी० हाणी० जह० एगस०, उक० अंतोमु० ।

§ ३७४. पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंझा० असंखे०-भागवट्टी० हाणी० अवट्ठि० ज० एगस०, उक० अंतोमुहुत्तं । सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०-भागहा० जह० उक० एगस० । असंखे०-गुणहाणी० पत्थि अंतरं । सत्तणोक० असंखेज्जभागवट्टी० हा० ज० एगस०, उक० अंतोमु० ।

§ ३७५. मणुसगदि० मणुस० पंचि०तिरिक्खभंगो । णवरि मिच्छ०-एकारस०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंस० असंखे०-गुणहाणी० चदुसंजल० असंखे०-गुणवट्टी० पत्थि अंतरं । सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०-गुणवट्टी० सम्मामि० असंखे०-गुणहा० जह० अंतोमु० । मणुसपज्ज० एवं चेव । णवरि इत्थि० असंखे०-गुणहाणी० पत्थि । मणुसिणीमु एवं चेव । णवरि पुरिस०-णवुंस० असंखे०-गुणहाणी० पत्थि । मणुसअपज्ज० पंचि०तिरिक्ख०-अपज्जत्तभंगो ।

§ ३७६. देवगदि० देवा० मिच्छ० असंखे०-भागवट्टी० अवट्ठि० ज० एगस०, उक० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । असंखे०-भागहाणी० जह० एगस०, उक० पत्तिदो० असंखे०-भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे०-भागवट्टी० असंखे०-गुणवट्टी०

है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३७४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल नहीं है । सात नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३७५. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मिध्यात्व, ग्यारह कषाय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि और चार संज्वलनोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातगुणवृद्धि और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यपर्याप्तकोमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेदकी असंख्यात-गुणहानि नहीं है । मनुष्यनियामोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें पुरुषवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । मनुष्य अपर्याप्तकोमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है ।

§ ३७६. देवगतिमें देवोंमें मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है । सम्यक्त्व

हा० अवत्त० ज० पल्लिदो० असंखे०, भागहा० ज० एगस०, उक्क० दो वि एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अणंताणु०४ असंखे० भागवड्डी० हाणी० अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । संखे० भागवड्डी० संखे० गुणवड्डी० असंखे० गुणवड्डी० हाणी० अवत्त० ज० अंतोमु०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० असंखे० भागवड्डी० हा० जह० एगसमओ, उक्क० पल्लिदो० असंखे० भागो । अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । इत्थि-णवुंस० असंखे० भागवड्डी० जह० एगस०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । असंखे० भागहा० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे० भागवड्डी० हाणी० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । एवं भवणादि जाव उवरिम-गेवज्जा ति । णवरि जम्हि एकत्तीसं जम्हि य तेत्तीसं तम्हि सगट्टिदीओ भाणिदवाओ ।

§ ३७७. अणुदिसादि जाव सव्वट्टा ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इत्थि-णवुंस० असंखे० भागहाणी० णत्थि अंतरं । अणंताणु०४ असंखे० भागहा० ज० उक्क० एगसमओ, वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० असंखे० भागवट्टि-हा० ज० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे० भागो । अवट्टि० ज० एगसमओ, उक्क० सगट्टिदी देवणा ।

और सन्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण और एक समय है तथा उत्कृष्ट अन्तर दोनों ही कुछ कम इकतीस सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार भवन-वासियोंसे लेकर उपरिम अत्रैवेक तकके देवोमें जानना चाहिए । इतनी विरोधता है कि जहां पर इकतीस सागर और जहां पर तेतीस सागर कहा है वहां वर अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

§ ३७७. अनुदिसासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोमें मिथ्यात्व, सन्यक्त्व, सन्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिका अन्तरकाल नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागहानिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और

हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणी० जह० एगस०, उक० अंतोमुहुत्तं । एवं जाव अणाहारि ति ।

§ ३७८. पाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुविहो गिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० असंखे०भागवट्टि-हा०-अवट्टि० गियमा अत्थि । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिओ च । सिया एदे च असंखे०गुणहा०विहत्तिया च । एवमट्टकसाय० । सम्म०--सम्माभि० असंखे०भागहा० गियमा अत्थि । सेसपदाणि भजियव्वाणि । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि-हा०-अवट्टि० गियमा अत्थि । सेसपदाणि भजियव्वाणि । चटुसंज० एवं चेव । इत्थि०-णनुंस० असंखे०भागवट्टि-हा० गियमा अत्थि । सिया एदे च असंखे०गुणहा०विहत्तिओ च । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिया च । पुरिस० असंखे०भागवट्टि-हाणि० गियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि० गियमा अत्थि । भय-दुगुंझा० असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० गियमा अत्थि ।

§ ३७९. आदेसेण णेरइय० मिच्छत्त-वारसक०--पुरिस०--भय-दुगुंझा० असंखे०भागवट्टि-हाणि० गियमा अत्थि । सिया एदे च अवट्टिओ च । सिया एदे च

उत्कृष्ट अन्तर कुञ्ज कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यात भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

§ ३७८. नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्ग विचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति-वाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाला एक जीव है । कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहाणिविभक्तिवाले नाना जीव हैं । इसी प्रकार आठ कषायोंकी अपेक्षा भङ्ग जानना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । चार संज्वलनोंकी अपेक्षा इसी प्रकार भङ्ग है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिवाला एक जीव है । कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिवाले अनेक जीव हैं । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति-वाले जीव नियमसे हैं ।

§ ३७८. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और

अवद्विदा च । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्ठि-हाणि० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिज्जाणि । इत्थि०-णत्तुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्ठि-हाणि० णियमा अत्थि । एवं सव्वएोरइय० पंचिदियतिरिक्ख०३ देवगदीए देवा भवणादि जाव उवरिमगेवजा त्ति ।

§ ३८०. तिरिक्खगई० तिरिक्खा० मिच्छत्त-वारसक०-भय-दुगुंझा० असंखे०-भागवट्ठि-हाणि-अवद्विदा णियमा अत्थि । सम्म०-सम्मामि असंखे०भागहा० णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्ठि-हाणि-अवद्वि० णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । इत्थि-णत्तुंस०-चट्ठुणोक० असंखे०भागवट्ठि-हा० णियमा अत्थि । पुरिस० असंखे०भागवट्ठि-हाणि० णियमा अत्थि । सिया एदे च अवद्वि-विहत्तिओ च । सिया एदे च अवद्विदविहत्तिया च ।

§ ३८१. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुंझा० असंखे०-भागवट्ठि-हाणि० णियमा अत्थि । सिया एदे च अवद्विदविहत्तिओ च । सिया एदे च अवद्विदविहत्तिया च । सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहा० णियमा अत्थि । सिया

अवस्थितविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाले नाना जीव हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । इसीप्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चनिक, देवगतिमें देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम अथैवक तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

§ ३८०. तिर्यञ्चगतिमें तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्व, वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंकी असंख्यात-भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाले नाना जीव हैं ।

§ ३८१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाले नाना जीव हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये

एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिओ च । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिया च । सत्तणोको० असंखे०भागवट्टि-हाणि० णियमा अत्थि ।

§ ३२२. मणुसगदी० मणुसा० मिच्छ०--सोलसको०--पुरिस०--भय-दुगुंछ० असंखे०भागवट्टि-हाणि० णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । सम्मत्त०-सम्मामि० असंखे०भागहा० णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिज्जा । इत्थि०--णवुंस० अत्थि असंखे०भागवट्टि-हाणिविहत्तिया । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिओ च । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिया च । हस्स-रइ--अरइ--सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि० णियमा अत्थि । मणुसपज्ज० एवं चेव । णवरि इत्थिवेद० असंखे०गुणहाणि० णत्थि । एवं चेव मणुसिणीसु । णवरि पुरिस०-णवुंस० असंखे०गुणहाणि० णत्थि । मणुसअपज्ज० अट्टावीसं पयडीणं सव्वपदा भयणिज्जा ।

§ ३२३. अणुदिसादि जाव सव्वट्टा चि वारसको०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० असंखे०भागवट्टि-हाणि० णियमा अत्थि । सिया एदे च अवट्टिदविहत्तिओ च । सिया एदे च अवट्टिदविहत्तिया च । मिच्छत्त-सम्म०--सम्मामि०--इत्थि०--णवुंस० असंखे०भागहा० णियमा अत्थि । अणंताणु०४ असंखे०भागहा० णियमा अत्थि । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिओ च । सिया एदे च असंखे०गुणहाणिविहत्तिया

जीव हैं और असंख्यातगुणहानिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिवाले नाना जीव हैं । सात नोकवार्योंकी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं ।

§ ३२२. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाले नाना जीव हैं । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । मनुष्यपर्याप्तकोंमें इसी प्रकार भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें स्त्रीवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । इसीप्रकार मनुष्यनियोगोंमें भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंके सब पद भजनीय हैं ।

§ ३२३. अनुदिससे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देवोंमें बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और अवस्थितविभक्तिवाले नाना जीव हैं । मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागहानिवाले जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाला एक जीव है, कदाचित् ये जीव हैं और असंख्यातगुणहानिविभक्तिवाले नाना जीव हैं । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यात-

च । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे० भागवट्टि-हा० विह० णियमा अत्थि । एवं जाव अणाहारि ति ।

§ ३८४. भागाभागाणु० दुविहो णिद्वैसो—ओवेण आदेसेण य । ओवेण मिच्छ० असंखे० गुणहाणिविह० सव्वजी० केवडिओ भागो ? अणंतभागो । अवट्टि० विह० सव्वजी० केव० ? असंखे० भागो । असंखे० भागहा० सव्वजी० केव० ? संखे० भागो । असंखे० भागवट्टि० सव्वजी० केव० ? संखेज्जा भागा । एवमट्टकसाय० । सम्म०-सम्मामि० असंखे० भागवट्टि-असंखे० गुणवट्टि-हाणि-अवत्त० सव्वजी० केव० ? असंखे० भागो । असंखे० भागहा० सव्वजी० केव० ? असंखेज्जा भागा । अणंताणु० ४ संखे० भागवट्टि-संखे० गुणवट्टि-असंखे० गुणवट्टि-हाणि-अवत्त० सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । अवट्टि० असंखे० भागो । असंखे० भागहा० संखे० भागो ; असंखे० भागवट्टि० सव्वजीवा केव० ? संखेज्जा भागा । चदुसंजल० संखे० गुणवट्टि-असंखे० गुणहा० सव्वजी० के० ? अणंतभागो । अवट्टि० असंखे० भागो । असंखे० भागहा० केव० ? संखे० भागो । असंखे० भागवट्टि० के० ? संखेज्जा भागा । णवरि लोभसंज० असंखे० गुणहाणि०

भागवट्टि और असंख्यातभागहानिविभक्तिकेवाले जीव नियमसे हैं । इसप्रकार अनाहारकमार्गाणा तक ले जाना चाहिए ।

इसप्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

§ ३८४. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिविभक्तिकेवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग-प्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिकेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवट्टिकेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण है । इसीप्रकार आठ कपायोंकी अपेक्षा भागाभाग जानना चाहिए । सन्धक्त्व और सन्धमिथ्यात्वकी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिकेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी संख्यातभागवट्टि, संख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिकेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिकेवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवट्टि वाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । चार संज्वलनोंकी संख्यातगुणवट्टि और असंख्यातगुणहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितविभक्तिकेवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानि-वाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवट्टि-वाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इतनी विशेषता है

णत्थि । इत्थि-णवुंस० असंखे०गुणहा० सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । असंखे० भागवट्ठि० संखे०भागो । असंखे०भागहाणि० संखेज्जा भागा । णवरि णवुंस० असंखे०भागवट्ठि-हाणीणं विवज्जासो कायव्वो । पुरिस० असंखे०गुणहा०-संखे०-गुणवट्ठि-अवट्ठि० अणंतभागो । असंखे०भागवट्ठि० संखे०भागो । असंखे०भागहा० संखेज्जा भागा । हस्स-रइ-अरइ-सो० असंखे०भागवट्ठि० संखे०भागो । असंखे०-भागहा० संखेज्जा भागा । अरदि-सोग० असंखे०भागहाणि० संखे०भागो । असंखे०-भागवट्ठि० संखेज्जा भागा । भय-दुगुंछा० अवट्ठि० असंखे०भागो । असंखे०भागहा० संखे०भागो । असंखे०भागवट्ठि० संखेज्जा भागा ।

§ ३८५. आदेसेण णेरइय० मिच्छ०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० अवट्ठि० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । असंखे०भागहा० के० ? संखे०भागो । असंखे०-भागवट्ठि० संखेज्जा भागा । णवरि पुरिस० वट्ठि-हाणीणं विवज्जासो कायव्वो । सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहा० सव्वजी० केव० ? असंखेज्जा भागा । सेसपदा असंखे०भागो । अणंताणु०४ अवट्ठि० संखे०भागवट्ठि-संखे०गुणवट्ठि-असंखे०गुणवट्ठि-हाणि-अवत्त० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । असंखे०भागहा० संखे०भागो ।

कि लोभसंस्वलनकी असंख्यातगुणहानि नहीं है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि-वाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका विपर्यास करना चाहिए। पुरुषवेदकी असंख्यातगुणहानि, संख्यातगुणवृद्धि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यात-भागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यात-भागवृद्धिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अरति और शोककी असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यात-भागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यात-भागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं ।

§ ३८५. आदेशे नारकियोंमें मिथ्यात्व, वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं ? असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी वृद्धि और हानिका विपर्यास करना चाहिए। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात-भागहानिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेष पदवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवस्थितविभक्ति, संख्यात-भागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले

असंखे०भागवट्टि० संखेज्जा भागा । इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोग० असंखे०-
भागवट्टि० केव० ? संखे०भागो । असंखे०भागहा० सव्वजी० संखेज्जा भागा ।
णवरि णवुंस अरइ-सोगाणं विवरीयं कायव्वं । एवं सव्वणेरइयं पंचि०तिरिक्ख०३
देवगई० देवा भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा त्ति । णवरि आणदादिसु पुरिस-णवुंस०-
मिच्छत्त०-अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि-हाणीणं विवज्जासो कायव्वो ।

§ ३८६. तिरिक्खगई० तिरिक्खा० मिच्छ०-वारसक०-भय-दुगुंछ० अवट्टि०
सव्वजी० असंखे०भागो । असंखे०भागहाणि० संखे०भागो । असंखे०भागवट्टि०
संखेज्जा भागा । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहा० असंखेज्जा भागा । सेसपदा
असंखे०भागो । अणंताणु०४ संखे०भागवट्टि-संखे०गुणवट्टि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि-
अवत्त० अणंतभागो । अचट्टि० असंखे०भागो । असंखे०भागहा० संखे०-
भागो । असंखे०भागवट्टि० संखेज्जा भागा । इत्थि-णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगा०
णेरइयभंगो । पुरिस० अवट्टि० सव्वजी० केव० ? अणंतभागो । असंखे०भागवट्टि०
संखे०भागो । असंखे०भागहाणि० संखेज्जा भागा ।

§ ३८७. पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछा० अवट्टि०

जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं ।
स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव सब जीवोंके
कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव सब जीवोंके
संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेद, अरति और शोकका विपरीत
करना चाहिए । इसीप्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, देवगतिमें देव और भवनवासियों
से लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आनतादिकमें
पुरुषवेद, नपुंसकवेद, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-
भागहानिका विपर्यास करना चाहिए ।

§ ३८६. तिर्यञ्चगतिमें तिर्यञ्चोमे मिथ्यात्व, चारह कषाय, भय और जुगुप्साकी अवस्थित-
विभक्तिवाले जीव सब जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव
संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व
और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण है । शेष पदवाले
जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि,
असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्वविभक्तिवाले जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं ।
अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें
भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद,
हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग नारकियोंके समान है । पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले
जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले
जीव संख्यातवें भागप्रमाण है । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं ।

§ ३८७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्रकोमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी

सव्वजी० असंखे०भागो । असंखे०भागहाणि० संखे०भागो । असंखे०भागवट्ठि० संखेज्जा भागा । सम्म०-सम्मामि० असंखे०गुणहा० असंखे०भागो । असंखे०भागहा० असंखेज्जा भागा । सत्तणोक० णेरइयभंगो । णवरि पुरिस० अबट्ठि० णत्थि । एवं मणुसअपज्ज० ।

§ ३८८. मणुसगई० मणुसा० मिच्छ०-अट्ठक० असंखे०गुणहा०-अवट्ठि० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । असंखे०भागहाणि० संखे०भागो । असंखे०भागवट्ठि० संखे०भागा । सम्म०-सम्मामि० असंखे०गुणवट्ठि-हाणि-असंखे०भागवट्ठि-अवत्त० असंखे०भागो । असंखे०भागहा० असंखेज्जा भागा । अणंताणु०४ अबट्ठि०-संखे०भागवट्ठि-संखे०गुणवट्ठि--असंखे०गुणवट्ठि--हाणि--अवत्त० असंखे०भागो । असंखे०भागहा० संखे०भागो । असंखे०भागवट्ठि० संखेज्जा भागा । तिहिसंज० अबट्ठि० संखे०गुणवट्ठि--असंखे०गुणहाणि० सव्वजी० केव० ? असंखे०भागो । असंखे०भागहा० संखे०भागो । असंखे०भागवट्ठि० संखे०भागा । तोहसंजळ० संखे०गुणवट्ठि०-अवट्ठि० सव्वजी० असंखे०भागो । असंखे०भागहा० संखे०भागो । असंखे०भागवट्ठि० संखेज्जा भागा । इत्थि-णत्तुंस० असंखे०गुणहा० सव्वजी०

अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । सात नोकयायोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्ति नहीं है । इसीप्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोमे जानना चाहिए ।

§ ३८८. मनुष्यगतिमे मनुष्योमे मिथ्यात्व और आठ कपायोकी असंख्यातगुणहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि असंख्यातभागवृद्धि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवस्थितविभक्ति, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । तीन संज्वलनोकी अवस्थितविभक्ति, संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिवाले जीव सब जीवोके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । लोभसंज्वलनकी संख्यातगुणवृद्धि और अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । स्त्रीवेद और नपुंसकवेद-

असंखे०भागो । असंखे०भागवट्टि-हाणीणं णेरइयभंगो । पुरिसवेद० संखे०गुणवट्टि-
अवट्टि-असंखे०गुणहाणि० असंखे०भागो । असंखे०भागवट्टि० संखे०भागो ।
असंखे०भागहा० संखेज्जा भागा । हस्स-रइ-अरइ-सोगा० असंखे०भागवट्टि-हाणि०
ओघं । भय-दुगुंछा० अवट्टि० असंखे०भागो । असंखे०भागहाणि० संखे०भागो ।
असंखे०भागवट्टि० संखेज्जा भागा । मणुसपज्ज० एवं चेव । णवरि जम्हि असंखे०
भागो तम्हि संखे०भागो । इत्थिवेद० हस्सभंगो । एवं मणुसिणीसु । णवरि पुरिस०-
णवुंस० असंखे०गुणहा० णत्थि ।

§ ३०६. अणुदिसादि जाव सव्वट्टा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इत्थि-
णवुंस० णत्थि भागाभागो । अणंताणु०४ असंखे०गुणहाणि० असंखे०भागो ।
असंखे०भागहाणि० असंखे०भागो । सव्वट्टे णवरि संखे०भागो संखेज्जा भागा ।
वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० अवट्टि० सव्वजी० असंखे०भागो । असंखे०भागहा०
संखे०भागो । असंखे०भागवट्टि० संखेज्जा भागा । सव्वट्टे संखेज्जं कायव्वं । हस्स-
रइ-अरइ-सोगाणं देवोघं । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

की असंख्यातगुणहानिवाले जीव सब जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवट्टि
और असंख्यातभागहानिका भङ्ग नारक्तियोंके समान है । पुरुषवेदकी संख्यातगुणवट्टि, अवस्थित-
विभक्ति और असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवट्टिवाले
जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । हास्य,
रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिका भङ्ग ओघके समान
है । भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यात-
भागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवट्टिवाले जीव संख्यात बहुभाग-
प्रमाण हैं । मनुष्य पर्याप्तिकोमें इसीप्रकार भागाभाग है । इतनी विशेषता है कि जहाँ असंख्यातवें
भागप्रमाण हैं वहाँ पर संख्यातवें भागप्रमाण जानना चाहिए । तथा स्त्रीवेदका भङ्ग हास्यके
समान है । इसीप्रकार मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और
नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है ।

§ ३०६. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व,
स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका भागाभाग नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणहानिवाले
जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं ।
इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें क्रमसे संख्यातवें भाग और संख्यात बहुभागप्रमाण हैं ।
वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके असंख्यातवें
भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । असंख्यातभागवट्टि-
वाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । मात्र सर्वार्थसिद्धिमें असंख्यातके स्थानमें संख्यात करना
चाहिए । हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । इसप्रकार अनाहारक
मार्गीया तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

§ ३६०. परिमाणानु० दुविहो णिहोसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-बारसक०-भय-दुगुंछा० अवट्टि० असंखे०भागवट्टि-हाणिविह० केत्ति० ? अणंता । असंखे०गुणहाणि० चउसंज० संखे०गुणवट्टि० संखेज्जा । णवरि लोभसंज०-भय-दुगुंछा० असंखे०गुणहाणि० णत्थि । सम्म०-सम्माभि० सव्वपदवि० असंखेज्जा । अणंताणु०४ अवट्टि०-असंखे०भागवट्टि-हाणि० के० ? अणंता । सेसपदा० असंखेज्जा । इत्थि०-पुरिस०-णउंस० असंखे०भागवट्टि-हाणि० केत्ति० ? अणंता । पुरिस० अवट्टि० असंखेज्जा । सव्वेसिमसंखे०गुणहाणि० पुरिस० संखे०गुणवट्टि० संखेज्जा । हस्स-रइ-अरइ-सोगा० असंखे०भागवट्टि-हाणि० केत्ति० ? अणंता । एवं तिरिक्खा० । णवरि सेट्ठिपदाणि मोत्तूण वत्तव्वं ।

§ ३६१. आदेसेण गेरइय० अट्ठावीसं पयडीणं सव्वपदा० केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं सव्वणेरइय० सव्वपंचिंदियतिरिक्ख० देवगई० देवा भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा त्ति । मणुसगदीए एवं चेव । णवरि सेट्ठिपदा मिच्छ० असंखे०-गुणहाणि० अणंताणु० पंचपदा संखेज्जा । पंचि०तिरिक्ख०अप० २८ पयडीणं सव्वपदा असंखेज्जा । मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु जाणि पदाणि अत्थि ताणि संखेज्जा । मणुसअपज्ज० २८ पय० सव्वपदा केत्तिया ? असंखेज्जा । अणुहिसादि जाव

§ ३६०. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, चारह कषाय, भय और जुगुप्साकी अवस्थित, असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । असंख्यातगुणहानिवाले और चार संख्यलोककी संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव संख्यात हैं । इतनी विशेषता है कि लोभसंख्यलन, भय और जुगुप्साकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सब पदविभक्ति-वाले जीव असंख्यात हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवस्थितविभक्ति, असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । शेष पदवाले जीव असंख्यात हैं । स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यात हैं । सबकी असंख्यातगुणहानि-वाले और पुरुषवेदकी संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव संख्यात हैं । हास्य, रति, अरति और शोकको असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसीप्रकार तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि श्रेणिसम्बन्धी पदको छोड़कर कथन करना चाहिए ।

§ ३६१. आदेशसे नारकिओमें अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसीप्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, देवगतिये देव और भवनवासियों से लेकर उपरिम अवेयक तकके देवोमें जानना चाहिए । मनुष्यगतिये इसीप्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें श्रेणिसम्बन्धी पदवाले, मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानि-वाले और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके पाँच पदवाले जीव संख्यात हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव असंख्यात हैं । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियामें जो पदवाले हैं वे संख्यात हैं । मनुष्य अपर्याप्तकोमें अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने

अवराइदा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इत्थि०-णवुंस० असंखे०भागहा० अणंताणु०४
असंखे०भागहा०-असंखे०गुणहा० वारसक-पुरिस०-भय-दुगुंछा० असंखे०भागवट्टि-
हाणि-अवट्ठि० चटुणोक० असंखे०भागवट्टि-हा० केत्तिया ? असंखेज्जा । सव्वट्ठ०
सव्वपय० सव्वपदा संखेज्जा । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

§ ३६२. खेत्ताणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-
अट्ठक०-भय-दुगुंछा० असंखे०भागवट्टि-हा०-अवट्ठि० के० खेत्ते ? सव्वलोगे । भय-
दुगुंछवज्ज० असंखे०गुणहाणि० के० खेत्ते ? लोग० असंखे०भागे । सम्म०-सम्मामि०
सव्वपदा० लोग० असंखे०भागे । अणंताणु०४ मिच्छत्तभंगो । णवरि संखे०भागवट्टि-
संखे०गुणवट्टि--असंखे०गुणवट्टि--हाणि-अवत्त० लोग० असंखे०भागे । चटुसंज०
असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्ठि० के० खेत्ते ? सव्वलोगे । संखे०गुणवट्टि० लोभसंजलणं
वज्ज० असंखे०गुणहाणि० लोग० असंखे०भागे । इत्थि०-णवुंस० असंखे०भागवट्टि-
हाणि० सव्वलोगे । असंखे०गुणहाणि० लोग० असंखे०भागे । एवं पुरिस० । णवरि
अवट्ठि०-असंखे०गुणवट्टि० लोग० असंखे०भागे । चटुणोक० असंखे०भागवट्टि-

हैं ? असंख्यात हैं । अनुदिशसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिवाले, अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिवाले, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले तथा चार नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सर्वार्थसिद्धिमें सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव संख्यात हैं । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसीप्रकार परिमाण समाप्त हुआ ।

§ ३९२. चेत्रानुगमकी अपेक्षा चिदेंश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, आठ कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । भय और जुगुप्साको छोड़कर असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सब पदवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । चार संज्वलनोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सब लोक क्षेत्र है । संख्यातगुणवृद्धिवाले जीवोंका और लोभसंज्वलनको छोड़कर शेषकी असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा क्षेत्र जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थितविभक्ति और असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । चार नोकषायोंकी

हाणि० सव्वलोगे । एवं तिरिक्खा० । एवरि सेटिपदा मिच्छ० असंखे०गुणहाणि० च एत्थि ।

§ ३६३. आदेसेण खेरइय २८ पय० सव्वपदा लोग० असंखे०भागे । एवं सव्वणेरइय० । सव्वपंचिदियतिरिक्ख-सव्वमणुस्स० सव्वपदा त्ति जासि जाणि पदाणि संभवन्ति तासि लोग० असंखे०भागे । एवं जाव अणाहारि ति ।

§ ३६४. पोसणाणुगमेण दुविहोणिदे सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-अट्ठक० असंखे०भागवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० केव० खेत्तं पोसिदं? सव्वलोगो । असंखे० गुणहाणि० लोग० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागवट्ठि-असंखे०गुणवट्ठि-हाणि-अवत्त० लोग० असंखे०भागो अट्ठचोदस० । असंखे०भागहाणि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । अणंताणु०४ मिच्छत्तभंगो । पवरि संखेज्जभागवट्ठि-संखे०-गुणवट्ठि-असंखे०गुणवट्ठि-हाणि-अवत्त० लोग० असंखे०भागो अट्ठचो० देसूणा । चदुसंजल० संखे०गुणवट्ठि० लोभं वज्ज असंखे०गुणहाणि० लोग० असंखे०भागो । सेसं मिच्छत्तभंगो । इत्थि-णवुंस० असंखे०भागवट्ठि-हाणि० सव्वलोगो । असंखे०गुण-

असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंका क्षेत्र सब लोक है । इसीप्रकार तिर्यञ्चों में जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें श्रेणिसम्बन्धी पद और मिथ्यात्वकी असंख्यात-गुणहानि नहीं है ।

§ ३६३. आदेशसे नारकियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पदवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसीप्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और सब मनुष्योंमें सब पदोंमेंसे जिन प्रकृतियोंके जो पद सम्भव हैं उनका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ ।

§ ३६४. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व और आठ कषायकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात-गुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य-विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । चार संज्वलनकी संख्यातगुणवृद्धिवाले और लोभसंज्वलनको छोड़कर शेषकी असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि

हाणि० लो० असंखे० भागो । पुरिस० असंखे० भागवड्ढि-हा० सव्वलोगो । अवट्ठि० लो० असंखे० भागो अट्ठोइ० । असंखे० गुणहाणि-संखे० गुणवड्ढि० लो० असंखे० भागो । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे० भागवड्ढि-हाणि० सव्वलोगो । भय-दुग्घा० असंखे० भागवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० सव्वलोगो ।

§ ३६५. आदेसेण णेरइय० मिच्चत्त-सोलसक०-भय-दुग्घा० असंखे० भागवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० लो० असंखे० भागो छचोइस० । सम्म०-सम्मापि० असंखे० भागहाणि-असंखे० गुणहाणि० लो० असंखे० भागो छचोइस० । सेसपदा० खेत्तं । अणंताणु० ४ संखे० भागवड्ढि--संखे० गुणवड्ढि--असंखे० गुणवड्ढि--असंखे० गुणहाणि-अवत्त० खेत्तभंगो । इत्थि०-णवुंस० असंखे० भागवड्ढि-हाणि० लो० असंखे० भागो छचोइस० । पुरिस० असंखे० भागवड्ढि-हाणि० लो० असंखे० भागो छचोइस० । अवट्ठि० लो० असंखे० भागो । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे० भागवड्ढि-हाणि० लो० असंखे० भागो छचोइस० । पट्ठमाए खेत्तभंगो । विद्यादि जाव सत्तमा ति

और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। असंख्यात-गुणहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। असंख्यातगुणहानि और संख्यात-गुणवृद्धिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

§ ३६५. आदेशसे नारकियोमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात-भागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष पदोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात-गुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तन्यविभक्तिवाले जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। त्रीवेद और नपुसकनेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अवस्थित-विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पहली पृथिवीमें क्षेत्रके समान भङ्ग है। दूसरीसे लेकर सातवीं तककी पृथिवियोंमें सामान्य

गिरओघं । णवरि सगपोसणं ।

§ ३६६. तिरिक्खा० मिच्छ०--सोलसक०--भय-दुगुंछ० असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० सव्वलोगो । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहाणि-असंखे०गुणहाणि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सेसपदा० लोग० असंखे०भागो । अणंताणु०४ संखे०भागवट्टि-संखे०गुणवट्टि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि-अवत्त० लोग० असंखे०भागो । पुरिस० असंखे०भागवट्टि-हाणि० सव्वलोगो । अवट्टि० लोग० असंखे०भागो । इत्थि०-णवुंस०हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि० सव्वलोगो ।

§ ३६७. पंचिदियतिरिक्ख३ मिच्छत्त-वारसक०भय-दुगुंछा० असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सम्म०-सम्मामि० असंखे०-भागहा०-असंखे०गुणहाणि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सेसपदवि० लोग० असंखे०भागो । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । संखे०भागवट्टि०-संखे०गुणवट्टि०-असंखे०गुणवट्टि०-हाणि-अवत्त० लोग० असंखे०भागो । । इत्थि० असंखे०भागवट्टि० लोग० असंखे०भागो दिवहु-

नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए ।

§ ३६६. तिर्यञ्चोमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी संख्यात-भागवट्टि, संख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेदकी असंख्यातभाग-वट्टि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवस्थित-विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

§ ३९७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात-भागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात-भागहानि और असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । संख्यातभागवट्टि, संख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य-विभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेदकी असंख्यात-

चोदस० । असंखे०भागहा० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । पुरिस० असंखे०-
भागवड्डी० लोग० असंखे०भागो छचोदस० । असंखे०भागहाणि० लोग० असंखे०-
भागो सव्वलोगो वा । अवट्ठि० तिरिक्खोद्यं । णवुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०-
भागवड्डी-हाणि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा ।

§ ३६८. पंचिदिय-तिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०--सोलसक०--भय-दुणुंझा०
असंखे०भागवड्डी-हा०--अवट्ठि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सम्म०-
सम्माभि० असंखे०भागहाणि-असंखे०गुणहाणि० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो
वा । इत्थि०-पुरिस० असंखे०भागवड्डी० लोग० असंखे०भागो । दोण्हमसंखे०भाग-
हाणि० णवुंस०हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं असंखे०भागवड्डी-हाणि० लोग० असंखे०-
भागो सव्वलोगो वा । मणुसगईए मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु पंचिदियतिरिक्खभंगो ।
णवरि जम्हि वज्जो तम्हि लोग० असंखे०भागो । सेटिपदा० लोग० असंखे०भागो ।
मणुसअपज्ज० पंचि०तिरि०अपज्जत्तभंगो ।

§ ३६९. देवगईए देवेषु मिच्छत्त-वारसक०-भय-दुणुंझा० असंखे०भागवड्डी-

भागवड्डीवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ वटे चौदह भागप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और
सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेदकी असंख्यातभागवड्डीवाले जीवोने लोकके
असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया
है । असंख्यातभागहानिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन सामान्य तिर्यञ्चोके समान है । नपुंसकवेद,
हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवड्डी और असंख्यातभागहानिवाले जीवोने लोकके
असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

§ ३६८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय और जुगुप्साकी
असंख्यातभागवड्डी, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें
भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात-
भागहानि और असंख्यातगुणहानिवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवड्डीवाले जीवोने लोकके
असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दोनोंकी असंख्यातभागहानिवाले जीवोने
तथा नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवड्डी और असंख्यातभागहानि-
वाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्यगति
में मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियामों पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि
जहाँ पर वर्जनीय है वहाँ पर लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन है । तथा श्रेणिसम्बन्धी
पदवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है ।

§ ३६९. देवगतिमे देवोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात-

हाणि-अवट्टि० लोग० असंखे० भागो अट्ट-णवचोइसभागा वा देखूणा । सम्म०-सम्मामि० असंखे० भागहाणि-असंखे० गुणहाणि० लोग० असंखे० भागो अट्ट-णवचोइ० । सेस-पदा० लोग० असंखे० भागो अट्टचोइ० । अणंताणु०४ असंखे० भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० लोग० असंखे० भागो अट्ट-णवचोइ० । संखे० भागवट्टि-संखे० गुणवट्टि-असंखे० गुणवट्टि-हाणि-अवत्त० लोग० असंखे० भागो अट्टचोइ० । इत्थि० असंखे०-भागवट्टि० पुरिस० असंखेण भागवट्टि-अवट्टि० लोग० असंखे० भागो अट्टचोइ० देखूणा । दोण्हमसंखे० भागहा० चटुणोक० असंखे० भागवट्टि-हाणि० लोग० असंखे०-भागो अट्ट-णवचोइ० । एवं सोहम्म० । भवण०-वाण०-जोदिसि० एवं चेव । णवरि सगरजू० । सणक्कुमारादि जाव सहरसारे त्ति आणदादि जाव अच्चुदा त्ति सग-पोसणं । उवरि खेतभंगो । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

§ ४००. कालाणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-अट्टक० असंखे० भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० सच्चद्ध । असंखे० गुणहाणि० जह०

भागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष पदविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । संख्यातभागवट्टि, संख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणवट्टि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेदकी असंख्यातभागवट्टि तथा पुरुषवेदकी असंख्यातभागवट्टि और अवस्थितविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दोनोकी असंख्यातभागहानि तथा चार नोकपायोकी असंख्यातभागवट्टि और असंख्यातभागहानिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसीप्रकार सौधर्म और ऐशान कल्पमें स्पर्शन है । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें स्पर्शन इसीप्रकार है । इतनी विशेषता है कि अपने अपने राजु कइने चाहिए । सनत्कुमार-से लेकर सहस्रार कल्पतक और आनतसे लेकर अच्युत कल्पतकके देवोंमें अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए । आगेके देवोंमें स्पर्शनका भङ्ग क्षेत्रके समान है । इसप्रकार अनाहारक मार्गीया तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

§ ४००. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिध्यात्व और आठ कपायोंकी असंख्यातभागवट्टि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्ति

एगसमओ, उक्क० संखेज्जा समया । सम्म०-सम्माणि० असंखे०भागवट्ठि-असंखे०-
 गुणवट्ठि० जह० अंतोमु०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । असं०भागहाणि०
 सव्वद्धा । असंखे०गुणहाणि-अवत्त० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो ।
 अणंताणु०४ असंखे०भागवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० सव्वद्धा । संखेज्जभागवट्ठि-संखे०-
 गुणवट्ठि-असंखे०गुणहाणि-अवत्तव्व० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो ।
 असंखे०गुणवट्ठि० जह० एगसमओ, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । चटुसंजल०
 असंखे०भागवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० सव्वद्धा । संखे०गुणवट्ठि० लोभसंज० वज्ज०
 असंखे०गुणहा० ज० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । इत्थि-णवुंस० असंखे०भाग-
 वट्ठि-हाणि० सव्वद्धा । असंखे०गुणहाणि० जह० एगसमओ, उक्क० संखे० समया ।
 पुरिस० असं०भागवट्ठि-हा० सव्वद्धा । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० आवलि०
 असं० । असं०गुणहा०-संखे०गुणवट्ठि० ज० एगस०, उक्क० संखे० समया । हस्स-रइ-
 अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्ठि-हाणि० सव्वद्धा । भय०-दु० असं०भागवट्ठि-हा०-
 अवट्ठि० सव्वद्धा ।

§ ४०१. आदेसेण णेरइव० मिच्छ०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंद्धा० असंखे०-

काल सर्वदा है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। सम्यक्त्व और सम्यामिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पर्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यात-भागहानिका काल सर्वदा है। असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिकाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका काल सर्वदा है। संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पर्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। चार संव्वलनकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका काल सर्वदा है। संख्यात-गुणवृद्धिका तथा लोभसंज्वलनको छोड़कर असंख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। खीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका काल सर्वदा है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। पुरुषवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यातगुणहानि और संख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात-भागहानि और अवस्थितविभक्तिका काल सर्वदा है।

§ ४०१. आदेशे नारकियोंं मिध्यात्व, वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी

भागवट्टि-हाणि० सव्वद्धा । अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहा० सव्वद्धा । असंखे०गुणहाणि-अवत्त० जह० एगस०, उक्क० आव० असंखे०भागो । असंखे०भागवट्टि-असंखे०गुणवट्टि० जह० अंतोमु०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि०-हाणि० सव्वद्धा । संखे०भागवट्टि--संखे०गुणवट्टि--असंखे०गुणहाणि--अवट्टि०-अवत्त० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । असंखे०गुणवट्टि० ज० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । इत्थि०-णयुंस०-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि० सव्वद्धा । एवं सत्तमु पुहवीसु ।

§ ४०२. तिरिक्खगदी० तिरिक्खा० ओघं । णवरि सेट्ठिपदाणि मोत्तूण । पंचिदियतिरिक्खतिण्णारयभंगो । पंचि०तिरि०अपज्ज० मिच्छत्त०-सोलसक०-भय-दुगुञ्जा० असंखे०भागवट्टि-हाणि० सव्वद्धा । अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० सव्वद्धा । असंखे०गुणहाणि० जह० एगसमओ, उक्क० आव० असं०भागो । सत्तणोक० असंखे०भागवट्टि-हाणि० सव्वद्धा ।

असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनन्तालुवन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि, अवस्थित और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए।

§ ४०२. तिर्यञ्चगतिमें तिर्यञ्चोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि श्रेणि-सम्बन्धी पदोंको छोड़कर कहना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें नारकियोंके समान भङ्ग है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपयोत्तिकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात-भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व की असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सात नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है।

§ ४०३. मणुसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि सम्म०-सम्माभि० असंखे०-
भागवड्ढि-असंखे०गुणवड्ढि० जहणुक्क० अंतोमुहुत्तं । अणंताणु०४ असंखे०गुणवड्ढि०
ज० एगस०, उक्क० अंतोमु० । छण्हमवत्त० अणंताणु०४ असंखे०गुणहाणि० पुरिस०
अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समय । खवगपदाणमोघं । मणुसपज्जत्त-
मणुसिणीसु एवं चेव । णवरि सम्म०-सम्माभि० असंखे०गुणहाणि० धुवबंधीणमवट्ठि०
जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समय । मणुसपज्ज० इत्थि० असंखे०गुणहाणि०
णत्थि । मणुसिणी० पुरिस०-णवुंस० असंखे०गुणहाणि० णत्थि ।

§ ४०४. मणुसअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंखा० असंखे०भागवड्ढि-
हाणि० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । अवट्ठि० जह० एगस०, उक्क०
आवलि० असंखे०भागो । सम्म०-सम्माभि० असंखे०भागहाणि० जह० एगस०,
उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । असंखे०गुणहाणि० जह० एगस०, उक्क० आवलि०
असंखे०भागो । सत्तणोक्क० असंखे०भागवड्ढि-हाणि० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो०
असंखे०भागो ।

§ ४०५. देवर्गई० देवा० भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति णारयभंगो ।
अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा ति मिच्छ०-सम्म०-सम्माभि०-इत्थि०-णवुंस० असंखे०-

§ ४०३. मनुष्यां पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व
और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और
उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । ब्रह्मकी अवकव्यविभक्तिका, अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यात-
गुणहानिका और पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल
संख्यात समय है । क्षपक पदोंका भङ्ग ओषके समान है । मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें
इसी प्रकार है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातगुणहानिका
तथा ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल
संख्यात समय है । मनुष्य पर्याप्तकोंमें ऋग्वेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । मनुष्यनियोंमें
पुरुषवेद और नर्पुसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है ।

§ ४०४. मनुष्य अपर्याप्तकोंमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यात-
भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके
असंख्यातवे भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल
आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहानिका
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । असंख्यात-
गुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण है ।
सात नोकषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य काल एक समय है
और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है ।

§ ४०५. देवगतिमें देवोंमें तथा भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रैवेयक तकके देवोंमें
नारकियोंके समान भङ्ग है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्व,

भागहाणि० सव्वद्धा । एवमणंताणु०४ । णवरि असंखे०गुणहाणि० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । बारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० असंखे०भागवट्टि-हाणि० सव्वद्धा । अवट्टि० ज० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्टि-हाणि० सव्वद्धा । णवरि सव्वट्टे जम्हि आवलि० असंखेज्जो भागो तम्हि संखेज्जा समया । एवं जाव अणाहारि चि ।

§ ४०६. अंतराणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-अट्ठक० असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० णत्थि अंतरं । असंखे०गुणहा० ज० एगस०, उक्क० छम्मासा । सम्म०-सम्माभि० असंखे०भागहा० णत्थि अंतरं । असंखे०भागवट्टि--असंखे०गुणवट्टि-हाणि--अवत्त० जह० एगस०, उक्क० चउवीस-महोरत्ते सादि० । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० णत्थि अंतरं । संखे०भागवट्टि-संखे०गुणवट्टि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि-अवत्त० जह० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ते साधिगे । चट्टुसंजल० असंखे०भागवट्टि-हाणि-अवट्टि० णत्थि अंतरं । संखेज्जगुणवट्टि-असंखे०गुणवट्टि-हाणि० ज० एगस०, उक्क० छम्मासा । णवरि

सम्यग्निमध्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिवाले जीवोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अपेक्षासे काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यात-गुणहानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका काल सर्वदा है। इतनी विशेषता है कि जहाँ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल कहा है वहाँ सर्वार्थसिद्धिमें संख्यात समय काल है। इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

इसप्रकार काल समाप्त हुआ ।

§ ४०६. अन्तराणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिथ्यात्व और आठ कषायोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल नहीं है। असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। सम्यक्त्व और सम्यग्निमध्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है। असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। संख्यात-भागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है। चार संखलनोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल नहीं है। संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है।

लोभसंज० असंखे०गुणहाणि० णत्थि । पुरिस० अवट्ठि० ज० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । संखे०गुणवट्ठि-असंखे०गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० छम्मासा । सेसं मिच्छत्तभंगो । इत्थि एवुंस० असंखे०भागवट्ठि-हाणि० एत्थि अंतरं । असंखे०-गुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० वासपुघत्तं । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्ठि-हाणि० णत्थि अंतरं । भय-दुगुंढा० असंखे०भागवट्ठि-हाणि-अवट्ठि० णत्थि अंतरं । एवं तिरिकखा० । एवरि सेडिपदा एत्थि दंसणमोहक्खवणा च ।

§ ४०७. आदेशेण णेरइय० मिच्छ०--वारसक०--पुरिस०--भय--दुगुंढा० असंखे०भागवट्ठि-हाणि० णत्थि० अंतरं । अवट्ठि० ज० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । सम्मत्त-सम्मामि० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । असंखे०भागवट्ठि-असंखे०गुणवट्ठि-हाणि-अवत्त० जह० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ते साधिगे । अणंताणु०४ असंखे०भागवट्ठि-हाणि० णत्थि अंतरं । अवट्ठि० ज० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । संखे०भागवट्ठि-संखेज्जगुणवट्ठि-असंखे०गुणहाणि-अवत्त० जह० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ते साधिगे । इत्थि--णवुंस०--हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं असंखे०भागवट्ठि-हाणि० णत्थि अंतरं । एवं सव्वणेरइय० पंचिदियतिरिक्खत्थिय०

और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। इतनी विशेषता है कि लोभसंज्वलनकी असंख्यातगुणहाणि नहीं है। पुरुषवेदकी अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहाणिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। शेष भङ्ग मिध्यात्वके समान है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहाणिका अन्तर काल नहीं है। असंख्यातगुणहाणिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है। हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहाणिका अन्तर काल नहीं है। भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहाणि और अवस्थितविभक्तिका अन्तर काल नहीं है। इसीप्रकार तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रेणिसम्बन्धी पद तथा दर्शनमोहनीयकी चपया नहीं है।

§ ४०७. आदेशसे नारकियोंमें मिध्यात्व, वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहाणिका अन्तरकाल नहीं है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी असंख्यातभागहाणिका अन्तर काल नहीं है। असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहाणि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहाणिका अन्तर काल नहीं है। अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहाणि और अवक्तव्यविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहाणिका अन्तर काल नहीं है। इसीप्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय

देवर्गई० देवा भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति ।

§ ४०८. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछा० असंखे०-भागवड्डि-हाणि० गत्थि अंतरं । अवट्ठि० ज० एगसमओ, उक्क० असंखेज्जा लोगा । सम्म०-सम्माभि० असंखे०-भागहाणि० गत्थि अंतरं । असंखेज्जगुणहाणि० ज० एगस०, उक्क० चउवीसमहोरत्ते साधिगे । सत्तणोक० असंखे०-भागवड्डि-हाणि० गत्थि अंतरं ।

§ ४०९. मणुसगई० मणुसा० पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि सेट्ठिपदानमोचं । मणुसपज्जत्ता० एवं चेव । णवरि इत्थिवेद० असंखे०-गुणहाणि० गत्थि । मणुसिणीसु एवं चेव । णवरि पुरिस०-णवुंस० असंखे०-गुणहाणि० गत्थि ! णवरि जम्हि छम्मासा तम्हि वासपुधत्तं । मणुसअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुंछा० असंखे०-भागवड्डि-हाणि० जह० एगसमओ, उक्क० पल्लिदो० असंखे०-भागो । अवट्ठि० ज० एगस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । सम्म०-सम्माभि० असंखे०-भागहाणि-असंखे०-गुणहाणि० जह० एगसमओ, उक्क० पल्लिदो० असंखे०-भागो । सत्तणोक० असंखे०-भागवड्डि-हाणि० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०-भागो ।

तिर्यञ्चत्रिक, देवगतिमें सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रवैयक तकके देवोंमें जानना चाहिए।

§ ४०८. पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त-क्रमोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है । सात नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तरकाल नहीं है ।

§ ४०९. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्चको समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि श्रेणिसम्बन्धी पदोंका भङ्ग ओषके समान है । मनुष्यपर्याप्त-क्रमोंमें इसीप्रकार है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । मनुष्यनियोंमें इसीप्रकार है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । इतनी और विशेषता है कि जहाँ पर छह महीना अन्तर काल कहा है वहाँ पर वर्षपृथक्त्व कहना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्त-क्रमोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातभागहानि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सात नोकपायोंकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ४१०. अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा त्ति मिच्छं०-सम्म०-सम्माभि०-इत्थि०-णत्तुंसं० असंखे०भागहाणि० णत्थि अंतरं । अणंताणु०४ असंखेज्जभागहाणि० णत्थि अंतरं । असंखे०गुणहाणि० ज३० एगसं०, उक्कं वासपुधत्तं । सव्वट्ठे पल्लिदो० संखे०भागो । बारसकं०--पुरिसवे०--भय--दुगुंढं० असंखे०भागवट्ठि-हाणि० णत्थि अंतरं । अवट्ठि० जहं एगसं०, उक्कं असंखेज्जा लोगा । हस-रइ--अरइ--सोगायां असंखे०भागवट्ठि-हाणि० णत्थि अंतरं । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

§ ४११. भावानुगमेण दुविहो णिहेसो—ओवेण आदेसेण य । ओवेण अट्ठावीसं पयडीणं सव्वपदा त्ति को भावो ? ओदइओ भावो । एवं जाव अणाहारि त्ति ।

§ ४१२. अप्पाबहुआणुगमेण दुविहो णिहेसो—ओवेण आदेसेण य । ओवेण मिच्छत्त-अट्ठकं सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । अवट्ठि० अणंतगुणा । असंखे०-भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्ठि० संखे०गुणा । सम्मत-सम्माभि० सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । अवत्तं असंखे०गुणा । असंखेज्जगुणवट्ठि० असंखे०-गुणा । असंखे०भागवट्ठि० संखेज्जगुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा ।

§ ४१०. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तत्तके देवोंमें मिथ्यात्व, सन्यक्तत्व, सन्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्करी असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है । असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्क अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । मात्र सर्वार्थसिद्धिमें पत्यके असंख्यातवें भागप्रनाण है । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात-भागहानिका अन्तर काल नहीं है । अवस्थितविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्क अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । हास्य, रति, अरति और शोककी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका अन्तर काल नहीं है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार अन्तर काल समाप्त हुआ ।

§ ४११. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पदोंका कौन भाव है ? औदयिक भाव है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इसप्रकार भाव समाप्त हुआ ।

§ ४१२. अप्पाबहुआणुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे मिथ्यात्व और आठ कपायोंकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणें हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणें हैं । सन्यक्तत्व और सन्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव

अणंताणु०४ सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखे०गुणहाणि० असंखे०गुणा । संखे०-
 भागवट्ठि० असंखे०गुणा । संखे०गुणवट्ठि० संखे०गुणा । असंखे०गुणवट्ठि० असंखे०-
 गुणा । अवट्ठि० अणंतगुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्ठि०
 संखेज्जगुणा । तिण्हं संजलणाणं सव्वत्थोवा संखेज्जगुणवट्ठि० । असंखे०गुणहाणि०
 तत्तिया चैव । अवट्ठि० अणंतगुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०-
 भागवट्ठि० संखे०गुणा । लोभसंजलणाए सव्वत्थोवा संखे०गुणवट्ठि० । अवट्ठि०
 अणंतगुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्ठि० संखे०गुणा ।
 इत्थि० सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । असंखे०भागवट्ठि० अणंतगुणा । असंखे०-
 भागहाणि० संखे०गुणा । पुरिस० सव्वत्थोवा संखेज्जगुणवट्ठि० । असंखे०गुणहाणि०
 तत्तिया चैव । अवट्ठि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्ठि० अणंतगुणा । असंखे०-
 भागहाणि० संखे०गुणा । णवुंस० सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । असंखे०-
 भागहाणि० अणंतगुणा । असंखे०भागवट्ठि० संखे०गुणा । एवमरदि-सोगा० । णवरि
 असंखे०गुणहाणि० णत्थि । हस्स-रइ० सव्वत्थोवा असंखे०भागवट्ठि० । असंखे०-
 भागहाणि० संखे०गुणा । भय-दुयुंछा० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । असंखे०भागहा०

संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी
 अवक्कव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यातगुणे
 हैं । उनसे संख्यातभागवट्ठिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यातगुणवट्ठिवाले
 जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणवट्ठिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे
 अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव
 असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवट्ठिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । तीन संव्वलनोंकी
 संख्यातगुणवट्ठिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । असंख्यातगुणहानिवाले जीव उतने ही हैं । उनसे
 अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे
 हैं । उनसे असंख्यातभागवट्ठिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । लोभसंजलनकी संख्यातगुणवट्ठिवाले
 जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे असंख्यात-
 भागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवट्ठिवाले जीव संख्यातगुणे हैं ।
 स्त्रीवेदकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागवट्ठिवाले जीव
 अनन्तगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । पुरुषवेदकी संख्यातगुणवट्ठि-
 वाले जीव सबसे स्तोक हैं । असंख्यातगुणहानिवाले जीव उतने ही हैं । उनसे अवस्थितविभक्ति-
 वाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवट्ठिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे
 असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव
 सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे असंख्यातभाग-
 वट्ठिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार अरति और शोककी अपेक्षा अल्पबहुत्व है । इतनी
 विशेषता है कि असंख्यातगुणहानि नहीं है । हास्य और रतिकी असंख्यातभागवट्ठिवाले जीव
 सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । भय और जुगुप्साकी
 अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे

असंखे०गुणा । असंखे०भागवड्ढि० संखे०गुणा ।

§ ४१३. आदेशेण णेरइय० मिच्छत्त-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुंछा० सव्व-
त्थोवा अवट्ठि० । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवड्ढि० संखे०-
गुणा । णवरि पुरिस० वड्ढि-हाणीणं विवज्जासो कायव्वो । सम्भत्त-सम्भामि०
सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । अवत्त० असंखे०गुणा । असंखे०गुणवड्ढि० असंखे०-
गुणा । असंखे०भागवड्ढि० संखे०गुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा ।
अर्णताणु०४ सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखे०गुणहाणि० असंखे०गुणा । संखे०-
भागवड्ढि० असंखे०गुणा । संखे०गुणवड्ढि० संखे०गुणा । असंखे०गुणवड्ढि० असंखे०-
गुणा । अवट्ठि० असंखे०गुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०-
भागवड्ढि० संखेज्जगुणा । इत्थि-णत्तुंस०-चट्ठणोक० ओघं । णवरि इत्थि०-णत्तुंस०
असंखे०गुणहाणि० णत्थि । एवं सत्तसु पुट्ठवीसु पंचिदियतिरिक्ख०३ देवा भवणादि
जाव उवरिमगेवज्जा त्ति । णवरि आणदादिसु पुरिस० भयभंगो । णत्तुंसय० इत्थि०-
भंगो । मिच्छ०-अर्णताणु०४ वड्ढि-हाणीणं विवज्जासो च कायव्वो ।

हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ४१३. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी
अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे
हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदकी
वृद्धि और हानिका विपर्यास करना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यात-
गुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे
हैं । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव
संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्क-
की अवक्तव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यात-
गुणे हैं । उनसे संख्यातभागवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव
संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थित-
विभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे
असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंका भङ्ग
ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं
है । इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंमे तथा पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव और भवनवासियोंसे
लेकर उपरिम त्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि आनतादिकमें
पुरुषवेदका भङ्ग भयके समान है । नपुंसकवेदका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । तथा मिथ्यात्व और
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी वृद्धि और हानिका विपर्यास करना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ सामान्य नारकी आदिमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंका
भङ्ग ओघके समान जाननेकी सूचना की है सो जहाँ पर ओषमें अनन्तगुणा कहा है वहाँ पर
इन मार्गणाओमे असंख्यातगुणा करना चाहिए । ये सब मार्गणाएँ असंख्यात संख्यावाली होनेसे
मूलमे इस विशेषताका खुलासा नहीं किया है ।

§ ४१४. तिरिक्खवर्गई० तिरिक्खा० मिच्छत्त-वारसक० भय-दुग्गुंझा० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । असंखे० भागहाणि० असंखे० गुणा । असंखे० भागवट्ठि० संखे० गुणा । एवं पुरिस० । णवरि असंखे० भागवट्ठि० अणंतगुणा । सम्मत्त-सम्मामि०-अणंताणु० ४ ओघं । इत्थि०-णवुंस०-चट्ठणोक० णारयभंगो । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुग्गुंझा० सव्वत्थोवा अवट्ठि० । असंखे० भागहाणि० असंखे० गुणा । असंखे० भागवट्ठि० संखे० गुणा । सम्मत्त-सम्मामि० सव्वत्थोवा असंखे० गुणहाणि० । असंखे० भागहाणि० असंखे० गुणा । सत्तणोकसाय० णारयभंगो । णवरि पुरिस० अवट्ठि० णत्थि ।

§ ४१५. मणुसगई० मणुससा० मिच्छ०-अट्ठकसा० सव्वत्थोवा अ०संखे-गुणहाणि० । अवट्ठि० असंखे० गुणा । असंखे० भागहाणि० असंखे० गुणा । असंखे० भागवट्ठि० संखे० गुणा । सम्मत्त-सम्मामि० सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखे० गुणवट्ठि० संखे० गुणा । असंखे० भागवट्ठि० संखे० गुणा । असंखे० गुणहाणि० असंखे० गुणा । असंखे० भागहाणि० असंखे० गुणा । अणंताणुवंधिचउक्क० सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखे० गुणहाणि० संखे० गुणा । संखे० भागवट्ठि० संखे० गुणा । संखे० गुणवट्ठि० संखे० गुणा । असंखे० गुणवट्ठि० संखेज्जगुणा । अवट्ठि० असंखे० गुणा । असंखे०-

§ ४१४. तिर्यञ्जगतिमें तिर्यञ्जोमें मिथ्यात्व, वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं। इसी प्रकार पुरुषवेदकी अपेक्षा अल्पवहुत्व है। इतनी विशेषता है कि इसकी असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव अनन्तगुणें हैं। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग शोधके समान है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंका भङ्ग नारकियोंके समान है। पञ्चेंन्द्रिय तिर्यञ्ज अपर्याप्तकोमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं। सात नोकषायोंका भङ्ग नारकियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका अवस्थितपद नहीं है।

§ ४१५. मनुष्यगतिमें मनुष्योमें मिथ्यात्व और आठ कषायोंकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं। उनसे असंख्यात-भागहानिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अवकव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे असंख्यात गुणवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। उनसे असंख्यातगुणहानिवाले जीव असंख्यातगुणें हैं। उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यात-गुणें हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अवकव्यविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे असंख्यात-गुणहानिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। उनसे संख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। उनसे संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणें हैं। उनसे असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणें हैं।

भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवड्ढि० संखे०गुणा । तिण्हं संजळणाणं सव्वत्थोवा संखे०गुणवड्ढि० । असंखे०गुणहाणि० तत्तिया चेव । अवट्ढि० असंखे०गुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवड्ढि० संखे०गुणा । लोभसंजल्ल० सव्वत्थोवा संखे०गुणवड्ढि० । अवट्ढि० असंखे०गुणा । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवड्ढि० संखे०गुणा । इत्थि० सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । असंखे०भागवड्ढि० असंखेज्जगुणा । असंखे०भागहाणि० संखे०गुणा । एवं णवुंस० । णवरि वड्ढि-हाणीणं विवज्जासो कायव्वो । पुरिसवेद० सव्वत्थोवा संखे०गुणवड्ढि० । असंखे०गुणहाणि० तत्तिया चेव । अवट्ढि० संखे०गुणा । असंखे०भागवड्ढि० असंखे०गुणा । असंखे०भागहाणि० संखे०गुणा । चट्ठणोक्कसाय० ओघं । भय-दुग्गुअं सव्वत्थोवा अवट्ढि० । असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवड्ढि० संखेज्जगुणा । एवं मणुसपज्जत्ता० । णवरि जम्हि असंखे०गुणं तम्हि संखे०गुणं कायव्वं । इत्थि० हस्सभंगो । एवं चेव मणुसिणीसु । णवरि पुरिस०णवुंस० असंखे०गुणहाणि० णत्थि । मणुसअपज्ज० पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

§ ४१६. अणुदिसादि जाव अवराइद ति मिच्छत्त-सम्मत०-सम्मामि०-इत्थि०-

उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात भागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । तीनों संजल्लनोंकी संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । असंख्यातगुणहानिवाले जीव उतने ही हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात-भागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । लोभसंजल्लनकी संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यात-भागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेदकी असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार नपुंसकवेदकी अपेक्षा अल्पवहुत्व है । इतनी विशेषता है कि वृद्धि और हानिका विपर्यास करना चाहिए । पुरुषवेदकी संख्यातगुणवृद्धिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । असंख्यातगुणहानिवाले जीव उतने ही हैं । उनसे अवस्थितविभक्तिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । चार नोकषायोंका भङ्ग ओषके समान है । भय और जुगुप्साकी अवस्थित-विभक्तिवाले जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव संख्यातगुणे हैं । इसीप्रकार मनुष्य पर्याप्तकोमें अल्पवहुत्व है । इतनी विशेषता है कि जहाँ असंख्यातगुणा है वहाँ संख्यातगुणा करना चाहिए । मात्र स्त्रीवेदका भङ्ग हास्यके समान है । इसीप्रकार मनुष्यनियोगमें अल्पवहुत्व है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यातगुणहानि नहीं है । मनुष्य अपर्याप्तकोमें पञ्चेंन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है ।

§ ४१६. अनुदिशसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व,

णवुंस० रात्थि अप्पावहुअं । अणंताणु०४ सव्वत्थोवा असंखे०गुणहाणि० । असंखे०-
भागहाणि० असंखे०गुणा । वारसक०-पुरुस०-भय-दुगुंछं सव्वत्थोवा अवट्ठि० ।
असंखे०भागहाणि० असंखे०गुणा । असंखे०भागवट्ठि० संखे०गुणा । हस्स-रइ-
अरइ-सोगाणं ओघं । एवं सव्वट्ठे । णवरि सव्वत्थ संखेज्जगुणं कायव्वं । एवं जाव
अणाहारि ति णेदव्वं ।

तदो अप्पावहुए समत्ते वट्ठिविहत्ती समत्ता ।

पदणिकखेवविभागं वट्ठिविहत्तिं च किं चि सुत्तादो ।

वित्थरियं वित्थरदो सुत्तत्थविसारदो समत्थे तु ॥१॥

सो जयइ जस्स परमो अप्पावहुअं पि दव्व-पज्जायं ।

जाणइ णाणपुरंतो लोयालोएक्कदप्पणओ ॥२॥

❀ जहा उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं तथा संतकम्महाणाणि ।

§ ४१७. सामित्तादिअणियोगद्वारेहि जहा उक्कस्सपदेससंतकम्मं परुविदं तथा
पदेससंतकम्महाणाणि वि परुवेयव्वाणि, विसेसाभावादो । णवरि एत्थ तिण्णि
अणियोगद्वाराणि—परुवणा पमाणमप्पावहुए ति । तत्थ परुवणा सव्वकम्माणं जहण-
पदेससंतकम्महाणप्पहुट्ठि जाव उक्कस्सपदेससंतकम्महाणं ति ताव कमेण संतवियप्परुवणं ।

सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका अल्पबहुत्व नहीं है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी
असंख्यातगुणहानिवाले जीव सबसे स्तोके हैं। उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे
हैं। वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी अवस्थितविभक्तिवाले जीव सबसे स्तोके हैं।
उनसे असंख्यातभागहानिवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धिवाले जीव
संख्यातगुणे हैं। हास्य, रति, अरति और शोकका भङ्ग ओषके समान है। इसीप्रकार सर्वाथिसिद्धि
में अल्पबहुत्व है। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र संख्यातगुणा करना चाहिए। इसीप्रकार अनाहारक
मार्गणा तक ले जाना चाहिए।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त होनेपर वृद्धिविभक्ति समाप्त हुई।

जो सूत्रका अर्थ करनेमें विचारद और समर्थ हैं उन्होंने पदनिक्षेपविभक्ति और वृद्धि-
विभक्तिका सूत्रके अनुसार विस्तारसे कुछ व्याख्यान किया है ॥ १ ॥

जिनके ज्ञानरूपी पुरके भीतर लोकालोकरूपी एक उत्कृष्ट दर्पण अल्पबहुत्वको लिए हुए
समस्त द्रव्य और पर्यायोंको जानता है वे भगवान् जयवन्त हों ॥ २ ॥

❀ जिस प्रकार उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म है उसप्रकार सत्कर्मस्थान हैं ।

§ ४१७. स्वामित्व आदि अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर जिस प्रकार उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका
कथन किया है उसप्रकार प्रदेशसत्कर्मस्थानोंका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता
नहीं है। इतनी विशेषता है कि यहाँ पर तीन अनुयोगद्वार हैं—प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व।
उनसेसे सब कर्मोंके जघन्य प्रदेशसत्कर्मस्थानसे लेकर उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मस्थान तक क्रमसे

सा च जहणणसामित्तिविहाणेण परुविदा त्ति ण पुणो परुविज्जदे । अहवा सव्व-
कम्माणमत्थि पदेससंतकम्मट्टाणाणि त्ति संतपरुवणा परुवणा णाम । पमाणं सव्वेसिं
कम्माणमणंताणि पदेससंतकम्मट्टाणाणि त्ति । अप्पावहुअं जहा उक्कस्सपदेससंत-
कम्मस्स परुविदं तथा अणुणाहियमेत्थ परुवेयव्वं । एववरि जस्स कम्मस्स पदेसगं
विसेसाहियं तस्स पदेससंतकम्मट्टाणाणि विसेसाहियाणि, संखेज्जगुणस्स संखेज्जगुणाणि,
असंखेज्जगुणस्स असंखेज्जगुणाणि, अणंतगुणस्स अणंतगुणाणि त्ति आळावकओ
विसेसो । सेसं सुगमं । एवमेदेसु पदणिकखेव-वड्ढि-ट्टाणेसु सवित्थरं परुविदेसु
उत्तरपयडिपदेसविहत्ती समत्ता होदि ।

एवं पदेसविहत्ती समत्ता ।

भीणाभीणचूलिया

भाइय जिणिंदयंदं भाणाणळभीणघाइकम्मंसं ।

भीणाभीणहियारं जहोवएसं पयासेहं ॥ १ ॥

❀ एत्तो भीणमभीणं ति पदस्स विहासा कायव्वा ।

§ ४१८. एत्तो उवरि भीणमभीणं ति जं पदं तस्स विहासा कायव्वा त्ति

सत्कर्मके भेदोंका कथन करना प्ररूपणा है । परन्तु वह जघन्य स्वामित्वविधिके साथ कही गई है, इसलिए पुनः इसका कथन नहीं करते । अथवा सब कर्मोंके प्रदेशसत्कर्मस्थान हैं, इसलिए सत्कर्मोंकी प्ररूपणा करना प्ररूपणा है । प्रमाण—सब कर्मोंके अनन्त प्रदेशसत्कर्मस्थान हैं । अल्पबहुत्व—जिसप्रकार उच्छ्रष्ट प्रदेशसत्कर्मका कथन किया है उस प्रकार न्यूनाधिकतासे रहित यहाँ पर कथन करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जिस कर्मका प्रदेशात्र विशेष अधिक है उसके प्रदेशसत्कर्मस्थान विशेष अधिक है, संख्यातगुणके संख्यातगुणे हैं, असंख्यातगुणके असंख्यातगुणे हैं और अनन्तगुणके अनन्तगुणे हैं इसप्रकार कथनकृत विशेषता है । शेष कथन सुगम है । इसप्रकार इन पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थानोंका विस्तारके साथ कथन करनेपर उत्तरप्रकृति-प्रदेशविभक्ति समाप्त होती है ।

इसप्रकार प्रदेशविभक्ति समाप्त हुई ।

भीनाभीनचूलिका

जिन जिनेन्द्र चन्द्र या चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रने ध्यानरूपी अग्निके द्वारा घातिकर्मोंको विध्वस्त कर दिया है उनका ध्यान करके मैं (टीकाकार) भीनाभीन नामक अधिकारको उपदेशानुसार प्रकाशित करता हूँ ॥ १ ॥

❀ इससे आगे 'भीमभीणं' इस पदका विवरण करना चाहिये ।

§ ४१८. अब तक गाथामे आये हुए 'उक्कस्समणुक्कसं' इस पद तकका विवरण किया । अब इससे आगे जो 'भीणमभीणं' पद आया है उसका विवरण करना चाहिए इस प्रकार सूत्रार्थका सम्बन्ध है ।

सुत्तत्थसंबंधो । तत्थ का विहासा याम ? सुत्तेण सूचिदत्थस्स विसैसियूण भासा विहासा विवरणं ति वुत्तं होदि । पदेसविहत्तीए सवित्थरं परुविय समचाए किमद्वमेसो अहियारो ओदिण्णो त्ति ण पच्चवट्ठेयं, तिस्से चैव चूलियाभावेणेदस्सावयारब्धुवगमादो । कधमेसो पदेसविहत्तीए चूलिया त्ति वुत्ते वुत्तदे—तत्थ खलु उक्कड्डणाए उक्कस्सपदेससंचओ परुविदो ओक्कड्डणावसेण च खविदकम्मंसियम्मि जहण्णपदेससंचओ । तत्थ य कदमाए द्विदीए द्विदपदेसग्गुक्कड्डणाए ओक्कड्डणाए च पाओग्गमप्पाओग्गं वा त्ति ण एरिसो विसैसो सम्मभवहारिओ । तदो तस्स तहाविहसत्तिविरहाविरहलक्खणत्तेण पत्तभीणाभीणववएसस्स द्विदीओ अस्सिदूण परुवणद्वमेसो अहियारो ओदिण्णो त्ति चूलियाववएसो ण विरुज्जभदे ।

शंका—सूत्रमें आये हुए 'विभाषा' इस पदका क्या अर्थ है ?

समाधान—सूत्रसे जो अर्थ सूचित होता है उसका विशेष रूपसे विवरण करना विभाषा है यह इस पदका अर्थ है । विभाषाका अर्थ विवरण है यह इसका तात्पर्य है ।

यदि कोई ऐसी आशंका करे कि प्रदेशविभक्तिका विस्तारसे कथन हो लिया है, अतः इस अधिकारके कथन करनेकी क्या आवश्यकता है सो उसकी ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसीके चूलिका रूपसे यह अधिकार स्वीकार किया गया है ।

शंका—यह अधिकार प्रदेशविभक्ति अधिकारका चूलिका है सो कैसे ?

समाधान—प्रदेशविभक्तिका कथन करते समय उत्कर्षणके द्वारा उत्कृष्ट प्रदेशसंचयका भी कथन किया है और अपकर्षणके वशसे क्षुणित कर्मांशके जघन्य प्रदेशसञ्चयका भी कथन किया है । किन्तु वहाँ इस विशेषताका सम्यक् रीतिसे विचार नहीं किया गया है कि किस स्थितिमें स्थित कर्म उत्कर्षण और अपकर्षणके योग्य हैं तथा किस स्थितिमें स्थित कर्म उत्कर्षण और अपकर्षणके अयोग्य हैं, तथापि इसका विचार किया जाना आवश्यक है अतः इसप्रकारकी शक्तिके सद्भाव और असद्भावके कारण भौनाभौन इस संज्ञाको प्राप्त हुए कर्मपरमाणुओंका स्थितियोंकी अपेक्षा कथन करनेके लिए यह अधिकार आया है, इसलिये इसे चूलिका कहनेमें कोई विरोध नहीं है ।

विशेषार्थ—पूर्वमें प्रदेशविभक्तिका विस्तारसे विवेचन किया है । तथापि उससे यह ज्ञात न हो सका कि सत्तामें स्थित कर्मपरमाणुओंमेंसे कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदयके योग्य हैं और कौनसे कर्मपरमाणु इनके अयोग्य हैं । इसीप्रकार इससे यह भी ज्ञात न हो सका कि इन कर्मपरमाणुओंमेंसे कौनसे कर्मपरमाणु उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त हैं, कौनसे कर्मपरमाणु निषेकस्थिति प्राप्त हैं, कौनसे कर्मपरमाणु अधःनिषेकस्थितिप्राप्त हैं और कौनसे कर्मपरमाणु उदयस्थितिप्राप्त हैं । परन्तु इन सब बातोंका ज्ञान करना आवश्यक है, इसीलिए प्रदेशविभक्तिके चूलिकारूपसे भौनाभौन और स्थितिग ये दो अधिकार आये हैं । चूलिकाका अर्थ है पूर्वमें कहे गये किसी विषयके सम्बन्धमें विशेष वक्तव्य । आशय यह है कि पूर्वमें जिस विषयका वर्णन कर चुकते हैं उसमें बहुतसी ऐसी बातें छूट जाती हैं जिनका कथन करना आवश्यक रहता है या जिनका कथन किये बिना उस विषयकी पूरी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिये इन सब बातोंका खुलासा करनेके लिये एक या एकसे अधिक स्वतन्त्र अधिकार रचे जाते हैं जिनका पूर्व

§ ४१६. एत्थ चत्तारि अणियोगहाराणि सुत्तसिद्धाणि । तं जहा—समुक्तिषणा परूवणा सामित्तमप्पाबहुअं चेदि । तत्थ समुक्तिषणा णाम मोहणीयसन्वपयडीण-मुक्कड्डणादीहि चउहि भीष्णाभीष्णद्विदियस्स पदेसग्गस्स अत्थित्तमेत्तपरूवणा । तत्थरूवणद्व-मुत्तरपुच्छामुत्तेण अवसरो कीरदे—

❀ तं जहा ।

§ ४२०. सुगममेदं पुच्छामुत्तं ।

❀ अत्थि ओकड्डणादो भीष्णद्विदियं उक्कड्डणादो भीष्णद्विदियं संक्रमणादो भीष्णद्विदियं उदयादो भीष्णद्विदियं ।

§ ४२१. एत्थ ताव सुत्तस्सेदस्स पढममवयवत्थविवरणं कस्सामो । 'अत्थि'सदो आदिदीवयभावेण चउण्हं पि सुत्तावयवाणं वावओ त्ति पादेवकं संवयणिज्जो । ओकड्डणा णाम परिणामविसेसेण कम्मपदेसाणं द्विदीए दहरीकरणं । तदो भीष्णा अप्पाओग्गभावेण अवद्विदा द्विदी जस्स पदेसग्गस्स तमोकड्डणादो भीष्णद्विदियं

अधिकारसे सम्बन्ध रहता है वे सब अधिकार चूलिका कहलाते हैं। प्रकृतमें प्रदेशविभक्तिका कथन किया जा चुका है किन्तु उसमें ऐसी बहुतसी बातें रह गई हैं जिनका निर्देश करना आवश्यक था। इसीकी पूर्तिके लिये भीष्णाभीष्ण और स्थितिग ये दो चूलिका अधिकार आये हैं।

§ ४१६. इस भीष्णाभीष्ण नामक चूलिकामें चार अनुयोगद्वार हैं जो आगे कहे जानेवाले सूत्रोंसे ही सिद्ध हैं। वे ये हैं—समुत्कीर्तना, मरूपणा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व। यहाँ समुत्कीर्तनाका अर्थ है मोहनीयकी सब प्रकृतियोंके उत्कर्षण आदि चारकी अपेक्षा भीष्णाभीष्ण स्थितिवाले कर्म परमाणुओंके अस्तित्वमात्रका कथन करना। अब इसका कथन करनेके लिये आगेका पृच्छासूत्र कहते हैं—

* जैसे—

§ ४२०. यह पृच्छासूत्र सुगम है।

* अपकर्षणसे भीष्ण स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं, उत्कर्षणसे भीष्ण स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं, संक्रमणसे भीष्ण स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं और उदयसे भीष्ण स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं। आशय यह है कि ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनका अपकर्षण नहीं हो सकता, ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनका उत्कर्षण नहीं हो सकता, ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनका संक्रमण नहीं हो सकता और ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जो उदयप्राप्त होनेसे जिनका पुनः उदय नहीं हो सकता।

§ ४२१. यहाँ अब सबसे पहले इस सूत्रमें जो 'अत्थि' पद आया है उसका खुलासा करते हैं। 'अत्थि' पद आदिदीपक होनेसे वह सूत्रके चारों ही अवयवोंसे सम्बन्ध रहता है, इसलिये उसे प्रत्येक अवयवके साथ जोड़ लेना चाहिये।

ओकड्डणादो भीष्णद्विदियं—परिणामविशेषके कारण कर्मपरमाणुओंकी स्थितिका क्म करना अपकर्षणा है। जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति अपकर्षणसे भीष्ण अर्थात् अपकर्षणके अयोग्य रूपसे स्थित है वे अपकर्षणसे भीष्ण स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं। यह अवस्था यथायोग्य

सञ्चक्रम्माणमत्थि । अहवा ओकङ्कणादो भ्नीणा परिहीणा जा द्विदी तं गच्छदि ति ओकङ्कणादो भ्नीणद्विदियमिदि समासो कायव्वो । एवमुवरि सञ्चत्थ । दहरद्विद्विद्वि-पदेसग्गाणं द्विदीए परिणामविसेसेण वड्ढावणमुकङ्कणा णाम । तत्तो भ्नीणा द्विदी जस्स तं पदेसग्गं सञ्चपयडीणमत्थि । संकमादो समयविरोहेण एयवयविविद्विद्विपदेसाणं अण-पयडिसरूवेण परिणमणलक्खणादो भ्नीणा द्विदी जस्स तं पि पदेसग्गमत्थि सञ्चेसि कम्माणं । उदयादो कम्माणं फलप्पदाणलक्खणादो भ्नीणा द्विदी जस्स पदेसग्गस तं च सञ्चकम्माणमत्थि ति । एत्थ सुत्तसमत्तीए 'चेदि'सदो किमडुं ण पवुत्तो ? ण, सुत्तमेत्तियमेत्तं चेव ण होदि, किंतु अणं पि अञ्जाहारिज्जमाणमत्थि । तदो तस्स समत्तीए 'चेदि'सदो अञ्जाहारेयव्वो ति जाणावणडुं वक्कपरिसमत्तीए अकरणादो । किं तमञ्जाहारिज्जमाणं सुत्तसेसमिदि चे वुच्चदे—ओकङ्कणादो अभीणद्विदियं उक्कङ्कणादो अभीणद्विदियं संकमणादो अभीणद्विदियं उदयादो अभीणद्विदियं चेदि ति । कधमेदमण्णहा भ्नीणाभीणाणं परव्वयसुत्तं हवेज्ज । सुत्ते पुण एसो अञ्जाहारो सामत्थियलद्धो चि ण णिद्विद्वो ।

सब कर्मोंमें सम्भव है । अथवा 'भीणद्विदियं' का संस्कृतरूप 'भीनस्थितिर्ण' भी होता है । इसलिये ऐसा समास करना चाहिए कि जो कर्म परमाणु अपकर्षणसे रहित स्थितिको प्राप्त हैं वे अपकर्षणसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं । इसीप्रकार आगे सर्वत्र सब पदोंका दो प्रकारसे कथन करना चाहिये ।

उक्कङ्कणादो भीणद्विदियं—परिणाम विशेषके कारण अल्पस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंकी स्थितिका वढ़ाना उत्कर्षणा है । सब प्रकृतियोंमें ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनकी स्थिति उत्कर्षणके अयोग्य है ।

संकमणादो भीणद्विदियं—जैसा आगममें बतलाया है तदनुसार एक प्रकृतिके स्थितिगत कर्मपरमाणुओंका अन्य सजातीय प्रकृतिरूप परिणमना संक्रमण है । सब कर्मोंमें ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनकी स्थिति संक्रमणके अयोग्य है, इसलिये वे संक्रमणसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं ।

उदयादो भीणद्विदियं—कर्मोंका फल देना उदय है । सब कर्मोंमें ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जिनकी स्थिति उदयके अयोग्य है, इसलिये वे उदयसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं ।

शंका—यहाँ सूत्रके अन्तमें 'चेदि' शब्द क्यों नहीं रखा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सूत्र केवल इतना ही नहीं है किन्तु और भी अध्याहार करने योग्य है और तब जाकर उस अध्याहृत वाक्यके अन्तमें 'चेदि' शब्दका अध्याहार करना चाहिये । इसप्रकार यह बात बतलानेके लिए सूत्रवाक्यको समास न करके यों ही छोड़ दिया है ।

शंका—सूत्रका वह कौनसा अंश शेष है जो अध्याहार करने योग्य है ?

समाधान—'ओकङ्कणादो अभीणद्विदियं उक्कङ्कणादो अभीणद्विदियं संकमणादो अभीणद्विदियं उदयादो अभीणद्विदियं चेदि' यह वाक्य है जो अध्याहार करने योग्य है ।

यदि ऐसा न माना जाय तो यह सूत्र भीनाभीन दोनोंका प्ररूपक कैसे हो सकता है । तथापि इतना अध्याहार सामर्थ्यलभ्य है, इसलिये इसका सूत्रमें निर्देश नहीं किया ।

§ ४२२. संपदि समुक्चित्ताणियोगद्वारेण समुक्चित्ताणमेदेसि सरूवविसय-
गेण्णयजणणट्ट' परूवणाणिओगद्वारं परूवयमाणो जहा उदो सो तहा णिदो सो ति
णाएण पहिल्लमेव ताव ओकड्डणादो भीणट्टिदियं सपडिवक्खमासंकासुत्तेण
.चावसरं करोदि—

❀ ओकड्डणादो भीणट्टिदियं णाम किं ?

§ ४२३. अत्थि ओकड्डणादो भीणट्टिदिगमिदि पुवं समुक्चित्तिदं । तत्थ
कदममोकड्डणादो भीणट्टिदियं ? किमविसेसेण सव्वट्टिदिट्टिदपदेसग्गमाहो अत्थि को वि
विसेसो ति एसो एदस्स भावत्थो । एवमासंकिय तत्थिविसेसपरूवणणट्टमुत्तरसुत्तं भणइ—

❀ जं कम्ममुदयावलिपवभंतरे ट्ठियं तमोकड्डणादो भीणट्टिदियं । जसु-
दयावलिपवाहिरे ट्ठिदं तमोकड्डणादो अज्भीणट्टिदियं ।

विशेषार्थ—भीनाभीन अधिकारका समुत्कीर्तना, ऋरूपणा, स्वाभित्व और अल्पबहुत्व
इन चार उपअधिकारों द्वारा वर्णन किया गया है। इन चारोंका अर्थ स्पष्ट है। यहाँ सर्वप्रथम
समुत्कीर्तनाका निर्देश करते हुए चूणिसूत्रकारने यह बतलाया है कि मोहनीयकी सब प्रकृतियोंमें
ऐसे बहुतसे कर्मपरमाणु हैं जो यथासम्भव अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदयके अयोग्य हैं।
तथा बहुतसे ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जो यथासम्भव इनके योग्य भी हैं। यहाँ सूत्रमें यद्यपि
सूत्रकारने अपर्षण आदिके अयोग्य परमाणुओंके होनेकी सूचना की है तथापि इस अधिकारका
नाम भीनाभीन होनेसे यह भी सूचित हो जाता है कि बहुतसे ऐसे भी कर्मपरमाणु हैं जो अपकर्षण
आदिके योग्य भी हैं। यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

§ ४२२. अब समुत्कीर्तना अनुयोगद्वारके द्वारा कहे गये इनके स्वरूप विषयक निर्णयका
ज्ञान करानेके लिए ऋरूपणा अनुयोगद्वारका कथन करते हैं। उसमें भी उद्देश्यके अनुसार
निर्देश किया जाता है इस न्यायके अनुसार सर्वप्रथम आंशकासूत्रद्वारा अपने प्रतिपक्षभूत कर्मके
साथ अपकर्षणसे भीन-स्थितिवाले कर्मके कथन करनेकी सूचना करते हैं—

❀ वे कौनसे कर्मपरमाणु हैं जो अपकर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४२३. अपकर्षणसे भीन (रहित) स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं यह पहले कह आये हैं ।
अब इस विषयमें यह प्रश्न है कि वे कौनसे कर्मपरमाणु हैं जो अपकर्षणसे भीन स्थितिवाले
हैं । क्या सामान्यसे सब स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाणु ऐसे हैं या कुछ विशेषता है यह
इस सूत्रका भाव है । ऐसी आशंका कर अब उस विशेषताका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र
कहते हैं—

❀ जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे अपकर्षणसे भीन स्थिति-
वाले हैं और जो कर्मपरमाणु उदयावलिके बाहर स्थित हैं वे अपकर्षणसे अभीन
स्थितिवाले हैं । अर्थात् उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण नहीं
होता किन्तु उदयावलिके बाहर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण हो सकता है ।

§ ४२४. एत्थ जं कम्ममिदि वुत्ते जो कम्मपदेसो ति घेतव्वं । उदयावलिया ति उदयसमयप्पहुडि आवलियमेत्तट्टिदीणमुत्तावलियायारेण ट्टिदाणं सण्णा । कुदो ? उदयसहस्स उवलक्खणभावेण ठविदत्तादो । तदम्भंतरे ट्टिदं जं पदेसगं तमोकङ्कणादो भीणट्टिदिगं । ण एदस्स ट्टिदीए ओकङ्कणमत्थि ति भावत्थो । कुदो ? सहावदो । एरिसो एदस्स सहावो ति कत्तो णव्वदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । जं पुण उदयावलियवाहिरे ट्टिदं पदेसगं तमोकङ्कणादो अज्भीणट्टिदिगमिदि एदेण सुत्तावयवेण उदयावलियवाहिरासेसट्टिदिट्टिदपदेसगं सव्वमोकङ्कणापाओग्गमिदि वुत्तं होदि । एत्थ चोदओ भणदि—उदयावलियवाहिरे वि ओकङ्कणादो ज्भीणट्टिदियमप्पसत्थउवसामणा-णिघत्तीकरण-णिकाचनाकरणेहि अत्थि चेव जाव दंसणचरित्तमोहक्खवगुवसामयअपुव्वकरणचरिमसमओ ति तदो किं वुच्चदे उदयावलियवाहिरट्टिदिट्टिदपदेसगमोकङ्कणादो अज्भीणट्टिदियमिदि ? एत्थ परिहारो वुच्चदे—जिस्से ट्टिदीए पदेसगस्स ओकङ्कणा अच्चंतं ण संबवइ सा ट्टिदी ओकङ्कणादो भीणा वुच्चइ, तिस्से अचंताभावेण पडिग्गहियत्तादो । ण च णिकाचिदपरमाणूणमेवविहो णियमो अत्थि, अपुव्वकरण-

§ ४२४. यहाँ सूत्रमें जो 'जं कम्मं' ऐसा कहा है सो उससे 'जो कर्मपरमाणु' ऐसा अर्थ लेना चाहिये । जो उदय समयसे लेकर आवलिप्रमाण स्थितियों सुत्तावलिके समान स्थित हैं उनकी उदयावलि यह संज्ञा है, क्योंकि ये सब स्थितियाँ उपलक्षणरूपसे उदयप्राप्त स्थितिके साथ स्थापित हैं । इस उदयावलिके भीतर जो कर्मपरमाणु स्थित हैं वे अपकर्षणसे मीन स्थितिवाले हैं । इस उदयावलिप्रमाण स्थितियोंका अपकर्षण नहीं होता यह इस सूत्रका भाव है ।

शंका—उदयावलिप्रमाण स्थितियोंका अपकर्षण क्यों नहीं होता ?

समाधान—क्योंकि ऐसा स्वभाव है ।

शंका—इसका ऐसा स्वभाव है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है ।

किन्तु जो कर्मपरमाणु उदयावलिके बाहर स्थित हैं वे अपकर्षणसे अमीन स्थितिवाले हैं । इसप्रकार सूत्रके इस दूसरे वाक्यद्वारा यह कहा गया है कि उदयावलिके बाहर समस्त स्थितियोंमें स्थित जितने कर्मपरमाणु हैं वे सब अपकर्षणके योग्य हैं ।

शंका—यहाँ पर शंकाकार कहता है कि उदयावलिके बाहर भी अग्रशस्त उपशामना, निघत्तीकरण और निकाचनाकरणके सम्बन्धसे ऐसे कर्मपरमाणु बच रहते हैं जो अपकर्षणके अयोग्य हैं । और इनकी यह अयोग्यता दर्शनमोहनीय या चरित्रमोहनीयकी लक्षण या उपशमना करनेवाले जीवके अपूर्वकरणके अन्तिम समय तक बनी रहती है, तब फिर यह क्यों कहा जाता है कि उदयावलिके बाहरकी स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाणु अपकर्षणके योग्य हैं ।

समाधान—जिस स्थितिके कर्मपरमाणुओंकी अपकर्षणा विलङ्घल ही सम्भव नहीं, केवल वही स्थिति 'यहाँ अपकर्षणके अयोग्य कही गई है, क्योंकि यहाँ ऐसे कर्मपरमाणुओंकी अपकर्षणाका निषेध किया है जो किसी भी हालतमें सम्भव नहीं है । किन्तु निकाचित आदि अवस्थाको प्राप्त हुए कर्मपरमाणुओंका ऐसा नियम तो है नहीं, क्योंकि वे कर्मपरमाणु अपूर्वकरण

सचरिमसमयादो उचरि तेसिमोकड्डणादिपाओगभावेण पडिणिययकालपडिवद्धाए ओकड्डणादीणमणागमणपइज्जाए अणुवलंभादो । एदेण सासणसम्माइट्ठिमि दंसण-
तियस्स उक्कड्डणादीहितो भीणट्ठिदियत्तसंभवविप्पडिवत्ती णिराकरिया, तत्थ धि सच्च-
कालमणागमणपइज्जाए अभावादो । एत्थ मिच्छत्तादिपयडिविसेसणिइसं काऊण
परूवणा किमदं ण कीरदे ? ण, विसेसविवक्खमकाऊण मूलुत्तरपयडीणं साहारण-
सरूवेण अट्टपदस्स परूवणादो । ण च सामण्णे परूविदे विसेसा अपरूविदा णाम,
तेसिं ततो पुषभूदाणमणुवलंभादो । तदो एत्थ पादेवकं सव्वपयडीणमेसा अट्टपद-
परूवणा वित्थरुइसिस्साणुगहदं कायव्वा ।

के अन्तिम समयके बाद अनिष्टिकरणमें अपकर्षणा आदिके योग्य हो जाते हैं और तब फिर उनकी अपकर्षणा आदिको नहीं प्राप्त होनेकी जो प्रतिनियत काल तककी प्रतिज्ञा है वह भी नहीं रहती ।

इस कथनसे सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमे दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंकी स्थितिकी उत्कर्षणा आदि सम्भव नहीं होनेसे जो विप्रतिपत्ति उत्पन्न होती है उसका भी निराकरण कर दिया, क्योंकि उनमें भी उत्कर्षण आदिके नहीं होनेकी प्रतिज्ञा सदा नहीं पाई जाती ।

शंका—इस सूत्रमें मिथ्यात्व आदि प्रकृतिविशेषका निर्देश करके कथन क्यों नहीं किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यहाँ विशेष कथनकी विवक्षा न करके जो मूल और उत्तर प्रकृतियोंमें साधारण है ऐसे अर्थपदका निर्देश किया है और सामान्यकी प्ररूपणामें विशेषकी प्ररूपणा अग्ररूपित नहीं रहती, क्योंकि विशेष सामान्यसे पृथक् नहीं पाये जाते । किन्तु जो शिष्य विस्तारसे समझनेकी रुचि रखते हैं उनके उपकारके लिए यही अर्थपद प्ररूपणा सब प्रकृतियोंकी पृथक् पृथक् करनी चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँपर यह बतलाया है कि कौन कर्मपरमाणु अपकर्षणके अयोग्य हैं और कौन कर्मपरमाणु अपकर्षणके योग्य हैं । एक ऐसा नियम है कि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणु सकल करणोंके अयोग्य होते हैं । अर्थात् उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण आदि कुछ भी सम्भव नहीं है, उनका स्वमुख से या परमुखसे केवल उदय ही होता है, इसलिए इस परसे यह निष्कर्ष निकला कि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणु अपकर्षणके अयोग्य हैं, हाँ उदयावलिके बाहर जो कर्मपरमाणु स्थित हैं उनका अपकर्षण अवश्य हो सकता है । इसीलिए चूर्णिसूत्रकारने अपकर्षणके विषयमें यह नियम बनाया है कि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणु अपकर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं और उदयावलिके बाहर स्थित कर्मपरमाणु अपकर्षणसे अभीन स्थितिवाले हैं । तब भी यह प्रश्न तो है ही कि उदयावलिके बाहर स्थित सब कर्मपरमाणु अपकर्षणके योग्य ही होते हैं ऐसा एकान्त नियम तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि उदयावलिके बाहर स्थित जिन कर्मपरमाणुओंकी अप्रशस्त उपशम, निधत्तीकरण और निकाचना-करण ये अवस्थाएँ हैं उनका अपकर्षण नहीं होता । इसीप्रकार सासादन गुणस्थानमें भी दर्शनमोहनीयकी तीनों प्रकृतियोंका अपकर्षण नहीं होता, इसलिये चूर्णिसूत्रकारने जो यह कहा है कि उदयावलिके बाहर स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण हो सकता है सो उनका ऐसा कथन

§ ४२५. संपहि उकड्डणादो भीणट्टिदियं सपडिवक्खं पस्खयमाणो सुत्तयारो पुच्छासुत्तेण पत्थावमारभेइ—

❀ उकड्डणादो भीणट्टिदियं णाम किं ?

§ ४२६. एत्थ उकड्डणादो अजभीणट्टिदियं णाम किमिदि वक्खसेसो कायव्वो । सेसं सुगमं । एवं पुच्छिदत्थविसए णिण्णयजणणट्टमुत्तरसुत्तकलावं भणइ—

❀ जं ताव उदयावलियपविट्ठं तं ताव उकड्डणादो भीणट्टिदियं ।

§ ४२७. कुदो एदस्स उदयावलियपविट्टस्स उकड्डणादो भीणट्टिदियत्तं ? सहावदो । को एत्थ सहावो णाम ? अच्चंताभावो । एदमेवमप्पवण्णणिज्जित्तादो

करना उचित नहीं है । इस प्रश्नका जो समाधान किया गया है उसका भाव यह है कि जो कर्मपरमाणु अप्रशस्त उपशामना, निधत्तोकरण या निकाचनाकरण अवस्थाको प्राप्त हैं उनकी वह अवस्था सदा नहीं बनी रहती है । किन्तु अनिवृत्तिकरणमे जाकर वह समाप्त हो जाती है और पहले जिनका अपकर्षण नहीं होता रहा अब उनका अपकर्षण होने लगता है । इसी प्रकार सासादनगुणस्थानका काल निकल जानेपर सासादनमे जिनका अपकर्षण नहीं होता रहा उनका तदनन्तर अपकर्षण होने लगता है, इसलिये उदयावलिके बाहर स्थित कर्मपरमाणुओंको निरपवादरूपसे अपकर्षणके अयोग्य कहनेमे कोई आपत्ति नहीं है । यहां पर एक शंका और उठाई गई है कि अपकर्षणके योग्य और अयोग्य कर्मपरमाणुओंका कथन करते समय कर्म विशेषका निर्देश क्यों नहीं किया । अर्थात् यह क्यों नहीं बतलाया कि इस प्रकारकी अवस्था मोहनीयके किन किन कर्मोंमें पैदा होती है । इस शंकाका वीरसेन स्वामीने जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि यहां जो सामान्य नियम बांधा गया है वह निरपवादरूपसे सब कर्मोंमें सम्भव है, इसलिये उसका प्रत्येक कर्मकी अपेक्षासे कथन नहीं किया है । तथापि जो शिष्य विस्तारसे समझना चाहते हैं उनके लिये इसी नियमका प्रत्येक कर्मकी अपेक्षासे कथन करनेमें कोई आपत्ति नहीं है ।

§ ४२५. अब चुणिसूत्रकार अपने प्रतिपन्नभूत कर्मपरमाणुओंके साथ उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके कथन करनेकी इच्छासे पुच्छासूत्रद्वारा उसके कथन करनेका प्रस्ताव करते हैं—

❀ वे कौनसे कर्मपरमाणु हैं जो उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४२६. इस सूत्रमें 'वे कौनसे कर्मपरमाणु हैं जो उत्कर्षणसे अभीन स्थितिवाले हैं' इतना वाक्य और जोड़ देना चाहिये । शेष कथन सुगम है । इस प्रकार पूछे गये अर्थके विषयमें निर्णय करनेके लिये आगेके सूत्रकलापको कहते हैं—

❀ जो कर्म उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४२७. शंका—जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले क्यों हैं ?

समाधान—स्वभावसे ।

शंका—यहाँ स्वभावसे क्या अभिप्रेत है ?

समाधान—अत्यन्ताभाव । अर्थात् उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंमें उत्कर्षण

सुगमत्तादो च सिद्धसरूवेण परुविय संपहि उदयावलियबाहिरे वि उक्कड्डणाए अप्पाओगपदेसस्स गिदरिसणं परुवेमाणो तदत्थित्ते पडजं करोदि—

❀ उदयावलियबाहिरे वि अत्थि पदेसग्गमुक्कड्डणादो भीणद्धिदियं । तस्स गिदरिसणं । तं जहा ।

§ ४२८. एदं पुच्छासुत्तं गिदंसणविसयं सुगमं । एवं पुच्छिदे गिरुद्धिदि-
परुवणद्वसुत्तरसुत्तं भणइ—

❀ जा समयाहियाए उदयावलियाए द्विदी एदिस्से द्विदीए जं पदेसग्गं तमादिदं ।

§ ४२९. एत्थ समयाहियाए उदयावलियाए चरिमसमए द्विदा जा द्विदी
णाणासमयपवद्धपिया एदिस्से द्विदीए जं पदेसग्गं तमादिदं विवक्खियमिदि सुत्तथ-
संबंधो कायव्वो ।

होनेकी योग्यताका अत्यन्त अभाव है ।

इसप्रकार यह कथन अल्प होनेसे या सुगम होनेसे इसका सिद्ध रूप पहले बतलाकर अब उदयावलिके बाहर भी उत्कर्षणके अयोग्य कर्मपरमाणुओंको उदाहरण द्वारा दिखलाते हुए पहले उनके अस्तित्वकी प्रतिज्ञा करते हैं—

❀ उदयावलिके बाहर भी उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं । उनका उदाहरण । जैसे—

§ ४२८. यह उदाहरणविषयक पृच्छासूत्र है, जो सुगम है । ऐसा पूछनेपर उससे निरुद्ध स्थितिका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ एक समय अधिक उदयावलिके अन्तमें जो स्थिति स्थित है उस स्थितिके जो कर्मपरमाणु हैं वे यहाँ उदाहरणरूपसे विवक्षित हैं ।

§ ४२९. एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयमें नाना समयप्रवृद्धोंसे सम्बन्ध रखनेवाली जो स्थिति स्थित है और उस स्थितिमें स्थित जो कर्मपरमाणु हैं वे यहाँ आदिष्ट अर्थात् विवक्षित हैं ऐसा इस सूत्रके अर्थका सम्बन्ध करना चाहिए ।

विशेषार्थ—जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति कम है उनकी तत्काल बँधनवाले कर्मके सम्बन्ध

से स्थितिका बढ़ाना उत्कर्षण है । यह उत्कर्षण उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंका तो होता ही नहीं, क्योंकि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणुओंके स्वसुख या परसुखके होनेवाले उदयको छोड़कर अन्य कोई अवस्था नहीं होती ऐसा नियम है । इसके साथ उदयावलिके बाहर जो कर्मपरमाणु स्थित हैं उनमें भी वहुतोंका उत्कर्षण नहीं हो सकता । प्रकृतमें यही बतलाना है कि वे कौनसे कर्मपरमाणु हैं जिनका उत्कर्षण नहीं हो सकता । इसके लिए सर्वप्रथम उदयावलिके बाहर प्रथम स्थितिमें स्थित कर्मपरमाणु यहाँ उदाहरणरूपसे लिये गये हैं । उदयावलिके बाहर प्रथम स्थितिमें स्थित उन सब कर्मपरमाणुओंमें यह विवेक करना है कि उनमें ऐसे कौनसे कर्मपरमाणु हैं जिनका उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि वे कर्मपरमाणु नाना समयप्रवृद्धसम्बन्धी हैं । इसलिए उनमेंसे कुछ कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण हो सकता है और कुछका नहीं ।

§ ४३०. एत्थतणपदेसग्गं कम्मट्ठिदियब्भंतरे संचिदाणेगसमयपवद्धपट्ठिवद्ध-
मत्थि किं तं सच्चमेव उक्कड्डणाए अप्पाओग्गमाहो अत्थि को इ विसेसो ति आसंका-
णिरायरणद्वमुत्तरसुत्तमोयरइ—

✽ तस्स पदेसग्गस्स जइ समयाहियाए आवल्लियाए ऊणिया कम्म-
ट्ठिदी विदिककंता वद्धस्स तं कम्मं ण सक्खा उक्कड्डिटुं ।

§ ४३१. तस्स णिरुद्धट्ठिदीए पदेसग्गस्स जइ समयाहियाए आवल्लियाए
ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिककंता वद्धस्स बंधसमयादो पहुडि तं कम्मं णो सक्खा
उक्कड्डिटुं, सत्तिट्ठिदीए तत्तो उवरि एगसमयमेत्तस्स वि अभावादो । ण च उदयसमए
ट्ठिदो जीवो उदयावल्लियवाहिराणंतरट्ठिदिपदेसग्गमुच्चरिदतेत्तियमेत्तकम्मट्ठिदिय-
मुक्कड्डिटुं समत्थो, उक्कड्डणापाओग्गभावस्स कम्मट्ठिदिपरिहाणीए विणट्ठत्तादो । तदो
एदमुक्कड्डणादो भ्नीणट्ठिदियमिदि एसो सुत्तस्स भावत्थो ।

§ ४३०. इस पूर्वोक्त स्थितिके कर्मपरमाणु कर्मस्थितिके भीतर सञ्चित हुए अनेक समय-
प्रबद्धसम्बन्धी हैं सो क्या वे सबके सब उत्कर्षणके अयोग्य हैं या इनमें कोई विशेषता है? इस
प्रकार इस आशंकाके निराकरण करनेके लिए आगेका सूत्र आया है—

✽ किन्तु उन कर्म परमाणुओंकी बन्ध समयसे लेकर यदि एक समय अधिक
एक आवल्लिसे न्यून सब कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है तो उन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण
नहीं हो सकता ।

§ ४३१. पहले उदाहरणरूपसे जिस स्थितिका निर्देश किया है उसके उन कर्मपरमाणुओंकी
वद्धस्स अर्थात् बन्धके समयसे लेकर यदि एक समय अधिक एक आवल्लिसे न्यून शेष सब
कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है तो उन कर्म परमाणुओंका उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी
उस स्थितिसे अधिक एक समयमात्र भी शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती। और उदय समयमें
स्थित हुआ जीव उदयावल्लिके बाहर अनन्तर समयवर्ती स्थितिके ऐसे कर्म परमाणुओंका,
जिनकी कर्मस्थिति उतनी ही अर्थात् एक समय अधिक उदयावल्लि प्रमाण ही शेष रही है,
उत्कर्षण करनेमें समर्थ नहीं हो सकता; क्योंकि कर्मस्थितिकी दानि हो जानेसे उन कर्म
परमाणुओंके उत्कर्षणकी योग्यता ही नष्ट हो गई है, इसलिये ये कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भ्नीन
स्थितिवाले हैं यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

विशेषार्थ—यह तो पहले ही बतला आये हैं कि उत्कर्षण सब कर्म परमाणुओंका न
होकर कुछका होता है और कुछका नहीं होता। जिनका नहीं होता उनका संक्षेपमें व्योरा
इस प्रकार है—

१—उदयावल्लिके भीतर स्थित कर्म परमाणुओंका उत्कर्षण नहीं होता ।

२—उदयावल्लिके बाहर भी सत्तामें स्थित जिन कर्मपरमाणुओंकी कर्मस्थिति उत्कर्षणके
समय बंधनेवाले कर्मोंकी आबाधाके बराबर या इससे कम शेष रही है उनका भी उत्कर्षण
नहीं होता ।

३—निर्व्याघात द्रशामें उत्कर्षणको प्राप्त होनेवाले कर्म परमाणुओंकी अतिस्थापना कमसे

§ ४३२. तिस्से चेष गिरुद्धिदीए अपणं पि पदेसगमोकड्डणादो परिहीण-
द्विदियमत्थि चि परवृत्तम्वरिभसुत्तमोड्डणं —

❀ तस्सेव पदेसगसस जइ वि दुसमयाहियाए आवलिघाए ऊणिया
कम्मद्विदी विदिककंना तं पि उक्कड्डणादो भीष्णद्विदियं ।

§ ४३३. सुगमं । किमद्वभेक्किस्से उवरिमाणंतरद्विदीए ण उक्कड्डिज्जइ तं पदेसगं ?
ण, जहण्णावाहादीहाए अइच्छावणाए अभावादो । ण च आवाहाए अब्भंतरे
उक्कड्डणसस संभवो, 'बंधे उक्कड्डि' चि वयणादो । ण हि अहिणववज्जभ्रमाणपरमाणू
आवाहाए अब्भंतरे अत्थि, विरोहादो ।

कम एक आवलिप्रमाण वतलाई है, इसलिये अतिस्थापनारूप द्रव्यमें उत्कर्षित द्रव्यका निक्षेप नहीं होता ।

४—व्याघात दशामें कमसे कम आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण अतिस्थापना और इतना ही निक्षेप प्राप्त होनेपर उत्कर्षण होता है, अन्यथा नहीं होता ।

जहाँ अतिस्थापना एक आवलि और निक्षेप आवलिका असंख्यातवों भाग आदि बन जाता है वहाँ निर्व्याघात दशा होती है और जहाँ अतिस्थापनाके एक आवलिप्रमाण होनेसे बाधा आती है वहाँ व्याघात दशा होती है । जब प्राचीन सत्तासे स्थित कर्म परमाणुओंकी स्थितिसे नूतन बन्ध अधिक हो पर इस अधिकका प्रमाण एक आवलि और एक आवलिके असंख्यातवें भागके भीतर ही प्राप्त हो तब यह व्याघात दशा होती है । इसके सिवा उत्कर्षणमें सर्वत्र निर्व्याघात दशा ही जाननी चाहिये ।

प्रकृतमें जिन कर्मपरमाणुओंके उत्कर्षणका निषेध किया है उनसे सम्बन्ध रखनेवाले समयप्रवद्धकी कर्मस्थिति केवल एक समय अधिक एक आवलिमात्र ही शेष रही है, इसलिये इनका नियम नम्बर दो के अनुसार उत्कर्षण नहीं हो सकता; क्योंकि यहाँ जिन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण विवक्षित है उनका कर्मपरमाणुओंसे सम्बन्ध रखनेवाले समयप्रवद्धकी कर्मस्थिति उतनी ही शेष रही है, इसलिये उन कर्मपरमाणुओंमें शक्तिस्थितिका सर्वथा अभाव होनेसे उनका उत्कर्षण नहीं हो सकता ।

§ ४३२. इसी विवक्षित स्थितिके अन्य कर्म परमाणु भी उत्कर्षणके अयोग्य हैं, अब इस बातका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

❀ उन्हीं कर्मपरमाणुओंकी यदि दो समय अधिक एक आवलिसे न्यून शेष कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है तो वे कर्मपरमाणु भी उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४३३. यह सूत्र सुगम है ।

शंका—अपनेसे ऊपरकी अनन्तरवर्ती एक स्थितिमें उन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण क्यों नहीं होता ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहाँ जघन्य आवाधाप्रमाण अतिस्थापना नहीं पाई जाती और आवाधाके भीतर उत्कर्षण हो नहीं सकता, क्योंकि 'बन्धके समय ही उत्कर्षण होता है' ऐसा आगमवचन है । यदि कहा जाय कि नूतन बंधनेवाले कर्म परमाणु आवाधाके भीतर पाये जाते हैं सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे विरोध आता है ।

❀ एवं गंतूण जदि वि जहणियाए आवाहाए ऊणिया कम्मट्ठिदी वेदिककंता तं पि उक्कड्डणादो भ्णीणट्ठिदियं ।

§ ४३४. एवं तिसमयाहियावळियादिपरिहीणकम्मट्ठिदिं समाणिय ट्ठिदि-
इदेसग्गाणमुक्कड्डणादो भ्णीणट्ठिदियत्तं वत्तव्वं, अइच्छावणाए पडिवुण्णत्ताभावेण
णिकखेवस्स च अच्चंताभावेण पुव्विळ्ळादो विसेसाभावा । 'एवं गंतूण जइ वि
जहणियाए० भ्णीणट्ठिदिगं' इदि एत्थ चरिमवियप्पे जइ वि अइच्छावणा संपुण्णा
तो वि णिकखेवाभावेण भ्णीणट्ठिदियत्तं पडिवज्जेयव्वं । सेसं सुगमं ।

विशेषार्थ—पहले यह बतलाया गया है कि जिन कर्मपरमाणुओंकी कर्मस्थिति उद्यावलि
से केवल एक समय अधिक शेष है उनका उत्कर्षण नहीं होता । तब यह प्रश्न हुआ कि जिस
प्रथमप्रवद्धकी कर्मस्थिति दो समय अधिक एक आवलिप्रमाण शेष है उसी समयप्रवद्धके एक समय
अधिक उद्यावलिके अन्तिम समयमें स्थित कर्मपरमाणुओंका अनन्तरवर्ती उपरितन स्थितिमें
उत्कर्षण होता है क्या ? इसी प्रश्नका उत्तर देते हुए यहां यह बतलाया गया है कि तब भी
उत्कर्षण सम्भव नहीं है । इसका यहां पर जो कारण बतलाया है उसका आशय यह है कि
उत्कर्षण बन्धके समय ही होता है । फिर भी उत्कर्षित द्रव्यका निक्षेप अतिस्थापना प्रमाण
स्थितिको छोड़कर ऊपरकी स्थितिमें ही होता है और प्रकृतमें अतिस्थापना जघन्य आवाधासे
कम तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आवाधाकालके भीतर नवीन बंधे हुए कर्मोंकी निषेक रचना
न होनेसे आवाधाकालके भीतर उत्कर्षणको प्राप्त हुए द्रव्यका निक्षेप ही सम्भव नहीं है । यह माना
के आवाधाकालके भीतर सत्तामें स्थित कर्मोंकी निषेक रचना पाई जाती है, किन्तु 'बन्धके
समय ही उत्कर्षण होता है' ऐसा कथन करनेसे यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्कर्षणको प्राप्त हुए
द्रव्यका निक्षेप तत्काल बंधनेवाले कर्मके निषेकों में ही होता है । पर यह निषेक रचना आवाधा-
कालके भीतर नहीं पाई जाती, इसलिये आवाधा निक्षेपके अयोग्य है यह सिद्ध होता है । इस
प्रकार उद्यावलिके अनन्तर समयवर्ती कर्म परमाणुओंका उद्यावलिके अनन्तर द्वितीय समयवर्ती
स्थितिमें निक्षेप नहीं हो सकता यह सिद्ध होता है और यही प्रकृत सूत्रका आशय है ।

❀ इस प्रकार जाकर यद्यपि विवक्षित कर्म परमाणुओंकी जघन्य आवाधासे न्यून
कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है तो भी वे कर्म परमाणु उत्कर्षणसे भ्नीनं स्थितिवाले
होते हैं ।

§ ४३४. तीन समय अधिक एक आवलिसे न्यून शेष सब कर्मस्थितिको समाप्त करके
स्थित हुए कर्म परमाणु भी उत्कर्षणसे झीन स्थितिवाले होते हैं ऐसा यहाँ कथन करना चाहिये,
क्योंकि अतिस्थापना पूरी न होनेसे और निक्षेपका अत्यन्त अभाव होनेसे पूर्व सूत्रके कथनसे
इसमें कोई विशेषता नहीं है । 'इस प्रकार जाकर यद्यपि जघन्य आवाधासे न्यून कर्मस्थिति
व्यतीत हो गई है तो भी वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे झीन स्थितिवाले होते हैं' इस प्रकार इस
अन्तिम विकल्पमें यद्यपि अतिस्थापना पूरी है तो भी निक्षेपका अभाव होनेसे (एक समय
अधिक एक आवलिके अन्तिम समयवर्ती कर्म परमाणुओंका) उत्कर्षणसे झीन स्थितिपना
जानना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

विशेषार्थ—पहले उदाहरणरूपसे जो एक समय अधिक उद्यावलिके अन्तिम समयमें

४३५. संपहि अञ्भीणद्विदियस्स उक्कड्डुणापाओगगस्स तस्सेव णिरुद्धिद्विदि-
पदेसगगस्स परूवणद्वमुत्तरमुत्तमागयं—

❁ समयुत्तराए उदयावलिचाए तिस्से द्विदीए जं पदेसगगं तस्स पदेसगगस्स जइ जहणियाए आवाहाए समयुत्तराए ऊणिया कम्मद्विदी विदिवकंता तं पदेसगगं सक्का आवाधामेत्तमुक्कड्डुउमेक्किस्से द्विदीए णिसिंचिदुं ।

§ ४३६. गत्यमेदं, सुगमासेसावयवत्तादो । णवरि आवाधामेत्तमुक्कड्डुउमिदि एत्थ उक्कड्डियूए ति घेतव्वं । अहवा, आवाहामेत्तमुक्कड्डुउमेक्किस्से द्विदीए णिसिंचिदुं चेदि संबंधो कायव्वो । च सहेण विणा वि समुच्चयद्वावगमादो । एदस्सुसुत्तस्स भावत्थो—पुव्वमादिद्विदीए पदेसगगस्स बंधसमयादो पडुडि जइ जहणणावाहाए समयाहियाए ऊणिया कम्मद्विदी वदिवकंता होज्ज तो तं पदेसगगं जहणणावाहामेत्त-
मुक्कड्डिय उवरिमाणंतराए एक्किस्से द्विदीए णिसिंचिदुं सक्कं, तप्पाओगगजहणणाण

स्थित कर्म परमाणु वतलाये हैं सो उनका उत्कर्षण कब तक नहीं हो सकता यह इस सूत्रमें वतलाया है । यदि तीन समय अधिक उदयावलिप्रमाण स्थिति शेष हो और बाकीकी स्थिति गल गई हो तो भी एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयवर्ती उन कर्म परमाणुओंका शेष दो स्थितिमें उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि प्रकृतमें अतिस्थापनाका प्रमाण जो जघन्य आवाधा वतलाया है वह अभी पूरा नहीं हुआ है और निक्षेपका अभाव तो बना हुआ ही है । इसी प्रकार चार समय अधिक, पांच समय अधिक उदयावलिप्रमाण स्थितिसे लेकर आवाधाकाल प्रमाण स्थितिके शेष रहने पर भी उक्त कर्म परमाणुओंका उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि यहाँ अन्तिम विकल्पके सिवा और सब विकल्पोंमें अतिस्थापना तो पूरी हुई नहीं और निक्षेपका अभाव तो सर्वत्र ही बना हुआ है ।

§ ४३५. अब उसी स्थितिके जो कर्म परमाणु उत्कर्षणसे अभीन स्थितिवाले अर्थात् उत्कर्षणके योग्य हैं उनका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

❁ एक समय अधिक उदयावलिप्रमाण उसी स्थितिके ऐसे कर्म परमाणु लो जिनकी यदि एक समय अधिक जघन्य आवाधासे न्यून शेष कर्मस्थिति गली है तो उन कर्म परमाणुओंका जघन्य आवाधाप्रमाण उत्कर्षण और आवाधासे ऊपर की एक स्थितिमें निक्षेप ये दोनों बातें शक्य हैं ।

§ ४३६ इस सूत्रका अर्थ अवगतप्राय है, क्योंकि इसके सब अक्षय्योंका अर्थ सुगम है । किन्तु इतनी विशेषता है कि 'आवाधामेत्तमुक्कड्डुं' इस वाक्यमें स्थित 'उक्कड्डुं' का अर्थ 'उत्कर्षण करके' करना चाहिये । अथवा 'आवाधाप्रमाण उत्कर्षण करनेके लिये और एक स्थिति में निक्षेप करनेके लिये शक्य है' ऐसा सम्बन्ध कर लेना चाहिये, क्योंकि यद्यपि वाक्य में 'च' पद नहीं दिया है तो भी ससुच्चरूप अर्थका ज्ञान हो जाता है । इस सूत्र का यह भावार्थ है कि पहले उदाहरणरूपसे निर्दिष्ट की गई स्थितिके कर्मपरमाणुओंकी यदि बन्ध समयसे लेकर एक समय अधिक जघन्य आवाधासे न्यून शेष कर्मस्थिति व्यतीत हो गई हो तो उन कर्मपरमाणुओं का जघन्य आवाधाप्रमाण उत्कर्षण होकर उसके ऊपर अनन्तर समयवर्ती एक स्थितिमें निक्षेप

मइच्छावणाणिकखेवाणमेत्थुवलभादो । तदो एदमुक्कड्डणादो अज्झीणट्ठिदियमिदि उवरि सव्वत्थ उक्कड्डणापडिसेठो णत्थि त्ति 'जाणावणट्ठ' तत्थिसयमाहप्पमुत्तरसुत्तेण भणइ—

❀ जइ दुसमयाहियाए आवाहाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिककंता तिसमयाहियाए वा आवाहाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिककंता । एवं गंतूण वासेण वा वासपुधत्तेण वा सागरोवमेण वा सागरोवमपुधत्तेण वा ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिककंता तं सव्वं पदेसगं उक्कड्डणादो अज्झीणट्ठिदियं ।

§ ४३७. एदस्स सुत्तस्स सुगमासेसावयवकलावस्स भावत्थो—पुव्वणिरुद्धाए समयाहियउदयावत्थियचरिमट्ठिदीए पदेसगस्स वंधसमयप्पहुडि बोलाविय समयाहिय-जहण्णावाहादिउवरिमासेसमुत्तुत्तवियप्परिहीणकम्मट्ठिदियस्स णत्थि उक्कड्डणादो भ्मीणट्ठिदियत्तं । सव्वमेव तमुक्कड्डणापाओग्गमिदि सव्वस्स वि एदस्स समयाविरोहेण उक्कड्डिज्जमाणयस्स आवाहमेत्ती अइच्छावणा । णिकखेवो पुण समयुत्तरादिकमेण वड्डमाणो गच्छदि जाव उक्कस्सावाहाए समयाहियावत्थियाए च ऊणसत्तरिसागरोवमकोडाकोडीओ त्ति । एत्थ सागरोवमपुधत्तेण वा त्ति एदेण वा सइेण अबुत्तसमुच्चयइेण सागरोवम-दसपुधत्तेण वा सदपुधत्तेण वा सहस्सपुधत्तेण वा लक्खपुधत्तेण वा कोडिपुधत्तेण वा अंतोकोडाकोडीए वा कोडाकोडिपुधत्तेण वा त्ति एदे संभविणो वियप्पा घेत्त्वा ।

होना शक्य है, क्योंकि यहां तद्योग्य जघन्य अतिस्थापना और निक्षेप ये दोनों पाये जाते हैं, इसलिये ये कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे अभीन स्थितिवाले हैं । अब आगे सर्वत्र उत्कर्षणका निषेध नहीं है यह जतानेके लिये अगले सूत्रद्वारा उस विषयका माहात्म्य बतलाते हैं—

❀ तथा उसी पूर्वोक्त स्थितिकी यदि दो समय अधिक आवाधासे न्यून कर्मस्थिति गली है या तीन समय अधिक आवाधासे न्यून कर्मस्थिति गली है । इसी प्रकार आगे जाकर यदि एक वर्ष, वर्षपृथक्त्व, एक सागर या सागर पृथक्त्वसे न्यून शेष कर्मस्थिति गली है तो वे सब कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे अभीन स्थितिवाले होते हैं ।

§ ४३७. इस सूत्रके सब पद यद्यपि सुगम हैं तथापि उसका भावार्थ यह है कि पूर्व निर्दिष्ट एक समय अधिक उदयावलिके अन्तिम समयमें स्थित स्थितिके कर्मपरमाणुओंकी जिसने बन्ध समयसे लेकर एक समय अधिक जघन्य आवाधा आदि आगेकी सत्रोक्त सब स्थिति-विकल्पोंसे न्यून कर्मस्थितिको गला दिया है उसके वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले नहीं होते अर्थात् उसके वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणके योग्य होते हैं, इसलिये इन सभी कर्मपरमाणुओं का यथाशास्त्र उत्कर्षण होता है । और तब अतिस्थापना आवाधाप्रमाण होती है । किन्तु निक्षेप एक समयसे लेकर उत्तरोत्तर एक एक समय बढ़ता हुआ उल्लूट आवाधा और एक समय अधिक एक आबलिसे न्यून सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरके प्राप्त होने तक बढ़ता जाता है । इस सूत्रमें 'सागरोवमपुधत्तेण वा' यहाँ पर आया हुआ 'वा' शब्द अनुक्त विकल्पोंके समुच्चयके लिये है जिससे दस सागरपृथक्त्व, सौ सागर पृथक्त्व, हजार सागर पृथक्त्व, लाख सागर पृथक्त्व, कोड़ी सागर पृथक्त्व, अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर और कोड़ाकोड़ी सागर पृथक्त्व ये सब सम्भव

तत्रियपारणं देसभासप्रभावेण वा एदेसि संगहो कायव्बो ।

कल्प ग्रहण करने चाहिए या सूचक विकल्प देशामर्षक होनेसे इन विकल्पोंका संग्रह रना चाहिए ।

विशेषार्थ—पहले यह बतलाया जा चुका है कि एक समय अधिक उद्यावलिके अन्तिम समयमें स्थित कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षणके अयोग्य हैं । अत्र पिछले दो सूत्रोंमें यह बतलाया गया है कि कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षणके योग्य हैं । इसका खुलासा करते हुए जो बतलाया गया है उसका भाव यह है कि उस एक समय अधिक उद्यावलिके अन्तिम समयमें स्थित जिन कर्मपरमाणुओंसम्बन्धी समयप्रयत्नोंकी स्थिति यदि आवाधासे एक समय आदि के क्रम से अधिक शेष रहती है तो उन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण हो सकता है और ऐसा होते हुए जितनी आवाधा होती है उतना अतिस्थापनाका प्रमाण होता है तथा आवाधासे जितनी अधिक स्थिति होती है उतना निक्षेपका प्रमाण होता है । यदि आवाधासे एक समय अधिक होती है तो निक्षेपका प्रमाण एक समय होता है । यदि दो समय अधिक होती है तो निक्षेपका प्रमाण दो समय होता है । इसी प्रकार तीन समय, चार समय, संख्यात समय, असंख्यात समय, एक दिन, एक मास, एक वर्ष, वर्षप्रयत्न, एक सागर, सागर प्रयत्न, दस सागर प्रयत्न, सौ सागर प्रयत्न, हजार सागर प्रयत्न, लाख सागर प्रयत्न, करोड़ सागर प्रयत्न, अन्तः कोड़ाकोड़ी सागर, कोड़ाकोड़ीसागर प्रयत्नरूप जितनी स्थिति शेष रहती है उतना निक्षेपका प्रमाण होता है । इस प्रकार यदि उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण प्राप्त किया जाता है तो वह उत्कृष्ट आवाधा और एक समय अधिक एक आवलिले न्यून सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण प्राप्त होता है । यह उत्कृष्ट निक्षेप एक समय अधिक वन्धावलिको गलाकर उद्यावलिकी उपरितन स्थितिमें स्थित कर्म परमाणुओंका उत्कर्षण करने पर प्राप्त होता है । परन्तु उस उद्यावलिकी उपरितन स्थितिमें अनेक समयप्रयत्नोंके परमाणु होते हैं, इसलिये किन परमाणुओंका उत्कर्षण करने पर यह उत्कृष्ट निक्षेप प्राप्त होता है इसका खुलासा करते हैं—

किसी एक संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीवने मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया । फिर वन्धावलिको गलाकर उसने आवाधाके बाहर स्थितिमें स्थित कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण करके उद्यावलिके बाहर निक्षेप किया । यहाँ उद्यावलिके बाहर द्वितीय समयवर्ती स्थितिमें अपकर्षण करके निक्षेप किया गया द्रव्य विवक्षित है, क्योंकि उद्यावलिके बाहर प्रथम समयमें निक्षेप द्रव्यका तदनन्तर समय में उद्यावलिके भीतर प्रवेश हो जाता है, इसलिये उसका उत्कर्षण नहीं हो सकता । अनन्तर दूसरे समयमें उत्कृष्ट संकेशके बराबरे उत्कृष्ट स्थितिको बाधता हुआ विवक्षित कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण करके उन्हें वह आवाधाके बाहर प्रथम निषेकस्थितिसे लेकर सब निषेक स्थितियोंमें निक्षेप करता है । केवल एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण अन्तिम स्थितियोंमें निक्षेप नहीं करता, क्योंकि उनमें निक्षेप करने योग्य उन कर्म परमाणुओंकी शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती । यहाँ उत्कृष्ट आवाधाके भीतर निक्षेप नहीं है और अन्तकी एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थितियोंमें निक्षेप नहीं है, इसलिये उत्कृष्ट स्थितिसे उतना क्रम कर देने पर निक्षेपका प्रमाण उत्कृष्ट आवाधा और एक समय अधिक एक आवलिले न्यून उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण प्राप्त होता है ।

अब यहाँ प्रकरणसे उत्कर्षणका काल, अतिस्थापना, निक्षेप और शक्तिस्थिति इन चार बातोंका भी खुलासा किया जाता है, क्योंकि इनको जाने बिना उत्कर्षणका ठीक तरहसे ज्ञान ना हो सकता ।

§ ४३८ संपहि उदयद्विदीदी हेद्विमासेसकम्मद्विदिसंचिदसमयपवद्धपदेसगस्स अहियारद्विदीए अविसेसेण संभवविसयासंकाणिरायरणदुवारेण अवत्थुवियप्पाणं णवकबंधमस्सियुण परूवणद्वमुत्तरमुत्ताणमवयारो । ण च एदेसिं परूवणा णिरस्थिया, तप्पदुप्पायणमुहेण उक्कड्डणाविसए सिस्साणं णिण्णयजणणेण एदिस्से फलोवलंभादो ।

१ उत्कर्षणका काल—उत्कर्षण बन्धके समय ही होता है । अर्थात् जब जिस कर्मका बन्ध हो रहा हो तभी उस कर्मके सत्तामें स्थित कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण हो सकता है, अन्यका नहीं । उदाहरणार्थ—यदि कोई जीव साता प्रकृतिका बन्ध कर रहा है तो उस समय सत्तामें स्थित साता प्रकृतिके कर्मपरमाणुओंका ही उत्कर्षण होगा असाताके कर्म परमाणुओं-
। नहीं ।

२ अतिस्थापना—कर्म परमाणुओंका उत्कर्षण होते समय उनका अपनेसे ऊपरकी जितनी स्थितिमें निक्षेप नहीं होता वह अतिस्थापनारूप स्थिति कहलाती है । अव्याघात दशामें जघन्य अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण और उत्कृष्ट अतिस्थापना उत्कृष्ट आबाधाप्रमाण होती है । किन्तु व्याघात दशामें जघन्य अतिस्थापना आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण और उत्कृष्ट अतिस्थापना एक समय कम एक आवलिप्रमाण होती है ।

३ निक्षेप—उत्कर्षण होकर कर्मपरमाणुओंका जिन स्थितिविकल्पोंमें पतन होता है उनकी निक्षेप संज्ञा है । अव्याघात दशामें जघन्य निक्षेपका प्रमाण एक समय और उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण उत्कृष्ट आबाधा और एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून सत्ता कोड़ाकोड़ी सागर है । तथा व्याघात दशामें जघन्य और उत्कृष्ट निक्षेपका प्रमाण आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

४ शक्तिस्थिति—बन्धके समय उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होने पर अन्तिम निषेककी सबकी सब व्यक्तस्थिति होती है । आशय यह है कि अन्तिम निषेककी एक समयमात्र भी शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती । तथा इससे उपान्त्य निषेककी एक समयमात्र शक्तिस्थिति होती है और शेष स्थिति व्यक्त रहती है । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक-एक निषेक नीचे जाने पर शक्तिस्थितिका एक एक समय बढ़ता जाता है और व्यक्तस्थितिका एक एक समय घटता जाता है । इस क्रमसे प्रथम निषेककी शक्तिस्थिति और व्यक्तस्थितिका विचार करने पर व्यक्तस्थिति एक समय अधिक उत्कृष्ट आबाधाप्रमाण प्राप्त होती है और इस व्यक्तस्थितिको पूरी स्थितिमेंसे घटा देने पर जितनी स्थिति शेष रहे उतनी शक्तिस्थिति प्राप्त होती है । यह तो बन्धके समय जैसी निषेक रचना होती है उसके अनुसार विचार हुआ । किन्तु अपकर्षणसे इसमें कुछ विशेषता आ जाती है । बात यह है कि अपकर्षण द्वारा जिस निषेककी जितनी व्यक्तस्थिति घट जाती है उसकी उतनी शक्तिस्थिति बढ़ जाती है । यह उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी अपेक्षा शक्तिस्थिति और व्यक्तस्थितिका विचार है । उत्कृष्ट स्थितिबन्ध न होने पर जितना स्थितिबन्ध कम हो उतनी अन्तिम निषेककी शक्तिस्थिति होती है और शेष निषेकोंकी इसीके अनुसार शक्तिस्थिति बढ़ती जाती है ।

§ ४३८. अब उदयस्थितिसे नीचेकी सब कर्मस्थितियोंमें संचित हुए समयप्रबद्धों सम्बन्धी कर्म परमाणुओंके अधिकृत स्थितिमें सामान्यसे सम्भव होनेरूप आशंकाके निराकरण-द्वारा नवकबन्धकी अपेक्षा अवस्तु विकल्पोंका कथन करनेके लिये आगेके सूत्र आये हैं । यदि कहा जाय कि इन विकल्पोंका कथन करना निरर्थक है सो भी बात नहीं है, क्योंकि इनके कथन करनेका यही फल है कि इससे शिष्योंको उत्कर्षणके विषयमें ठीक ठीक निर्णय करनेका अवसर मिलता है ।

❀ समयाहियाए उदयावलियाए तिस्से चेव द्विदीए पदेसग्गस्स एगो समओ पवद्धस्स अइच्छिदा त्ति अवत्थु, दो समया पवद्धस्स अइच्छिदा त्ति अवत्थु, तिणिए समया पवद्धस्स अइच्छिदा त्ति अवत्थु, एवं णिरंतरं गंतूण आवलिया पवद्धस्स अइच्छिदा त्ति अवत्थु ।

§ ४३६ जा पुव्वमाइहा समयाहियाए उदयावलियाए चरिमद्विदी तिस्से चेव द्विदीए पदेसग्गस्स पवद्धस्स पारद्धबंधस्स बंधसमयप्पहुडि एओ समओ अइच्छिदां त्ति अइक्कंतो चि अवत्थु । तं पदेसग्गमेदिस्से द्विदीए णत्थि । कुदो आवाहामेत्तमुवरि गंतूण तस्सावहाणादो । एवं सव्वत्थ वत्तव्वं । अहवा जा समयाहियाए उदयावलियाए द्विदी एदिस्से द्विदीए जं पदेसग्गं तमादिद्वमिदि पुव्वं परूविदं । तिस्से च द्विदीए उदयद्विदीदो हेट्ठिमासेससमयपवद्धाणं पदेसग्गमत्थि आहो णत्थि संतं वा किमुक्कड्डणदो भ्नीणद्विदिगमभ्नीणद्विदिगं वा उक्कड्डिज्जमाणं वा केत्थियमद्धाण-मुक्कड्डिज्जि का वा एदस्स अधिच्छावणा णिकखेवो वा त्ति ण एसो विसेसो सम्म-मवहारिओ तदो तप्परूवणद्वमेदेसि सुत्ताणमवयारो त्ति वक्खाणेयव्वं ।

❀ एक समय अधिक उदयावलिनी जो अन्तिम स्थिति है उसमें वे कर्म-परमाणु नहीं हैं जिन्हें बांधनेके बाद एक समय व्यतीत हुआ है, वे कर्मपरमाणु भी नहीं हैं जिन्हें बांधनेके बाद दो समय व्यतीत हुए हैं, वे कर्म परमाणु भी नहीं हैं जिन्हें बांधनेके बाद तीन समय व्यतीत हुए हैं । इस प्रकार निरन्तर जाकर ए से कर्मपरमाणु भी नहीं हैं जिन्हें बांधनेके बाद एक आवलि व्यतीत हुई है ।

§ ४३६. जिन् कर्मपरमाणुओंका बन्धके बाद अर्थात् बन्धसमयसे लेकर एक समय व्यतीत हुआ है वे कर्मपरमाणु पूर्वमें जो एक समय अधिक उदयावलिनी अन्तिम स्थिति कह आये हैं उसमें अवस्तु हैं । अर्थात् वे कर्मपरमाणु इस स्थितिमें नहीं पाये जाते, क्यों कि आवाधाके बाद उनका सङ्गाव पाया जाता है । इसी प्रकार सर्वत्र कथन करना चाहिये । अथवा यहाँ यह व्याख्यान करना चाहिये कि एक समय अधिक उदयावलिनी जो अन्तिम स्थिति है और इसके जो कर्म परमाणु हैं वे यहाँ विवक्षित हैं ऐसा जो पहले कहा है सो उस स्थितिमें उदय स्थितिसे नीचेके अर्थात् पूर्वके सब समयप्रवद्धोंके कर्मपरमाणु हैं या नहीं हैं । यदि हैं तो वे क्या उत्कर्षणसे भ्नीन स्थितिवाले हैं या अम्भीन स्थितिवाले हैं । यदि उत्कर्षण होता है तो कितना उत्कर्षण होता है । तथा इनका अतिस्थापना और निक्षेप कितना है । इस प्रकार यह सब विशेषता भले प्रकारसे ज्ञात नहीं हुई, इसलिये इस विशेषताका कथन करनेके लिये इन सूत्रोंका अवतार हुआ है ऐसा यहाँ व्याख्यान करना चाहिए ।

विशेषार्थ—प्रकृत सूत्रमें यह बतलाया है कि एक समय अधिक उदयावलिनी अन्तिम स्थितिमें किन समयप्रवद्धोंके कर्म परमाणु नहीं पाये जाते । ऐसा नियम है कि बंधे हुए कर्म अपने बन्धकालसे लेकर एक आवलिपरमाणु कालतक तदवस्थ रहते हैं । एक यह भी नियम है कि बंधने-वाले कर्मकी अपने आवाधाकालसे निषेक रचना नहीं पाई जाती । इन दो नियमोंको ध्यानसे रख कर यदि विचार किया जाता है तो इससे यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि वर्तमान कालसे एक

§ ४४० एवमेदेण सुत्तेण आवलियमेते अवन्थुवियप्पे परुविय संपहि उक्कड्डणपाओगग्गत्थुवियप्पपरूवणद्वमुत्तरसुत्तं भणइ—

❀ तिससे चेव द्विदीए पदेसग्गस्स समयुत्तरावलिया बद्धस्स अइच्छिदा त्ति एसो आदेसो होज्ज ।

§ ४४१ एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे—तिससे चेव पुञ्चणिरुद्धसमयाहिया-वलियचरिमद्विदीए पदेसग्गस्स उक्कस्सदो दोआवलियपरिहीणकम्मद्विदिमेचसमय-पवद्धपडिचद्धस्स अब्भंतरे जस्स पदेसग्गस्स बंधसमयादो पहुडि उदयद्विदीदो हेदा समयुत्तरावलिया अधिच्छिदा सो एत्थ आदेसो होज्ज । आदिश्यत इत्यादेशो विवक्षितस्थितौ वस्तुरूपेणावस्थितः प्रदेश आदेश इति यावत् । कथमेदस्स आवाहादो उवरि णिसत्तस्स आदिद्विदीए संभवो? ण, बंधावल्याए बोलीणाए एगेण समएणोकड्डिय पयदद्विदीए णिक्खत्तस्स तत्थत्थित्तं पडि विरोहाभावादो । ण एस कर्मो

आवलि तक पूर्वके बंधे हुए समयप्रबद्धोके कर्मपरमाणुओंका विवक्षित स्थितिमें अर्थात् एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिमें पाया जाना सम्भव नहीं है । यहां वर्तमान काल ही उदयकाल है और इससे लेकर एक आवलिकाल उदयावलि काल कहलाता है तथा इससे आगेकी स्थिति एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थिति कहलाती है । अब वर्तमान काल अर्थात् उदयकालमें विचार यह करना है कि उक्त स्थितिमें कितने समयप्रबद्धोके कर्मपरमाणु नहीं पाये जाते । प्रकृत सूत्रमें इसी प्रश्नका उत्तर दिया गया है । उसका आशय यह है कि उदयकालसे पूर्व एक आवलि काल तकके बंधे हुए समयप्रबद्ध उक्त स्थितिमें नहीं पाये जाते, क्योंकि उक्त स्थिति आवाधाकालके भीतर आ जाती है और आवाधाकालमें निषेक रचना नहीं होती यह पहले ही लिख आये हैं ।

§ ४४०. इस प्रकार इस सूत्र द्वारा आवलिप्रमाण अवस्तरूप विकल्पोंका कथन करके अब उत्कर्षण के योग्य वस्तुरूप विकल्पोंका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ किन्तु उसी स्थितिमें वे कर्म परमाणु हैं जिनकी बाँधनेके बाद एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हुई है ।

§ ४४१. अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं—उसी पूर्व निर्दिष्ट एक समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिमें जो कर्मपरमाणु हैं वे यद्यपि उक्लृष्ट रूपसे दो आवलिकर्म कर्म स्थितिप्रमाण समयप्रबद्धोके हैं तथापि इनके भीतर जिन कर्मपरमाणुओंकी बन्ध' समयसे लेकर उदय स्थितिसे पहले-पहले एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हो गई है उनका यहाँ सद्भाव है । 'आदेश' का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है—आदिश्यते अर्थात् विवक्षित स्थितिमें वास्तविक रूपसे अवस्थित प्रदेश ।

शंका—जब कि बन्धके समय सब कर्मपरमाणु आवाधासे उपरकी स्थितिमें निक्षिप्त किये जाते हैं तब वे विवक्षित स्थितिमें कैसे संभव हो सकते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि बन्धावलिके व्यतीत होनेके पश्चात् एक समय द्वारा अपकर्षण करके आवाधासे उपरितन स्थितिमें स्थित कर्मपरमाणु प्रकृत स्थितिमें निक्षिप्त कर दिये जाते हैं, इसलिये इनका बंधा अस्तित्व माननेमें कोई विरोध नहीं आता ।

पुञ्जुत्तौवलियमेत्समयपवद्धपरमाणुमत्थि, तेसि बंधावलि्याए असमत्तीदो उक्कड्डणा-
पाओगताभावादो । समाणिदबंधावलिपस्स वि तत्थतणचरिमवियप्पपडिग्गहिय-
समयपवद्धस्स उदयसमयमहिद्धिदजीवेणोक्कड्डणावावदेण णिरुद्धट्ठिदिसयमाणिदस्स
संतस्स वि पयदुक्कड्डणापुत्रजोगित्तेणावत्थुत्तं पडिवज्जेयन्वं । तदो तेसिमेत्था-
वत्थुत्तमेदस्स च वत्थुत्तं सिद्धं ।

§ ४४२. एवमादिद्वस्स पदेसग्गस्स उक्कड्डणाद्वाणपक्खवणपुत्तरसुत्तेण कुणइ—

✽ तं पुण पदेसग्गं कम्मट्ठिदिं णो सक्खा उक्कड्डिदुं, समयहि्याए
आवलि्याए ऊणियं कम्मट्ठिदिं सक्खा उक्कड्डिदुं ।

§ ४४३. कुदो ? एत्थियमेत्तीए चेव सत्तिट्ठिदीए अवट्ठितादो । एदं
जट्ठिदिं पडुच्च बुत्तं । णिसेयट्ठिदिं पुण पडुच्च दुसमयाहियदोआवलि्याहि ऊणियं कम्म-

किन्तु यह क्रम पूर्वोक्त आवलिप्रमाण समयप्रवद्धोके कर्मपरमाणुओंका नहीं बनता, क्योंकि उनकी बन्धावलि समाप्त नहीं हुई है, इसलिये तब अपकर्षणकी योग्यता नहीं पाई जाती है। बन्धावलिके समाप्त हो जाने पर भी जो समयप्रवद्ध वहाँ अन्तिम विकल्परूपसे स्वीकृत है उसका उदय समयमे स्थित जीवके द्वारा अपकर्षण होकर वह यद्यपि निर्दिष्ट स्थितिके विषय-भावको प्राप्त हो रहा है फिर भी प्रकृत उत्कर्षणके अयोग्य होनेसे वह अवस्तु है, इसलिये उसे छोड़ देना चाहिये। इसलिए उदय समयसे पूर्वकी एक आवलिके भीतर बंधनेवाले कर्मपरमाणु प्रकृत स्थितिमें नहीं हैं और जिन कर्मपरमाणुओंको बंधे हुए बन्ध रूपसे लेकर उदय समय तक एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हुई है वे कर्मपरमाणु प्रकृत स्थितिमें हैं यह सिद्ध हुआ।

विशेषार्थ—पहले यह बतला आये हैं कि प्रकृत स्थितिमें कितने समयप्रवद्धोके कर्म-परमाणु नहीं पाये जाते हैं। अब इस सूत्रद्वारा यह बतलाया गया है कि प्रकृत स्थितिमें जिन कर्म-परमाणुओंको बंधे एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हुआ है उनका पाया जाना सम्भव है। इसपर यह शंका हुई कि जब कि आवाधा कालके भीतर निषेक रचना नहीं होती और प्रकृत स्थिति आवाधा कालके भीतर पाई जाती है तब फिर इस स्थितिमे जिन कर्मपरमाणुओंको बंधे हुए एक समय अधिक एक आवलिकाल व्यतीत हुआ है उनका पाया जाना कैसे सम्भव है। इस शंकाका मूलमें जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि बन्धावलिके व्यतीत हो जाने पर बंधे हुए द्रव्यका अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदीरणा हो सकती है, इसलिये एक समय अधिक एक आवलि पूर्व बंधा हुआ द्रव्य विवक्षित स्थितिमें पाया जाता है ऐसा माननेमे कोई बाधा नहीं आती।

§ ४४२. अब इस प्रकार विवक्षित हुए कर्मपरमाणुओंके उत्कर्षण अध्वानका कथन आनेके सूत्रद्वारा करते हैं—

✽ किन्तु उन कर्म परमाणुओंका कर्मस्थितिप्रमाण उत्कर्षण नहीं हो सकता ।
हाँ एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण उत्कर्षण हो सकता है ।

§ ४४३. क्योंकि उन कर्मपरमाणुओंमें इतनीमात्र शक्तिस्थिति पाई जाती है। तथापि यह कथन यत्स्थितिकी अपेक्षासे किया है। निषेकस्थितिकी अपेक्षासे विचार करने पर

द्विदिं सकमुकड्डिमिदि वत्तव्वं, उदयद्विदीदो समयाहियउदयावलयियमेत्तमद्धान-
 सुवरिं गंतूण पयदणिसेयस्स अवट्टाणादो । एदस्स सुत्तस्स भावत्थो—उदयद्विदीदो
 हेट्ठा समयाहियावलयियमेत्तमद्धानमोयरिय वद्धसमयपवद्धप्पहुडि सेसासेसकम्मद्विदि-
 अब्भंतरसंचिदसमयपवद्धपरमाणूणमहियारद्विदीए अत्थित्ते विरोहो णत्थि तदो ण ते
 उक्कड्डणादो भीणद्विदिया । उक्कड्डिज्जमाणा च ते जेतियमद्धानं हेट्ठदो ओयरिय
 वद्धा तेत्तियमेत्तेणूणियं कम्मद्विदिमावाहमेत्तमविच्छाविय णवकवंधस्सुवरि
 णिक्खिक्खप्पति, तोत्तियमेत्तीए चेव सत्तिद्विदीए अवसिद्धत्तादो ति । णवरि कम्मद्विदीए
 आदीदो प्पहुडि जहण्णावाहमेत्ताणं समयपवद्धानं जहासंभवमुक्कड्डणादो भीणद्विदियत्तं
 पुच्चिल्लपरूवणादो जाणिय वत्तव्वं । ण पुच्चिल्लपरूवणादो एदिस्से णवकवंध-
 मस्सियूण पयट्टाए अवत्थु-वत्थुपरूवणाए अविस्सिद्धत्तासंक्कणज्ज', तिस्से कम्मद्विदीए
 आदीदो प्पहुडि पुच्चाणुपुच्चीए संतकम्ममस्सियूण वावदत्तादो, एदिस्से चेव
 णवकवंधमस्सियूग पच्छाणुपुच्चीए पयट्टत्तादो । पढमपरूवणाए संतकम्ममस्सियूण
 आवलियमेत्ता अवत्थुवियप्पा किण्ण परूविदा ? तं जहा—सत्तरिसागरोवम-
 कोढाकोडिमेत्तकम्मद्विदिं सव्वं गालिय पुणो से काले णिन्त्लेविहिदि ति उदयद्विदीए
 द्विदपदेसग्गमेदिस्से समयाहियावलयिचरिमद्विदीए अवत्थु । तिस्से चेव द्विदीए

तो दो समय अधिक हो आवलित्ते न्यून कर्मस्थितिप्रमाण ही उत्कर्षण हो सकता है
 ऐसा यहाँ कथन करना चाहिये, क्योंकि उदय स्थितिसे एक समय अधिक एक
 आवलिप्रमाण स्थान ऊपर जाकर ही प्रकृत निषेक स्थित है । इस सूत्रका यह भावार्थ है कि
 उदय स्थितिसे एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थान नीचे उतर कर जो समयप्रबद्ध बंधा
 है उससे लेकर बाकीकी सब कर्मस्थितिके भीतर संचित हुए समयप्रबद्धोंके कर्मपरमाणुओंका
 विवक्षित स्थितिमें अस्तित्व माननेमें कोई विरोध नहीं है, इसलिये वे उत्कर्षणसे मीनस्थितिवाले
 नहीं है । उत्कर्षण होते हुए भी जितना स्थान नीचे (पीछे) जाकर वे बंधे होते हैं उतने स्थानसे
 न्यून शेष रही कर्मस्थितिमें उनका उत्कर्षण होता है । उसमें भी आवाधाप्रमाण अतिस्थापनाको
 छोड़कर नवकबन्धमें इनका निक्षेप होता है । शेष रही कर्मस्थितिमें इनका उत्कर्षण इसलिए होता
 है कि उनकी उतनी ही शक्तिस्थिति शेष है । किन्तु इतनी विशेषता है कि कर्मस्थितिके आदिसे
 लेकर जो जघन्य आवाधाप्रमाण समयप्रबद्ध हैं वे यथासम्भव उत्कर्षणसे मीनस्थितिवाले हैं
 यह कथन पहले की गई प्ररूपणासे जानकर करना चाहिये । यदि कहा जाय कि पूर्व प्ररूपणासे
 नककबन्धकी अपेक्षा अवस्तु और वस्तु विकल्पोंके कथनमें प्रवृत्त हुई इस प्ररूपणामें कोई विशेषता
 नहीं है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह पूर्व प्ररूपणा कर्मस्थितिके प्रारम्भसे
 लेकर पूर्वानुपूर्वीसे सत्कर्मकी अपेक्षा प्रवृत्त हुई है और यह प्ररूपणा नवकबन्धकी अपेक्षा
 परादानुपूर्वीसे प्रवृत्त हुई है, इसलिये इन दोनों प्ररूपणाओंमें अन्तर है ।

शंका—प्रथम प्ररूपणामें सत्कर्मकी अपेक्षा एक आवलिप्रमाण अवस्तुरूप विकल्पोंका
 कथन क्यों नहीं किया है ? जिनका खुलासा इस प्रकार है—सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण सब
 कर्मस्थितिको गलाकर फिर तदनन्तर समयमें उस कर्मस्थितिका अभाव होगा । इस प्रकार केवल
 उदय स्थितिमें स्थित उस कर्मस्थितिके कर्मपरमाणु इस एक समय अधिक आवलिकी अन्तिम

जस्स पदेसग्गस्स दुसमयूणा कम्मद्विदी विदिकंता त्ति एदं पि अवत्थु । एवं गिरंतरं गंतूण जइ वि आवलियाए ऊणिया कम्मद्विदी विदिकंता होज्ज तं पि अवत्थु त्ति । एवमेदे अवत्थुवियप्पे आवलियमेत्ते अपरूविय समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मद्विदी जस्स विदिकंता तदो प्पहुडि वत्थुवियप्पाणं भीणाभीणद्विदियत्तगवेसणं कुणमाणस्स चुणिसुत्तयारस्स को अहिप्पाओ त्ति ? ण एस दोसो, समयाहिया-वलियमेत्तावसिद्धकम्मद्विदियस्स समयपवद्धपदेसग्गस्स उक्कड्डणादो भीणद्विदियस्स परूवणाए चेव तेसिमवत्थुवियप्पाणमणुत्तसिद्धीदो । ण च एदम्हादो हेट्ठिमाणमेत्तिय-मेत्ती द्विदी अत्थि जेणेदेसिमेत्थ वत्थुत्तसंभवो होज्ज, विरोहादो । ण च संतमत्थं सुत्तं ण विसईकरेइ, तस्स अन्वावयत्तावत्तीदो । तदो तप्परिहारदुवारेण सेसपरूवणादो चेव तेसिमवत्थुत्तं सुत्तयारेण सूचिदमिदि ण किं चि विरुद्धं पेच्छामो । णवकबंध-मस्सियूण परूविदाणमावलियमेत्ताणमेदेसिमवत्थुवियप्पाणं देसामासयभावेण वा तेसिमेत्थ परूवणा कायन्वा ।

स्थितिमें नहीं पाये जाते । तथा जिन कर्मपरमाणुओंकी दो समय कम पूरी कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु भी इस विवक्षित स्थितिमें नहीं हैं । इसी प्रकार निरन्तर जाकर यदि एक आवलिकर्म कर्मस्थिति व्यतीत हो गई हो तो वे एक आवलिके कर्मपरमाणु भी इस विवक्षित स्थितिमें नहीं हैं । इस प्रकार एक आवलिप्रमाण अवस्तु विकल्पोंका कथन न करके चूर्णिसूत्रकार ने जो 'एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति जिसकी व्यतीत हो गई है' यहाँसे लेकर वस्तुविकल्पोंमें भीनाभीनस्थितिपनेका विचार किया है सो उनका इस प्रकारके कथन करनेमें क्या अभिप्राय है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब एक समय अधिक एक आवलि शेष रही कर्मस्थितिसम्बन्धी समयप्रवद्धोंके कर्मपरमाणुओंको उत्कर्षणके अयोग्य कह दिया तब इसीसे उन आवलिप्रमाण अवस्तुविकल्पोंकी विना कहे सिद्धि हो जाती है । और एक समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिसे नीचेके निषेकोंकी इतनी अर्थात् एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थिति तो हो नहीं सकती जिससे इन नीचेके निषेकोंका यहाँ सद्भाव माना जावे, क्योंकि ऐसा होनेमें विरोध आता है । और सूत्र जो अर्थ विद्यमान है उसे विषय नहीं करता यह बान कही नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसा होनेपर सूत्रको अक्षय्यपक मानना पड़ेगा । इसलिये उन आवलिप्रमाण विकल्पोंका कथन न करके सूत्रकारने शेष प्ररूपणा द्वारा ही उनका असद्भाव सूचित कर दिया है, इसलिए इस कथनमें हम कोई विरोध नहीं देखते । अथवा इस दूसरी प्ररूपणामें जो नवकबंधकी अपेक्षा एक आवलिप्रमाण अवस्तु विकल्प कहे गये हैं उनके देशामर्परूपसे प्रथम प्ररूपणासम्बन्धी उन एक आवलिप्रमाण अवस्तुविकल्पोंकी यहाँ प्ररूपणा कर लेनी चाहिये ।

विशेषार्थ—इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए वीरसेन स्वामीने कई बातों पर प्रकाश डाला है । यथा—

(१) नवकबंधके जो कर्मपरमाणु अपकर्षित होकर विवक्षित स्थिति अर्थात् एक समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिमें निक्षिप्त हुए हैं उनका उत्कर्षणके समय बाधनेवाले

कर्मकी कितनी स्थितिमें उत्कर्षण हो सकता है ?

(२) पूर्वं प्ररूपणासे इस प्ररूपणामें तात्त्विक अन्तर क्या है ?

(३) पूर्वं प्ररूपणामें क्या अचस्तु विकल्प सम्भव हैं यदि हों तो उनका उस प्ररूपणाका विवेचन करते समय कथन क्यों नहीं किया ?

इनका क्रमशः खुलासा इस प्रकार है—

(१) जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि कर्मों में दो प्रकारकी स्थिति होती है— एक व्यक्तस्थिति और दूसरी शक्तिस्थिति । जिस कर्मकी जितनी उत्कृष्ट कर्मस्थिति होती है उस कर्मके अन्तिम निषेककी वह व्यक्तस्थिति है । उस अन्तिम निषेकमें शक्ति स्थिति नहीं पाई जाती । किन्तु शेष निषेकोंमें यथासम्भव शक्तिस्थिति और व्यक्तस्थिति दोनों पाई जाती हैं । उदाहरणार्थ एक कर्मकी ४८ समय कर्मस्थिति है । इसमेंसे प्रारम्भके १२ समय आवाधाके निकाल देने पर शेष ३६ समयोंमें निषेक रचना हुई । इस प्रकार पहले निषेककी १३ समय स्थिति पड़ी और दूसरे निषेककी १४ समय स्थिति पड़ी । इसप्रकार उत्तरोत्तर एक एक निषेक को एक एक समयप्रमाण स्थित बढ़ कर अन्तिम निषेककी ४८ समय स्थिति पड़ी । यह सबकी सब स्थिति व्यक्तस्थिति है । अब जो प्रथम निषेककी १३ समय स्थिति पड़ी है सो उसके सिवा उसकी शेष ३५ समय स्थिति शक्तिस्थिति है । दूसरे निषेककी १४ समय के सिवा शेष ३४ समय शक्तिस्थिति है । इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये । इस उदाहरणसे स्पष्ट है कि उत्कृष्ट कर्मस्थितिके अन्तिम निषेकमें शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती । किन्तु शेष निषेकोंमें शक्तिस्थिति और व्यक्तस्थिति दोनों प्रकारकी स्थितियाँ पाई जाती हैं ।

अब किसी एक जीवने बन्धावलिके बाद नवकबन्धका अपकर्षण करके उसका उद्यावलिके ऊपर प्रथम स्थितिमें निक्षेप किया और तदनन्तर समयमें वह उसका उत्कर्षण करना चाहता है तो यहां यह विचार करना है कि इस अपकर्षित द्रव्यका तत्काल बंधनेवाले कर्म के ऊपर कितनी स्थितिमें उत्कर्षण हो कर निक्षेप होगा । यह अपकर्षण बन्धावलिके बाद हुआ है, इसलिये एक आवलि तो यह कम हो गई और एक समय अपकर्षणमें लगा, इसलिये एक समय यह कम हो गया । इस प्रकार प्रकृत कर्मस्थितिमेंसे एक समय अधिक एक आवलिके घटा देने पर जो शेष कर्मस्थिति बची है तत्काल बंधनेवाले कर्मकी उत्तनी स्थितिमें इस अपकर्षित द्रव्यका उत्कर्षण हो सकता है । उदाहरणार्थ पहले जो ४८ समय स्थितिवाले नवकबन्धका दृष्टान्त दे आये हैं सो उसके अनुसार बन्धावलिके ३ समय बाद चौथे समयमें आवाधाके ऊपरके द्रव्यका अपकर्षण करके उसे उद्यावलिके ऊपरकी स्थितिमें निक्षेप किया । यहां बन्धावलिके बाद उद्यावलिके लेना चाहिये और उद्यावलिके बाद एक समय छोड़कर अगली स्थितिमें अपकर्षित द्रव्यका निक्षेप कराना चाहिये, क्योंकि एक समय अपकर्षणरूप क्रियामें लग कर दूसरे समयमें वह उद्यावलिके प्रविष्ट हो जाता है । इस हिसाबसे अपकर्षित होकर स्थित हुए द्रव्यका आठवें समयमें उत्कर्षण होगा । पर यह उत्कर्षण की क्रिया बन्धावलिके बाद दूसरे समयमें हो रही है इसलिये सर्व स्थिति ४८ समयमेंसे बन्धावलिके ३ और अपकर्षणका १ इस प्रकार ४ समय घटा देने पर तत्काल बंधनेवाले कर्ममें आवाधाके बाद १३ समयसे लेकर ४४ वें समयतक इस द्रव्यका निक्षेप होगा । इस प्रकार इसकी स्थिति एक समय अधिक बन्धावलिके न्यून ४४ समय प्राप्त हुई । यह यत्स्थिति है । उत्कर्षण और संक्रमणके समय जो स्थिति रहे वह यत्स्थिति है । किन्तु उत्कर्षण उद्यावलिके ऊपरके निषेक में स्थित द्रव्यका हुआ है, इसलिये निषेकस्थितिमें एक समय अधिक एक, आवलि और घट जाती है, इसलिये

§ ४४४ एवमेतिएण पवंधेण पुवणिरुद्धाए द्विदीए उकड्डगादो भीणाभीण-
द्विदियपदेसगगवेसण काऊण तस्संवंधेण च पसंगागयमवस्थवियप्पपरूवणं समाणिय
संपहि पयदमन्थमुवसंहरेमाणो इदमाह—

❀ एदे वियप्पा जा समयाहियउदयावलिया तिस्से द्विदीए
पदेसगगस्स ।

§ ४४५ गयत्यमेदमुवसंहारमुत्तं । एवं विस्तरणालुआणं सिस्साणं पुवुत्तमदं
संभालिय संपहि एदेसिमेव वियप्पाणमप्पणमुवरि वि एदेण समाणपरूवणेसु
द्विदिविसेसेसु कुणमाणो मुत्तमुत्तरं भणइ—

निपेकस्थिति ४४ समय न प्राप्त होकर ४० समय प्राप्त होगी । इस प्रकार अपकर्षित द्रव्यका
उत्कर्षणके समय बंधनेवाले कर्मकी कितनी स्थितिमें उत्कर्षण हो सकता है इसका विचार हुआ ।

(२) प्रथम प्ररूपणामें सत्कर्मकी अपेक्षा विचार किया है उसमें बतलाया है कि जिस
कर्मकी केवल एक समय अधिक उदयावलिप्रमाण कर्मस्थिति शेष रही है उसका उत्कर्षण नहीं हो
सकता । जिसकी दो समय अधिक उदयावलिप्रमाण कर्मस्थिति शेष है उसका भी उत्कर्षण नहीं
हो सकता । तात्पर्य यह कि उत्कर्षणके समय बंधनेवाले कर्मकी कितनी आवाधा पड़े उतना
स्थितिके शेष रहने तक सत्तामें स्थित कर्मों का उत्कर्षण नहीं हो सकता । हां सत्कर्मकी आवाधासे
अधिक स्थितिके शेष रहने पर नूतन बन्धमें उसका उत्कर्षण हो सकता है । इस प्रकार प्रथम
प्ररूपणामें सत्कर्मकी अपेक्षा पूर्वानुपूर्वीसे विचार किया है । किन्तु इस दूसरी प्ररूपणामें यह
बतलाया है कि नूतन बन्ध होने पर बन्धावलि तक तो वह तदवस्थ रहता है । हां बन्धावलिके
बाद अपकर्षण होकर उसका तत्काल बंधनेवाले कर्ममें उत्कर्षण हो सकता है । इस प्रकार दूसरी
प्ररूपणामें पश्चादानुपूर्वीसे नूतन बन्धके उत्कर्षणका विचार किया है, इसलिये इन दोनों
प्ररूपणाओंमें तात्त्विक भेद है ।

(३) जब यह बतला दिया कि जिस कर्मकी स्थिति एक समय अधिक एक आवलि शेष
है उसका उत्कर्षण नहीं हो सकता तब यह अर्थ सुनरां फलित हो जाता है कि जिस कर्मकी एक
समय, दो समय, तीन समय इसी प्रकार उदयावलिप्रमाण स्थिति शेष है उसका न तो उत्कर्षण
ही हो सकता है और न उस स्थितिके कर्म परमाणुओंका एक समय अधिक उदयावलिकी
अन्तिम स्थितिमें ही पाया जाना सम्भव है । यही कारण है कि प्रथम प्ररूपणामें एक आवलि-
प्रमाण अवस्तु विकल्पोके रहते हुए भी उनका निर्देश नहीं किया है ।

§ ४४४. इस प्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा दो बातोंका विचार किया । प्रथम तो यह विचार
किया कि पूर्व निरुद्ध स्थितिमें कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं और कौनसे
कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे अभीन स्थितिवाले हैं । दूसरे इसके सम्बन्धसे प्रसंगानुसार अवस्तु
विकल्पोका कथन किया । अब प्रकृत अर्थके उपसंहार करनेकी इच्छासे अगला सूत्र कहते हैं—

❀ एक समय अधिक उदयावलिकी जो अन्तिम स्थिति है उसके कर्म
परमाणुओंके इतने विकल्प होते हैं ।

§ ४४५. इस उपसंहार सूत्रका अर्थ गतार्थ है । इस प्रकार विस्मरणशील शिष्योंको पूर्वोक्त
अर्थकी संहाल कर कर अब जिन स्थितियोंकी प्ररूपणा इस स्थितिके समान है उनमें इन सब
विकल्पोको बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ एदे चेय वियप्पा अपरिसेसा जा दुसमयाहिया उदयावळिया तिस्से ढिदीए पदेसग्गस्स ।

§ ४४६ एदस्स सुत्तस्स अत्थो उच्चदे । तं जहा—जे ते पुव्वणिरुद्धसमयाहिय-उदयावळियचरिमढिदीए दोहि वि परूवणाहि परूविदा वियप्पा एदे चेव अणूणाहिया वत्तव्वा जा दुसमयाहिया उदयावळिया तिस्से ढिदीए पदेसग्गस्स णिरुंभणं काऊण । णवरि पढमपरूवणाए कीरमाणाए एदिस्से ढिदीए पदेसग्गस्स जइ समयाहियाए आवळियाए ऊणिया कम्मढिदी विदिकंता वद्धस्स तं कम्ममुक्कड्डणाए अवत्थु, हेढिमाए चेव ढिदीए तस्स णिद्विदकम्मढिदियत्तादो । तदो हेढिमाणं पुण अवत्थुत्तं पुव्वं व अणुत्तसिद्धं । तस्सेव पदेसग्गस्स जइ दुसमयाहियाए आवळियाए ऊणिया कम्मढिदी विदिकंता तं कम्ममेत्थ आदेसो हांतं पि ण सकमुक्कड्डिटुं; तत्तो उवरि सत्ति-ढिदीए एगस्स वि समयस्स अभावादो । तस्सेव पदेसग्गस्स जइ वि तिसमयाहियाए आवळियाए ऊणिया कम्मढिदी विदिकंता तं पि उक्कड्डणादो भ्नीणद्विदियं । एत्थ कारणमणंतरपरूविदं । एत्तो उवरि पुव्वं व सेसजहण्णावाहमेत्ता भ्नीणद्विदिय-वियप्पा उप्पाएयव्वा । तत्तो परमभ्नीणद्विदिया, जहण्णावाहमेत्तमविच्छाविय एक्किस्से ढिदीए णिक्खेवस्स तदणंतरउवरिमवियप्पे संभवादो । एदेण कारणेण अवत्थुवियप्पा

❀ दो समय अधिक उदयावळिकी जो अन्तिम स्थिति है उस स्थितिके कर्म परमाणुओंके भी ये ही सबके सब विकल्प होते हैं ।

§ ४४६. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है—पूर्व निर्दिष्ट एक समय अधिक उदयावळिकी अन्तिम स्थितिके दोनों ही प्ररूपणाओंके द्वारा जितने भी विकल्प कहे हैं न्यूनाधिक किये बिना वे सबके सब विकल्प यहाँ भी दो समय अधिक उदयावळिकी अन्तिम स्थितिके कर्म परमाणुओंको विवक्षित करके कहने चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम प्ररूपणाके करने पर यदि बन्ध होनेके बाद कर्मपरमाणुओंकी एक समय अधिक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई हो तो वे कर्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिमें नहीं होते, क्योंकि इस विवक्षित स्थितिसे नीचेकी स्थितिमें ही उन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति समाप्त हो गयी है । किन्तु इससे नीचेकी स्थितियोंके कर्मपरमाणुओंका इस विवक्षित स्थितिमें नहीं पाया जाना पहलेके समान अशुक्तसिद्ध है । उन्हीं कर्मपरमाणुओंकी यदि दो समय अधिक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई हो तो वे कर्मपरमाणु यद्यपि इस विवक्षित स्थितिमें पाये अवश्य जाते हैं परन्तु उनका उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर शक्तिस्थितिका एक भी समय नहीं पाया जाता है । उन्हीं कर्मपरमाणुओंकी यदि तीन समय अधिक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई हो तो वे कर्मपरमाणु भी उत्कर्षणसे भ्नीन स्थितिवाले हैं । ये कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भ्नीन स्थितिवाले क्यों हैं इसका कारण पहले कह आये हैं । इसी प्रकार इसके आगे भी पहलेके समान बाकीके जघन्य आबाधाप्रमाण भ्नीन स्थितिविकल्प उत्पन्न कर लेने चाहिये । इससे आगे अभ्नीन स्थितिविकल्प होते हैं, क्योंकि इसके आगेके विकल्पमें जघन्य आबाधाप्रमाण स्थितिको अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके आबाधाके ऊपरकी एक स्थितिमें निक्षेप सम्भव है । इस कारणसे यहाँ अबस्तुविकल्प एक अधिक होते हैं

रूवाहिया भीणद्विदियवियप्पा च रूवूणा हौति । अभीणद्विदिएसु गत्थि गाणत्तं । विदियपरूवणाए वि एदिस्से द्विदीए पदेसग्गस्स एगो समओ पवद्धस्स अइच्छिदो ति अवत्थु । दो समया पवद्धस्स अधिच्छिदा ति अवत्थु । एवं णिरंतरं गंतूण आवलिया समयपवद्धस्स पुव्वं व अइच्छिदा ति अवत्थु । तिस्से चेव द्विदीए पदेसग्गस्स समयुत्तरावलिया वद्धस्स अइच्छिदा ति एसो आदेसो होज्ज । तं पुण पदेसग्गं कम्मद्विदिं णो सकमुक्कड्डिदुं, समयाहियाए आवलियाए णिसेगं पडुच्च तिसमयाहियदोआवलियाहि वा ऊणियं कम्मद्विदिं सकमुक्कड्डिदुं, तेत्तियमेत्तीए चेव सत्तिद्विदीए अवसेसादो ति । एत्तिओ चेव विसेसो गत्थि अण्णत्थ कत्थ वि । एसो चेव विसेसो सुत्तणिलीणो चेय पज्जवद्वियणयावलंबणेण परूविदो ण सुत्तवहिग्गभूदो ति ।

और भीन स्थितिबिकल्प एक कम होते हैं । हाँ अभीन स्थितियोंमें कोई भेद नहीं है । दूसरी प्ररूपणाके करने पर भी जिन कर्मपरमाणुओंको बन्ध करनेके बाद एक समय व्यतीत हुआ है वे कर्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिमें नहीं हैं । जिन्हें बांधनेके बाद दो समय व्यतीत हुए हैं वे कर्मपरमाणु भी नहीं हैं । इस प्रकार निरन्तर जाकर बांधनेके बाद जिन्हें एक आवलि व्यतीत हुई है वे कर्मपरमाणु भी नहीं हैं । मात्र जिन कर्मपरमाणुओंको बांधनेके बाद एक समय अधिक एक आवलि व्यतीत हुई है वे कर्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिमें हैं । किन्तु उन कर्मपरमाणुओंका कर्मस्थितिप्रमाण उत्कर्षण नहीं हो सकता; किन्तु यत्स्थितिकी अपेक्षा एक समय अधिक एक आवलि कम कर्मस्थितिप्रमाण और निषेक स्थितिकी अपेक्षा तीन समय अधिक दो आवलिकम कर्मस्थितिप्रमाण उत्कर्षण हो सकता है; क्योंकि उन कर्मपरमाणुओंमें उतनी ही शक्ति स्थिति शेष है । इस प्रकार इस स्थितिकी अपेक्षा इतनी ही विशेषता है, अन्यत्र और कोई विशेषता नहीं । किन्तु यह विशेषता सूत्रमें गर्भित है जिसका पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे कथन किया गया है । अतः यह विशेषता सूत्रके बाहर नहीं है ।

विशेषार्थ—पहले एक समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिकी प्रधानतासे दो प्रकार की प्ररूपणाओं द्वारा उत्कर्षणविषयक प्ररूपणा की गई रही । अब यहाँ दो समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिकी प्रधानतासे उत्कर्षण विषयक प्ररूपणा की गई है । सो सामान्यसे इन दोनों स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाणुओंकी अपेक्षा उत्कर्षण विषयक प्ररूपणामें कोई अन्तर नहीं है । पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा जो भी थोड़ा बहुत अन्तर है उसका उल्लेख टीकामें कर ही दिया है । पहली प्ररूपणाके अनुसार तो यह अन्तर बतलाया है कि एक समय अधिक एक आवलिकी अन्तिम स्थितिमें जितने अवस्तुविकल्प और भीन स्थिति-विकल्प होते हैं उनसे इस विवक्षित स्थितिमें अवस्तु विकल्प एक अधिक और भीन स्थितिबिकल्प एक कम होते हैं । पूर्वमें उदयावलिके ऊपरकी प्रथम स्थितिको लेकर विचार किया गया था, इसलिये अवस्तु विकल्प एक आवलिप्रमाण थे किन्तु यहाँ उदयावलिके ऊपर द्वितीय स्थितिको लेकर विचार किया जा रहा है इसलिये यहाँ अवस्तु विकल्प एक अधिक हो गया है । और यहाँ आधाधामें एक समय कम हो गया है इसलिये पहलेसे भीनस्थिति विकल्प एक कम हो गया है । तथा दूसरी प्ररूपणाके अनुसार निषेकस्थितिकी अपेक्षा उत्कर्षण एक समय घट जाता है, क्योंकि जिस स्थितिका उत्कर्षण हो रहा है उसमें एक समय बढ़ गया है, इसलिये शक्तिस्थितिमें एक समय घट जाने से निषेकस्थितिकी अपेक्षा उत्कर्षण एक समय कम प्राप्त होता है ।

❀ एवं तिसमयाहियाए चदुसमयाहियाए जाव आबाधाए आबलियूणाए एवदिमादो त्ति ।

§ ४४७. एत्थ उदयावलियाए इदि अणुवट्टेदे । तेणं संबंधो कायव्वो, जहा समयहियाए दुसमयाहियाए च उदयावलियाए णिरुंभणं काऊण एदे वियप्पा परूविदा, एवं तिसमयाहियाए चउसमयाहियाए उदयावलियाए इचादिद्विदीणं पुथ पुथ णिरुंभणं काऊण पुव्वुत्तासेसवियप्पा वत्तन्वा जाव आबाधाए आबलियूणाए जाव चरिमद्विदी एवदिमादो त्ति । णवरि संतकम्ममस्सियूण अवत्थुवियप्पा द्विदि पडि रूवाहियकमेण भणीणद्विदिवियप्पा च रूवूणकमेण णेदन्वा । णवकबंधमस्सियूण णत्थि णाणत्तं । एदासि च द्विदीणमइच्छावणा रूवूणादिकमेणाणवट्टिदा दट्टन्वा । आवाहाचरिमसमयादो उवरिमाणंतरद्विदीए सव्वासि पि एदासिमभणीणद्विदियस्स पदेसमस्स उक्कड्डणाए णिवखेवुवलंभादो । ण एस क्को उवरिमासु द्विदीसु, तत्थ आबलियमेत्तीए अइच्छावणा [ए] अवद्विदिसरूवेणुवलंभादो । एदस्स च विसेसस्स अत्थितपररूवणद्वेत्य आबलियूणावाहाचरिमद्विदीए सुत्तयारेण णिसेयपररूवणा-विसओ कओ ।

* इसी प्रकार तीन समय अधिक और चार समय अधिक उदयावलिसे लेकर एक आवलि कम आबाधा काल तक की पृथक् पृथक् स्थितिमें पूर्वीक सब विकल्प होते हैं ।

§ ४४७. इस सूत्रमे 'उदयावलियाए' इस पदकी अनुवृत्ति होती है । उससे इस सूत्रका इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए कि जिस प्रकार एक समय अधिक और दो समय अधिक उदयावलिको विवक्षित करके ये विकल्प कहे हैं उसी प्रकार तीन समय अधिक और चार समय अधिक उदयावलि आदि स्थितियोंको पृथक्-पृथक् विवक्षित करके पूर्वीक सब विकल्प कहने चाहिये । इस प्रकार यह क्रम एक आवलि कम आबाधा काल तक जाता है । यही अन्तिम स्थिति है जहाँ तक ये विकल्प प्राप्त होते हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि सत्कर्मकी अपेक्षा उत्तरोत्तर एक एक स्थितिके प्रति अबस्तु विकल्प एक एक बढ़ता जाता है और भीन स्थितिविकल्प एक एक कम होता जाता है । किन्तु नवकबन्धकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है । फिर भी इन स्थितियोंकी अतिस्थापना उत्तरोत्तर एक एक समय कम होती जानेके कारण वह अनवस्थित जाननी चाहिये; क्योंकि आबाधाके अन्तिम समयसे आगेकी अनन्तर स्थितिमें इन सभी स्थितियोंके अस्ती-स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण होकर निक्षेप देखा जाता है । परन्तु यह क्रम एक आवलिकम आबाधाकालसे आगेकी स्थितियोंमें नहीं बनता, क्योंकि बहाँ पर अवस्थितरूपसे एक आवलिप्रमाण अतिस्थापना पाई जाती है । इस विशेषके अस्तित्वका कथन करनेके लिए यहाँ पर एक आवलि कम आबाधाकी चरम स्थितिको सूत्रकारने निषेक प्ररूपणाका विषय किया है ।

विशेषार्थ—एक समय अधिक उदयावलि और दो समय अधिक उदयावलिको विवक्षित करके सामान्यसे जितने विकल्प प्राप्त हुए थे वे सबके सब विकल्प और कितनी स्थितियों-

❀ आबलियाए समयूणाए ऋणियाए आवाहाए एवडिमाए द्विदीए जं पदेसगं तस्स के वियप्पा ।

§ ४४८. पुचवमावळियाए ऋणिया जा आवाहा तिससे चरिमद्विदीए पदेसग-
मवहिं काऊण हेडिमासेसद्विदीणं वियप्पा परुविदा । संपहि तदणंतरउवरिमाए
द्विदीए आबलियाए समयूणाए ऋणिया जा आवाहा एवडिमाए जं पदेसगं तस्स
के वियप्पा हंति ? ण ताव पुचुत्ता चेव णिरवसेसा, तेसिं हेडिमाणंतरद्विदीए मज्जादा-
भावेण परुविदत्तादो । ण च तेसिमेत्थ वि संभवे तहा परुवणं सफलं होदि,
वियप्पडिसेहादो । अह अण्णे, के ते ? ण तेसिं सरुव जाणामो त्ति एसो एदस्स

को विवक्षित करनेसे प्राप्त हो सकते हैं यह बात यहाँ बतलाई गई है । बात यह है कि एक समय अधिक उद्यावलिक्की अन्तिम स्थितिमें कितनी स्थितियोंके कर्मपरमाणु सम्भव हैं और कितनी स्थितियोंके नहीं । तथा इस स्थितिके किन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण हो सकता है और किनका नहीं यह जैसे पहले बतलाया है वैसे ही एक आवलिकम आवाधाके भीतर सब स्थितियोंमें सामान्यसे बर्हा क्रम बन जाता है, इसलिये इस सब कथनको सामान्यसे एक समान कहा है । किन्तु विवक्षित स्थिति उत्तर-तर आगे आगेकी होती जानेके कारण अबस्तु विकल्प एक एक बढ़ता जाता है और मीनस्थितिविकल्प एक एक कम होता जाता है । तथा अतिस्थापना भी घटती जाती है । जब समयाधिक उद्यावलिक्की अन्तिम स्थितिके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण विवक्षित था तब अतिस्थापना समयाधिक आवलिसे न्यून आवाधाकाल प्रमाण थी । जब दो समय अधिक उद्यावलिक्की अन्तिम स्थितिके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण विवक्षित हुआ तब अतिस्थापना दो समय अधिक एक आवलिसे न्यून आवाधाकाल प्रमाण रही । इसी प्रकार आगे आगे अतिस्थापनामें एक एक समय कम होता जाता है । यहाँ इतना विशेष और जानना चाहिए कि जिस हिसाबसे अतिस्थापना कम होती जाती है उसी हिसाबसे शक्तिस्थिति भी घटती जाती है । अब देखना यह है कि यही क्रम आवलिकम आवाधासे आगेकी स्थितियों का क्यों नहीं बतलाया । टीकाकारने इस प्रश्नका यह उत्तर दिया है कि आवलिकम आवाधासे आगेकी स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण होने पर अतिस्थापना निश्चितरूपसे एक आवलि प्राप्त होती है । यही कारण है कि आवलिकम आवाधासे आगेकी स्थितियोंका क्रम भिन्न प्रकारसे बतलाया है ।

❀ एक समय कम एक आवलिसे न्यून आवाधाप्रमाण स्थितिमें जो कर्म-
परमाणु पाये जाते हैं उनके कितने विकल्प होते हैं ।

§ ४४८. पहले आवलिकम आवाधाकी अन्तिम स्थितिके कर्मपरमाणुओंकी मर्यादा करके पूर्वकी सब स्थितियोंके विकल्प कहे । अब यह बतलाना है कि उससे आगेकी जो एक समय कम एक आवलिसे न्यून आवाधा है और उसमें जो कर्मपरमाणु हैं उनके कितने विकल्प होते हैं ? यदि कहा जाय कि पूर्वोक्त सब विकल्प होते हैं सो तो बात है नहीं, क्योंकि वे सब विकल्प इससे अनन्तरवर्ती पूर्वकी स्थिति तक ही कहे हैं । अब यदि उनको यहाँ भी सम्भव मानकर इस प्रकारके कथनको सफल कहा जाय सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कथन करना निषिद्ध है । अब यदि अन्य विकल्प होते हैं तो वे कौन हैं, क्योंकि हम उनके स्वरूपको नहीं

पुच्छासुत्तस्स भावत्थो । संपट्ठि एदिस्से पुच्छाए उत्तरमाह—

❊ जस्स पदेसग्गस्स समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिव्कंता तं पि पदेसग्गमेदिस्से ट्ठिदीए णत्थि ।

§ ४४६. एदिस्से णिरुद्धाए ट्ठिदीए तं पदेसग्गं णत्थि जस्स समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिव्कंता । कुदो ? एत्तो दूरयरं हेट्ठदो ओसरिय तस्स अवट्ठाणादो । तत्तो पुण हेट्ठिमा आवलियमेत्ता अवत्थुवियप्पा अणुत्तसिद्धा त्ति ण परुविदा ।

❊ जस्स पदेसग्गस्स दुसमयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिव्कंता तं पि णत्थि ।

§ ४४०. एत्थ एदिस्से ट्ठिदीए इदि अणुवट्ठदे । सेसं सुगमं ।

जानते इस प्रकार यह इस पुच्छासूत्रका भावार्थ है । अब इस पुच्छाका उत्तर कहते हैं—

* जिन कर्म परमाणुओंकी एक समय अधिक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु भी इस स्थितिमें नहीं हैं ।

§ ४४६. इस विवक्षित स्थितिमें वे कर्म परमाणु नहीं हैं जिनकी एक समय अधिक एक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है; क्योंकि वे कर्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिसे बहुत दूर पीछे जाकर अवस्थित हैं । तथा इन कर्मपरमाणुओंसे पूर्वकी एक आवलिप्रमाण स्थितिमें स्थित कर्मपरमाणु भी इस विवक्षित स्थितिमें नहीं हैं यह बात अनुक्तसिद्ध है, इसलिये इसका यहाँ कथन नहीं किया ।

विशेषार्थ—आवाधाकालमें से एक समय कम एक आवलिके घटा देने पर जो अन्तकी स्थिति प्राप्त हो वह यहाँ विवक्षित स्थिति है । अब यह विचार करना है कि इस स्थितिमें किन स्थितियोंके कर्मपरमाणु हैं और किनके नहीं । एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिसे यह विवक्षित स्थिति बहुत काल आगे जाकर प्राप्त होती है, इसलिये इस विवक्षित स्थितिमें एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिके कर्मपरमाणु नहीं पाये जा सकते यह इस सूत्रका तात्पर्य है । किन्तु इस विवक्षित स्थितिमें एक समय अधिक उदयावलिकी अन्तिम स्थितिसे पूर्वकी एक आवलिप्रमाण स्थितियोंके कर्मपरमाणु भी तो नहीं पाये जाते फिर यहाँ उनका निषेध क्यों नहीं किया, यह एक प्रश्न है जिसका समाधान किया जाना आवश्यक है । अतएव इसी प्रश्नका समाधान करनेके लिये टीकामें यह बतलाया है कि जब अगली स्थितिके कर्मपरमाणुओंका विवक्षित स्थितिमें निषेध कर दिया तब इससे पिछली स्थितियोंके कर्मपरमाणुओंका विवक्षित स्थितिमें निषेध बिना कहे ही हो जाता है, इसलिये उनके निषेधका यहाँ अलगसे उल्लेख नहीं किया ।

* जिन कर्मपरमाणुओंकी दो समय अधिक एक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु भी इस विवक्षित स्थितिमें नहीं हैं ।

§ ४५०. इस सूत्रमें 'एदिस्से ट्ठिदीए' इस पदकी अनुवृत्ति होती है । शेष अर्थ सुगम है ।

✽ एवं गंतूण जदेही एसा डिदी एत्तिएण जणिया कम्मटिदी विदिककंता जस्स पदेसग्गस्स तमेदिस्से डिदीए पदेसग्गं होज्ज । तं पुण उक्कड्डणादो भीणट्टिदियं ।

§ ४५१. केदें ही एसा डिदी ? जदेही समयूणावलयपरिहीणावाहा तदेही । सेसं सुगमं ।

✽ एदं ट्टिदिमादिं कादूण जाव जइणियाए आवाहाए एत्तिएण जणिया कम्मटिदी विदिककंता जस्स पदेसग्गस्स तं पि पदेसग्गमेदिस्से डिदीए होज्ज । तं पुण सव्वसुक्कड्डणादो भीणट्टिदियं ।

§ ४५२. कुदो ? अवट्टिदाए अइच्छावणाए आवलयमेत्तीए समयूणत्तणेण अज्ज वि संपुण्णत्ताभावादो । एदमेत्थतणचरिमवियप्पस्स जुत्तं, सेसासेसमज्झिम-वियप्पाणं पि एदं चेव कारणं वत्तव्वं, विसंसाभावादो ।

✽ इस प्रकार आगे जाकर जितनी यह विवक्षित स्थिति है इससे न्यून शेष कर्मस्थिति जिन कर्मपरमाणुओंकी व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु इस स्थितिमें हो सकते हैं । परन्तु वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४५१. शंका—इस स्थितिका कितना प्रमाण है ?

समाधान—एक समय कम आवलिसे न्यून आवाधा जितनी है उतना इस स्थितिका प्रमाण है ।

शेष कथन सुगम है ।

विशेषार्थ—इस सूत्रमे यह बतलाया है कि इस विवक्षित स्थितिमे किस स्थितिसे पूर्वके कर्मपरमाणु नहीं हैं और वह प्रारम्भकी कौनसी स्थिति है जिसके परमाणु इसमे हैं । जैसा कि पहले लिख आये हैं कि इस विवक्षित स्थितिमे जिन कर्मपरमाणुओंकी एक समय अधिक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु नहीं हैं । जिनकी दो समय अधिक आवलिसे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु भी नहीं हैं । इसी प्रकार उत्तरोत्तर एक एक समय बढ़ते हुए जिनकी एक आवलि न्यून आवाधाप्रमाण कर्मस्थिति शेष रही है वे कर्मपरमाणु भी इस विवक्षित स्थितिमें नहीं हैं । मात्र जिनकी एक समय कम आवलिसे न्यून आवाधाप्रमाण कर्मस्थिति शेष है वे कर्मपरमाणु इस विवक्षित स्थितिमें अवश्य पाये जाते हैं । फिर भी इन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इनमे एक समयमात्र भी शक्ति-स्थिति नहीं पाई जाती है यह इस सूत्रका भाव है ।

✽ इस स्थितिसे लेकर जघन्य आवाधा तक जितनी स्थिति है उससे न्यून कर्मस्थिति जिन कर्मपरमाणुओंकी व्यतीत हो गई है वे कर्मपरमाणु भी इस विवक्षित स्थितिमें हैं परन्तु वे सबके सब उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४५२. क्योंकि अवस्थित अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण बतलाई है वह एक समय कम होनेसे अभी पूरी नहीं हुई है । यह यहाँ अन्तिम विकल्पका कारण कहा है । वाक्यके सब मध्यम विकल्पोका भी यही कारण कहना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है ।

§ ४५३. संपहियणिरुद्धिदीए पुव्वमादिद्वहेद्विमिद्विदीणं च साहारणी एसा परूवणा; तथ वि आबाहामेत्तावसेसकम्मद्विदियस्स पदेसग्गस्स भीणद्विदियत्तुव-
लंभादो । संपहि एत्थतणअसामण्णवियप्पपरूवणद्वुत्तरो पबंधो—

❀ आबाधाए समयुत्तराए ऊणिया कम्मद्विदी विदिवकंता जस्स पदेसग्गस्स तं पि एदिस्से द्विदीए पदेसग्गं होज्ज । तं पुण उक्कड्डणादो भीणद्विदियं ।

§ ४५४. जइ वि एत्थ अरूच्चावणा आवलियमेत्ती पुएणा तो वि णिकखेवा-
भावेण उक्कड्डणादो भीणद्विदियत्तमिदि घेत्तव्वं । कुदो णिकखेवाभावो ? आवलियमेत्तं
मोत्तूण उवरि सत्तिद्विदीए अभावादो । एसो एत्थ णिरुद्धिदीए संतकम्ममस्सियुण

विशेषार्थ—प्रकृत सूत्रमे यह बतलाया है कि इस विवक्षित स्थितिमें स्थित किस स्थिति तकके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण नहीं हो सकता। यह तो पहले ही बतला आये हैं कि एक समय कम एक आवलिसे न्यून आवाधाप्रमाण स्थितिसे लेकर आगे सर्वत्र अतिस्थापना एक आवलि प्राप्त होती है। अब जय इस नियमको सामने रखकर विचार किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जिन कर्मपरमाणुओंकी एक समय कम एक आवलिसे न्यून आवाधा प्रमाण स्थितिसे लेकर आवाधाप्रमाण स्थिति शेष है उनका भी उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें प्रारम्भके विकल्पमें एक समयमात्र भी शक्तिस्थिति या अतिस्थापना नहीं पाई जाती। दूसरे विकल्पमें अतिस्थापना केवल एक समयमात्र पाई जाती है। तीसरे विकल्पमें दो समय अतिस्थापना पाई जाती है इस प्रकार आगे आगे जाने पर अन्तिम विकल्पमें वह अतिस्थापना एक समय कम एक आवलि पाई जाती है। परन्तु पूरी आवलिप्रमाण अतिस्थापना किसी भी विकल्पमें नहीं पाई जाती, इसलिये इन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण नहीं हो सकता यह इस सूत्रका भाव है।

§ ४५३. चिन्तु इस समय जो स्थिति विवक्षित है और इससे पूर्वकी जो स्थितियाँ विवक्षित रहीं उन दोनोंके प्रति यह प्ररूपणा साधारण है; क्योंकि वहाँ भी जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति आवाधाप्रमाण शेष रही है उनमें भीनस्थितिपना स्वीकार किया गया है। अब इस स्थितिसम्बन्धी असाधारण विकल्पका कथन करनेके लिये आगेकी रचना है—

❀ जिन कर्मपरमाणुओंकी एक समय अधिक आवाधासे न्यून कर्मस्थिति व्यतीत हुई है वे कर्मपरमाणु भी इस स्थितिमें हैं पर वे उत्कर्षणसे भीन स्थिति-
वाले हैं ।

§ ४५४. यद्यपि यहाँ एक आवलिप्रमाण अतिस्थापना पूरी हो गई है तो भी निक्षेपका अभाव होनेसे वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले हैं यह यहाँ ग्रहण करना चाहिये।

शंका—निक्षेपका अभाव क्यों है ?

समाधान—क्योंकि इन कर्मपरमाणुओंकी एक आवलिके सिवा और अधिक शक्ति स्थिति नहीं पाई जाती, इसलिये निक्षेपका अभाव है।

इस विवक्षित स्थितिमें सत्कर्मकी अपेक्षासे जो यह विकल्प विशेष कहा है सो यह

हेट्टिन्लट्टिदीहिंतो अपुणरुत्तो वियप्पविसेसो हेट्टिमट्टिदिपदेसग्गाणमावाहासेसमेत्-
मधिच्छाविय तदणंतरोवरिमाए एकस्से ट्टिदीए णिक्खेवुवत्तंभादो । णवकबंध-
मस्सियुण पुण आवलियमेत्ता चेय अवत्थुवियप्पा पुव्वं व सव्वत्थ अणुसाहिया होंति
त्ति णत्थि तत्थ णाणत्तं । णवरि पुव्वपरुविदाणमावलियमेत्तणवकबंधाणं मज्जे
पढमसमयपदद्धस्सावलियाविच्छदबंधस्स जहा णिसेयसरुवेण वत्थुत्तमेत्थ दीसइ,
हेट्टिमसमए चेव तदावाहापरिच्छित्तिदंसणादो । तं पि कुदो ? जहण्णावाहाए चेव
सव्वत्थ विवक्खित्तादो । कथं पुण संपुण्णावलियमेत्तपमाणमेत्थ तच्चियप्पाणमिदि
णासंकणित्तं, तत्कालियणवकबंधेण सह तेमि तदविरोहादां । एत्तिओ चेव विसेसो,
णत्थि अण्णो को इ विसेसो त्ति जाणावणद्दमुत्तरमुत्तं—

❀ तेण परमज्झीणट्टिदियं ।

§ ४५५. ततो समयुत्तरवाहापरिहीणविदिकंतकम्मट्टिदियादो गिरुद्धट्टिदि-
पदेसग्गादो परमण्णं पदेसग्गमज्झीणट्टिदियमुक्कड्डणादो त्ति अहियारवसेणाहिसंबंधो ।
कुदो एदमज्झीणट्टिदियं ? अधिच्छावणा-णिक्खेवाणमेत्थ संबवादो । केत्तियमेत्ती

विकल्प पूर्वकी स्थितियोंसे अपुनरुक्त है; क्योंकि पूर्वकी स्थितियोंके कर्मपरमाणुओंकी जो
आवाधा शेष रहती है उसे अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके उससे आगे ही एक स्थितिमें
निक्षेप पाया जाता है । नवकवन्धकी अपेक्षा तो सर्वत्र न्यूनाधिकतासे रहित पहलेके समान एक
आवलिप्रमाण ही अवस्तु विकल्प होते हैं, इसलिये उनके कथनमें सर्वत्र कोई भेद नहीं है ।
किन्तु इतनी विशेषता है कि पहले जो एक आवलिप्रमाण नवकवन्ध कहे हैं उनमेंसे जिसे
बंधे एक आवलि हो गया है ऐसे प्रथम समयप्रवृद्धके निषेकोकी जैसी रचना हुई उसके अनुसार
सद्भाव यहाँ विवक्षित स्थितिने दिखाई देता है; क्योंकि इससे पूर्वके समयमें ही उस समयप्रवृद्धके
आवाधाका अन्त देखा जाता है ।

शंका—तो कैसे ?

समाधान—क्योंकि सर्वत्र जघन्य आवाधा ही विवक्षित है ।

यदि ऐसा है तो फिर यहाँ पर नवकवन्धसम्बन्धी अवस्तुविकल्प पूरी आवलिप्रमाण
कैसे हो सकते हैं सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि तत्कालिक नवकवन्धके साथ
उन्हें पूरी आवलिप्रमाण माननेमें कोई विरोध नहीं आता । यहाँ इतनी ही विशेषता है अन्य
कोई विशेषता नहीं है इस प्रकार इस बातके जतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ उससे आगे अभीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं ।

§ ४५५. उससे आगे अर्थात् पहले जो एक समय अधिक आवाधासे हीन कर्मस्थिति
और इस स्थितिके जो कर्मपरमाणु कहे हैं उनसे आगे अन्य कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे अभीन
स्थितिवाले हैं ऐसा यहाँ अधिकारके अनुसार अर्थ करना चाहिये ।

शंका—ये कर्म परमाणु अभीन स्थितिवाले क्यों हैं ?

समाधान—क्योंकि यहाँ अतिस्थापना और निक्षेप दोनों सम्भव हैं ।

एतत्तणी अचिच्छावणा ? आवलियमेत्ती अवद्विदा चयमुवरि सन्वत्थ । केत्तिओ पुण एत्थ णिकखेवो ? एओ समओ । सो च अणवद्विओ समउत्तरादिकमेण उवरिम-वियप्पेसु वट्टमाणो गच्छइ ।

§ ४५६. संपहि पयदद्विदीए वियप्पे समाणिय उवरिमासु द्विदीसु वियप्पगवेसणं कुणमाणो चुणिसुत्तयारो इदमाह—

❀ समयूणाए आवलियाए ऊणिया आवाहा । एदिस्से द्विदीए वियप्पा समत्ता ।

§ ४५७. सुगमं ।

❀ एदादो द्विदीदो समयुत्तराए द्विदीए वियप्पे भणिस्सामो ।

शंका—यहाँ अतिस्थापनाका प्रमाण कितना है ?

समाधान—एक आवली, जो कि आगे सर्वत्र अवस्थित ही जानना चाहिये ।

शंका—यहाँ निक्षेपका प्रमाण कितना है ?

समाधान—एक समय जो कि अनवस्थित है, क्योंकि वह आगेके विकल्पोंमें एक-एक समय अधिकके क्रमसे बढ़ता जाता है ।

विशेषार्थ—पहले यह बतलाकर कि एक समय कम आवलिसे न्यून आबाधाप्रमाण कर्मस्थितिमें जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति एक समय अधिक आबाधाप्रमाण शेष हो उनका उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आवलिप्रमाण अतिस्थापनाके रहने पर भी निक्षेपका सर्वथा अभाव है । अब यह बतलाया गया है कि उसी विवक्षित स्थितिमें जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति उक्त स्थितिसे अधिक शेष हो उनका उत्कर्षण हो सकता है । यहाँ सर्वत्र अतिस्थापना तो एक आवलिप्रमाण ही प्राप्त होती है न्यूनधिक नहीं । पर निक्षेप उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है । यदि पूर्वस्थितिसे एक समय अधिक स्थिति शेष हो तो निक्षेप एक समय प्राप्त होता है । यदि दो समय अधिक शेष हो तो निक्षेप दो समय प्राप्त होता है । इस प्रकार आगे आगे शेष रही स्थितिके अनुसार निक्षेप बढ़ता जाता है ।

§ ४५६. अब प्रकृत स्थितिमें विकल्पोंको समाप्त करके आगेकी स्थितियोंमें विकल्पोंका विचार करते हुए चुणिसूत्रकार आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ विवक्षित स्थितिमें एक समय कम आवलिसे न्यून आबाधाप्रमाण अवस्तु विकल्प होते हैं । इस प्रकार इस स्थितिके विकल्प समाप्त हुए ।

४५७. यह सूत्र सरल है ।

विशेषार्थ—विवक्षित स्थिति दो समय कम आवलिसे न्यून आबाधाकी अन्तिम स्थिति है, अतः इसमें, जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति उदय समयसे लेकर एक समय कम आवलिसे न्यून आबाधाकाल तक शेष रही है, वे कर्मपरमाणु नहीं पाये जाते । इसीसे इस विवक्षित स्थितिमें एक समय कम आवलिसे न्यून आबाधाप्रमाण अवस्तुविकल्प बतलाये हैं ।

❀ अब इस स्थितिसे एक समय अधिक स्थितिके विकल्प कहेंगे ।

§ ४५८. इमादो पुव्वणिरुद्धिदीदो समयुत्तरा जा द्विदी तिस्से पदेसगस्स अवत्थुवियप्पे भौणाभीणद्विदियवियप्पे च भणिस्सामो चि सुत्तथो ।

❀ सा पुण का द्विदी ।

§ ४५९. सा पुण संपहि गिरुंभिज्जमाणा का द्विदी, कइत्थी सा, उदयद्विदीदो केत्तियमद्धानुवरि चडिय ववद्विदा, आवाहा चरिमसमयादो वा केत्तियमेत्तमोइण्णा ति एवमासंकिय सिस्सं गिरारेयं काउमुत्तरसुत्तं भणइ—

❀ दुसमयूणाए आवलियाए उणिया जा आवाहा एसा सा द्विदी ।

§ ४६०. जेतिया दुसमयूणाए आवलियाए ऊणिया आवाहा एसा सा द्विदी, एवडिमा सा द्विदी जा संपहि वियप्पपरूवणद्वमाइहा । उदयद्विदीदो दुसयूणावलिय-परिहीणावाहामेत्तमद्धानुवरि चडिय आवाहाचरिमसमयादो दुसमयूणावलियमेत्तं हेद्वदो वोसरिय पुव्वणंतरणिरुद्धिदीए उवरि द्विदा एसा द्विदि ति वुत्तं होइ ।

❀ इदाणिमेदिस्से द्विदीए अवत्थुवियप्पा केत्तिया ।

§ ४६१. सुगमं ।

❀ जावदिया हेद्विद्वियाए द्विदीए अवत्थुवियप्पा तदो रूवुत्तरा ।

§ ४५८. इससे अर्थात् पूर्व विवक्षित स्थितिसे जो एक समय अधिक स्थिति है उस स्थितिके कर्मपरमाणुओके अवस्तुविकल्प और भीनाभीन स्थितिविकल्प कहेंगे यह इस सूत्रका भाव है ।

❀ वह कौनसी स्थिति है ?

§ ४५९. जो इस समय विवक्षित है वह कौनसी स्थिति है, उसका क्या प्रमाण है, उदयस्थितिसे कितना स्थान आगे जाकर वह स्थित है, या आबाधाके अन्तिम समयसे कितना काल पीछे जाकर वह पाई जाती है इस प्रकारकी शंका करनेवाले शिष्यको निःशंका करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ दो समय कम आवलिसे न्यून जो आबाधा है यह वह स्थिति है ।

§ ४६०. दो समय कम आवलिसे न्यून आबाधाका जितना प्रमाण हो इतनी वह स्थिति है जो इस समय विकल्पोका कथन करनेके लिये विवक्षित है । उदय स्थितिसे दो समय कम आवलिसे हीन आबाधाप्रमाण स्थान आगे जाकर और आबाधाके अन्तिम समयसे दो समय कम आवलिप्रमाण स्थान पीछे जाकर पूर्वोक्त अनन्तरवर्ती विवक्षित स्थितिके आगे यह स्थिति है यह इस सूत्रका भाव है ।

❀ अब इस स्थितिके अवस्तुविकल्प कितने हैं ।

§ ४६१. यह सूत्र सरल है ।

❀ पिछली स्थितिके जितने अवस्तु विकल्प हैं उनसे एक अधिक है ।

§ ४६२. संतकम्ममस्सियूणं जेतिया अणंतरहेट्ठिमाए अवत्थुवियप्पा तदो रूबुत्तरा एत्थ ते वचन्वा, तत्तो रूबुत्तरमद्धानं चडिय' एदिस्से अंवद्वाणादो । एदं रूबुत्तरवयणमंतदीवयं । तेण हेट्ठिमासेसद्विदीणमवत्थुवियप्पा अणंतराणतरादो रूबुत्तरा ति वेत्तव्वं । एदं च संतकम्ममस्सियूणं परूविदं, ण णवकवंधमस्सिय, तत्थावलिय-मेत्ताणंमवत्थुवियप्पाणमवद्विदसरूवेणांद्वाणादो । एवमवत्थुवियप्पे परूविय वत्थु-वियप्पाणं भीणाभीणद्विदियभेदभिष्णाणं परूवणद्वमुत्तरो पवंधो—

❀ जदेही एसा द्विदी तत्तियं द्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसयं जस्स पदेसग्गस्स तं पयेसग्गमेदिस्से द्विदीए होज्ज तं पुण उक्कड्डणादो भीणद्विदियं ।

§ ४६३. कुदो ? उवरि सत्तिद्विदीए एयस्स वि समयस्स अभावादो ।

❀ एंदादो द्विदीदो समयुत्तरद्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसयं जस्स पदेसग्गस्स तंमुक्कड्डणादो भीणद्विदियं ।

§ ४६४. सुगमं ।

❀ एवं गंतूण आवाहामेत्तद्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसं जस्स पदेसग्गस्स एदीए द्विदीए दीसइ तं पि उक्कड्डणादो भीणद्विदियं ।

§ ४६२. सत्कर्मकी अपेक्षा जितने अनन्तरवर्ती पिछली स्थितिके अवस्तुविकल्प हैं उनसे एक अधिक यहाँ वे विकल्प हैं, क्योंकि पूर्वस्थितिसे एक स्थान आगे जाकर यह स्थिति अवस्थित है। इस सूत्रमें जो 'रूबुत्तरा' वचन आया है सो यह अन्तदीपक है। इससे यह मात्स्य होता है कि पीछे सर्वत्र पूर्व पूर्व अनन्तरवर्ती स्थितिसे आगे आगेकी स्थितिके अवस्तु विकल्प एक एक अधिक होते हैं। यह सब सत्कर्मकी अपेक्षासे कहा है, नवकवंधकी अपेक्षासे नहीं; क्योंकि नवकवंधकी अपेक्षासे सर्वत्र एक आवालिप्रमाण ही अवस्तुविकल्प पाये जाते हैं। इस प्रकार अवस्तुविकल्पोंका कथन करके भीनाभीनस्थितियोंकी अपेक्षासे अनेक प्रकारके वस्तुविकल्पोंका कथन करनेके लिये आगेकी रचना है -

* जितनी यह स्थिति है उतना स्थितिसत्कर्म जिन कर्मपरमाणुओंका शेष है व कर्मपरमाणु इस स्थितिमें हैं। किन्तु वे उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले हैं।

§ ४६३. क्योंकि ऊपर एक समयमात्र भी शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती है।

* इस स्थितिसे जिन कर्मपरमाणुओंका कर्मस्थितिमें एक समय अधिक स्थिति-सत्कर्म शेष है वे कर्मपरमाणु भी उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले हैं।

§ ४६४. यह सूत्र सरल है।

* इसी प्रकार आगे जाकर कर्मस्थितिमें जिन कर्मपरमाणुओंका आवाधा-प्रमाण स्थितिसत्कर्म शेष है वे कर्मपरमाणु भी इस स्थितिमें पाये जाते हैं। परन्तु वे भी उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं।

§ ४६५. एत्थ तं पि सद्दो आवित्तीए दोवारमहिसंबंधेयव्वो । तं पि पदेसग्ग-
मेदिस्से द्विदीए दीसइ । दिस्समाणं पि तसुक्कड्डणादो भीणद्विदियमिदि ।

❊ आवाहासमयुत्तरमेत्तं द्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसं जस्सं
पदेसग्गस्स तं पि उक्कड्डणादो भीणद्विदियं ।

§ ४६६. कम्मद्विदीए अब्भंतरे जस्स पदेसग्गस्स समयुत्तरावाहामेत्तद्विदि-
संतकम्ममवसेसं तं पि एदिस्से द्विदीए द्विदसुक्कड्डणादो भीणद्विदियं । कुदो ?
अधिच्छावणाए अज्ज वि समयुत्तदंसणादो ।

❊ आवाधादुसमयुत्तरमेत्ताद्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसं जस्सं
पदेसग्गस्स एदिस्से द्विदीए दिस्सइ तं पदेसग्गसुक्कड्डणादो भीणद्विदियं ।

§ ४६७. कुदो अधिच्छावणाए आवल्लियमेत्तीए संपुण्णाए संतीए भीणद्विदियत्त-
मेदस्स ? ण, णिक्खेत्ताभावेण तद्वाभावविरोहादो ।

§ ४६५. इस सूत्रमें 'तं पि' शब्दकी आश्रुति करके दो वार सम्बन्ध कर लेना चाहिये ।
यथा—वे कर्मपरमाणु भी इस स्थितिमें पाये जाते हैं । पाये जाकर भी वे उत्कर्षणसे भीन
स्थितिवाले हैं ।

❊ तथा जिन कर्मपरमाणुओंकी कर्मस्थितिमें एक समय अधिक आवाधा-
प्रमाण स्थिति शेष है वे कर्मपरमाणु भी उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४६६. कर्मस्थितिके भीतर जिन कर्मपरमाणुओंका एक समय अधिक आवाधाप्रमाण
स्थितिसत्कर्म शेष है वे कर्मपरमाणु भी यद्यपि इस स्थितिमें हैं तो भी वे उत्कर्षणसे भीन
स्थितिवाले हैं, क्योंकि अभी भी अतिस्थापनामें एक समय कम देखा जाता है ।

❊ कर्मस्थितिके भीतर जिन कर्मपरमाणुओंका दो समय अधिक आवाधा-
प्रमाण स्थितिसत्कर्म शेष है वे कर्मपरमाणु भी इस स्थितिमें पाये जाते हैं । परन्तु
वे उत्कर्षणसे भीन स्थितिवाले हैं ।

§ ४६७. शंका—जब कि अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण पूरी है तब इन कर्म-
परमाणुओंमें भीनस्थितिपना कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि निक्षेपका अभाव होनेसे इन कर्मपरमाणुओंमें भीनस्थिति-
पनेके होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

विरोधार्थ—इन पूर्वोक्त सूत्रोंमें यह बतलाया है कि तीन समय अधिक आवलिसे न्यून
आवाधाप्रमाण स्थितिमें भीनस्थिति विकल्प कदाँसे लेकर कदाँ तक होते हैं । यह तो पहले ही
बतलाया जा चुका है कि एक समय कम आवलिसे न्यून आवाधाप्रमाण स्थितिसे लेकर आगे
सर्वत्र अतिस्थापना एक आवलि प्राप्त होती है । विवक्षित स्थिति भी उक्त स्थितिसे दो समय
आगे जाकर प्राप्त है, इसलिये इसमें भी अतिस्थापनाका प्रमाण एक आवलि प्राप्त होता है ।
आशय यह है कि इस स्थितिमें जो कर्मपरमाणु स्थित हैं उनमेंसे जिनकी स्थिति उसी विवक्षित

❀ तेण परमुक्कड्डणादो अभीणट्टिदियं ।

§ ४६८. आवलियमेत्तमइच्छावि एक्किसे अणंतरोवरिमट्टिदीए णिवखेनुवलंभादो उवरि णिवखेवस्स समयुत्तरकमेण वट्टिदंसणादो च ।

❀ दुसमयूणाए आवलियाए ऊणिया आवाहा एवडिमाए ट्टिदीए वियप्पा समत्ता ।

❀ एत्तो समयुत्तराए ट्टिदीए वियप्पे भणिस्सामो ।

§ ४६९. एत्तो समणंतरविदिककंतणिरुद्धट्टिदीदो जा समयुत्तरा ट्टिदी तिस्से वियप्पे अवत्थु भीणाभीणट्टिदियभेदभिण्णे भणिस्सामो त्ति पइज्जासुत्तमेदं ।

❀ एत्तो पुण ट्टिदीदो समयुत्तरा ट्टिदी कदमा ।

§ ४७०. सुगमं ।

❀ जहणिया आवाहा तिसमयूणाए आवलियाए ऊणिया एवडिमा ट्टिदी ।

स्थितिप्रमाण या उससे एक समयते लेकर एक आवलि तक अधिक है उनका उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ अन्तिम विकल्पमें यद्यपि अतिस्थापना पूरी हो गई है तो भी निक्षेपका सर्वत्र अभाव है ।

* उससे आगे उत्कर्षणसे अभीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं ।

§ ४६८. क्योंकि यहाँ एक आवलिप्रमाण स्थितियोंको अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके अनन्तरवर्ती आगेकी एक स्थितिमें निक्षेप देखा जाता है और आगे भी एक एक समय अधिकके क्रमसे निक्षेपकी वृद्धि देखी जाती है ।

विशेषार्थ—दो समय कम आवलिसे न्यून आवाधाप्रमाण स्थितिमें जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति तीन समय अधिक आवाधा प्रमाण या इससे भी अधिक है उन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण हो सकता है, क्योंकि यहाँ अतिस्थापना और निक्षेप दोनों पाये जाते हैं यह इस सूत्रका आशय है ।

* दो समय कम आवलिसे न्यून आवाधाप्रमाण स्थितिके विकल्प समाप्त हुए ।

* अब इस पूर्वोक्त स्थितिसे एक समय अधिक स्थितिके विकल्प कहेंगे ।

§ ४६९. अब इस समनन्तर व्यतीत हुई विवक्षित स्थितिसे जो एक समय अधिक स्थिति है उसके अवस्तु और भीनाभीन स्थितियोंकी अपेक्षा नाना प्रकारके विकल्पोंको कहेंगे इस प्रकार यह प्रतिष्ठा सूत्र है ।

* किन्तु इस स्थितिसे एक समय अधिक स्थिति कौन सी है ।

§ ४७०. यह सूत्र सुगम है ।

* तीन समय कम आवलिसे न्यून जघन्य आवाधाका जितना प्रमाण है यह वह स्थिति है ।

§ ४७१. उदयद्विदीदो तिसमयूणावलयिपरिहीणजहणणाबाहामेत्तमुवरि चडिय आवाहाचरिमसमयादो तिसमयूणावलयिमेत्तमोदरिय एसा द्विदी द्विदा त्ति बुत्तं होदि । एदिस्से द्विदीए केत्तिया वियप्पा होंति त्ति सिस्साभिप्पायमासंकिय एत्तियमेत्ता होंति त्ति जाणावणद्वमुत्तरमुत्तमोइण्णं—

❀ एदिस्से द्विदीए एत्तिया चेव वियप्पा । एवरि अवत्थुवियप्पा रूवुत्तरा ।

§ ४७२. एदिस्से संपहि णिरुद्धद्विदीए एत्तिया चेव वियप्पा होंति जेत्तिया अणंतरहेट्ठिमाए । एवरि संतकम्ममस्सियूण अवत्थुवियप्पा रूवुत्तरा होंति, ततो रूवुत्तरमेत्तमद्दाणमुवरि गंतूणावद्दाणादो ।

❀ एस क्को जाव जहणिया आवाहा समयुत्तरा त्ति ।

§ ४७३. एस अणंतरपरूविदो क्को जाव जहणिया आवाहा समयुत्तरा त्ति अवद्विदाणं दुसमयूणावलयिमेत्तियाणमुवरिमद्विदीणं वि अणूणाहिओ जाणेयव्वो, विसेसाभावादो । एवरि आवाहाचरिमसमयादो अणंतरोवरिमाए द्विदीए एवकबंध-मस्सियूण अवत्थुवियप्पा ण लब्भंति । आवाहाए वाहिं त्कालियस्स वि एवकबंध-

§ ४७१. उदय स्थितिसे तीन समय कम आवलिसे न्यून जघन्य आवाधाप्रमाण स्थान आगे जाकर और आवाधाके अन्तिम समयसे तीन समय कम एक आवलिप्रमाण स्थान पीछे आकर यह स्थिति स्थित है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इस स्थितिमें कितने विकल्प होते हैं इस प्रकार शिष्यके अभिप्रायानुसार आशंका करके इतने विकल्प होते हैं यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र आया है—

❀ इस स्थितिमें इतने ही विकल्प होते हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि अवस्तुविकल्प एक अधिक होते हैं ।

§ ४७२. इस समय जो स्थिति विवक्षित है उसमें इतने ही विकल्प होते हैं जितने अनन्तर पूर्ववर्ती स्थितिमें बतला आये हैं । किन्तु सत्कर्मकी अपेक्षा अवस्तुविकल्प एक अधिक होते हैं, क्योंकि पूर्व स्थितिसे एक स्थान आगे जाकर यह स्थिति अवस्थित है ।

विशेषार्थ—पूर्व स्थितिसे इस स्थितिमें और कोई विशेषता नहीं है, इसलिये इसके और सब विकल्प तो पूर्व स्थितिके ही समान हैं । किन्तु अवस्तुविकल्पोंमें एककी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि पूर्व स्थितिसे एक स्थान आगे जाकर यह स्थिति स्थित है यह इस सूत्रका भाव है ।

❀ एक समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण स्थितिके प्राप्त होने तक यही क्रम जानना चाहिये ।

§ ४७३. यह जो इससे पहले क्रम कहा है वह एक समय अधिक जघन्य आवाधाके प्राप्त होने तक जो दो समय कम एक आवलिप्रमाण स्थितियों अवस्थित हैं उन आगेकी स्थितियोंका भी न्यूनाधिकताके विना पूर्ववत् जानना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि आवाधाके अन्तिम समयसे अनन्तर स्थित आगेकी स्थितिमें नवकबंधकी अपेक्षा अवस्तुविकल्प नहीं पाये जाते, क्योंकि आवाधाके बाहर जिस

पदेसगिसेयस्स पडिसेहाभावादो ।

❀ जहणियाए आवाहाए दुसमयुत्तराए पहुडि णत्थि उक्कड्डणादो भ्नीणट्टिदियं ।

§ ४७४. एदस्स सुत्तस्स अवयवत्थपरूवणा सुगमा । एत्थ चोदओ भणदि—
दुसमयुत्तरजहणणावाहाओ उवरिमट्टिदीसु वि उक्कड्डणादो भ्नीणट्टिदियं पदेसग्गमत्थि,
तत्थेव णिट्ठियकम्मट्टिदियसमयपवद्धपदेसग्गपहुडि अड्छावणावलियमेत्ताणमेत्थ
भ्नीणट्टिदियवियप्पणमुत्तलंभादो । ण च णवक्कबंधमस्सियूण अवत्थुवियप्पा णत्थि
त्ति तहा परूवणं णाइयं, तेसिमेत्थ पहाणत्ताभावादो । तदो आवलियमेत्तेसु भ्नीण-
ट्टिदियवियप्पेसु आवाहादो उवरि वि ट्टिदिं पडि लब्भमाणेसु किमेदं वुच्चदे—
आवाहाए दुसमयुत्तराए पहुडि णत्थि उक्कड्डणादो भ्नीणट्टिदियमिदि ? एत्थ परिहारो
वुच्चदे—उक्कड्डणादो भ्नीणा ट्टिदी जस्स पदेसग्गस्स तमुक्कड्डणादो भ्नीणट्टिदियं
णाम । ण च एदं दुसमयुत्तरावाहपहुडि उवरिमासु ट्टिदीसु संभवइ, तत्थ समाणिद-

समय बन्ध होता है उस समय भी नवकबन्धके निषेकोका प्रतिषेध नहीं है ।

विशेषार्थ—तीन समय कम आवलिसे न्यून जघन्य आवाधाप्रमाण स्थितिके सम्बन्धमें जो क्रम कहा है वही क्रम एक समय अधिक आवाधाप्रमाण स्थितिके प्राप्त होने तक भी प्रत्येक स्थितिका जानना चाहिये यह इस सूत्रका आशय है । किन्तु आवाधाप्रमाण स्थितिसे आगेकी स्थितिमें नवकबन्धकी अपेक्षा अवस्तुविकल्प नहीं पाये जाते, यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये । इसका कारण यह है कि आवाधाके भीतर निषेकरचना नहीं होनेके कारण सर्वत्र एक आवलि-प्रमाण अवस्तुविकल्प प्राप्त हो जाते हैं । पर आवाधाके बाहर तो प्रारम्भसे ही निषेकरचना पाई जाती है, इसलिये वहाँ नवकबन्धकी अपेक्षा अवस्तुविकल्प किसी भी हालतमें सम्भव नहीं हैं ।

❀ दो समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण स्थितिसे लेकर आगे उत्कर्षणसे भ्नीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु नहीं हैं ।

§ ४७४. इस सूत्रके प्रत्येक पदका व्याख्यान सुगम है ।

शंका—यहाँ पर शंकाकार कहता है कि दो समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण स्थितिसे लेकर आगेकी स्थितियोंमें भी उत्कर्षणसे भ्नीन स्थितिवाले कर्मपरमाणु हैं, क्योंकि समयप्रवद्धके जिन कर्मपरमाणुओंकी क्रमस्थिति वहाँ समाप्त हो गई है उन कर्मपरमाणुओंसे लेकर अतिस्थापनावलिप्रमाण भ्नीनस्थितिविकल्प यहाँ पाये जाते हैं । यदि कहा जाय कि नवकबन्धकी अपेक्षा अवस्तुविकल्प नहीं हैं, इसलिये ऐसा कथन करना न्याय्य है सो भी बात नहीं है, क्योंकि उनकी यहाँ प्रधानता नहीं है । इसलिए जब कि आवाधासे ऊपर प्रत्येक स्थितिके प्रति एक आवलिप्रमाण भ्नीनस्थितिविकल्प पाये जाते हैं तब फिर यह क्यों कहा जाता है कि दो समय अधिक आवाधाप्रमाण स्थितिसे आगे उत्कर्षणसे भ्नीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु नहीं हैं ?

समाधान—अब यहाँ इस शंकाका परिहार करते हैं—जिन कर्मपरमाणुओंकी स्थिति उत्कर्षणसे भ्नीन है वे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भ्नीनस्थितिवाले कहलाते हैं । किन्तु यह अर्थ दो समय अधिक आवाधासे आगेकी स्थितियोंमें सम्भव नहीं है, क्योंकि समयप्रवद्धके जिन

कम्मद्विदियसमयपबद्धपडिबद्धपदेसग्गस्स भोकड्डणाए आवाहाब्भंतरे णिविखत्तस्स पुणो वि उक्कड्डियुण आवाहादो उवरि णिवखेवसंभवेण तत्तो भीणद्विदियत्ताणुव-
लंभादो । ण च णिरुद्धद्विदिए चेव समवद्विदाणमुक्कड्डणा ण संभवदि त्ति तत्तो
भीणद्विदियत्तं वोत्तुं जुत्तं, जत्थ वा तत्थ वा द्विदस्स णिरुद्धद्विदिपदेसग्गस्स
उक्कड्डणासत्तीए अच्चंताभावस्सेह विवविखयत्तादो । एसा सव्वा वि उक्कड्डणादो
भीणाभीणद्विदियाणमद्वपदपरूवणा ओघेण मूलुत्तरपयडिविसेसविवक्खमकाऊण
सामण्णेण परूविदा । एत्तो सव्वासु वि मग्गणासु सगसगजहण्णावाहाओ अस्सियुण
पुथ पुथ सच्चकम्माणमादेसपरूवणा कायव्वा ।

❖ एवमुक्कड्डणादो भीणद्विदियस्स अद्वपदं समत्तं ।

❖ एत्तो संकमणादो भीणद्विदियं ।

§ ४७५. एत्तो उवरि संकमणादो भीणद्विदियं भणिस्सामो त्ति पइज्जासुत्तमेदं ।

❖ जं उदयावलियपचिद्धं तं, एत्थि अरणो विचप्पो ।

§ ४७६. एत्थ संकमणादो भीणद्विदियमिदि अणुवट्टदे । तेण जमुदयावलियं
पइद्धं तं संकमणादो भीणद्विदियं होदि त्ति संबंधो कायव्वो । कुदो उदयावलियब्भंतरे

कर्मपरमाणुओंसे वहाँ अपनी स्थिति समाप्त कर ली हो उनको अपकर्षण द्वारा आवाधाके भीतर
निश्चित कर देने पर उत्कर्षण होकर फिर भी उनका आवाधाके ऊपर निक्षेप सम्भव है, इसलिये
उनमें उत्कर्षणसे भीनस्थितिपना नहीं पाया जाता ।

यदि कहा जाय कि विवक्षित स्थितिमें ही अवस्थित रहते हुए इनका उत्कर्षण सम्भव नहीं
है, इसलिये इन्हें उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाला कहना युक्त है सो भी बात नहीं है, क्योंकि विवक्षित
स्थितिके कर्मपरमाणु कहीं भी स्थित रहे किन्तु यहाँ तो उत्कर्षणशक्तिका अत्यन्त अभाव
विवक्षित है । उत्कर्षणसे भीनाभीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंकी यह सबकी सब अर्थपदप्ररूपणा
ओघसे मूल और उत्तर प्रकृतिविशेषकी विवक्षा न करके सामान्यसे यहाँ कही है । आगे
सभी मार्गणाओंमें अपनी अपनी जघन्य आवाधाओंकी अपेक्षा पृथक्-पृथक् सब कर्मोंकी
आदेशप्ररूपणा करनी चाहिये ।

❖ इस प्रकार उत्कर्षणसे भीनस्थितिक प्रदेशाग्रका अर्थपद समाप्त हुआ ।

❖ अब इससे आगे संक्रमणसे भीनस्थितिक अधिकारका निर्देश करते हैं ।

§ ४७५. इससे आगे संक्रमणसे भीनस्थितिक अधिकारको कहेंगे इस प्रकार यह
प्रतिज्ञासूत्र है ।

❖ जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे संक्रमणसे भीनस्थितिवाले
हैं । इसके अतिरिक्त यहाँ दूसरा विकल्प नहीं है ।

§ ४७६. इस सूत्रमें 'संकमणादो भीणद्विदियं' इस पदकी अनुवृत्ति होती है । इससे इस
सूत्रका यह अर्थ होता है कि जो कर्म उदयावलिके भीतर स्थित हैं वह कर्म संक्रमणसे भीन-

संकमो गत्थि ? सहावदो । एत्तिओ चैव संकमणादो भीणद्विदिओ पदेसविसेसो
त्ति जाणावणद्वमेदं सुत्तं । गत्थि अण्णो वियप्पो त्ति उदयावलियवाहिरद्विदपदेसगं
बन्धावलियवदिक्तं सञ्चमेव संकमपाओग्गत्तेण ततो अभीणद्विदियमिदि सुत्तं होइ ।

❀ उदघादो भीणद्विदियं ।

§ ४७७. एतो उदघादो भीणद्विदियं बुच्चइ त्ति अहियारसंभालणसुत्तमेदं ।

❀ जमुद्विणं तं, गत्थि अरणं ।

§ ४७८. एत्थ जमुद्विणं दिण्णफलं होऊण तक्कालगलमाणं तमुदघादो भीण-
द्विदियमिदि सुत्तत्थसंबंधो । गत्थि अण्णं । कुदो ? सेसासेसद्विदपदेसग्गत्तस कमेण
उदयपाओग्गत्तदंसणादो ।

स्थितिवाला है, क्योंकि उदयावलिके भीतर संक्रमण नहीं होता ऐसा स्वभाव है। इतने ही कर्मपरमाणु संक्रमणसे भीनस्थितिवाले हैं यह जतानेके लिये यह सूत्र आया है। यहाँ इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। इसका यह अभिप्राय है कि बन्धावलिके सिवा उदयावलिके वाहर जितने भी कर्मपरमाणु स्थित हैं वे सब संक्रमणके योग्य हैं, इसलिये वे संक्रमणसे अभीन-स्थितिवाले हैं।

विशेषार्थ—विवक्षित कर्मके परमाणुओंका सजातीय कर्मरूप हो जाना संक्रमण कहलाता है। यहाँ यह बतलाया है कि इस प्रकारका संक्रमण किन परमाणुओंका हो सकता है और किनका नहीं। जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे सबके सब संक्रमणके अयोग्य हैं और उदयावलिके वाहर जो कर्मपरमाणु स्थित हैं वे सबके सब संक्रमणके योग्य हैं यह इसका भाव है। किन्तु इससे तत्काल बंधे हुए कर्मोंका भी बन्धावलिके भीतर संक्रमण प्राप्त हुआ जो कि होता नहीं, इसलिये इसका निषेध करनेके लिये टीकामें इतना विशेष और कहा है कि बन्धावलिके सिवा उदयावलिके वाहरके कर्मपरमाणुओंका संक्रमण होता है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि ऐसे भी कर्म हैं जिनका उदयावलिके वाहर भी संक्रमण सम्भव नहीं। जैसे आयुकर्म। अतः यहाँ इनके संक्रमणका निषेध क्यों नहीं किया सो इसका यह समाधान है कि जिन कर्मोंमें संक्रमण सम्भव है उन्हींकी अपेक्षासे यहाँ विचार करके यह बतलाया है कि उनमेंसे किन कर्मपरमाणुओंका संक्रमण हो सकता है और किनका नहीं। आयु कर्म ऐसा है जिसका संक्रमण ही नहीं होता, अतः उसकी यहाँ विषयता नहीं है।

❀ अब उदयसे भीनस्थितिक अधिकारका निर्देश करते हैं ।

§ ४७७. संक्रमणसे भीनस्थितिक अधिकारका निर्देश करनेके बाद अब उदयसे भीन-स्थितिक अधिकारका कथन करते हैं इस प्रकार यह सूत्र स्वतन्त्र अधिकारकी संहाल करनेके लिये आया है ।

❀ जो कर्म उदीर्ण हो रहा है वह उदयसे भीनस्थितिवाला है । इसके अतिरिक्त यहाँ और कोई दूसरा विकल्प नहीं है ।

§ ४७८. जो कर्म उदीर्ण हो रहा है अर्थात् फल देकर तत्काल गल रहा है वह उदयसे भीनस्थितिवाला है यह यहाँ इस सूत्रका अभिप्राय है । इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं, क्योंकि बाकीकी सब स्थितियोंके कर्मपरमाणु क्रमसे उदयके योग्य देखे जाते हैं ।

§ ४७६. एवं सामण्णेण चउण्हं पि भीणद्विदियाणं सपडिवक्खाणमद्वपदपरूवणं काऊण संपहि एदेसिं चैव त्रिसेसिय परूवणद्वमुत्तरसुत्तं भणइ—

❀ एत्तो एगेगभीणद्विदियमुक्कस्सयमणुक्कस्सयं जहरणयमजहरणयं च ।

§ ४८०. जहासंखाणाएण विणा पादेकमेदेसिं भीणद्विदियाणमुक्कस्सादिपदेहि संबंधपरूवणफलो एगेगे त्ति णिहेसो, अण्णहा समसंखाणमेदेसिं तहाहिसंबंधप्पसंगादो । तदो तमेक्के कं चउव्वियप्पसंजुत्तं णिदिसइ—उक्कस्सयमणुक्कस्सयं जहण्णयमजहण्णयं चेदि । जत्थ बहुवयरं पदेसगमोक्कहुणादिचउण्हं पि भीणद्विदियमुवलंभइ तमुक्कस्सं णाम । एवं सेसपदाणं वत्तव्वं । एवं परूवणा गदा ।

❀ सामिच्चं ।

विशेषार्थ—यहाँ यह बतलाया है कि कौनसे कर्मपरमाणु उदयसे मीनस्थितिवाले हैं और कौनसे कर्मपरमाणु उदयसे अभीनस्थितिवाले हैं । जिन कर्मपरमाणुओंका उदय हो रहा है उनका पुनः उदयमे आना सम्भव नहीं, इसलिये फल देकर तत्काल गलनेवाले कर्मपरमाणु उदयसे मीनस्थितिवाले हैं और इनके अतिरिक्त शेष सब कर्मपरमाणु उदयसे अभीनस्थितिवाले हैं यह इस सूत्रका भाव है ।

§ ४७६. इस प्रकार सामान्यसे अपने प्रतिपन्नभूत कर्मपरमाणुओंके साथ चारों ही मीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके अर्थपदका कथन करके अब इन्हींकी विशेषताका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* इनमेंसे प्रत्येक मीनस्थितिवाले कर्म उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य हैं ।

§ ४८०. चार प्रकारके मीनस्थितिवाले कर्मोंका क्रमसे उत्कृष्ट आदि चार पदोंके साथ सम्बन्ध नहीं है, इसलिये यथासंख्य न्यायके विना अलग अलग इन मीनस्थितिवाले कर्मोंका उत्कृष्ट आदि पदोंके साथ सम्बन्धका प्ररूपण करनेके लिये सूत्रमें 'एगेग' पदका निर्देश किया है । नहीं तो दोनों ही समसंख्यावाले होनेसे दोनोंका यथाक्रमसे सम्बन्ध हो जाता । इसलिये यह सूत्र वे एक एक उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और अजघन्य इस प्रकार चार चार प्रकारके हैं इस बातका निर्देश करता है । जहाँ पर सर्वाधिक कर्मपरमाणु अपकर्षण आदि चारोंसे मीनस्थितिपनेको प्राप्त होते हैं वहाँ उत्कृष्ट विकल्प होता है । इसी प्रकार शेष पदोंका कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—अपकर्षणसे मीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु, उत्कर्षणसे मीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु, संक्रमणसे मीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु और उदयसे मीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु ये चार हैं । ये चारो ही प्रत्येक उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और अजघन्य इस प्रकार चार चार प्रकारके हैं यह इस सूत्रका भाव है ।

इस प्रकार प्ररूपणा समाप्त हुई ।

* अब स्वामित्वका अधिकार है ।

§ ४८१. एत्तो सामित्तं वत्तइस्सामो त्ति अहियारसंभालणसुत्तमेदं ।

✽ मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमोकङ्कुणादो भीणट्ठिदियं कस्स ?

§ ४८२. सुगममेदं पुच्छामुत्तं ।

✽ गुण्णिकम्मंसियस्स सव्वलहुं दंसणमोहणीयं खवेंतस्स अपच्छिम्भ-
ट्ठिदिखंडयं संखुभमाणयं संखुद्धमावलिथा समयूणा सेसा तस्स उक्कस्सय-
मोकङ्कुणादो भीणट्ठिदियं ।

§ ४८३. एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुच्चदे । तं जहा—मिच्छत्तस्स उक्कस्सय-
मोकङ्कुणादो भीणट्ठिदियं कस्से त्ति जादसंदेहस्स सिस्सस्स तत्त्विसयणिच्छयजणणट्ठं
गुण्णिकम्मंसियस्से त्ति वुत्तं, अण्णत्थ पदेसग्गस्स वुक्कस्सभावाणुवत्तीदो । किं सव्वस्सेव
गुण्णिकम्मंसियस्स ? नेत्याह—सव्वलहुं दंसणमोहणीयं खवेंतस्स । गुण्णिकम्मंसिय-
लक्खणेणागंतूण सत्तमपुढविणेरइयचरिमसमए ओपुक्कस्समिच्छत्तदव्वं काऊण तत्तो
णिप्पिडिय पंचिदियतिरिक्खेसु एइंदिएसु च दोग्णिण तिण्णिण भवग्गहणाणि भमिय
पुणो मणुस्सेसुप्पज्जिय अट्ठ वस्साणि वोलाविय सव्वलहुएण कालेण दंसणमोहणीय-
कम्मं खवेदुमाट्ठत्तस्से त्ति वुत्तं होइ ।

§ ४८१. अब इसके आगे स्वामित्वको बतलाते हैं इस प्रकार यह सूत्र अधिकारकी
संम्हाल करता है ।

✽ मिथ्यात्वके अपकर्षणसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी
कौन है ।

§ ४८२. यह पृच्छा सूत्र सुगम है ।

✽ गुणितकर्मांशवाले जिस जीवके सबसे थोड़े कालमें दर्शनमोहनीयकी
ज्ञापणाका प्रारम्भ करनेके बाद अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन करके एक समय कम
एक आवलि काल शेष रहा वह अपकर्षणसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका
स्वामी है ।

§ ४८३. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है—मिथ्यात्वके अपकर्षणसे
भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु किसके होते हैं इस प्रकार शिष्यको सन्देह हो जानेपर
तद्विषयक निश्चयके पैदा करनेके लिये सूत्रमें 'गुण्णिकम्मंसियस्स' यह पद कहा है, क्योंकि गुणित
कर्मांशवाले जीवके सिवा अन्यत्र अपकर्षणसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु उत्कृष्ट नहीं हो सकते ।
क्या सभी गुणितकर्मांशवाले जीवोंके अपकर्षणसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु उत्कृष्ट होते हैं ?
नहीं, यही बतलानेके लिये सूत्रमें 'सव्वलहुं दंसणमोहणीयं खवेंतस्स' यह पद कहा है । गुणित-
कर्मांशकी जो विधि बतलाई है उस विधिसे आकर और सातवीं पृथिवीका नारकी होकर उसके
अन्तिम समयमें मिथ्यात्वके द्रव्यको ओघसे उत्कृष्ट करके फिर वहाँसे निकलकर तथा पंचेन्द्रिय
तिर्यच और एकेन्द्रियोंमें दो तीन भवतक भ्रमण करके मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और वहाँ
आठ वर्ष बिताकर अति थोड़े कालके द्वारा जिसने दर्शनमोहनीयकी ज्ञापणाका प्रारम्भ किया
उस गुणितकर्मांशवाले जीवके अपकर्षणसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु उत्कृष्ट होते हैं यह

§ ४८४, संपहि दंसणमोहणीयं खवेंतस्स कम्हि उहेसे सामिचं होदि ति आसंक्रिय तदुहे सपटुप्पायणट्टमाह—अपच्छिमद्विदिखंडयं संखुभमाणयं संखुद्धमावलिया समयूणा सेसा इच्चादि । अपुव्वकरणपढमसमयप्पहुडि वहुएसु द्विदिखंडयसहस्सेसु पादेकमणुभागखंडयसहस्साविणाभावीसु अंतोप्पुहुत्तमेत्तकीरणद्धापडिबद्धेसु पदिदेसु पुणो अणियद्विअद्धाए संखेज्जेसु भागेसु वोळीगेसु णिप्पच्छिमं द्विदिखंडयं पळिदो-वमासंखेज्जभागपमाणायाममावलियवज्जं संखुभमाणयं सम्मामिच्छत्तस्सुवरि णिरवसेसं संखुद्धं । जाधे उदयावलिया समयूणा सेसा ताधे तस्स गुणिट्ठकम्मंसियस्स उक्कस्सय-मोकङ्काणो भीणद्विदियं मिच्छत्तपदेसगं होदि । कुदो आवलियाए समयूणत्वं ? उदयाभावेण सन्मत्तस्सुवरि तदुदयणिसेयसमाणमिच्छत्तेयद्विदीए धिवुक्कसंक्रमेण संकंतीदो । कुदो पुण एदस्स आवलियपइट्टपदेसगस्स ओकङ्काणो भीणद्विदियस्स उक्कस्सत्वं ? ण, पडिसमयमसंखेज्जगुणाए सेडीए आवृत्तिदगुणसेडिगोवुच्चाणं हेट्टिमासेसतत्त्वियप्पेहिंतो असंखेज्जगुणाणमुक्कस्सभावस्स णाइयत्तादो ।

उक्त कथनका तात्पर्य है ।

§ ४८५. अब दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करते हुए भी किस स्थान पर उत्कृष्ट स्वामित्व होता है ऐसी आशंकाके होने पर उस स्थानका निर्देश करनेके लिये 'अपच्छिमद्विदिखंडयं संखुभमाणयं संखुद्धमावलिया समयूणा सेसा' इत्यादि सूत्र कहा है । अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण उत्कीरण कालसे सम्बन्ध रखनेवाले हजारां स्थितिकाण्डकोका और एक एक स्थितिकाण्डके प्रति हजारां अनुभागकाण्डकोका पतन करनेके पश्चात् जब यह जीव अनिष्टुत्तिकरणमें प्रवेश करके और उसके संख्यात बहुभागोके व्यतीत होने पर एक आवलिके सिवा पत्न्यके असंख्यातवें भाग आयामवाले अन्तिम स्थितिकाण्डका पतन करनेका प्रारम्भ करता है और उसे सबका सब सम्यग्मिध्यात्वमें निक्षेप करनेके वाद् जब एक समयकम एक आवलिकाल शेष रहता है तब इस गुणितकर्मांशवाले जीवके मिथ्यात्वके अपकर्षणसे ज्ञान-स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होते हैं ।

शंका—यहाँ आवलिको एक समय कम क्यों बतलाया ?

समाधान—क्योकि वहाँ मिथ्यात्वका उदय न होनेसे सम्यक्त्वके उदयरूप निषेकके बराबरकी मिथ्यात्वकी एक स्थिति स्तितुक् संक्रमणके द्वारा सन्मत्त्वके द्रव्यमें संक्रान्त हो गई है, इसलिये आवलिमे एक समय कम बतलाया है ।

शंका—अपकर्षणसे ज्ञानस्थितिवाले ये कर्मपरमाणु आवलिके भीतर प्रविष्ट होनेपर ही उत्कृष्ट क्यों होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योकि वे कर्मपरमाणु प्रति सम्यक् असंख्यातगुणी श्रेणिके द्वारा गुणश्रेणियोंको प्राप्त हैं और नीचेके तत्सम्बन्धी और सब विकल्पोसे असंख्यातगुणे हैं, इसलिये इन्हें उत्कृष्ट मानना न्याय्य है ।

विशेषार्थ—यह तो पहले ही बतला आये हैं कि जो कर्मपरमाणु उदयावलिके भीतर स्थित हैं वे अपकर्षणसे ज्ञानस्थितिवाले हैं और जो कर्मपरमाणु उदयावलिके बाहर स्थित हैं वे अपकर्षणसे अभीनस्थितिवाले हैं । अब इन ज्ञानस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंमें मिथ्यात्वकी अपेक्षा उत्कृष्ट विकल्प कहीं प्राप्त होता है यह बतलाया है । मिथ्यात्वका अन्यत्र उदयावलिके

§ ४८५. संपहि एदस्स सामित्तविसईकयदव्वस्स पमाणाणुगमं कस्सामो । तं जहा—दिवड्डुगुणहाणिमेत्तकस्ससमयपवद्धे द्विविय पुणो समयूणावलिआए ओवट्ठिदचरिमफालीए तप्पाओग्गपल्लिदोवमासंखेज्जभागमेत्तखुवभजिदाए भागे हिदे एदं दव्वमागच्छदि, अब्भंतरीकयचरिमफालिणिसेयस्स गुणसेडिगोवुच्छदव्वस्स पाहणियादो। अथवा दिवड्डुगुणहाणिशुण्णिदमुक्कस्ससमयपवद्धं ठविय ओकड्डुकड्डुणभागहारेण तप्पाओग्गपल्लिदोवमासंखेज्जभागेण गुणिय किंचूणीकरण तम्मि भागे हिदे पयदसामित्तविसईकयदव्वमागच्छदि त्ति वत्तव्वं । एवमुवरि वि सव्वत्थ वत्तव्वं । संपहि एदेण समाणसामियाणं उक्कड्डुणादो संकमणादो च भीणट्ठिदियाणमेदेण चेय गयत्थाणं सामित्तपरूवणट्ठमुत्तरसुत्तमोइण्णं—

❀ तस्सेव उक्कस्सयसुक्कड्डुणादो संकमणादो च भीणट्ठिदियं ।

§ ४८६. गयत्थमेदं सुत्तं । संपहि उदयादो भीणट्ठिदियस्स उक्कस्ससामित्तपरूवणट्ठं पुच्छासुत्तेणावसरं करेइ—

❀ उक्कस्सयसुदयादो भीणट्ठिदियं कस्स ?

जितना द्रव्य रहता है उस सबसे अधिक क्षपणके समय अन्तिम स्थितिकाण्डके पतनके बाद उदयावलिमें रहता है, क्योंकि यहाँ उदयावलिमें गुणश्रेणिरूपका द्रव्य पाया जाता है जो कि उत्तरोत्तर असंख्यात गुणितक्रमसे स्थापित है, इसलिये जो जीव मिथ्यात्वकी अन्तिम स्थितिका खण्डन करके उदयावलिके भीतर प्रविष्ट है वह मिथ्यात्वके अपकर्षणसे शीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

§ ४८५. अब उत्कृष्ट स्वामित्वके विषयभूत द्रव्यके प्रमाणका विचार करते हैं जो इस प्रकार है—डेदु गुणहानिप्रमाण उत्कृष्ट समयप्रबद्धोंको स्थापित करके उनमें, तद्योग्य पत्यके असंख्यातवें भागसे भाजित अन्तिम फालिमें एक समय कम आवलिका भाग देनेसे जो लव्ध आवे उसका भाग देनेपर यह उत्कृष्ट द्रव्य आता है, क्योंकि यहाँ अन्तिम फालिके निषेकोके भीतर गुणश्रेणि गोपुच्छाका द्रव्य प्रधान है। अथवा डेदुगुणहानिसे गुणित उत्कृष्ट समयप्रबद्धको स्थापित करके उसमें, तत्प्रायोग्य पत्यके असंख्यातवें भागसे गुणित अपकर्षण भागहारको कुछ कम करके उसका भाग देनेपर प्रकृत स्वामित्वसे सम्बन्ध रखनेवाला द्रव्य आता है ऐसा यहाँ कथन करना चाहिये। तथा इसी प्रकार आगे भी सर्वत्र कथन करना चाहिये। अब जिनका स्वामी इसीके समान है और जिनके स्वामीका ज्ञान इसीसे हो जाता है ऐसे उत्कर्षण और संक्रमणसे भीन स्थितिवालोंके स्वामित्वका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

❀ तथा वही उत्कर्षण और संक्रमणसे उत्कृष्ट भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ४८६. इस सूत्रका अर्थ अवगतप्राय है। अब उदयसे शीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेके लिये पुच्छासूत्र कहते हैं—

❀ उदयसे भीन स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ।

§ ४८७, सुगमं ।

ॐ गुणितकर्मसिञ्चो संजमासंजमगुणसेडी संजमगुणसेडी च एदाओ गुणसेडीओ काऊण मिच्छत्तं गदो । जाधे गुणसेडिसीसयाणि पढमसमय-मिच्छादिद्विस्स उदयमागयाणि ताधे तस्स उक्कस्सयमुदयादो भीष्मद्विदियं ।

§ ४८८, एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे । तं जहा—जो गुणितकर्मसिञ्चो संजमासंजमगुणसेडी संजमगुणसेडी चेदि एदाओ गुणसेडीओ सञ्चुक्कस्सपरिणामेहि काऊण परिणामपञ्चएण मिच्छत्तं गओ तस्स पढमसमयमिच्छाद्विस्स जाधे गुणसेडिसीसयाणि दो वि एगीभूदाणि उदयमागदाणि ताधे मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमुदयादो भीष्मद्विदियं होदि त्ति पदसंबंधो । कधमेदाओ दो वि गुणसेडीओ भिण्णकालसंबंधिणीओ एयद्वं काउं सक्किज्जंति ? ण, संजमगुणसेडिणिकखेवायामादो संजमासंजमगुणसेडिणिकखेवदीहत्तस्स संखेज्जगुणत्तेण कमेण कीरमाणीणं तासिं तहाभावाविरोहादो । तदो गुणितकर्मसियलक्खणेणान्तूण सत्तमपुढवीदो उव्वद्विय सव्वलहुं समयविरोहेण

§ ४८७. यह सूत्र सुगम है ।

* कोई एक गुणितकर्मांशवाला जीव संयमासंयमगुणश्रेणि और संयम-गुणश्रेणि इन दोनों गुणश्रेणियोंको करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । इस प्रकार इस जीवके जब मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त होते हैं तब वह उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ४८८. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं जो इस प्रकार है—जो गुणितकर्मांशवाला जीव सर्वोत्कृष्ट परिणामोके द्वारा संयमासंयमगुणश्रेणि और संयमगुणश्रेणि इन दोनों गुणश्रेणियोंको करके अनन्तर परिणाम विशेषके कारण मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ उस मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमें जब दोनों ही गुणश्रेणिशीर्ष मिलकर उदयको प्राप्त होते हैं तब मिथ्यात्वके उदयकी अपेक्षा उत्कृष्ट भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु होते हैं यह इस सूत्रका वाक्यार्थ है ।

शंका—ये दोनों ही गुणश्रेणियाँ भिन्न कालसे सम्बन्ध रखती हैं, इसलिये इन्हें एकत्र कैसे किया जा सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि संयमगुणश्रेणिके निक्षेपकी दीर्घतासे संयमासंयमगुणश्रेणिके निक्षेपकी दीर्घता संख्यातगुणी है, इसलिये इन्हें क्रमसे करनेपर इनके एकत्र होनेमें कोई विरोध नहीं आता है ।

किसी एक जीवने गुणित कर्मांशकी विधिसे आकर और सातवीं पृथिवीसे निकलकर अतिशीघ्र आगमोक्त विधिसे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करके उपशम सम्यक्त्वके कालको व्यतीत

१. 'गुणितकर्मसियस्स दोगुणसेडीखीउयस्स ।'- षव० आ० प० १०६५ ।

'मिच्छत्तमीउयंताणुवधिअरमत्तथीणगिद्धीणं ।

तिरिउदएयंताण य विइया तइया य गुणसेडी ॥'-कर्मप्र० उदय गा० १३ ।

पढमसम्मत्तमुप्पाइय उवसमसम्मत्तद्धं वोलाविय अधापवत्त-अपुव्वकरणाणि करिय अपुव्वकरणचरिमसमयादो से काले गहिदसंजमासंजमो एयंताणुवडा वड्ढिपढम-समयप्पहुडि जाव तिससे चरिमसमओ ति ताव पडिसमयमणंतगुणाए संजमासंजम-विसोहीए विसुज्झंतो अंतोमुहुत्तमेत्तकालं सव्वकम्माणं समयं पडि असंखेज्जगुणं द्ववमोकड्डिय उदयावलियवाहारे अंतोमुहुत्तायाममवट्ठिदगुणसेडिणिकखेवं काऊण पुणो अधापवत्तसंजदासंजदविसोहीए वि पदिदो संतो अंतोमुहुत्तकालं चट्ठि वड्ढि-हाणीहि गुणसेडि काऊण पुणो वि ताणि चेव दो करणाणि करिय गहिदसंजमपढमसमयप्पहुडि मिच्छत्तपदेसग्गमसंखेज्जगुणाए सेहीए ओकड्डिय उदयावलियवाहिरिट्ठिदिमादिं कादूण अंतोमुहुत्तमेत्तट्ठिदीसु संजदासंजदगुणसेडिणिकखेवादो संखेज्जगुणहीणासु अंतोमुहुत्तमेत्त कालामवट्ठिदगुणसेडिणिकखेवमणंतगुणाए संजमविसोहीए करेमाणो संजदासंजद-एयंताणुवड्ढिचरिमसमयकदगुणसेडिणिकखेवस्स संखेज्जे भागे गंतूण संखेज्जदिभागमेत्ते सेसे तदेयंताणुवड्ढिचरिमसमयकदगुणसेडिसीसएण सरिसं सगएयंताणुवड्ढिचरिमसमय-गुणसेडिसीसयं णिक्खिविय एवं दो वि गुणसेडिसीसयाणि एकदो काऊण पुणो अधापवत्तसंजदभावेण परिणमिय दोण्हमेदेसिमहिकयगुणसेडिसीसयाणुववरि

किया । अनन्तर वह अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणको करके अपूर्वकरणके अन्तिम समयसे अनन्तर समयमें संयमासंयमको प्राप्त हुआ । यहाँ इसके सर्वप्रथम एकान्तानुवृद्धिका प्रारम्भ होता है, इसलिये उसने एकान्तानुवृद्धिके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयसे लेकर उसके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक प्रत्येक समयमें अनन्तगुणी संयमासंयमविशुद्धिसे विशुद्ध होकर अन्तर्मुहूर्त कालतक सब कर्मों के प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्षण करके उसे उदयावलिके बाहर अन्तर्मुहूर्त आयामवाले अवस्थित गुणश्रेणिरूपसे निक्षिप्त किया । फिर अधःप्रवृत्त संयतासंयत विशुद्धिसे भी गिरता हुआ अन्तर्मुहूर्त कालतक चार वृद्धि और चार हानियोंके द्वारा गुणश्रेणी की । इसके बाद फिर भी उन दो करणोंको करके संयमको प्राप्त हुआ । और इस प्रकार संयमको प्राप्त करके उसके प्रथम समयसे लेकर मिध्यात्वके कर्मपरमाणुओंको असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे अपकर्षित करके उदयावलिके बाहरकी स्थितिसे लेकर संयतासंयतके गुणश्रेणिनिक्षेपसे संख्यातगुणी हीन अन्तर्मुहूर्तप्रमाण स्थितियोंमें अनन्तगुणी संयमसम्बन्धी विशुद्धिके द्वारा अन्तर्मुहूर्तकाल तक अवस्थित गुणश्रेणिका निक्षेप करता है । यहाँ पर संयतासंयतके एकान्तानुवृद्धिरूप परिणामोंके अन्तिम समयमें किये गये गुणश्रेणिनिक्षेपके संख्यात बहुभागको बिताकर और संख्यातवै भागकालके शेष रहने पर जो संयतासंयतके एकान्तानुवृद्धिरूप परिणामोंके अन्तिम समयमें गुणश्रेणिशीर्षका निक्षेप किया गया है सो उसीके समान संयत भी अपने एकान्तानुवृद्धिरूप परिणामोंके अन्तिम समयमें गुणश्रेणिशीर्षका निक्षेप करे । और इस प्रकार दोनों ही गुणश्रेणिशीर्षकोंको एक करके फिर अधःप्रवृत्तसंयतभावको प्राप्त हो जाय । और इस

१. वड्ढावड्डी एवं भणिएदे तासु चेव सजमासंजमसंजमलद्धीसु अलद्धपुव्वासु पडिलद्धासु तल्लाम-पढमसमयप्पहुडि अंतोमुहुत्तकालमन्तरे पडिसमयमणंतगुणाए सेदीए परिणामवड्डी गधेयत्वा; उवववरि परिणामवड्डीए वड्ढावड्डीववएसालंबयादो ।'—जयध० पु० का० ६३१६ ।

अंतोमुहुचमेतकालं छवडि-हाणिपरिणामेहि ओकडिज्जमाणपदेसगसस चउच्चिवहवडि-
हाणिकारणभूदेहि गुणसेदिं करेमाणो ताव गच्छदि जाव एवं पूरिदाणि गुणसेदिसीसयाणि
दो वि दुचरिमसमयअपत्तउदयद्विदियाणि ति । तदो से काले मिच्छत्तं गदस्स तस्स जाधे
गुणसेदिसीसयाणि एत्तिएण पयत्तेण पूरिदाणि दो वि जुगवमुदिण्णाणि ताधे
मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं होदि ति एसो मुत्तस्स समुदायत्थो । कुदो
एदस्स उदिण्णस्स उदयादो भीणद्विदियत्तं ? ण, पुणो तप्पाओग्गत्ताभावं पेक्खिव्यूण
तहोवएसो । एत्थ जाधे दो वि गुणसेदिसीसयाणि उदयावलिं ण पविस्सति ताधे
चेय संजदो किमद्वं मिच्छत्तं ण णीदो ? ण, अथापवत्तसंजदगुणसेदिलाहस्स अभाव-
प्पसंगादो । जइ एवं, गुणसेदिसीसएसु उदयावलिंयभन्तरं पइद्वेसु मिच्छत्तं खोहामो
उवरि अविणद्वेणुवसंजमेणावट्ठाणफलाणुवलंभादो ति ? ण, मिच्छाइद्विउदीरणादो
विसोहिवसेणासंखेज्जगुणसंजदउदीरणाए जणिदलाहस्स एत्थ वि अभावावत्तीदो ।
ण च तत्थ मिच्छत्तस्स उदयाभावपुच्चउदीरणाभावेण पयदफलाभावो आसंफणिज्जो,

प्रकार इस भावको प्राप्त करके अधिकृत दोनों ही गुणश्रेणियोंके आगे अपकर्षणका प्राप्त होनेवाले कर्मपरमाणुओंके चार प्रकारकी हानि और वृद्धियोंके कारणभूत छह प्रकारकी वृद्धि और हानिरूप परिणामोंके द्वारा अन्तर्मुहूर्त कालतक गुणश्रेणिको करता हुआ तब तक जाता है जब जाकर पूर्वोक्त विधिसे पूरे गये दोनों ही गुणश्रेणियोंके उदयस्थितिके उपान्त्य समयको प्राप्त होते हैं । इसके बाद तदनन्तर समयमें मिथ्यात्वको प्राप्त होने पर इसके इतने प्रयत्नसे पूरे गये दोनों ही गुणश्रेणियोंके मिलकर उदयमें आते हैं तब मिथ्यात्वके उदयसे झीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होते हैं । इस प्रकार यह इस सूत्रका समुदायार्थ है ।

शंका—जब कि ये उदयप्राप्त हैं तब ये उदयसे झीनस्थितिवाले कैसे हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि ये फिरसे उदययोग्य नहीं हो सकते, इसलिये इन्हें उदयसे झीनस्थितिवाला कहा है ।

शंका—यहाँ दोनों ही गुणश्रेणियोंके उदयावलिमें प्रवेश करनेके पहले संयतको मिथ्यात्व गुणस्थान क्यों नहीं प्राप्त कराया गया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि ऐसा करनेसे इसके अधःप्रवृत्तसंयतके होनेवाली गुणश्रेणिके लाभका अभाव प्राप्त होता ।

शंका—यदि ऐसा है तो गुणश्रेणियोंके उदयावलिमें प्रवेश करनेपर मिथ्यात्व गुणस्थानमें ले जाना उचित था, क्योंकि इसके आगे संयमका नाश किये बिना उसके साथ रहनेका कोई फल नहीं पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिथ्यादृष्टिके होनेवाली उदीरणाकी अपेक्षा विशुद्धिके कारण संयतके होनेवाली असंख्यातगुणी उदीरणासे होनेवाला लाभ ऐसी हालतमें भी नहीं बन सकेगा, इसलिये गुणश्रेणियोंके उदयावलिमें प्रवेश करते ही इसे मिथ्यात्वमें नहीं ले गये हैं ।

यदि कहा जाय कि संयतके मिथ्यात्वका उदय न हो सकेनेसे उदीरणा भी नहीं हो सकती, इसलिये यहाँ उदीरणासे होनेवाले फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती सो ऐसी आशंका करना भी ठीक

सम्मतथिवुकसंकमस्सियुण लाहदंसपादो । अण्णं च आवलियमेत्तकालावसेसे भिच्छर
गच्छमाणो पुव्वमेव संकिलिस्सदि त्ति विसोहिणिवंधणो गुणसेदिळाहो बहुओ
लब्भदि । ण च संकिलेसावूरणेण विणा भिच्छत्ताहिमुहभावसंभवो, तस्स तदविणा-
भावितादो । तेण कारणेण जाव गुणसेदिसीसयाणि दुचरिमसमयअणुदिण्णाणि ताव
संजदभावेणच्छाविय पुणो से काले एगंताणुवड्डिचरिमगुणसेदिसीसयाणि दो वि
एकलग्गाणि उदयमागच्छिहिति त्ति मिच्छत्तं गदपढमसमए उक्कसयउदयादो भीण-
द्विदियस्स सामित्तं दिण्णं । एत्थ पमाणाणुगमो जाणिय कायव्वो । अहवा गुणसेदि-
सीसयाणि त्ति वुत्ते दोणहमोघचरिमगुणसेदिसीसयाणि सव्वुकस्सविसोहिणिवंधणाणि
घेप्पंति ण एयंतवड्डावड्डिचरिमगुणसेदिसीसयाणि, तत्थतणचरिमविसोहीदो अधापवत्त-
संजदसत्थाणविसोहीए अणंतगुणत्तादो । ण चेदं णिण्णिवंधणं, लद्धिद्वानपक्खणाए
परुविस्समाणाप्पावहुअणिवंधणत्तादो । तदो ओघचरिमसंजदासंजदगुणसेदिसीसयस्सुवरि
सव्वविसुद्धसंजदणिविखत्तगुणसेदिसीसयमेत्थ घेत्तव्वं । एवं घेतुण एदमणंत-
गुणविसोहीए कदगुणसेदिसीसयदव्वं संजदासंजदगुणसेदिसीसएण सह जाधे पढम-
समयमिच्छादिद्विस्स उदयमागयं ताधे उक्कसयमुदयादो भीणद्विदियमिदि सामित्तं
वत्तव्वं ।

नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्वसम्बन्धी स्तिवुक संक्रमणकी अपेक्षा लाभ देखा जाता है । दूसरे एक
आवलिकालके शेष रहने पर यदि इस जोवको मिथ्यात्वमें ले जाते हैं तो वह पहलेसे संकिल्ट हो
जायगा और ऐसी हालतमें विशुद्धिनिमित्तक अधिक गुणश्रेणिका लाभ नहीं हो सकेगा । यदि कहा
जाय कि संकलेशरूप परिणाम हुए बिना ही मिथ्यात्वके अनुकूल भाव हो सकते हैं सो भी
वात नहीं है; क्योंकि इन दोनोंका परस्परमें अविनाभाव सम्बन्ध है, इसलिये जब तक
गुणश्रेणिशरीर्ष उदयके उपान्त्य समयको नहीं प्राप्त होते तब तक इस जीवको संयत ही रहने दे ।
किन्तु तदनन्तर समयमें एकान्तानुवृद्धिके अन्तिम समयमें की गई दोनों ही गुणश्रेणियों उदयको
प्राप्त होंगी, इसलिये मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें ही उदयसे शीनस्थितिवाले कर्म-
परमाणुओंका स्वामी बतलाया है । यहाँ इनके प्रमाणका विचार जानकर कर लेना चाहिये ।
अथवा गुणश्रेणिशरीर्ष ऐसा कहने पर संयमासंययम और संयम इन दोनों अवस्थाओंके सबसे
उत्कृष्ट विशुद्धिके निमित्तसे अन्तमें होनेवाले ओघ गुणश्रेणिशरीर्ष लेने चाहिये, एकान्तवृद्धिके
अन्तमें होनेवाले गुणश्रेणिशरीर्ष नहीं, क्योंकि एकान्तवृद्धिके अन्तमें होनेवाली विशुद्धिसे अघ-
प्रवृत्तसंयतकी स्वस्थानविशुद्धि अनन्तगुणी होती है । यदि कहा जाय कि यह कथन अहेतुक है सो
भी बात नहीं है, क्योंकि लब्धस्थानोका कथन करते समय जो अल्पवहुत्व कहा है उससे इसकी
पुष्टि होती है, इसलिये ओघसे अन्तमें प्राप्त हुए संयतासंयतके गुणश्रेणिशरीर्षके ऊपर सर्वाविशुद्ध
संयतके प्राप्त हुआ गुणश्रेणिशरीर्षका यहाँ पर ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार अनन्तगुणी
विशुद्धिसे निष्पन्न हुआ यह गुणश्रेणिशरीर्षका द्रव्य संयतासंयतसम्बन्धी गुणश्रेणिशरीर्षके साथ जब
मिथ्यात्वके प्रथम समयमें उदयको प्राप्त होता है तब उदयसे शीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओं-
का स्वामी होता है ऐसा यहाँ कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्व कर्मकी अपेक्षा उदयसे शीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म-

परमाओका स्वामी बतलाते हुए जो कुछ लिखा है उसका आशय यह है कि ऐसा जीव एक तो गुणितकर्मशाला होना चाहिये, क्योंकि अन्य जीवके कर्मपरमाणुओंका उल्लेख संघ नहीं हो सकता। दूसरे गुणितकर्मशाला होनेके बाद यथासम्भव अतिशीघ्र संयमासंयम और तदनन्तर संयमकी प्राप्ति कराकर इसे एकान्तवृद्धि परिणामों के द्वारा संयमासंयम गुणश्रेणि और संयमगुणश्रेणिकी प्राप्ति करा देनी चाहिये। किन्तु इनकी प्राप्ति इस ढंगसे करानी चाहिये जिससे इन दोनों गुणश्रेणियोंका शीघ्र एक समयवर्ती हो जाय। फिर गुणश्रेणियोंके उपान्त्य समयके प्राप्त होने तक जीवको वहीं संयमभावके साथ रहने देना चाहिये। किन्तु जब तक यह जीव संयमभावके साथ रहे तब तक भी इसके गुणश्रेणिका क्रम चालू ही रखना चाहिये, क्योंकि जब तक संयमासंयमरूप या संयमरूप परिणाम बने रहते हैं तब तक गुणश्रेणिरचनाके चालू रहनेमें कोई बाधा नहीं आती। बात इतनी है कि इन दोनों भावोंकी प्राप्ति होनेके प्रथम समयसे एकान्तवृद्धिरूप परिणाम होते हैं, इसलिये इनके निमित्तसे गुणश्रेणिरचना होती है और बादमें अधःप्रवृत्तसंयमासंयम या अधःप्रवृत्तसंयमरूप अवस्था आ जाती है, इसलिये इनके निमित्तसे गुणश्रेणिरचना होने लगती है। जिन परिणामोंकी अन्तर्मुहूर्त काल तक उत्तरोत्तर अनन्तगुणी विशुद्धि होती जाती है और जिनके होनेपर स्थितिकाखडकघात, अनुभागकाण्डकघात तथा स्थितिवन्धापसरण ये क्रियाएँ पूर्ववत् चालू रहती हैं वे एकान्तवृद्धिरूप परिणाम हैं। तथा जिनके होने पर स्वस्थानके योग्य संक्लेश और विशुद्धि होती रहती हैं वे अधःप्रवृत्त परिणाम हैं। एकान्तवृद्धिरूप परिणामोंके होने पर मिध्यात्वकर्मकी अपेक्षा गुणश्रेणिरचनाका क्रम इस प्रकार है—

संयमासंयमगुणको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें उपरिभ स्थितिमें स्थित द्रव्यका अपकर्षण करके उदायवलिके बाहर अन्तर्मुहूर्त प्रमाण स्थितियोंमें गुणश्रेणिशरीरक उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे द्रव्यका निक्षेप करता है। अर्थात् उदायवलिके बाहर अनन्तर स्थित स्थितिमें जितने द्रव्यका निक्षेप करता है उससे अगली स्थितिमें उससे भी असंख्यातगुणे द्रव्यका निक्षेप करता है। इस प्रकार यह क्रम गुणश्रेणिशरीर तक जानना चाहिये। किन्तु गुणश्रेणिशरीरसे अगली स्थितिमें असंख्यातगुणे हीन द्रव्यका निक्षेप करता है और इसके आगे विशेष हीन द्रव्यका निक्षेप करता है। दूसरे समयमें प्रथम समयकी अपेक्षा भी असंख्यातगुणे द्रव्यका पूर्वोक्त क्रमसे निक्षेप करता है। इस प्रकार एकान्तानुवृद्धिका काल समाप्त होने तक यही क्रम चालू रहता है।

किन्तु अधःप्रवृत्तरूप परिणामोंकी अपेक्षा गुणश्रेणिरचनाके क्रममें कुछ अन्तर है। बात यह है कि अधःप्रवृत्तरूप परिणाम सदा एकसे नहीं रहते किन्तु संक्लेश और विशुद्धिके अनुसार उनमें घटावदी हुआ करती है, इसलिये जब जैसे परिणाम होते हैं तब उन परिणामोंके अनुसार गुणश्रेणिरचनामें भी कर्म परमाणु न्यूनाधिक प्राप्त होते हैं। विशुद्धिकी न्यूनाधिकताके अनुसार कभी प्रति समय असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्षण करके गुणश्रेणिरचना करता है। कभी प्रति समय संख्यातगुणे संख्यातगुणे द्रव्यका अपकर्षण करके गुणश्रेणिरचना करता है। इसी प्रकार कभी प्रति समय संख्यातवें भाग अधिक या कभी असंख्यातवें भाग अधिक द्रव्यका अपकर्षण करके गुणश्रेणिरचना करता है। और यदि संक्लेशरूप परिणाम हुए तो उनमें भी जब जैसी न्यूनाधिकता होती है उसके अनुसार कभी असंख्यातगुणे हीन कभी संख्यातगुणे हीन और कभी संख्यातवें भाग हीन और कभी असंख्यातवें भाग हीन द्रव्यका अपकर्षण करके गुणश्रेणिरचना करता है। इस प्रकार संयमासंयम और संयमके अन्त तक यह क्रम चालू रहता है।

यदि संयमासंयम या संयमसे च्युत होकर अतिशीघ्र इन भावोंको जीव पुनः

❀ सम्मत्तस उक्कस्सयमोकङ्कुणादो उक्कङ्कुणादो संकमणादो उदयादो च भीणट्टिदियं कस्स ।

§ ४८६. सुगममेदं पुच्छामुत्तं । णवरि उदयावलियवाहिरट्टिदिसमवट्टिदस्स सम्मत्तपदेसाणं वज्झमाणमिच्छत्तस्सुवरि समट्टिदीए संकंताणमुक्कङ्कुणासंभवं पेक्खियूण सम्मत्तस्स ततो भीणाभीणट्टिदियत्तमेत्थ घेतत्त्वं, अण्णहा तदणुववत्तीदो ।

❀ गुण्णिदकम्मंसिओ सव्वलहुं दंसणमोहणीयं कम्मं खवेदुमाहत्तो

प्राप्त करता है तो एकान्तवृद्धिरूप परिणाम और उनके कार्य नहीं होते। यहाँ एकान्तवृद्धिमें उत्तरोत्तर प्रति समय अनन्तगुणी परिणामोंकी विशुद्धि होती जाती है, इसलिये संयमासंयमी और संयमीके इन परिणामोके अन्तमें जो गुणश्रेणिशरीर्ष होते हैं उनकी अपेक्षा यहाँ उत्कृष्ट स्वामित्व कहा है अथवा यद्यपि अधःप्रवृत्तरूप परिणाम घटते बढ़ते रहते हैं तथापि सर्वोत्कृष्ट विशुद्धिके कारणभूत ये परिणाम अन्तिम समयमें होनेवाले एकान्तवृद्धिरूप परिणामोसे भी अनन्तगुणे होते हैं, अतः इन परिणामोके निमित्तसे जो गुणश्रेणिशरीर्ष प्राप्त हों उनकी अपेक्षा यहाँ उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये। इस प्रकार मिथ्यात्वकी अपेक्षा उदयसे भीनस्थितवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका उत्कृष्ट स्वामी कौन है इसका विचार किया। यहाँ उत्कृष्ट स्वामित्वका विचार करते हुए टीकामें अनेक शंका प्रतिशंकाएँ की गई हैं पर उनका विचार वहाँ किया ही है, अतः उनका यहाँ निर्देश नहीं किया।

* सम्यक्त्वके अपकर्षणसे, उत्कर्षणसे संक्रमणसे और उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है।

§ ४८६. यह पृच्छासूत्र सरल है। किन्तु इतनी विशेषता है कि उदयावलिके बाहरकी स्थितिमें स्थित जो सम्यक्त्वके प्रदेश वँधनेवाले मिथ्यात्वके ऊपर समान स्थितिमें संक्रान्त होते हैं उनका उत्कर्षण सम्भव है इसी अपेक्षासे ही यहाँ सम्यक्त्वके उत्कर्षणसे भीनाभीनस्थितिपनेका ग्रहण करना चाहिये, अन्यथा सम्यक्त्वक उत्कर्षणसे भीनाभीनस्थितिपना नहीं बन सकता।

विशेषार्थ—सम्यक्त्व यह वँधनेवाली प्रकृति नहीं है, इसलिये इसका अपने बन्धकी अपेक्षा उत्कर्षण ही सम्भव नहीं है। हूँ मिथ्यात्वके बन्धकालमें सम्यक्त्वके कर्मपरमाणुओंका मिथ्यात्वमें संक्रमण होकर उनका उत्कर्षण हो सकता है। यद्यपि यह संक्रमित द्रव्य मिथ्यात्वका एक हिस्सा हो गया है तथापि पूर्वमें ये सम्यक्त्वके परमाणु रहे इस अपेक्षासे इस उत्कर्षणको सम्यक्त्वके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण कहनेमें भी आपत्ति नहीं। इस प्रकार इस अपेक्षासे सम्यक्त्वके परमाणुओंका उत्कर्षण मानकर फिर यह विचार किया गया है कि सम्यक्त्वके कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे भीनस्थितिवाले हैं और कौनसे कर्मपरमाणु उत्कर्षणसे अर्फीन स्थितिवाले हैं। यदि ऐसा न माना जाय तो सम्यक्त्व प्रकृतिके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण ही घटित नहीं होता है। और तब फिर सम्यक्त्वका उत्कर्षणसे भीनाभीन स्थितिपना भी कैसे बन सकता है। अर्थात् नहीं बन सकता है। इसलिये सम्यक्त्वके उत्कर्षणकी व्यवस्था उक्त प्रकारसे करके ही भीनाभीनस्थितिपनेका विचार करना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

* जिस गुणित कर्मांशवाले जीवने अतिशीघ्र दर्शनमोहनीय कर्मके ज्ञय करनेका

अधद्विदियं गलंतं जाये उदयावलयियं पविससमाणं पविटं ताथे उक्कस्सय-
मोकङ्गणादो वि उक्कङ्गणादो वि संकमणादो वि भीणद्विदियं ।

§ ४६०. एदस्स तिण्हं भीणाद्विदियाणं सामित्तपरुवणासुत्तस्स अत्थो—जो
गुणित्कम्मसिओ पुव्वविहाणेणागदो सव्वलहुं दंसणमोहणीयं कम्मं खवेदुमाढत्तो
अपुव्वअणियद्विकरणपरिणामेहि बहुएहि द्विदिअणुभागखंडएहि मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्ते
संछुहिय पुणो तं पि पल्लिदोवमस्स असंखे० भागयेत्तचरिमद्विदिखंडयचरिमफालि-
सरुवेण सम्मत्ते संछुहंतो सम्मत्तस्स वि तक्कालिएण द्विदिखंडएण पल्लिदोवमासंखेज्जदि
भागिएण अद्ववस्समेत्तद्विदिसंतकम्मावसेसं काऊण तत्थ संछुहिय पुणो वि
संखेज्जद्विदिखंडयसहस्सेहि सम्मत्तद्विदिमइदहरीकरिय कदकरणिज्जो होदूणावद्विदो
तस्स अधद्विदियं गलंतं सम्मत्तं जाथे कमेण उदयावलयियं पविसमाणं संतं णिरवसेसं
पइदं ताथे आवलयियेत्तगुणसेदिगोवुच्छा ओदरिय अवद्विदस्स ओकङ्गणादां वि
उक्कङ्गणादो वि संकमणादो वि भीणाद्विदियं पदेसग्गं होइ । एत्थ उदयावलयियं
पविसमाणं पविट्ठमिदि वयणमकमपवेसासंकाणिरायरणदुवारेण कम्मपदेस-
प्पदुप्पायणदं दद्वव्वं । सेसं सुगमं ।

आरम्भ किया है उसके अधःस्थितिके द्वारा गलता हुआ सम्यक्त्व जब उदयावलिमें
प्रवेश करता है तब वह अपकर्षणसे, उत्कर्षणसे और संक्रमणसे भीनस्थितिवाले
उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ४६०. अब तीन भीन स्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके स्वामित्वका कथन करनेवाले इस
सूत्रका अर्थ कहते हैं—पूर्वविधिसे आये हुए गुणितकर्मांशवाले जिस जीवने अतिशीघ्र दर्शन-
मोहनीय कर्मके क्षयका आरम्भ करके अपूर्वकरण और अनिष्टतिकरणरूप परिणामोंके निमित्तसे
बहुतसे स्थितिकाण्डक और अनुभागकाण्डकोके द्वारा मिथ्यात्वको सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमित
किया । फिर सम्यग्मिथ्यात्वको भी पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अन्तिम स्थितिकाण्डककी
अन्तिम फालिरूपसे सम्यक्त्वमें संक्रमित किया । फिर सम्यक्त्वका भी उसी समय होनेवाले
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिकाण्डकके द्वारा आठ वर्षप्रनाए स्थिति उत्कर्म शेष
रखकर शेषको उसी शेष स्थितिमें निक्षिप्त किया । इसके बाद फिर भी संख्यात हजार स्थिति-
काण्डकोके द्वारा सम्यक्त्व की स्थितिको अत्यन्त ह्रस्व करके जो कृतकृत्य होकर स्थित हुआ
उसके अधःस्थितिके द्वारा गलता हुआ सम्यक्त्व जब क्रमसे उदयावलिमें पूराका पूरा प्रवेश
कर जाता है तब एक आवलिप्रमाण गोपुच्छा उतर कर स्थित हुए इस जीवके अपकर्षण,
उत्कर्षण और संक्रमण इन तीनोंसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होते हैं । यहाँ सूत्रमें
जो 'उदयावलयियं पविसमाणं पविट्ठं' यह वचन कहा है सो यह युगपत् प्रवेशकी आशंकाके
निराकरण द्वारा क्रमसे होनेवाले प्रवेशका सूचन करनेके लिये जानना चाहिये । शेष कथन
सुगम है ।

विशेषार्थ—इस सूत्रमें अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा सम्यक्त्वके भीन
स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंके स्वामीका निर्देश किया है । यद्यपि यहाँ जो दृष्टान्त दिया है

§ ४६१. संपहि उदयादो उक्कस्सज्झणीणट्टिदियस्स सामित्तविसेसपरूवणद्धमुत्तर-
मुत्तस्सावयारो—

❀ तस्सेव चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स सव्वमुदयं
तमुक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं ।

§ ४६२. तस्सेव पुव्वपरूविदजीवस्स पुणो वि गालिदंसमयूणावलियमेत्त-
गोबुच्चस्स चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयभावे वट्टमाणस्स जं सव्वमुदयं तं
पदेसग्गं तमुक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्टिदियमिदि मुत्तत्थसंवधो । एत्थ सव्वमुदयं तमिदि
बुत्ते सर्वेषामुदयानामन्त्यं निःपश्चिममुदयप्रदेशाग्रं सर्वोदयान्त्यमिति व्याख्येयं । कुदो
पुण एदस्स सव्वोदयंतस्स सव्वुक्कस्सत्तं ? ण, दंसणमोहणीयदव्वस्स सव्वस्सेव त्योवूणस्स
पुंजीभूदस्सेत्थुव्वलंभादो । तदो चेयं पाठंतरमवलंविण वक्खणानंतरमेत्थ चरिम-
समयअक्खीणं जं दंसणमोहणीयं तस्स जो सव्वोदयो अविवक्खियकिंचूणभावो तं
घेत्तूण उक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं होदि ति ।

वह दर्शनमोहनीयकी क्षणके समयका है और तब न तो सम्यक्त्वका संक्रमण ही होता है
और न उत्कर्षण ही । तथापि उदयावलिके भीतर स्थित कर्मपरमाणु इन तीनोंके अयोग्य हैं इस
साध्यान्य कथनके अनुसार उनका उत्कृष्ट प्रमाण कहाँ प्राप्त होता है इस विवक्षासे यह स्वाभित्त्व
जानना चाहिये ।

§ ४६१. अब उदयसे उत्कृष्ट झीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंके स्वाभित्त्वविशेषका कथन
करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ जिसने दर्शनमोहनीयकी पूरी क्षणका नहीं की है ऐसे उसी जीवके
दर्शनमोहनीयकी क्षणकाके अन्तिम समयमें जो सब कर्मपरमाणु उदयमें आते हैं वे
उदयसे झीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु हैं ।

§ ४६२. जिसने और भी एक समय कम आवलिप्रमाण गोपुच्छाओंको गला दिया है
और दर्शनमोहनीयकी पूरी क्षणका न होनेसे उसके अन्तिम समयमें विद्यमान है ऐसे उसी पूर्वमें
कहे गये जीवके जो सम्यक्त्वके सब कर्मपरमाणु उदयमें आते हैं वे उदयसे झीनस्थितिवाले उत्कृष्ट
कर्मपरमाणु हैं यह इस सूत्रका अभिप्राय है । यहाँ सूत्रमें जो 'सव्वमुदयं तं, ऐसा कहा है सो इस
पदका ऐसा व्याख्यान करना चाहिये कि सब उदयोंके अन्तमें जो कर्मपरमाणु हैं वे यहाँ
लिये गये हैं ।

संज्ञा—सब उदयोंके अन्तमें स्थित ये कर्मपरमाणु सबसे उत्कृष्ट कैसे हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि दर्शनमोहनीयका कुछ कम सब द्रव्य एकत्रित होकर यहाँ
पाया जाता है, इसलिये ये कर्मपरमाणु सबसे उत्कृष्ट हैं । उक्त सूत्रका यह एक व्याख्यान हुआ ।
अब पाठान्तरका अवलम्ब लेकर इसका दूसरा व्याख्यान करते हैं । यथा—अन्तिम समयमें
जो अक्षीण दर्शनमोहनीय है उसका जो सर्वोदय है उसकी अपेक्षा उदयसे झीनस्थितिवाले उत्कृष्ट
कर्म परमाणु होते हैं । यहाँ किंचित् उनपनेकी विवक्षा न करके सर्वोदय पदका प्रयोग किया है
इतना विशेष जानना चाहिए ।

❊ सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सयमोकड्डणादो उक्कड्डणादो संक्रमणादो च भीष्णद्विदियं कस्स ।

§ ४६३. सुगममेदं पुच्छासुत्तं । णवरि सम्मत्तस्सेव एत्थ उक्कड्डणादो भीष्णद्विदियस्स संभवो वत्तव्वो ।

❊ गुणितकर्मसियस्स सब्वलहुं दंसणमोहणीयं खवेमाणस्स सम्मामिच्छत्तस्स अपच्छिमद्विदियंखंडयं संखुभमाणयं संखुद्धमुदयावलिया उदयवज्जा

विशेषार्थ—प्रकृत सूत्रमें सम्यक्त्वकी अपेक्षा उदयसे भीन स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है यह बतलाया है। गुणितकर्मांशकी विधिसे आकर जिसने अतिशीघ्र दर्शनमोहनीयकी चपणाका प्रारम्भ किया है वह पहले मिथ्यात्वको सम्यग्मिथ्यात्वमे और सम्यग्मिथ्यात्वको सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त करनेके बाद कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि होता है। फिर सम्यक्त्वको अधःस्थितिके द्वारा गलाता हुआ क्रमसे उदयके अन्तिम समयको प्राप्त होता है। इस प्रकार इस उदय समयमें सम्यक्त्वका जितना द्रव्य पाया जाता है उतना अन्यत्र सम्भव नहीं, इसलिये इसे उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी बतलाया है। यहाँ सूत्रमें आये हुए 'चरिमसमयअकलीणदंसणमोहणीयस्स सब्वमुदयं' इसके दो पाठ मानकर दो अर्थ सूचित किये गये हैं। प्रथम पाठ तो यही है और इसके अनुसार 'चरिमसमयअकलीणदंसणमोहणीयस्स' यह सूत्रमे आये हुए 'तस्सेव' पदका विशेषण हो जाता है और 'सब्वमुदयं' पाठ स्वतन्त्र हो जाता है। किन्तु दूसरा पाठ 'चरिमसमयअकलीणदंसणमोहणीयसब्वोदयं' ध्वनित होता है। और इसके अनुसार 'अन्तिम समयमें अक्षीण जो दर्शनमोहनीय उसका जो सर्वोदय उसकी अपेक्षा' यह अर्थ प्राप्त होता है। माख्स होता है कि ये दो पाठ टीकाकारने दो भिन्न प्रतियोंके आधारसे सूचित किये हैं। फिर भी वे प्रथम पाठ को मुख्य मानते रहे, इसलिये उसे प्रथम स्थान दिया और पाठान्तररूपसे दूसरेकी सूचना की। यहाँ पाठ कोई भी विवक्षित रहे तब भी निष्कर्षमे कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि यह दोनों ही पाठोंका निष्कर्ष है कि इस प्रकार सम्यक्त्वकी चपणाके अन्तिम समयमे जो उदयगत कर्मपरमाणु प्राप्त होते हैं वे उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु हैं।

❊ सम्यग्मिथ्यात्वके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणसे भीन स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ।

§ ४६३. यह पृच्छासूत्र सुगम है। किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ पर सम्यक्त्वके समान ही उत्कर्षणसे भीनस्थितिपनेके सद्भावका कथन करना चाहिये। आराय यह है सम्यक्त्वके समान सम्यग्मिथ्यात्वका भी बन्ध नहीं होता, इसलिये अपने बन्धका अपेक्षा इसका उत्कर्षण नहीं बन सकता। अतएव जिस क्रमसे सम्यक्त्वमें उत्कर्षण घटित करके बतला आये हैं वैसे ही सम्यग्मिथ्यात्वमे घटित कर लेना चाहिये।

❊ अति शीघ्र दर्शनमोहनीयकी चपणा करनेवाले गुणितकर्मांशवाले जिस जीवके सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकका क्रमसे क्षेपण हो गया है और

भरिदल्लिया तस्स उक्कस्सयमोकड्डणादो उक्कड्डणादो संकमणादो च भीणडिदियं ।

§ ४६४. एदस्स सामित्तविहाययसुत्तस्सासेसावयवत्थपरूवणा सुगमा, मिच्छत्त-सामित्तसुत्तम्मि परूविदत्तादो । णवरि उदयावलिया त्ति बुत्ते उदयसमयं मोत्तूण समयूणावलियमेत्तदंसणमोहणीयक्खवणगुणसेट्ठिगोबुच्छाहि जावदि सक्कं ताव आवूरिदपदेसग्गाहि उदयावलिया संपुण्णीकया त्ति घेतव्वं । उदयसमओ किमिदि वज्जिदो ? ण, उदयाभावेण तस्स तिथवुक्कसंकमेण सम्मत्तुदयागोबुच्छाप एवरि संकमिय विपरुच्चंतस्स पत्थाणुवजोगित्तादो ।

❀ उक्कस्सयमुदयादो भीणडिदियं कस्स ।

§ ४६५. सुगमं ।

❀ गुणितकर्मसिओ संजमासंजम-संजमगुणसेटीओ काऊण ताणे गदो सम्मामिच्छत्तं जाधे गुणसेट्ठिसियाणि पढमसमयसम्मामिच्छाहिट्ठस्स

उदयसमयके सिवा शेष उदयावलि पूरित हो गई है वह सम्यग्मिथ्यात्वके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणसे भीन स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ४६४. स्वामित्वका विधान करनेवाले इस सूत्रके सब अवयवोंका अर्थ सुगम है, क्योंकि मिथ्यात्वके स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रमें उनका प्ररूपण कर आये हैं । किन्तु सूत्रमें जो 'उदयावलि उदयवज्जा भरिदल्लिया' ऐसा कहा है सो इसका आशय यह है कि उदयसमय के सिवा एक समय कम उदयावलिप्रमाण जो दर्शनमोहनीयकी लक्षणासम्बन्धी गोपुच्छाप हैं, जो कि यथासम्भव अधिकसे अधिक कर्मपरमाणुओंसे पूरित की गई हैं, उनसे उदयावलिको परिपूर्ण करे ।

शंका—यहाँ उदय समयका वर्जन क्यों किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वका उदय न होनेसे वह उदयसम्बन्धी गोपुच्छा स्थितवुक्क संक्रमणके द्वारा सम्यक्त्वकी उदयसम्बन्धी गोपुच्छामें संक्रमित होकर फल देने लगती है, इसलिये वह यहाँ उपयोगी नहीं है ।

विशेषार्थ—जो गुणितकर्मांशवाला जीव अतिशीघ्र आकर दर्शनमोहनीयकी लक्षणा करता है उसके सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन हो जानेके बाद जो एक समय कम उदयावलि प्रमाण कर्म परमाणु शेष रहते हैं वे अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणसे भीन-स्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु हैं यह इस सूत्रका भाव है । शेष विशेषता जैसे सम्यक्त्वके उत्कृष्ट स्वामित्वका विशेष खुलासा करते समय लिख आये है उसी प्रकार यहाँ भी जान लेनी चाहिये ।

❀ उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म परमाणुओंका स्वामी कौन है ।

§ ४६५. यह सूत्र सुगम है ।

❀ गुणितकर्मांशवाला जो जीव संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके तब सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ जब सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम

उदयमागदाणि ताथे तस्स पढमसमयसम्मामिच्छाइडिस्स उक्कस्सयमुदयादो भीष्णट्टिदिचं ।

§ ४६६. एत्थ जो गुणितकम्मसिओ संजमासंजम-संजमगुणसेढीओ काऊण ताथे सम्मामिच्छत्तं गदो जाथे पढमसमयसम्मामिच्छाइडिस्स गुणसेढिसीसयाणि उदयमागयाणि त्ति पदसंबंधो कायव्वो । सेसपरूवणाए मिच्छत्तभंगो ।

§ ४६७. एत्थ के वि आइरिया एवं भणंति—जइ सम्मामिच्छत्तस्स उदयादो भीष्णट्टिदिचं णाम अत्थसंबंधेण संजदासंजद-संजदगुणसेढीओ काऊण पुणो अणंताणु-बंधिविसंजोयणगुणसेढीए सह जाचे एदाणि तिण्णि वि गुणसेढिसीसयाणि पढमसमय-सम्मामिच्छाइडिस्स उदयमागच्छंति ताथे तस्स उक्कस्सयं होइ, अणंताणुबंधि-विसंजोयणगुणसेढीए सुत्तपरूविददोगुणसेढीहिंतो पदेसग्गं पडुच्च असंखेज्जगुणत्तादो । जइ वि संजमासंजम-संजमगुणसेढीओ अणंताणुबंधिविसंजोयणाए ण लब्धंति तो वि एदीए चेव पज्जत्तं, तत्तो असंखेज्जगुणत्तादो । णवरि अणंताणुबंधिविसंजोयणगुण-सेढिसीसयं गंधयारेण ण जोइदमिदि ण एदं घड्ढे । कुदो ? अणंताणुबंधिविसंजोयण-गुणसेढीए अविणहसरूवाए अच्छंतीए सम्मामिच्छत्तगुणपरिणमणाभावादो । एदं कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । ण च संतमत्थं ण परूवेदि सुत्तं, तस्स अव्यावयत्त-

समयमें गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त होते हैं तो प्रथम समयवर्ती वह सम्यग्मिध्या-दृष्टि जीव उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ४६६. यहाँपर जो गुणितकर्माशवाला जीव संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके तब सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ जब सम्यग्मिध्यादृष्टिके प्रथम समयमें गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त होते हैं इस प्रकार पदोंका सम्बन्ध कर लेना चाहिये । शेष परूपणा मिध्यात्वके समान है ।

§ ४६७. यहाँपर कितने ही आचार्य इस प्रकार कथन करते हैं कि उदयसे सम्यग्मिध्यात्वका भीनस्थितिपना जैसे किसी एक गुणितकर्माशवाले जीवने संयतासंयत और संयतकी गुणश्रेणियोंको किया । फिर उसके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुण-श्रेणिशीर्षके साथ जब ये तीनों ही गुणश्रेणिशीर्ष सम्यग्मिध्यादृष्टि गुणस्थानके प्रथम समयमें उदयको प्राप्त होते हैं तब उसके उत्कृष्ट भीनस्थिति द्रव्य होता है, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणिसूत्रमें कही गई दो गुणश्रेणियाँ कर्मपरमाणुओंकी अपेक्षा असंख्यातरुणी होती हैं । यद्यपि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके समय संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियाँ नहीं प्राप्त होती हैं तो भी यही केवल पर्याप्त है, क्योंकि यह उन दोनोंसे असंख्यातरुणी होती है । किन्तु ग्रन्थकारने अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुण-श्रेणिशीर्षको नहीं जोड़ा है इसलिये यह बात नहीं बनती, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना-सम्बन्धी गुणश्रेणिके निर्जीर्ण हुए बिना रहते हुए सम्यग्मिध्यात्वगुणकी प्राप्ति नहीं होती ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है ।

दोसप्पसंगादो ।

§ ४६८. अण्णं च एदस्स णिवंधणमत्थि । तं जहा—संतकम्ममहाहियारे कदि-वेदणादिचउवीसमणियोगद्वारेसु पडिवद्धे उदओ णाय अत्थाहियारो द्विदि-अणु-भाग-पदेसाणं पयडिसमणियाणमुक्कस्साणुक्कस्सजहण्णाजहणुदयपरूणयेववावारी, तत्थुक्कस्सपदेसुदयसामित्तसाहणद्वं सम्मत्तुप्पत्तियादिएक्कारसगुणसेढीओ परूविय पुणो जाओ गुणसेढीओ संकिलेसेण सह भवंतरं संकामेति ताओ वत्तइस्सामो । तं जहा—उवसमसम्मत्तगुणसेढी संजदासंजदगुणसेढी अधापवत्तसंजदगुणसेढी त्ति एदाओ तिणिए गुणसेढीओ अप्पसत्थमरणेण वि मदस्स परभवे दीसंति । सेसासु गुणसेढीसु भीणासु अप्पसत्थमरणं भवे इदि वुत्तं तं पि केणाहिप्पाएण वुत्तं, उक्कस्स-संकिलेसेण सह तासि विरोहादो त्ति । तं पि कुदो ? संकिलेसावूरणकालादो पयदगुण-सेढीणमायांमस्स संखेज्जगुणहीणत्तभुवगमादो । तदो एदेण साहणेण एत्थ वि तासि-

यदि कहा जाय कि सूत्र विद्यमान अर्थका कथन नहीं करता है सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर सूत्रको अव्यापकत्व दोषका प्रसंग प्राप्त होता है ।

§ ४६८. तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणिके सद्भावमें जीव सम्यग्मिथ्यात्व गुणको नहीं प्राप्त होता इसका एक अन्य कारण है जो इस प्रकार है—कृति, वेदना आदि चौबीस अनुयोगद्वारोंसे सम्बन्ध रखनेवाले सत्कर्म महाधिकारमें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशोंके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्यरूप उदयके कथन करनेमें व्यापृत एक उदय नामका अर्थाधिकार है । वहाँ उत्कृष्ट प्रदेशोदयके स्वामित्वका साधन करनेके लिये सम्यक्त्वकी उत्पत्ति आदि ग्यारह गुणश्रेणियोंका कथन करनेके बाद फिर “जो गुणश्रेणियाँ संक्लेशरूप परिणामोंके साथ भवान्तरमें जाती हैं उन्हें बतलाते हैं । जैसे—उपशम सम्यक्त्व-गुणश्रेणि, संयतासंयतगुणश्रेणि और अधःप्रवृत्तसंयतगुणश्रेणि इस प्रकार ये तीन गुणश्रेणियोंके अप्रशस्त मरणके साथ भी मरे हुए जीवके परभवमें दिखाई देती हैं । किन्तु शेष गुणश्रेणियोंके क्षयको प्राप्त होने पर ही अप्रशस्त मरण होता है ।” यह कहा है सो यह किस अभिप्रायसे कहा है ? मालूम होता है कि शेष गुणश्रेणियोंका उत्कृष्ट संक्लेशके साथ विरोध है, इसलिये ऐसा कहा है ।

शंका—यह भी कैसे जाना ?

समाधान—संक्लेशको पूरा करनेका जो काल है उससे प्रकृत गुणश्रेणियोंका आयास संख्यातगुणा हीन स्वीकार किया है, इससे जाना जाता है कि शेष गुणश्रेणियोंका उत्कृष्ट संक्लेशके साथ विरोध है ।

इसलिये इस साधनसे यहाँ भी अर्थात् सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें भी उनका अभाव

१. घ० आ०, पन १०६५ । “तिणि वि पढमिल्लाओ मिच्छत्ताए वि होज अन्नभवे ।” —कर्म प्र० उदय गा० १० । ‘सम्मत्तुप्पादगुणसेढी देसविरदगुणसेढी अहापमत्तसंयतगुणसेढी य एया तिणि वि पढ-मिल्लाओ गुणसेढीतो मिच्छत्तं वि होज अन्नभवे’ त्ति मिच्छत्तं गंदएण अप्पसत्थं, मरणेण मओ गुणसेढित्तिवदलियं परभवगतो वि किं त्रिकालं वेदिजा ।’ —चूर्णि ।

मभावो सिद्धो । ण च एत्थ संकिलेसो णत्थि चि वोत्तुं जुत्तं, संकिलेसावूरणेण विणा सम्माइद्धिस्स सम्मामिच्छत्तगुणपरिणामासंभवादो । ण च तत्थ अप्पसत्थमरणं तं तंते ण वुत्तं, संकिलेसमेत्तेण सह तासिं विरोहपदुप्पायणट्ठ' तहोवएसादो । तम्हा सुत्तपरुविदाणि चेय दोगुणसेढिसीसयाणि संकिलेसकालो वि अविणस्संतसरुवाणि जाधे पढमसमयसम्मामिच्छाइद्धिस्स उदयमागयाणि ताधे तस्स उक्कससयमुदयादो भीणद्विदियस्स मिच्छत्तस्सेव सामिन्तं वत्तव्वमिदि सिद्धं ।

सिद्ध हुआ । यदि कहा जाय कि यहाँ संक्लेश नहीं हांता सो भी बात नहीं है, क्योंकि संक्लेश पूरा हुए बिना सम्यग्दृष्टिके सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानकी प्राप्ति सम्भव नहीं । यदि कहा जाय कि सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें अग्रशस्त मरण होता है यह बात आगममें नहीं कही है सो ऐसा कहकर भी मुख्य बात को नहीं टाला जा सकता है, क्योंकि संक्लेशमात्रके साथ उक्त गुणश्रेणियों के विरोधका कथन करनेके लिये वैसा उपदेश दिया है । इसलिये सूत्रमें कहे गये दो गुणश्रेणियों ही नाराको प्राप्त हुए बिना जब सम्यग्मिध्यादृष्टिके प्रथम समयमें उदयको प्राप्त होते हैं तभी उसके उदयसे भीनस्थितियाले कर्मपरमाणुओंका मिध्यात्वके समान उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिए यह सिद्ध हुआ ।

विशेषार्थ—जो जीव गुणितकर्मोंकी विधिसे आया और अतिशीघ्र संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके इस प्रकार सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ जब सम्यग्मिध्यात्वके प्रथम समयमें इन दोनों गुणश्रेणियोंके शीर्ष उदयको प्राप्त हुए तब इसके उदयसे भीनस्थितियाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु प्राप्त होते हैं । किन्तु कुछ आचार्य इन दो गुणश्रेणियोंके उदयके साथ अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणियोंके उदयको मिलाकर तीन गुणश्रेणियोंका उदय होनेपर उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करते हैं । इतना ही नहीं किन्तु वे यह भी कहते हैं कि यदि इन तीनों गुणश्रेणियोंका उदय सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमें सम्भव न हो तो केवल एक अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणियोंका उदय ही पर्याप्त है, क्योंकि संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंमें जितने कर्मपरमाणु पाये जाते हैं उनसे इस गुणश्रेणियोंमें असंख्यातगुणों कर्मपरमाणु पाये जाते हैं । किन्तु टीकाकारने उक्त आचार्योंके इस कथनको दो कारणोंसे नहीं माना है । प्रथम कारण तो यह है कि यदि सम्यग्मिध्यात्वगुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणियाँ पाई जाती होती तो चूर्णिसूत्रकार ने उक्त दो गुणश्रेणियोंके साथ इसका अवश्य ही समावेश किया होता, या स्वतंत्रभावसे इसका आश्रय लेकर ही उत्कृष्ट स्वामित्वका प्रतिपादन किया होता । किन्तु जिस कारणसे सूत्रकारने ऐसा नहीं किया इससे ज्ञात होता है कि सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणियाँ नहीं पाई जाती । दूसरे सत्कर्म नामक महाधिकारमें प्रदेशोदयके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेके लिये ग्यारह गुणश्रेणियोंका निर्देश करते हुए बतलाया है कि 'उपशमसम्यक्त्वगुणश्रेण्यि, संयतासंयतगुणश्रेण्यि और अधःप्रवृत्तसंयत गुणश्रेण्यि ये तीन गुणश्रेणियाँ ही मरणके बाद परभवमें दिखाई देती हैं ।' इससे ज्ञात होता है कि संक्लेश परिणामोंके प्राप्त होने पर केवल ये तीन गुणश्रेणियाँ ही पाई जाती हैं शेष गुणश्रेणियाँ नहीं, क्योंकि उनका काल संक्लेशको पूरा करनेके कालसे थोड़ा है । यतः सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानकी प्राप्ति संक्लेशरूप परिणाम हुए बिना वन नहीं सकती अतः सिद्ध हुआ कि सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणियाँ नहीं पाई जाती ।

❁ अर्णंताणुबंधीणसुकस्सयमोक्कड्डुणादित्तिण्हं पि भीणट्टिदियं कस्स ?
§ ४६६. सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

❁ गुणितकम्मंसिओ संजमासंजम-संजमगुणसेढीहि अविणट्टाहि
अर्णंताणुबंधी विसंजोएदुमाढत्तो, तेसिमपच्छिमट्टिदिसंखंडयं संखुभमाणयं
संखुद्धं तस्स उक्कस्सयमोक्कड्डुणादित्तिण्हं पि भीणट्टिदियं ।

§ ५००. जो गुणितकम्मंसिओ सव्वलहुमणंताणुबंधिकसाए विसंजोएदु-
माढत्तो । किंभूदो सो संजमासंजम-संजमगुणसेढीए अविणट्टसखूवाहि उवलक्खिओ
तेण जाघे तेसिमपच्छिमट्टिदिसंखंडयं सेसकसायाणसुवरि संखुभमाणायं संखुद्धं ताघे
तस्स उक्कस्सयमोक्कड्डुणादीणं तिण्हं पि संबंधि भीणट्टिदियं होदि त्ति सुत्तत्थसंबंधो ।
कुदो एदस्स उक्कस्सत्तं ? ण; तिण्हं पि सग-सगुक्कस्सपरिणामेहि कयगुणसेढिओबुच्छाणं

यहाँ एक यह तर्क किया जा सकता है कि सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें मरण नहीं होता और
उपशमसम्यक्त्व गुणश्रेणि आदि तीनके सिवा शेषका निषेध मरणका आलम्बन लेकर किया है
संक्लेशका आलम्बन लेकर नहीं, अतः सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना-
सम्बन्धी गुणश्रेणिके माननेमें कोई आपत्ति नहीं है । पर यह तर्क भी ठीक नहीं ज्ञात होता, क्योंकि
संक्लेशका और मरणका परस्पर सम्बन्ध है । संक्लेशके होने पर मरण आवश्यक है यह बात
नहीं पर मरणके लिये संक्लेश आवश्यक है । इसलिये यहाँ तीनके सिवा शेष गुणश्रेणियों
संक्लेशमात्रमें सम्भव नहीं यह तात्पर्य निकलता है । यद्यपि सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें
अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनावाला जीव जाता है पर वह तभी जाता है जब गुणश्रेणिका काल
समाप्त हो लेता है । अतः संयमासंयम और संयम इन दो गुणश्रेणियोंके उदयकी अपेक्षा ही
सम्यग्मिध्यात्वके प्रथम समयमें उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु कहने चाहिये यह
तात्पर्य निकलता है ।

* अनन्तानुबन्धीके अपकर्षण आदि तीनोंके भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म-
परमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ४६६. यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

* जिस गुणितकर्मांशवाले जीवने संयमासंयम और संयमकी गुणश्रेणियोंका
नाश किये बिना अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाका आरम्भ किया और जिसके
अनन्तानुबन्धियोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकका क्रमसे नाश हो गया वह अपकर्षण
आदि तीनोंके भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ५००. गुणितकर्मांशवाले जिस जीवने अतिशीघ्र अनन्तानुबन्धी कषायकी विसंयोजना
का प्रारम्भ किया । विसंयोजनाका प्रारम्भ करनेवाला जो नाशको नहीं प्राप्त हुई संयमासंयम
और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंसे युक्त है । उसने जब उन अनन्तानुबन्धी कषायोंके अन्तिम
स्थितिकाण्डकको शेष कषायोंसे क्रमसे निश्चित कर दिया तब उसके अपकर्षणादि तीनों सम्बन्धी
उत्कृष्ट भीनस्थिति होती है यह इस सूत्रका अभिप्राय है ।

ज्ञांका—इसीके उत्कृष्टपना कैसे होता है ?

समयूणावलिमेत्ताणमेत्थुवत्तंभादो । एत्थाणंताणुबंधिविसंजोयणगुणसेढी चेव पहाणा, सेसाणवेत्तो असंखेज्जगुणहीणत्तदंसणादो ।

❁ उच्चस्सयसुदयादो भीणद्विदियं कस्स ?

§ ५०१. सुगमं ।

❁ संजमासंजम-संजमगुणसेढीओ काऊण तत्थ मिच्छत्तं गदो जाधे गुणसेढिसीसयाणि पढमसमयमिच्छाइद्विस्स उदयमागयाणि तावे तस्स पढमसमयमिच्छाइद्विस्स उच्चस्सयसुदयादो भीणद्विदियं ।

§ ५०२. एत्थ गुणिदकम्मंसियणिहेसो किमद्वं ण कदो ? ण, तस्स पुच्चिन्ल-सामित्तसुत्तादो अणुवुत्तिदंसणादो । गुणसेढीणं परिणामपरतंतभावेण ण तं णिफ्फलं, पयडिगोवुच्छाए ल्लाहदंसणादो । एत्थ पदसंबंधो संजमासंजम-संजमगुणसेढीओ काऊण तत्थुहेसे मिच्छत्तं गओ जाधे गयस्स पढमसमयमिच्छाइद्विस्स दो वि गुणसेढि-

समाधान—नहीं, क्योंकि अपने-अपने उत्कृष्ट परिणामोंके द्वारा की गईं तीनों ही गुणश्रेणियोंपुच्छायें एक समय कम एक अवलिप्रमाण यहाँ पाई जाती हैं, इसलिये अपकर्षणादि की भीनस्थितियोंकी अपेक्षा इसीके उत्कृष्टपत्ता है। तो भी यहाँ अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना-सम्बन्धी गुणश्रेणियाँ ही प्रधान हैं, क्योंकि शेष दो गुणश्रेणियाँ इससे असंख्यातगुणी हीन देखी जाती हैं।

विशेषार्थ—जो गुणितकर्मशाबाला जीव अतिशीघ्र संयमासंयम, संयम और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना इन तीनों सम्बन्धी गुणश्रेणियोंको क्रमसे करके तदनन्तर अनन्तानुबन्धीके अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन करके स्थित होता है उसके अनन्तानुबन्धीके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु पाये जाते हैं यह उक्त सूत्रका आशय है।

❁ उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५०१. यह सूत्र सुगम है।

❁ जो संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके मिथ्यात्वमें गया और वहाँ पहुँचने पर मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके प्रथम समयमें जब गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त होते हैं तब वह प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है।

§ ५०२. शंका—इस सूत्रमें 'गुणिदकम्मंसिय' पदका निर्देश क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उस पदकी पूर्वके स्वामित्वसूत्रसे अनुश्रुति देखी जाती है। और गुणश्रेणियों परिणामोंके अधीन रहती हैं, इसलिये यह निष्फल भी नहीं है, क्योंकि इससे प्रकृतिगोपुच्छाका लाभ दिखाई देता है।

अब इस सूत्रके पदोंका इस प्रकार सम्बन्ध करे कि संयमासंयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके फिर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ और जब मिथ्यात्वमें जाकर प्रथम

सीसयाणि उदयमागदाणि होज्ज ताथे तस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणद्धिदियमिदि । सम्माइद्धिम्मि अणंताणुवंधीणमुदयाभावेण उदीरणा णत्थि त्ति गुणसेट्ठिसीसएसु । आवलियपइट्ठेसु उदीरणादन्वसंगहट्ठमेसो मिच्छत्तं पेदन्वो त्ति णासंक्कणिज्जं, तत्थ पुव्वमेव संकिलेसवसेण लाहादो असंखेज्जगुणसेट्ठिदन्वस्स हाणिदंसणादो । ण च विसोहिपरतंता गुणसेट्ठिणिज्जरा उदीरणा वा संकिलेसकाले वहुगी होइ, विरोहादो ।

❀ अट्ठएहं कसायाणसुक्कस्सयमोकड्डुणादित्तिएहं पि भीणाद्धिदियं कस्स ?

§ ५०३. सुगमं ।

❀ गुणितकम्मसिञ्चो कसायक्खवणाए अब्भुद्धिदो जाथे अट्ठएहं

समयमें दोनों ही गुणश्रेणियों उदयको प्राप्त हुए उसी समय उसके उदयसे भीनस्थितवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होते हैं । यदि यह कहा जाय कि सम्यग्दृष्टिके अनन्तानुबन्धियोंका उदय नहीं होनेसे उदीरणा नहीं होती अतएव उदीरणाद्रव्यके संग्रह करनेके लिए जब गुणश्रेणियोंके आवलिके भीतर प्रविष्ट हो जाय तभी इसे मिथ्यात्वमें ले जाना चाहिये सो ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वहाँ पहले ही संकलेशके वशसे लाभकी अपेक्षा असंख्यातगुणोंके श्रेणित्वकी हानि देखी जाती है । और जो गुणश्रेणियोंके विद्युद्धिके निमित्तसे होती है वह संकलेशकालमें उदीरणाके समान बहुत होगी सो भी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है ।

विशेषार्थ—इस सूत्रमें अनन्तानुबन्धीकी अपेक्षा उदयसे भीनस्थितवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंके स्वामीका निर्देश किया है । जो गुणितकर्मांशकी विधिसे आकर अतिशीघ्र संयमासंयम और संयमभी गुणश्रेणियोंके मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ है उसके वहाँ प्रथम समयमें ही यदि उक्त गुणश्रेणियोंके शीर्ष उदयमें आ जाते हैं तो उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है यह इस सूत्रका भाव है । यहाँ एक शंका यह की गई है कि उदय समयमें ही इस जीवको मिथ्यात्वमें न लाकर एक आवलि पहलेसे ले आना चाहिये । इससे लाभ यह होगा कि उदीरणाका द्रव्य प्राप्त हो जानेसे गुणश्रेणियोंके परमाणु और अधिक हो जायेंगे । इस शंकाका जो समाधान किया गया है उसका भाव यह है कि संकलेश परिणामोंके बिना तो मिथ्यात्व गुणस्थानकी प्राप्ति होती नहीं । अब जब कि गुणश्रेणियोंके आवलिके भीतर प्रवेश करते ही इसे मिथ्यात्वमें ले जाना है तो पूर्वमें ही संकलेश परिणाम हो जानेसे उदीरणाके द्वारा होनेवाले लाभसे असंख्यातगुणोंके द्रव्यकी हानि हो जाती है, क्योंकि इतने समय पहलेसे ही इसकी गुणश्रेणियोंके क्रम बन्द हो जायगा । इसलिये ऐसे समय ही इसे मिथ्यात्वमें ले जाना चाहिये जब मिथ्यात्वमें पहुँचते ही गुणश्रेणियोंका उदय हो जाय ।

❀ आठ कषायोंके अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ।

§ ५०३. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जिस गुणितकर्मांशवाले जीवने कषायोंकी क्षयणाका आरम्भ किया है वह

कसायाणमपच्छिमद्विदिखंडयं संछुभमाणं संछुद्धं ताथे उक्कस्सयं तिग्गहं पि भीणद्विदियं ।

§ ५०४. एत्थ पदसंबंधो एवं कायव्वो—जो गुणितकर्मसिओ सच्चलहु-मद्ववस्साणमंतोय्युहुत्त्वमहियाणसुवरि कदासेसकरिणिज्जो होऊण कसायक्खवणाए अब्भुद्विदो तेण जाथे अपुव्वाणियट्टिकरणपरिणामेहि द्विदिखंडयसहस्साणि पादेतेण अट्टपहं कसायाणमपच्छिमद्विदिखंडयमावलियवज्जं संजलणाणसुवरि संछुभमाणयं संछुद्धं ताथे तस्स उक्कस्सयमोकड्डणादीणं तिग्गहं पि भीणद्विदियं होइ ति । कुदो एदमावलियपइददव्वमुक्कस्सं ? ण, समयूणावलियमेत्तखवयगुणसेढीणमेत्थुयत्तंभादो । हेद्दा चेय संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयक्खवणाणसेढीओ धेत्तूण सामित्तं किमिदि ण पखुविदं ? ण, तासि सव्वासि पि मिल्लिदाणं खवगुणसेढीए असंखेज्जदि-भागत्तादो ।

❀ उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं कस्स ?

जब आठ कषायोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकका क्रमसे पतन कर देता है तब वह अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ५०४. यहाँ पर पदोंका सम्बन्ध इस प्रकार करना चाहिये कि जो गुणितकर्मांशवाला जीव अतिशीघ्र आठ वर्ष और अन्तर्मुहुर्तके बाद करने योग्य सब कार्योंको करके कषायोंकी क्षपणाके लिये उद्यत हुआ, वह जब अपूर्वकरण और अनियुक्तिकरणरूप परिणामोंके द्वारा हजारों स्थितिकाण्डको पतन करके आठ कषायोंके एक आवलिके सिवा अन्तिम स्थितिकाण्डको संव्यलनोमें क्रमसे निश्चित करता है तब वह अपकर्षण आदि तीनोंके भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

शंका—आवलिके भीतर प्रविष्ट हुआ यह द्रव्य उत्कृष्ट कैसे है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि एक समय कम आवलिप्रमाण क्षपकगुणश्रेणियाँ यहाँ पाई जाती हैं, इसलिये यह द्रव्य उत्कृष्ट है ।

शंका—इसके पूर्वमें ही संयमासंयम, संयम और दर्शनमोहनीयकी क्षपणा इन तीनों गुणश्रेणियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वाभित्वका कथन क्यों नहीं किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वे सब मिलकर भी क्षपकगुणश्रेणिके असंख्यातवें भाग-प्रमाण होती है ।

विशेषार्थ—गुणितकर्मांशवाला जो जीव आठ कषायोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन करके जब स्थित होता है तब उसके आठ कषायोंके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु पाये जाते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । शेष शंका-समाधान सरल है ।

❀ उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५०५. एत्थ अट्टण्हं कसायाणमिदि अहियारसंबंधो । सुगममन्यत् ।

✽ गुणितकर्मसियस्स संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयक्खवण-
गुणसेठीओ एदाओ तिण्णिण गुणसेठीओ काऊण असंजमं गदो तस्स पढम-
समयअसंजदस्स गुणसेठिसीसयाणि उदयमागदाणि तस्स अट्टकसायाण-
सुक्कस्सयमुदयादो भीणट्टिदियं ।

५०६. एत्थ पदसंबंधो एवं कायव्वो । तं जहा—गुणितकर्मसियस्स अट्ट-
कसायाणसुक्कस्सयमुदयादो भीणट्टिदियं होइ । किं सर्वस्यैव ? नेत्याह—संजमासंजम-
संजम-दंसणमोहणीयक्खवणगुणसेठीओ त्ति एदाओ तिण्णिण गुणसेठीओ कमेण काऊण
असंजमं गदो तस्स पढमसमयअसंजदस्स जाधे गुणसेठिसीसयाणि उदयमागदाणि
ताधे पयदुक्कस्ससामित्तं होइ त्ति । किमट्टमेसो पयदसामिओ असंजमं णीदो ? ण,
अण्णहा अट्टकसायाणमुदयासंभवादो । एत्थाणंताणुबंधिविसंजोयणगुणसेठीए सह
चत्तारि गुणसेठीओ किण्ण परुविदाओ त्ति णासंक्कणिज्जं, तिस्से सगअणुव्वाणियट्टि-
करणद्धाहिंतो विसेसाहियगच्छिदसेसख्खाए एत्तियमेत्तकालमवट्ठाणासंभवादो । तम्हा

§ ५०५. इस सूत्रमें अधिकारके अनुसार 'आठ कषायोंके' इन पदोंका सम्बन्ध कर लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

✽ जो गुणितकर्मांशवाला जीव संयमासंयम, संयम और दर्शनमोहनीयकी क्षपणासम्बन्धी इन तीन गुणश्रेणियोंको करके असंयमको प्राप्त हुआ है उस असंयतके जब प्रथम समयमें गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त होते हैं तब वह आठ कषायोंके उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ५०६. यहाँ पदोंके सम्बन्ध करनेका क्रम इस प्रकार है—गुणितकर्मांशवाला जीव आठ कषायोंके उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

शंका—क्या सभी गुणितकर्मांशवाले जीव स्वामी होते हैं ?

समाधान—नहीं, किन्तु जो संयमासंयम, संयम और दर्शनमोहनीयकी क्षपणा सम्बन्धी इन तीन गुणश्रेणियोंको क्रमसे करके असंयमको प्राप्त हुआ है प्रथम समयवर्ती उस असंयतके जब गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त होते हैं तब प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है ।

शंका—यह प्रकृत स्वामी असंयमको क्यों प्राप्त कराया गया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अन्यथा आठ कषायोंका उदय नहीं बन सकता था । और यहाँ उनका उदय अपेक्षित था, इसलिये यह असंयमको प्राप्त कराया गया है ।

शंका—यहाँ अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनासम्बन्धी गुणश्रेणिके साथ चार गुण-
श्रेणियोंका कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान—यहाँ ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि वह अपने अपूर्वकरण और अन्निवृत्तिकरणके कालसे कुछ ही अधिक होती है, इसलिये शेष भागके गल जानेसे इतने कालतक उसका सद्भाव मानना असंभव है ।

गुणिदकम्मंसियलवखणेणागंतुण संजदासंजद-संजदगुणसेढीओ काऊण पुणो अणंताणु-
वंधी विसंजोइय दंसणमोहणीयं खवेमाणो वि अट्टकसायाणं पुच्चिबल्लदोगुणसेढि-
सीसएहि सरिसमप्पणो गुणसेढिसीसयं काऊण अथापवत्तसंजदो जादो । गुणसेढि-
सीसएसु उदयभागच्चमाणेसु कालं काऊण देवैसुप्पणपढमसमए वट्टमाणओ जो
जीवो तस्स पढमसमयअसंजदस्स उदिण्णगुणसेढिसीसयस्स अट्टकसायाणसुक्कस्स-
सुदयादो भीणद्विदियं होदि ति सिद्धं । एत्थ सत्याणम्मि चैव असंजमं णेऊण
सामिच्चं किण्ण दिण्णं ? ण, सत्याणम्मि असंजमं गच्छमाणो पुव्वमेव अंतोमुहुत्तकालं
संकिलेसमावूरेइ ति एत्थियमेत्तकालपडिवद्धगुणसेढिलाहस्स विणासप्पसंगादो ।
सिस्सो' भणइ—एदम्हादो उवसमसेढिमस्सियूण उक्कस्सयसुदयादो भीणद्विदियं
वहुअं लहस्सिमाओ । तं जहा—जो गुणिदकम्मंसिओ सव्वलहुं कसायउवसामणाए
अव्वुद्धिदो अपुव्वकरणपढमसमयप्पहुडि गुणसेढिं करेमाणो अपुव्वकरणद्वादो
अणियट्टिअद्धाओ च विसेसाहिंयं काऊण अणियट्टिअद्धाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु
से काले अंतरं पारभदि ति मदो देवो जादो तस्स अंतोमुहुत्तोववण्णल्लयस्स जाये

इसलिये गुणितकर्मशरीकी विधिसे आकर और संयतासंयत तथा संदत्तसन्वन्धी गुण-
श्रेणियोंके करके फिर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके दर्शननोहनीयकी चपला करता हुआ
भी आठ कषायोंके पहले दो गुणश्रेणियोंके समान अपने गुणश्रेणियोंके करके अधःप्रवृत्त-
रुंयत हो गया । फिर गुणश्रेणियोंके उदयमें आनेपर मरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार
देवोंमें उत्पन्न होकर जो प्रथम समयमें विद्यमान है उस प्रथम समयवर्ती असंयतके गुणश्रेणि-
शरीपके उदय होनेपर आठ कषायोंके उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उच्छ्रष्ट कर्मपरमाणु होते हैं
यह सिद्ध हुआ ।

शंका—यहाँ स्वस्थानमें ही असंयम प्राप्त कराकर स्वामित्वका कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यदि इस जीवकी स्वस्थानमें ही असंयम प्राप्त कराते हैं तो
अन्तर्मुहूर्त काल पहलेसे ही इसे संक्लेशकी प्राप्ति करानी होगी जिससे इतने कालसे सन्वन्ध
रखनेवाली गुणश्रेणिका लाभ न मिल सकेगा, अतः स्वस्थानमें ही असंयम प्राप्त कराकर
स्वामित्वका कथन न करके इसे देवोंमें उत्पन्न कराया गया है ।

शंका—यहाँ शिष्यका कहना है कि पीछे जो क्रम कहा है इसके स्थानमें यदि उपशम-
श्रेणिकी अपेक्षा यह कथन किया जाय तो उदयसे भीनस्थितिवाले अधिक परमाणु प्राप्त हो सकते
हैं और तब इन्हें उच्छ्रष्ट कहना ठीक होगा । खुलासा इस प्रकार है—गुणितकर्मारावाला जो जीव
अतिशीघ्र कषायोंका उपशम करनेके लिये उद्यत हुआ । फिर अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर
गुणश्रेणिकी करता हुआ अपूर्वकरणके कालसे अनिष्टतिकरणके कालको विशेषाधिकारके
अनिष्टतिकरणके कालका संख्यात बहुभाग व्यतीत हो जाने पर तदनन्तर समयमें अन्तरकरणका
प्रारम्भ करता किन्तु ऐसा न करके मरा और देव हो गया उसके वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त

१. 'अंतरकरणं होदि ति वायदेवस्स तं मुहुत्तो । अट्टपहकसायाणं ।'—कर्मप्र० उदय गा० १४ ।

गुणसेदिसीसयमुदिणं ताधे उकरसयमुदयादो भ्रीणद्विदियं । एदं च पुव्विक्कलसव्व-
गुणसेदिहीसयदव्वादो विसोहिपाहम्मणेण असंखेज्जगुणं, तम्हा एत्थोवसामित्तेण
होदव्वं । जइ वि एसो अंतोमुहुत्तकालमुक्कड्डिय गुणसेदिदव्वमुवरि संखुहदि परपयडीसु
च अधापवत्तसंक्रमेण संकामेदि तो वि एदं विणासिज्जमाणसव्वदव्वमप्पहाणं
गुणसेदिहीसयस्स असंखेज्जभागत्तादो त्ति एदं घडदे, देवेसुववज्जिय अंतोमुहुत्तकाल-
मच्छमाणस्स ओकड्डुकड्डुणादीहि गुणसेदिसीसयस्स असंखेज्जाणं भागाणं परिकखय-
दंसणादो । ण चेदमसिद्धं, एदम्हादो चेव सुत्तादो तहाभावसाहणादो । ण च
देवेसुप्पण्णपढमसमए चेव उवसामणगुणसेदिगोवुच्छावत्तंवेणेण पयदसामित्तसमत्थणं पि
समंजसं, तत्थतणगुणसेदिगोवुच्छदव्वस्स दंसणमोहक्खयगुणसेदिहीसयदो असंखेज्ज-
गुणत्तणिण्णयादो । सुत्तयाराहिप्पाएण पुण दंसणमोहक्खययगुणसेदिहीसयस्सेव ततो
असंखेज्जगुणत्तणिण्णयादो । अण्णहा तप्परिहारेणेत्थेव सामित्तविहाणाणुववचीदो ।
ण च दंसणमोहक्खययगुणसेदिहीसएण सह तं घेतूण सामित्तावत्तंवेणं पि घडमाणयं
गत्तिदसेससरूवदंसणमोहक्खययगुणसेदिहीसयस्स तेत्तियमेत्तकालावट्टाणस्स अच्चंत-
मसंभवादो । तम्हा सुत्तुत्तमेव सामित्तमविरुद्धं सिद्धं । अहवा णिच्चाघादेण सत्थाणे

बाद जब गुणश्रेणिशीर्षे उदयको प्राप्त होता है तब उदयसे भ्रूनिस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु
होते हैं । और यह द्रव्य विशुद्धिकी अधिकतासे संचित होता है, इसलिये पिछले सब गुणश्रेणि-
शीर्षों के द्रव्यसे असंख्यातगुणा है । इसलिये यहाँ अन्य कोई स्वामी न होकर उपशामक होना
चाहिये । यद्यपि यह अन्तर्मुहूर्तकाल तक उत्कर्षण करके गुणश्रेणिके द्रव्यको ऊपर निक्षिप्त करता
है और अधःप्रवृत्त संक्रमणके द्वारा पर प्रकृतियोंमें भी संक्रमित करता है तो भी इस प्रकारसे
विनाशको प्राप्त होनेवाला यह सब द्रव्य अप्रधान है, क्योंकि यह गुणश्रेणिशीर्षके असंख्यातवै-
भागप्रमाण है ?

समाधान—सो यह कहना घटित नहीं होता है, क्योंकि देवोंमें उत्पन्न होकर अन्त-
र्मुहूर्तकालतक रहते हुए इसके अपकर्षण, उत्कर्षण आदिके द्वारा गुणश्रेणिशीर्षके असंख्यात
बहुभागोंका क्षय देखा जाता है और यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि इसी सूत्रसे इसकी
सिद्धि होती है । यदि कहा जाय कि देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही उपशामश्रेणिसम्बन्धी
गोपुच्छोके अवलम्बनसे प्रकृत स्वामित्वका समर्थन भी उचित है, क्योंकि यह बात निर्णीत-स्ती
है कि वहाँ प्रथम समयमें जो गुणश्रेणिगोपुच्छका द्रव्य प्राप्त होता है वह दर्शनमोहनीयके क्षण-
सम्बन्धी शीर्षसे असंख्यातगुणा होता है । सो ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि सूत्रकारके
अभिप्रायसे तो दर्शनमोहनीयका क्षणसम्बन्धी गुणश्रेणिशीर्ष ही उससे असंख्यातगुणा होता है
यह बात निर्णीत है । यदि ऐसा न होता तो उपशामश्रेणिकी अपेक्षा ही स्वामित्वके कथनका त्याग
करके सूत्रमें दर्शनमोहनीयकी क्षणश्रेणिकी अपेक्षा ही स्वामित्वका विधान नहीं बन सकता था ।
यदि कहा जाय कि दर्शनमोहके क्षणसम्बन्धी गुणश्रेणिशीर्षके साथ उपशामश्रेणिसम्बन्धी
गुणश्रेणिको लेकर स्वामित्वका कथन बन जायगा सो भी बात नहीं है, क्योंकि दर्शनमोहक्षण-
सम्बन्धी गुणश्रेणिशीर्षका जो अंश गलकर शेष बचता है उसका चारित्र्यमोहनीयकी उपशामना
होते हुए अन्तरकरणके कालके प्राप्त होनेके एक समय बादतक अवस्थित रहना अत्यन्त असम्भव
है । इसलिये सूत्रमें जो स्वामित्व कहा है वही ठीक है यह बात सिद्ध हुई । अथवा निर्व्याघातसे

चेव सामित्तमेत्थ सुत्तयाराहिप्पेदं । ण च उवसमसेठीए तहा संभवो, विरोहादो । तदो सत्थाणे चेव असंजमं गेदूण सामित्तमेदं वत्तव्वमिदि ।

यहाँ स्वस्थानमे ही स्वामित्व सूत्रकारको अभिप्रेत है । किन्तु उपशमश्रेणिमें इस प्रकारसे स्वामित्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेमें विरोध आता है, इसलिये स्वस्थानमें ही असंयमको प्राप्त कराके इस स्वामित्वका कथन करना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँ आठ कषायोंके उदयकी अपेक्षा मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म-परमाणुओंके स्वामीका निर्देश करते हुए सूत्रमें तो केवल इतना ही कहा है कि जो गुणितकर्मांश-वाला जीव संयमासंयम, संयम और दर्शनमोहक्षपकसम्बन्धी गुणश्रेणियोंको करके जब असंयम-भावको प्राप्त होता है तब उसके प्रथम समयमें इन तीनों गुणश्रेणियोंके शीर्षके उदय होने पर उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है । किन्तु इसका व्याख्यान करते हुए वीरसेन स्वामीने इतना विशेष बतलाया है कि ऐसे जीवको देवपर्यायमें ले जाकर वहाँ प्रथम समयमें गुणश्रेणिशिर्षके उदयको प्राप्त होने पर उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये । उन्होंने इस व्यवस्थासे यह लाभ बतलाया है कि ऐसा करनेसे असंयमकी प्राप्तिके लिये अन्तर्मुहूर्तप्रमाण संक्लेशपूरण काल वच जाता है । जिससे अधिक गुणश्रेणिका लाभ मिल जाता है । अब यदि इसे देवपर्यायमे न ले जाकर स्वस्थानमें ही असंयमभावकी प्राप्ति कराई जाती है तो एक अन्तर्मुहूर्त पहलेसे गुणश्रेणिका कार्य बन्द हो जायगा जिससे लाभके स्थानमें हानि होगी, इसलिये असंयमभावकी प्राप्तिके समय इसे देवपर्यायमें ले जाना ही उचित है । यह वह व्याख्यान है जिसपर टीकामें अधिक जोर दिया गया है । इसके बाद एक दूसरे प्रकारसे उत्कृष्ट स्वामित्वकी उपस्थापना करके उसका खण्डन किया गया है । यह मत धवला सत्कर्ममहाधिक्कारके उदयप्रकरणमें और श्वेतान्तर कर्मप्रकृति व पंचसंभ्रहमें पाया जाता है । इसका आशय यह है कि कोई एक गुणितकर्मांशवाला जीव उपशमश्रेणिपर चढ़ा और वहाँ अपूर्वकरण तथा अनिदृष्टिकारणमें अन्तरकरण क्रियाके पहले तक उसने गुणश्रेणि रचना की । इसके बाद मरकर वह देव हो गया । इसप्रकार इस देवके अन्तर्मुहूर्तमें जब गुणश्रेणिशिर्षका उदय होता है तब उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है । बात यह है कि दर्शनमोहक्षपकगुणश्रेणिले उपशमकगुणश्रेणि असंख्यातगुणी बतलाई है, इसलिये इस कथनको पूर्वोक्त कथनसे अधिक बल प्राप्त हो जाता है । तथापि टीकामें यह कहकर इस मतको अस्वीकार किया गया है कि देव होने के बाद बीचका जो अन्तर्मुहूर्त काल है उस कालमें अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण आदिके द्वारा गुणश्रेणिके बहुभाग द्रव्यका अभाव हो जाता है, इसलिये इस स्थलपर उत्कृष्ट स्वामित्व न बतलाकर चूर्णिसूत्रकारके अभिप्रायानुसार ही उत्कृष्ट स्वामित्व बतलाना ठीक है । वैसे तो इन दोनों मतोंपर विचार करनेसे यह प्रतीत होता है कि ये दोनों ही मत भिन्न-भिन्न दो परम्पराओंके द्योतक हैं, अतएव अपने-अपने स्थानमें इन दोनोंको ही प्रमाण मानना उचित है । यद्यपि इनमेंसे कोई एक मत सही होगा पर इस समय इसका निर्णय करना कठिन है । इसीप्रकार टीकामें यह मत भी दिया है कि उपशमश्रेणिमें पूर्वोक्त प्रकारसे मरकर जो देव होता है उसके प्रथम समयमें जो आठ कषायोंका द्रव्य उदयमें आता है वह पूर्वोक्त तीन गुण-श्रेणिशिर्षके द्रव्यसे अधिक होता है, इसलिये उत्कृष्ट स्वामित्व तीन गुणश्रेणिशिर्षके उदयमें न प्राप्त होकर उपशमश्रेणिमें मरकर देवपर्याय प्राप्त होनेके प्रथम समयमें प्राप्त होता पर टीकामें इस मतका भी यह कहकर निराकरण किया गया है कि सूत्रकारका यह अभिप्राय नहीं है, क्योंकि सूत्रकार तीन गुणश्रेणिशिर्षके द्रव्यको इससे अधिक मानते हैं । तभी तो उन्होंने तीन गुणश्रेणिशिर्षोंसे उदयमे उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान किया है । इसके साथ ही साथ प्रसंगसे इन दो

❖ कोहसंजलणस्स उक्कस्सयमोकडुणादितियहं पि भीणद्विदियं कस्स ?

§ ५०७. सुगमं ।

❖ गुणिदकम्मंसियस्स कोधं खवेंतस्स चरिमद्विदियंखंडयचरिमसमए असंछुहमाणयस्स उक्कस्सयं तियहं पि भीणद्विदियं ।

§ ५०८. एत्थ चरिमद्विदियंखंडयचरिमसमयअसंछुहमाणयस्से ति वुत्ते गुणिद-कम्मंसियलक्खणेणागंतूण सव्वलहुं कसायक्खवणाए अब्भुद्विदस्स कोहपढमद्विदं गुणसेद्विआयारेणावद्विदं समयाहियोदधानलियवज्जं सव्वमधद्विदीए गालिय कोहवेदग-चरिमसमए से काले माणवेदओ होहदि ति कोहचरिमद्विदिकंडयचरिमसमय-असंछोहयभावेणावद्विदस्स आवलियपइहगुणसेद्विगोवुच्छाओ गुणसेद्विसीसएण सह

आपत्तियोंका और निराकरण करके टीकामें प्रकारान्तरसे सूत्रकारके अभिप्रायकी पुष्टि की गई है। प्रथम आपत्ति तो यह है कि पूर्वोक्त तीन गुणश्रेणियोंमें अनन्तानुबन्धीविसंयोजना-सम्बन्धी गुणश्रेणियोंको मिलाकर इन चारोंके उदयमें उत्कृष्ट स्वामित्व कहना अधिक उपयुक्त होता। पर यह कथन इसलिये नहीं बनता कि अनन्तानुबन्धीविसंयोजनागुणश्रेणिका काल इतना बड़ा नहीं है कि उसका सद्भाव दर्शनमोहक्षपणाके बाद तक रहा आवे, इसलिये तो पहली आपत्तिका निराकरण हो जाता है। तथा दूसरी आपत्ति यह है कि दर्शनमोहक्षपणा-सम्बन्धी गुणश्रेणियोंके उपशमश्रेणिसम्बन्धीगुणश्रेणियोंके साथ मिलाकर उत्कृष्ट स्वामित्व क्यों नहीं कहा ? इसका भी यही कहकर निराकरण किया गया है कि दर्शनमोहक्षपणासम्बन्धी गुणश्रेणियोंके उपशमश्रेणिसम्बन्धी गुणश्रेणियोंके उक्त काल तक रह नहीं सकती, अतः यह कथन भी नहीं बनता। अन्तमें प्रकारान्तरसे जो सूत्रकारके अभिप्रायका समर्थन किया है उससे ऐसा ज्ञात होता है कि सूत्रकारको स्वस्थानमें ही उत्कृष्ट स्वामित्व इष्ट रहा है। यदि उन्हें देवपर्यायमें ले जाकर स्वामित्वका कथन करना इष्ट होता तो वे सूत्रमें इसका स्पष्ट उल्लेख करते।

❖ क्रोधसंज्वलनके अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५०७. यह सूत्र सुगम है ।

❖ जो गुणित कर्माशवाला जीव क्रोधका ज्ञय कर रहा है। पर ऐसा करते हुए जिसने अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें पडुंचकर भी अभी उसका पतन नहीं किया है वह उक्त तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५०८. यहां 'अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें जिसने उसका पतन किया है उसके ऐसा कथन' करनेसे यह अभिप्राय लेना चाहिये कि गुणितकर्माशकी विधिसे आकर जो अतिशीघ्र कपायकी क्षपणाके लिये ज्यत हुआ है और ऐसा करते हुए एक समय अधिक एक आवलिके सिवा क्रोधकी गुणश्रेणिरूपसे स्थित शेष सब प्रथम स्थितिको अधःस्थिति द्वारा गलाकर जो क्रोधवेदकके अन्तिम समयमें स्थित है उसके गुणश्रेणियोंके साथ आवलिके भीतर प्रविष्ट हुई गुणश्रेणियोंपुच्छाओंके रहते हुए प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है। यह जीव अगले

वृहत्तमाणाञ्चो घेतूण पयदुक्कस्ससामिन्तं होदि त्ति घेतव्वं ।

§ ५०६. ण एत्थ गुणसेदिसीसयस्स वहिंभावो त्ति पढमसमयमाणवेदयम्मि समयूणुच्छिद्वावलिगमेत्तद्विदीओ घेतूण सामिन्तं दायव्वमिदि संकणिज्जं, उप्पायाणुच्छेयमस्सिदूण गुणसेदिसीसयस्स वि एत्थंतव्वभाउवत्तंभादो । एवमेवं चेष घेतव्वं, अण्णहा तस्सेव उक्कस्सयस्युदयादो भीणद्विदियं परुव्विस्समाणेणुत्तरसुत्तेण सह विरोहादो । अहवा दव्वद्वियणयावत्तंवीभूदपुव्वगइणायावत्तंवणेण पढमसमयमाणवेदयस्सेव क्रोहचरिमद्विदिसंखंडयचरिमसमयअसंखोहयत्तं परुव्वेदव्वं । ण च एवं संते उवरिमसुत्तस्यो दुग्घओ, भयणवार्इणमम्हाणं तत्थ अणुप्पायाणुच्छेदं पज्जवद्वियणयणियमेण समवत्तंविद्य घटावणादो । एदमत्थपदस्युवरिमाणंतरसुत्तेसु वि जोजेयव्वं ।

समयमें मानवेदक होगा, इसलिये यह समय क्रोधके अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समय होनेसे अभी इसके अन्तिम स्थितिकाण्डकका पतन नहीं हुआ है ।

§ ५०९. यकि कोई यहां ऐसी आशंका करे कि यहां गुणश्रेणिसीर्षे वहिभूत है, इसलिये मानवेदकके प्रथम समयमें एक समय कम उच्छिद्वावलिप्रमाण स्थितियोंकी अपेक्षा स्वामित्वका विधान करना चाहिये सो उसकी ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उत्पादानुच्छेदकी अपेक्षा गुणश्रेणिसीर्षिका भी यहां अन्तर्भाव पाया जाता है । और यह अर्थ प्रकृतमें इसी रूपसे लेना चाहिये, अन्यथा आगे जो यह सूत्र आया है कि 'इसी जीवके उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणु होते हैं' सो इसके साथ विरोध प्राप्त होता है । अथवा द्रव्यार्थिक नयका आलम्बनभूत भूतपूर्वगति न्यायका सहारा लेकर प्रथम समयवर्ती मानवेदकके ही अपने अन्तिम समयवर्ती क्रोधके अन्तिम स्थितिकाण्डकका सङ्ग्राह कहना चाहिये । यदि कहा जाय कि ऐसा मानने पर आगेके सूत्रका अर्थ घटित करना कठिन हो जायगा सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग तो भजनावामी हैं, इसलिए पर्यायार्थिक नयके नियमानुसार अनुत्पादानुच्छेदका आलम्बन लेकर उक्त अर्थ घटित कर दिया जायगा । इस अर्थ पदको आगेके अन्तरवर्ती सूत्रोंमें भी घटित कर लेना चाहिये ।

विशेषार्थ—वस्तुस्थिति यह है कि जो गुणितकर्माशवाला जीव क्षणिके समय क्रोधवेदकके कालको ब्रिताकर मानवेदकके कालमें स्थित है वह क्रोधसंज्वलनके अकार्षण आदि तीनकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है । किन्तु यहां सूत्रमें यह स्वामित्व क्रोधवेदकके अन्तिम समयमें ही बतलाया गया है जिसे घटित करनेमें बड़ी कठिनाई जाती है । बल्कि एक शंकाकारने तो इस सूत्र प्रतिपादित विषयका प्रकारान्तरसे खण्डन ही कर दिया है । वह कहता है कि यहां गुणश्रेणिसीर्षिकी तो चर्चा ही छोड़ देनी चाहिये । उत्कृष्ट स्वामित्वका जितना भी द्रव्य है उसमें इसका सङ्ग्राह तो कथमपि नहीं किया जा सकता । हां मानवेदकके प्रथम समयमें जो एक समय कम उच्छिद्वावलिप्रमाण द्रव्य शेष रहता है उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कहना ठीक है । पर टीकाकारने इस विरोधको दो प्रकारसे शान्त किया है । (१) प्रथम तो उन्होंने उत्पादानुच्छेदकी अपेक्षासे इस विरोधको शान्त किया है । उत्पादानुच्छेद द्रव्यार्थिक नयको कहते हैं । यह सत्त्वावस्थामें ही विनाशको स्वीकार करता है । उदाहरणार्थ सूक्ष्मसाम्पराय नामक दसवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें सूक्ष्म लोभका उदय है पर यहां उसका उदयव्युच्छिन्ति पतलाई जाती है सो यह कथन उत्पादानुच्छेदकी अपेक्षासे जानना

ॐ उक्कस्सयसुदयादो भीणट्टिदियं पि तस्सेव ।

§ ५१०. एत्थ कोहसंजलणस्से त्ति अणुवट्टदे, तेणेवमहिसंबंधो कायव्वो—
तस्सेव णयद्वयविसयीकयस्स पुव्विञ्जलसामियस्स कोहसंजलणसंबंधि उक्कस्सय-
सुदयादो भीणट्टिदियमिदि । सेसं पुव्वं व । णवरि उदिण्णमेदपदेसग्गमेयट्टिदि-
पडिवद्धमेत्थ सामित्तविसईकयं होइ ।

ॐ एवं चेव माणसंजलणस्स । एवरि ट्टिदिकंडयं चरिमसमयअसंखुह-
माणयस्स तस्स चत्तारि वि उक्कस्सयाणि भीणट्टिदियाणि ।

§ ५११. माणसंजलणस्स वि एवं चेव सामित्तं दायव्वं । णवरि माणट्टिदि-
कंडयं चरिमसमयअसंखुहमाणयस्से त्ति सणामपडिवद्धो आलावभेदो चेव णत्थि अण्णो
त्ति समप्पणामुत्तमेयं ।

चाहिये । इसीप्रकार प्रकृतमें भी जब कि क्रोधवेदकके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट स्वामित्व स्वीकार कर लिया तब गुणश्रेणिश्रीषैका उत्कृष्ट स्वामित्वविषयक द्रव्यमें अन्तर्भाव माननेमें कोई आपत्ति नहीं है । इस कथनको इसी रूपमें माननेके लिये इसलिये भी जोर दिया है कि अगले सूत्रमें जो उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका उत्कृष्ट स्वामित्व बतलाया है वह ऐसा माने बिना बन नहीं सकता । (२) दूसरे भूतपूर्व न्यायकी अपेक्षा मानवेदकके यह सब स्वीकार करके उक्त विरोधका शमन किया गया है । यद्यपि ऐसा करनेसे अगले सूत्रके साथ संगति बिठलानेमें कठिनाई जाती है पर अगले सूत्रका अर्थ अनुत्पादानुच्छेद अर्थात् पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे कर लेनेपर वह कठिनाई दूर हो जाती है । इसप्रकार विविध दृष्टियोंसे विचार करके जहां जो अर्थ संगत बैठे उसे घटित कर लेना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

ॐ उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्म परमाणुओंका स्वामी भी वही है ।

§ ५१०. इस सूत्रमें 'कोहसंजलणस्स' इस पदकी अनुवृत्ति होती है, इसलिये इस सूत्रका ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये कि जिसे पहले दो नयोंका विषय बतला आये हैं उसी पूर्वोक्त स्वामीके क्रोधसंज्वलनकी अपेक्षा उदयसे भीन स्थितिवाले उत्कृष्ट परमाणु होते हैं । शेष कथन पहलेके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है कि एक स्थितिगत जो कर्मपरमाणु उदयमें आ रहे हैं उनका ही यहां स्वामित्वसे सम्बन्ध है ।

विशेषार्थ—क्रोधवेदकके अन्तिम समयमें क्रोधके जिन कर्मपरमाणुओंका उदय हो रहा है उसमें गुणश्रेणिश्रीषैका द्रव्य सम्मिलित है, अतः यहां उत्कृष्ट स्वामित्व कहा है, क्योंकि उदयगत कर्मपरमाणुओंकी यह संख्या अन्यत्र नहीं प्राप्त होती ।

ॐ इसी प्रकार मानसंज्वलनका कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि जिसने अपने अन्तिम समयमें मानस्थितिकाण्डकका पतन नहीं किया है वह चारोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५११. मानसंज्वलनके स्वामित्वका भी इसीप्रकार अर्थात् क्रोधसंज्वलनके समान विधान करना चाहिये । किन्तु जिसने मानस्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें उसका पतन नहीं किया है इसप्रकार यहां क्रोधके स्थानमें मानका सम्बन्ध होनेसे कथनमें इतना भेद हो जाता है, इसके सिवा अन्य कोई भेद नहीं है । इसप्रकार यह समर्पणसूत्र है ।

✽ एवं चैव मायासंजलणस्स । एवरि मायाट्टिदिकंडयं चरिमसमय-
असंखुहमाणयस्स तस्स चत्तारि वि उक्कस्सयाणि भीणट्टिदियाणि ।

§ ५१२. सुगमं ।

✽ लोहसंजलणस्स उक्कस्सयमोकड्डुणादितिएहं पि भीणट्टिदियं
कस्स ?

§ ५१३. सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

✽ गुणिट्ठकम्मंसियस्स सब्बसंतकम्ममावलियं पविस्समाण्यं पविट्ठं
ताथे तस्स उक्कस्सयं तिण्हं पि भीणट्टिदियं ।

§ ५१४. एत्थ गुणिट्ठकम्मंसियणिहे सो तच्चिवरीयकम्मंसियणिवारणफलो ।
तं पि कुदो ? गुणिट्ठकम्मंसियादो अण्णत्थ पदेससंचयस्स उक्कस्सभावाणुववत्तीदो ।

✽ इसीप्रकार मायासंज्वलनका कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि जिसने मायास्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें उसका पतन नहीं किया है वह चारोंकी ही अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट परमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५१२. यह सूत्र सुगम है ।

विशेषार्थ—पहले जैसे क्रोधसंज्वलनके अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंके स्वामीका कथन कर आये हैं वैसे ही मान-संज्वलन और माया संज्वलनकी अपेक्षा भी जानना चाहिये । यदि उक्त कथनसे इसमें कोई विशेषता है तो वह इतनी ही कि क्रोधसंज्वलनके वेदककालमें उस प्रकृतिकी अपेक्षासे कथन किया था किन्तु यहां मानसंज्वलन और मायासंज्वलनके वेदककालमें इनकी अपेक्षा कथन करना चाहिये ।

✽ लोभसंज्वलनके अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५१३. यह वृच्छासूत्र सुगम है ।

✽ जिस गुणितकमांश जीवके सब सत्कर्म जब क्रमसे एक आवलिके भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं तब वह अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

§ ५१४. यहाँ सूत्रमें 'गुणितकमांश' पदका निर्देश इससे विपरीत कमांशके निवारण करनेके लिये किया है ।

शंका—ऐसा करनेका क्या प्रयोजन है ?

समाधान—क्योंकि गुणितकमांशके सिवा अन्यत्र कर्मपरमाणुओंका उत्कृष्ट संचय नहीं हो सकता । बस यही एक प्रयोजन है जिस कारणसे इस सूत्रमें 'गुणितकमांश' पदका निर्देश किया है ।

सवेदस्सेव तहाभावोवयारादो । एसो अत्यो पुरिस-गणुंसयवेदसामित्तमुत्तेसु वि जोजेयव्वो, विसैसाभावादो । पुव्वविहाणेण गंतूण सव्वलहुं खवणाए अब्भुद्धिय सोदएण इत्थिवेदं संखुहमाणयस्स विदियद्विदीए चरिमद्विदिसखंडयपमाणेणावद्विदाए पढमद्विदीए च आवलियमेत्तीए गुणसेहिसख्वेणावसिद्धाए तिण्णि वि भीणद्विदियाणि उक्कस्सयाणि होंति त्ति सुत्तत्थसंगहो ।

§ ५१६. संपदि पुव्विज्जपुच्छामुत्तविसईकयमुक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदिय-सामित्तमुत्तरमुत्तेण भणइ—

❖ उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं चरिमसमयइत्थिवेदकखवयस्स ।

§ ५२०. तस्सेव समयूणावलियमेत्तद्विदीओ गालिय द्विदस्स जाधे पढमद्विदीए चरिमणिसेओ उदिण्णो ताधे तस्स चरिमसमयइत्थिवेदकखवयस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियमिदि सुत्तत्थसंबंधो ।

❖ पुरिसवेदस्स उक्कस्सयमोकडुणादिचदुण्हं पि भीणद्विदियं कस्स ?

§ ५२१. सुगमं ।

समयवर्ती सवेदीके ही स्त्रीवेदीके अन्तिम फालिका अभाव उपचारसे मान लिया है । पुरुषवेद और नपुंसकवेदके स्वामित्वविषयक सूत्रोंका कथन करते समय भी इसी अर्थकी योजना कर लेनी चाहिये, क्योंकि इससे उनमें कोई विशेषता नहीं है ।

जो कोई एक जीव पूर्वविधिसे आकर और अतिशीघ्र क्षणकाके लिये उद्यत होकर स्वोदयसे स्त्रीवेदका पतन कर रहा है उसके द्वितीय स्थितिमें अन्तिम स्थितिकाण्डकके शेष रहनेपर तथा प्रथम स्थितिमें एक आवलिप्रमाण गुणश्रेणिके अवस्थित रहनेपर तीनों ही भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु उत्कृष्ट होते हैं यह इस सूत्रका अभिप्राय है ।

§ ५१६. अब जिसका पिछले पृच्छासूत्रमें उल्लेख कर आये हैं ऐसे उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंके स्वामित्वका कथन अगले सूत्रद्वारा करते हैं—

❖ तथा स्त्रीवेदका क्षपक जीव अपने अन्तिम समयमें उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५२०. एक समय कम आवलिप्रमाण स्थितियोंको गलाकर स्थित हुए उसी जीवके जब प्रथम स्थितिका अन्तिम निषेक उदयको प्राप्त होता है तब अन्तिम समयवर्ती वह स्त्रीवेदी क्षपक जीव उदयसे भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है यह इस सूत्रका अभिप्राय है ।

❖ पुरुषवेदके अपकर्षण आदि चारोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५२१. यह सूत्र सुगम है ।

❖ गुणिदकम्मंसियस्स पुरिसवेदं खवेमाणयस्स आवलियचरिमसमय-
असंछोहयस्स तस्स उक्कस्सयं तियहं पि भीणद्धिदियं ।

§ ५२२. एत्थ गुणिदकम्मंसियवयणेण तिण्हं वेदाणं पुरिदकम्मंसियस्स गहणं
कायन्वं, अण्णहा पुरिसवेदुक्कस्ससंचयाणुववचीदो । सेसं सुगमं ।

❖ उक्कस्सयसुदयादो भीणद्धिदियं चरिमसमयपुरिसवेदयस्स ।

§ ५२३. तस्सेव पुरिसवेदोदएण खवगसेट्ठिमारूढस्स अघद्धिदीए गाल्ळिदपढम-
द्धिदियस्स चरियसमयपुरिसवेदयस्स पयदुक्कस्ससामित्तं होइ ति सुत्तत्थो ।

❖ णवुंसयवेदयस्स उक्कस्सयं तियहं पि भीणद्धिदियं कस्स ?

§ ५२४. सुगममेदमासंकासुत्तं ।

❖ गुणिदकम्मंसियस्स णवुंसयवेदेण उवद्धिदस्स खवयस्स
णवुंसयवेदआवलियचरिमसमयअसंछोहयस्स तियिण वि भीणद्धिदियाणि
उक्कस्सयाणि ।

§ ५२५. एत्थ गुणिदकम्मंसियस्स पयदुक्कस्सभीणद्धिदियाणि होति ति

* जो गुणितकर्मांशवाला जीव पुरुषवेदकी क्षपणा करता हुआ आवलिके
चरम समयमें असंतोभक है वह अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले
उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५२२. इस सत्रमे जो गुणितकर्मांश यह वचन आया है सो इससे तीनों वेदोंके गुणित-
कर्मांशवाले जीवका ग्रहण करना चाहिये । अन्यथा पुरुषवेदका उत्कृष्ट संचय नहीं बन सकता है ।
शेष कथन सुगम है ।

* तथा पुरुषवेदका क्षपक जीव अपने अन्तिम समयमें उदयसे भीनस्थितिवाले
उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५२३. जो पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रेणियर चढ़ा है और जिसने अघःस्थितिके द्वारा
प्रथम स्थितिको गला दिया है उसके पुरुषवेदके उदयके अन्तिम समयमें प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व
होता है यह इस सूत्रका अर्थ है ।

* नपुंसकवेदके अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट
कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५२४. यह आशंका सूत्र सरल है ।

* जो गुणितकर्मांशवाला जीव नपुंसकवेदके उदयसे क्षपकश्रेणि पर आरोहण
करके नपुंसकवेदका आवलिके चरम समयमें असंतोभक है वह अपकर्षण आदि
तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५२५. यहाँ गुणितकर्मांशवाले जीवके प्रकृत उत्कृष्ट भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणु होते हैं

विसोहीए बहुअस्स गुणसेदिदव्वस्स संगहइ' । दुचरिमसमयादिहेट्टिमापुव्वकरण-
णिवारणफलो चरिमसमयअपुव्वकरणणिदेसो । तस्स पयदुक्कस्ससामित्तं होइ । ततो उवरि
बहुदव्वावूरिदग्गुणसेदिणिसेए उदिण्णे सामित्तं किण्ण दिण्णं ? ण, तत्थेवेदेसिमुदय-
वोच्चेदेण उवरि दादुमसत्तीदो । उवसमसेठीए अणियट्ठिउव्वसामओ से काले अंतरं
काहिदि ति मदो देवो जादो तस्स अंतोसुहुत्तुववण्णल्लयस्स जाधे अपच्छिद्धं गुणसेदि-
सीसयमुदयमागयं ताधे छण्हमेदेसिं कम्मसाणं पयदुक्कस्ससामित्तं दायव्वमिदि
णासंकणिज्जं, तत्थतणविसोहीदो अणंतगुणउव्वसंतकसायुक्कस्सविसोहिं पेक्खियुण सव्व-
जहणियाए वि अपुव्वकरणक्खवयविसोहीए अणंतगुणत्तुव्वलांभादो । एत्थेव विसेसंतर-
पटुप्पायणट्टमुत्तरसुत्तं—

❀ एवरि हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं जइ कीरइ भय-दुग्गुञ्जाणमवेदगो

समाधान—क्योंकि उपशामककी विशुद्धिसे क्षपककी विशुद्धि अनन्तगुणी होती है जिससे गुणश्रेणि द्रव्यका अधिक संचय होता है। यही कारण है कि यहाँ उपशामक पदका निर्देश न करके क्षपक पदका निर्देश किया है।

यहाँ अपूर्वकरणके उपान्त्य समय आदि पिछले समयोंका निषेध करनेके लिये 'चरिम-समयअपुव्वकरण' पदका निर्देश किया है, क्योंकि प्रकृत विषयका उत्कृष्ट स्वामित्व इसीके होता है।

शंका—अपूर्वकरणके अन्तिम समयसे आगे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें जिसमें बहुत द्रव्यका संचय है ऐसे गुणश्रेणिनिषेधका उदय होता है, अतः इस उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान वहाँ जाकर करना चाहिये था ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें ही इन प्रकृतियोंकी उदय-व्युत्पत्ति हो जाती है, अतः उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान आगे नहीं किया जा सकता।

शंका—उपशामश्रेणिमें अनिवृत्तिकरण उपशामक तदनन्तर समयमें अन्तर करेगा किन्तु अन्तर न करके मरा और देव हो गया। उसके वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त बाद जब अन्तिम गुणश्रेणिशीर्ष उदयमें आता है तब इन छह कर्मोंके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान करना चाहिये ?

समाधान—ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उपशामक अनिवृत्तिकरणमें अन्तरकरण करनेके पूर्व जितनी विशुद्धि होती है उससे उपशान्तकषायकी उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणी है और इससे भी क्षपक अपूर्वकरणकी सबसे जघन्य विशुद्धि अनन्तगुणी बतलाई है। इसीसे इन छह कर्मोंके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान अन्यत्र न करके क्षपक अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें किया है।

अब इस विषयमें जो विशेष अन्तर है उसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* किन्तु इतनी विशेषता है कि हास्य, रति, अरति या शोकका यदि कर रहा

कायव्वो । जह भयस्स तदो दुग्गुंछाए अवेदगो कायव्वो । अह दुग्गुंछाए तदो भयस्स अवेदगो कायव्वो ।

§ ५३१. कुदो एवं कीरदे ? ण, अविवक्खियाणं णोकसायाणमवेदगत्ते त्थिबुक्कसंकममस्सियाणं विवक्खियपयडीणमसखेज्जसमयपबद्धमेत्तगुणसेट्ठिगोबुच्छदव्वस्स छाहदंसणादो ।

§ ५३२. संपहि पयदस्स उवसंहरणद्वसुत्तरसुत्तमोइण्णं—

❀ उक्कस्सयं सामित्तं समत्तमोघेण ।

है तो उसे भय और जुगुप्साका अवेदक रखना चाहिये । यदि भयका कर रहा है तो उसे जुगुप्साका अवेदक रखना चाहिये और जुगुप्साका कर रहा है तो भयका अवेदक रखना चाहिये ।

§ ५३१. शंका—इस व्यवस्थाके करनेका क्या कारण है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यदि यह जीव अविवक्षित नोकपायोंका अवेदक रहता है तो इसके विवक्षित प्रकृतियोंमें स्तिबुक संक्रमणके द्वारा असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण गुणश्रेणि-गोपुच्छाके द्रव्यका लाभ देखा जाता है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर गुणितकर्मांश क्षपक जीवके अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट स्वामित्व बतलाया है सो इसका कारण यह है कि छद्म नोकपायोंका उदयगत उत्कृष्ट द्रव्य वहीं पर प्राप्त होता है अन्यत्र नहीं । यद्यपि शंकाकार यह समझकर कि अपूर्वकरणसे अनिवृत्तिकरणमें अधिक द्रव्यका संचय होता है ऐसे जीवको अनिवृत्तिकरणमें ले गया है और वहाँ नोकपायोंका उदय न होनेसे उदयगत उत्कृष्ट द्रव्यके प्राप्त करनेके लिये उसे देवपर्यायमें उत्पन्न कराया है । किन्तु उपशमश्रेणिसे उपशान्तकषाय गुणस्थानमें और इससे क्षपक जीवके परिणामोकी विशुद्धि अनन्तरगुणी होती है, इसलिये गुणश्रेणिका उत्कृष्ट संचय क्षपक अपूर्वकरणमें ही होगा । यही कारण है कि उत्कृष्ट स्वामित्वका प्रतिपादन अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें किया है । तथापि ऐसा नियम है कि किसीके भय और जुगुप्सा दोनोंका उदय होता है । किसीके इनमेंसे किसी एकका उदय होता है और किसीके दोनोंका ही उदय नहीं होता । इसलिये यदि हास्य, रति, अरति या शोककी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कहना हो तो दोनोंके उदयके अभावमें कहना चाहिये । यदि भयकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कहना हो तो जुगुप्साके अभावमें कहना चाहिये और जुगुप्साकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व कहना हो तो भयके अभावमें कहना चाहिये । ऐसा करनेसे लाभ यह है कि जब जिस प्रकृतिका उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त किया जायगा तब उसे जिन प्रकृतियोंका उदय न होगा, स्तिबुक संक्रमणके द्वारा उनका द्रव्य भी मिल जायगा ।

§ ५३२. अब प्रकृत विषयका उपसंहार करनेके लिये आगेका सूत्र आया है—

❀ इस प्रकार ओघसे उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ ।

द्वं लहामो त्ति खंडगुणयारो पुव्वपरूविदपमाणो एदस्स गुणयारसरूवेण ठवेयव्वो । एवं कदे सव्वखंडाणि अस्सियूण अहियारद्विदीए पदिददव्वमागच्छदि । एत्थ जइ गुणगारभागहारा सरिसा हेंति तो सयत्थेयखंडपडिभागिणं पयदणिसेयदव्वपमाणं होज्ज ? ण च एवं, भागहारं पेक्खियूण गुणगारस्स ओकहुक्कणभागहारमेत्तरूवेहि हीणत्तदंसणादो । तदो किंचूणमेयखंडपडिवद्धद्वं पयदणिसेए दिज्जमाणं होइ । अंतरचरिमद्विदिणिसित्तदव्वे पुण एदेण पमाणेण कीरमाणे सादिरेयओकहुक्कण-भागहारमेत्ताओ सत्तागाओ लव्वंति, पुव्विज्जदव्वस्सुवरि एत्तियमेत्तदव्वस्स सविसेसस्स पवेसुवत्तंभादो । खंडं पडि उव्वरिददव्वस्स अणंतरभागहारोवद्विदसंपुण्णोक्कहुक्कण-भागहारपटुपण्णसयत्थेयखंडपमाणत्तुवत्तंभादो च । एत्थ तेरासियं काऊण सिस्साणं सादिरेयओकहुक्कणभागहारमेत्तगुणयारविसओ पवोहो कायव्वो । तम्हा अणंतर-चरिमद्विदिणिसित्तदव्ववादो विदियद्विदिपढमणिसेयम्मि णिवदंतदव्वमसंखेज्जगुणहीण-मिदि सिद्धं । दिस्समाणपदेसगं पुण विसेसहीणं णिसेयभागहारपडिभागेण । तदो उदयावलियवाहिरे अतरपढमद्विदिमादिं कादूण एया गोवुच्छा । जेणेवमंतरम्मि उदया-वलियवज्जम्मि बहुअं दव्वं णिक्खिवदि तेणंतरस्स हेइदो उदयावलियव्वंभंतरे असंखेज्जगुणहीणा एयगोउच्छा जादा । तदो एवंविहउदयावलियव्वंभंतरणिसित्त-दव्वं घेत्तूण पयदजहण्णसामित्तमिदि सुसंवद्धं ।

है, इसलिये पूर्वोक्त प्रमाण खण्डगुणकारको इसके गुणकाररूपसे स्थापित करना चाहिये । इस प्रकार करने पर सब खण्डोंकी अपेक्षा विवक्षित स्थितिमें जितना द्रव्य प्राप्त होता है उसका प्रमाण आता है । यहाँ यदि गुणकार और भागहार समान होते तो पूरे एक खण्डका प्रतिभाग प्रकृत निषेकके द्रव्यप्रमाण प्राप्त होता । परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि भागहारकी अपेक्षा गुणकार अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके जितने अंक हैं उतना कम देखा जाता है । इसलिये कुछ कम एक खण्डसम्बन्धी द्रव्य प्रकृत निषेकमें दीयमान द्रव्य होता है । किन्तु अन्तरकालकी अन्तिम स्थितिमें जो द्रव्य निक्षिप्त किया गया है उसे इस प्रमाणसे करने पर साधिक अपकर्षण-उत्कर्षण-भागहार शलाकाएँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि पूर्वकालीन द्रव्यके ऊपर साधिक इतने द्रव्यका प्रवेश पाया जाया है और एक खण्डके प्रति जो द्रव्य शेष बचता है वह, अन्तरभागहारसे पूरे अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारमें भाग देकर जो प्राप्त हो उससे पूरे एक खण्डको गुणा करने पर जो प्राप्त हो, उतना होता है । यहाँ पर त्रैशिक करके शिष्योंको साधिक अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार-प्रमाण गुणकारका ज्ञान कराना चाहिये । इसलिये अनन्तर अन्तिम स्थितिमें निक्षिप्त हुए द्रव्यसे द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकमें निक्षिप्त होनेवाला द्रव्य असंख्यातगुणा हीन होता है यह सिद्ध हुआ । किन्तु दृश्यमान कर्मपरमाणु निषेकभागहाररूप प्रतिभागकी अपेक्षा विशेष हीन होते हैं । इसलिये उदयावलिके बाहर अन्तरकालकी प्रथम स्थितिसे लेकर एक गोपुच्छा है । यतः इस प्रकार उदयावलिके सिवा अन्तरकालके भीतर बहुत द्रव्य निक्षिप्त होता है अतः अन्तरकालके नीचे उदयावलिके भीतर असंख्यातगुणी हीन एक गोपुच्छा प्राप्त होती है । इसलिये इस प्रकार उदयावलिके भीतर प्राप्त हुए द्रव्यकी अपेक्षा प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है यह बात सुसम्बद्ध है ।

विशेषार्थ—यहाँ अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा मिथ्यात्वके मीनस्थिति-

§ ५४२. संपहि जहण्णयमुदयादो भीणट्टिदियं कस्से त्ति आसंकाए णिरायरणह्मिदमाह—

❀ उदयादो जहण्णयं भीणट्टिदियं तस्सेव आवलियमिच्छादिट्टिस्स ।

§ ५४३. तस्सेव उवसामयस्स उवसमसम्मत्तद्धाए छ आवलियाओ अत्थि त्ति आसाणं गंतूण संकिलेसेण वोलाविदसगद्धस्स मिच्छत्तमुवणमिय पढमसमयमिच्छादिट्टिआदिकमेण आवलियमिच्छादिट्टिभावेणावट्टिदस्स जहण्णयमुदयादो भीणट्टिदियं

वाले कर्मपरमाणुओंके जघन्य स्वामित्वका विचार किया जा रहा है। उदयावलि के भीतर स्थित कर्मपरमाणु इन तीनोंके अयोग्य हैं यह तो पहले ही बतला आये हैं। अब यहाँ यह देखना है कि उदयावलि के भीतर मिध्यात्वके कमसे कम कर्मपरमाणु कहाँ प्राप्त होते हैं। उपशमसम्यक्त्वके कालसे अन्तरकाल संख्यातगुणा बड़ा होता है ऐसा नियम है, अतः ऐसा जीव जब उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर मिध्यात्व गुणस्थानमें आता है तो उसे वहाँ मिध्यात्वका अपकर्षण करके अन्तरकालके भीतर फिरसे निषेक रचना करनी पड़ती है, इसलिये यहाँ उदयावलिमें पूर्वं संचित द्रव्य न होनेसे वह कमती प्राप्त होता है। यद्यपि ऐसे जीवके संक्लेशरूप परिणाम तो होते हैं पर यह जीव उपशमसम्यक्त्वके कालको समाप्त करके मिध्यात्वमें गया है इसलिये इसके संक्लेशरूप परिणामोंकी उत्कृष्टता नहीं प्राप्त हो सकती है और संक्लेशरूप परिणामोंकी जितनी न्यूनता रहेगी कर्मपरमाणुओंका उतना ही अधिक अपकर्षण होगा ऐसा नियम है, अतः इस प्रकार जो जीव सीधा उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर मिध्यात्वको प्राप्त होता है उसके भी अपकर्षण आदि तीनोंके अयोग्य मिध्यात्वका जघन्य द्रव्य नहीं पाया जाता है। इसीसे चूर्णिसूत्रकारने इसे छह आवलि काल शेष रहने पर पहले सासादन गुणस्थानमें उत्पन्न कराया है और फिर मिध्यात्वमें ले गये हैं। ऐसे जीवके संक्लेशकी अधिकता रहनेसे मिध्यात्वके प्रथम समयमें बहुत कम मिध्यात्वके कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण होता है। ऐसा जीव गुणितकर्मांश भी हो सकता है और क्षपितकर्मांश भी, क्योंकि एक तो अन्तरकालके भीतर द्रव्य नहीं रहता, दूसरे इन दोनोंके उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर मिध्यात्वमें पहुँचने तक समान परिणाम रहते हैं, अतः इन दोनोंके ही द्वितीय स्थितिमें स्थित द्रव्यमे मद्धान् अन्तर रहते हुए भी मिध्यात्वके प्रथम समयमें समान द्रव्यका अपकर्षण होता है। इसलिये अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका जघन्य स्वामित्व ऐसे ही प्रथम समयवर्ती मिध्याट्टि जीवके कहना चाहिये जो उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर छह आवलि कालतक सासादन गुणस्थानमें रहा है और फिर वहाँसे मिध्यात्वमें गया है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

§ ५४२. अब उदयसे भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है इस आशंकाके निराकरण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ वही मिध्याट्टि जीव एक आवलि कालके अन्तमें उदयसे भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है।

§ ५४३. वही उपशामक उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलि कालके रहने पर सासादनमे जाकर और संक्लेशके साथ सासादनके कालको विताकर जब मिध्यात्वको प्राप्त होकर वहाँ प्रथम समयसे लेकर एक आवलि कालतक मिध्यात्वरूप परिणामोंके साथ अवस्थित रहता है तब वह उदयसे भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है। मिध्याट्टिके

रोदि । मिच्छाइट्टिपढमसमयप्पहुडि पडिसमयमणंतगुणं संकिलेसमावूरिय समयूणा-
श्लियमेत्तकालमद्वियारट्टिदीए णिसिंचमाणदव्वस्स समयूणावलियमेत्तगोबुच्छविसेसेहितो
असंखेज्जगुणहीणत्तादो पढमसमयमिच्छाइट्टिपरिहारेणावलियमिच्छाइट्टिमि सामित्तं
दिण्णं, अण्णहा पढमसमयम्मि चेव सामित्तप्पसंगादो । कुदो एदं परिच्छिज्जदे ?
दम्हादो चेव सुत्तादो ।

❀ सम्मत्तस्स जहएणयमोकड्डुणादितिएहं पि भीणट्टिदियं कस्स ?

§ ५४४. सुगमं ।

❀ उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयवेदयसम्माइट्टिस्स
ओकड्डुणादो उक्कड्डुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं ।

§ ५४५. पढमसमयवेदयसम्माइट्टिस्स पयदसामित्तं होइ ति सुत्तत्थसंबंधो ।
किमविसिद्धस्स ? नेत्याइ उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स उवशमसम्यक्त्वं पश्चात्कृतं येन

प्रथम समयसे लेकर प्रत्येक समयमें अनन्तगुणे संकलेशको प्राप्त करके एक समय कम आवलि-
प्रमाण कालतक अधिकृत स्थितिमें जो द्रव्य प्राप्त होता है वह एक समय कम आवलिप्रमाण-
गोबुच्छाविशेषोंसे असंख्यातगुणा हीन होता है, इसलिये प्रथमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टिको छोड़कर
एक आवलि कालतक रहे मिथ्यादृष्टिके जघन्य स्वामित्व कहा है । अन्यथा प्रथम समयमें ही
जघन्य स्वामित्वका प्रसंग प्राप्त हो जाता ।

शंका—जिसे मिथ्यात्व प्राप्त हुए एक आवलि काल हुआ है उसे जघन्य स्वामित्व प्राप्त
होता है यह किस प्रमाणसे जाना ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना ।

विशेषार्थ—यद्यपि जो जीव उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर और छह आवलि कालतक
ज्ञासादन गुणस्थानमें रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ है उसके पहले समयमें ही मिथ्यात्वका
उदय हो जाता है परन्तु इस समय जो उदयगत द्रव्य है उससे एक आवलिकालके अन्तमें
उदयमें आनेवाला द्रव्य न्यून होता है । इसीसे उदयसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका जघन्य
स्वामित्व मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके समयसे लेकर एक आवलिप्रमाण कालके व्यतीत होनेपर
उसके अन्तिम समयमें कहा है ।

❀ सम्यक्त्वके अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य
कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५४४. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जो उपशमसम्यक्त्वसे वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ है उसके प्रथम
समयमें वह अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणसे भीनस्थितिवाले जघन्य कर्म-
परमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५४५. प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टिके प्रकृत स्वामित्व होता है यह इस सूत्रका
अभिप्राय है । क्या सामान्यसे सभी प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टियोंके जघन्य स्वामित्व
होता है ? नहीं, बस इसी बातके वतलानेके लिये 'उपशमसम्मत्तपच्छायदस्स' यह पद कहा है ।

स तथोच्यते । उवसमसम्मत्तं पच्छायरिय गहिदवेदयसम्मत्तस्स पढमसमए असंखेज्ज-
लोयपडिभाएण उदयावलियव्वभंतरे णिसित्तदव्वं घेत्तूण सम्मत्तस्स अप्पियसामित्तमिदि
वुत्तं होइ । सेसपरूवणाए मिच्छत्तभंगो ।

§ ५४६. संपहि जहण्णयमुदयादो भीणट्टिदियं कस्से त्ति आसंकाणिवारणह-
मुत्तरमुत्तमोइण्णं—

❀ तस्सेव आवलियवेदयसम्माइट्टिस्स जहण्णयमुदयादो भीणट्टिदियं ।

§ ५४७. तस्सेव पुविब्ल्लसामियस्स आवलियमेत्तकालं वेदयसम्मत्ताणुपालणेण
आवलियवेदयसम्माइट्टिववएसमुव्वहंतस्स पयदजहण्णसामित्तं होइ । एत्थ पढमसमय-
वेदयसम्माइट्टिपरिहारेण उदयावलियचरिमसमए सामित्तविहाणे पुव्वं व कारणं
परूवेयव्वं ।

इसका अर्थ है जिसने उपशमसम्यक्त्वको पीछे कर दिया है वह जो उपशमसम्यक्त्वको त्याग कर
वेदकसम्यग्दृष्टि हुआ है उसके प्रथम समयमें असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार
उदयावलिके भीतर प्राप्त हुए द्रव्यकी अपेक्षा सम्यक्त्वका विवक्षित स्वामित्व होता है यह उक्त
कथनका तात्पर्य है । शेष सब कथन मिध्यात्वके समान है ।

विशेषार्थ—जब उपशमसम्यग्दृष्टि उपशमसम्यक्त्वके कालको समाप्त करके वेदक
सम्यक्त्वको प्राप्त होता है तब वह अपने प्रथम समयमें ही सम्यक्त्व प्रकृतिका अपकर्षण करके
उससे अन्तरकालको भर देता है । यद्यपि इस प्रकार अन्तरकालके भीतर अपकर्षित द्रव्य प्राप्त
होता है तथापि यहाँ पूर्व संचित द्रव्य नहीं रहनेसे यह द्रव्य अति थोड़ा है, इसलिये ऐसे जीवको
ही सम्यक्त्व प्रकृतिका अपेक्षा अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणसे भीनस्थितिवाले जघन्य
कर्मपरमाणुओंका स्वामी कहा है । यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि उपशमसम्यग्दृष्टि-
को मिध्यात्वमें ले जाकर जघन्य स्वामी क्यों नहीं कहा; क्योंकि वहाँ वेदक सम्यग्दृष्टिसे कम
द्रव्यका अपकर्षण होता है । पर बात यह है कि जिस प्रकृतिका उदय होता है उदय समयसे
लेकर अपकर्षित द्रव्यका निक्षेप उसी प्रकृतिका होता है । किन्तु मिध्यात्व गुणस्थानमें सम्यक्त्व
प्रकृतिका उदय होता नहीं, इसलिये ऐसे जीवके मिध्यात्वमें एक आवलि कालतक उदयावलिप्रमाण
निषेक ही सम्भव नहीं, अतः जघन्य स्वामित्व मिध्यात्वमें न बतला कर वेदक सम्यक्त्वके
प्रथम समयमें बतलाया है ।

§ ५४६. अब उदयसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है इम आशंकाके
निवारण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ वही वेदक सम्यग्दृष्टि जीव एक आवलि कालके अन्तमें उदयसे भीन-
स्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५४७. एक आवलिप्रमाण कालतक वेदकसम्यक्त्वका पालन करनेसे 'आवलि वेदक-
सम्यग्दृष्टि' इस संज्ञाको प्राप्त हुए उसी पूर्वोक्त जीवके प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है । यहाँ
प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टिका परिहार करके जो उदयावलिके अन्तिम समयमें स्वामित्वका
विधान किया है सो इसका पहलेके समान कारण कहना चाहिये ।

विशेषार्थ—जैसे मिध्यात्वका उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका
स्वामित्व उदयावलिके अन्तिम समयमें कहा है उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिये ।

❀ एषं सम्मामिच्छुत्तस्स ।

§ ५४८. सुगममेदमप्पणासुत्तं ।

❀ एवरि पढमसमयसम्मामिच्छाइद्विस्स आवलियसम्मामिच्छाइद्विस्स चेदि ।

§ ५४९. दोसुं वि सामित्तसुत्तेसु आलावकओ विसेसो जाणियव्वो ।

❀ अट्ठकसाय-चउसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुग्गुंलाणं जहण्णय-मोकङ्कुणादो उक्कणादो संकमणादो च भीणट्ठिदियं कस्स ?

§ ५५०. सुगममेदं ।

❀ उवसंतकसाओ मदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवस्स जहण्णय-मोकङ्कुणादो उक्कङ्कुणादो संकमणादो च भीणट्ठिदियं ।

§ ५५१. जो उवसंतकसाओ वीदरागळ्ढुमत्थो अण्णदरकम्मंसियलक्खणेणा-गंतूण सेट्ठिमारूढो कालगदसमाणो मदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवभावेणावट्ठियस्स

* इसी प्रकार सम्यग्मिध्यात्वके विषयमें जानना चाहिये ।

§ ५४८. यह अर्पणासूत्र सुगम है ।

* किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम समयवर्ती सम्यग्मिध्यादृष्टिके और उदयावलिके अन्तिम समयवर्ती सम्यग्मिध्यादृष्टिके जघन्य स्वामित्व कहना चाहिये ।

§ ५४९. दोनों ही स्वामित्व सूत्रोंमें व्याख्यानकृत विशेषता प्रकरणसे जान लेनी चाहिये ।

विशेषार्थ—जैसे सम्यक्त्व प्रकृतिकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्वका कथन करते समय जीवको उपशमसम्यक्त्वसे वेदकसम्यक्त्वमें ले जाकर उसके प्रथम समयमें अपकर्षणादि तीनकी अपेक्षा और उदयावलिके अन्तिम समयमें उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्म-परमाणुओंका स्वामी कहा है वैसे ही उपशमसम्यक्त्वसे सम्यग्मिध्यात्वमें ले जाकर उसके प्रथम समयमें अपकर्षणादि तीनकी अपेक्षा और उदयावलिके अन्तिम समयमें उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी कहना चाहिये यह उक्त सूत्रका अभिप्राय है ।

* आठ कषाय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हस्य, रति, भय और जुगुप्साके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५५०. यह सूत्र सुगम है ।

* जो उपशान्तकषाय जीव मरकर देव हो गया, प्रथम समयवर्ती वह देव उक्त प्रकृतियोंके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५५१. क्षपितकर्मांश या गुणितकर्मांश इनमेंसे किसी भी एक विधिसे आकर जो जीव उपशमश्रेणियर चढ़कर उपशान्तकषाय वीतरागळ्ढयस्थ हो गया और फिर मरकर देव हो गया

जहणयमोकङ्कणादितिहं पि भीणद्विदियं होइ ति सुत्तयसंबंधो । कथं देवेसुप्पणपढमसमए विदियद्विदीए द्विदपदेसग्गाणमंतरद्विदीसु असंताणमेकसराहेण उदयावलियप्पवेसो ? ण, सव्वेसिं कारणणं परिणामवसेण अकमेणुग्घादाणुवल्भादो । तदो उवसंतकसाएण देवेसुप्पणपढमसमए पुव्वुत्तविहाणेणंतरं पूरेमाणेण उदयावलिय-
 बभंतरे असंखेज्जल्लोयपडिभाएण णिसित्तदव्वं वेत्तूण सुत्तुत्तासेसकम्ममाणं विवक्खिय-
 जहएणसामित्तं होइ ति घेतव्वं । एत्थ केइ आइरिया एवं भणंति—जहा होउ णाम
 लोभसंजलणस्स उवसंतकसायपच्छायददेवम्मि देवपज्जायपढमसमए वट्टमाणयम्मि
 जहणसामित्तं, अण्णहाकाउमसत्तीदो । कुदो एवं चेव ? हेट्ठा अण्णदरसंजलणपढमद्विदीए
 णिल्लेवणासंभवादो । तहा सेससंजलाणं पि तत्थेव सामित्तं होउ णाम, अण्णहा देवेसु-
 प्पणपढमसमए विवक्खियसंजलणाणसुवरि अविवक्खियसंजलणाणुणेसेद्विदव्वस्स
 त्थियुक्कसंकमप्पसंगेण जहणत्ताणुववत्तीदो । ण वुणो सेसकसायाणमेत्थ सामित्तेण
 होयव्वं, चढमाणअणियट्टिचरदेवम्मि तेसिमंतरं काऊण देवेसुप्पणपढमसमए वट्टमाणयम्मि
 जहणसामित्ते लाहदंसणादो । तं जहा—सो देवेसुप्पणपढमसमए जेसिमुदओ

वह प्रथम समयवर्ती देव अपकर्षणादि वीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

शंका—जो कर्मपरमाणु अन्तरकालकी स्थितियोंमें न पाये जाकर द्वितीय स्थितिमें पाये जाते हैं उनका देवोमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही एकदम उदयावलिमें कैसे प्रवेश हो जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहां परिणामोकी परिवशतासे सभी कारणोंका युगपत् उद्घाटन पाया जाता है, इसलिये जो उपशान्तकफाय जीव देवोमें उत्पन्न होता है वह वहां प्रथम समयमें ही पूर्वोक्त विधिले अन्तरकालको कर्मनिषेकोसे पूरा कर देता है । और इसप्रकार उदयावलिके भीतर असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार जो द्रव्य निश्चित होता है उसकी अपेक्षा सूत्रमें कहे गये सब कर्मोंका विवक्षित जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता है, यह अर्थ यहां लेना चाहिये ।

शंका—यहांपर कितने ही आचार्य इसप्रकार कथन करते हैं कि जो उपशान्तकफाय जीव मरकर देव हुआ और देव पर्यायके प्रथम समयमें विद्यमान है उसके लोभसंज्वलनका जघन्य स्वामित्व भले ही रहा आओ, क्योंकि इसको अन्य प्रकारसे घटित करना शक्य नहीं है । ऐसा ही क्यों है ऐसा पूछनेपर शंकाकार कहता है कि इससे नीचे संज्वलनकी सब प्रकृतियोंकी प्रथम स्थितिका अभाव असंभव है अतः वहां जघन्य स्वामित्व नहीं दिया जा सकता है । उसीप्रकार शेष संज्वलनोका भी स्वामित्व वहींपर रहा आवे, अन्यथा देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें विवक्षित संज्वलनोके ऊपर अविवक्षित संज्वलनोंके गुणभ्रेणिद्रव्यका स्तियुक्त संक्रमण प्राप्त होनेमें जघन्यपना नहीं बन सकता है । परन्तु शेष कफायाका स्वामित्व यहांपर नहीं होना चाहिये, क्योंकि जो उपशमभ्रेणिपर चढ़ते हुए अनियुक्तिकरण गुणस्थानमें मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है वह पहले अनियुक्तिकरणमें उक्त प्रकृतियोंका अन्तर करके जन्म मरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ तब वहां उत्पन्न होनेके प्रथम समयवर्ती उसके जघन्य स्वामित्वका कथन करनेमें लाभ देखा जाता

अत्थि तेसिमुदीरिज्जमाणद्वभुवसंतकसायचरमदेविसोहीदो अणंतगुणहीणविसोहिए पुव्विल्लसामिद्ववादो थोचयरमुदयादी संछुहदि, विसोहिपरतंताए उदीरणाए तत्तारत-
माणुविहाणस्स णाइयत्तादो । ण एत्थ तिथुक्कसंकमस्स संभवो आसंकणिज्जो,
जेसिमुदयो णत्थि तेसिमुदयावळियवाहिरे एयगोवुच्छायारेण णिसेयदंसणादो
विवक्खियकसायस्स सजादियसंजळणपढमट्टिदीए सह तत्थुप्पायणादो च । तम्हा
अट्टकसायाणं मज्जे जस्स जस्स जहण्णसामित्तमिच्छिज्जदि तस्स तस्स एवं देवेसु-
प्पणपढमसमए उदयं काऊण सामित्तं दायव्वं, अण्णहा जहण्णभावाणुववत्तीदो ।
तहा पुरिसवेद--हस्स--रदि--भय--दुगुंझाणमप्पणो द्वाणे ओयरमाणअणियट्टि-
उवसामओ ओकड्डियूण उदए दाहिदि त्ति अदाऊण कालं करिय देवेसुप्पण-
पढमसमए ओकड्डणादितिण्हं पि भीणट्टिदियजहण्णसामित्तमत्थसंवंधेण दायव्वं ?
ण एत्थ यि कसायाणं तिथुक्कसंकमसंभावो आसंकियव्वो, कसायतिथुक्कसंकमस्स
णोकसाएसु अणव्भुवगमादो । कुदो एवं चे ? तिथुक्कसंकमस्स पाएण समाणजाइयपयढीसु
चेव पडिवंधव्भुवगमादो । तम्हा णिरवज्जभेदमेत्थ सामित्तमिदि । एत्थ परिहारो
उच्चदे—उवसमसेदीए कालं काऊण देवेसुप्पणपढमसमए जस्स वा तस्स वा विसोही

है । यथा—यह तो प्रसिद्ध बात है कि उपशान्तकपायचर देवसे इसकी विशुद्धि अनन्तगुणी हीन होती है, इसलिये उपशान्तकपायचर देव अपने प्रथम समयमें जिन प्रकृतियोंका उदय है उनकी उदीरणा करते हुए जितने द्रव्यको उदयादिमें निक्षिप्त करता है उससे यह जीव थोड़े द्रव्यको उदयादिमें निक्षिप्त करता है, क्योंकि उदीरणा विशुद्धिके अनुसार होती है, इसलिये यहाँ जो उदीरणाके होनेका इसप्रकारका विधान किया है सो वह न्याय्य है । यहाँ स्तित्तुक्कसंकमणकी सम्भावनाविषयक आशंका करना भी उचित नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ जिनका उदय नहीं होता उनके केवल उदयावलिके बाहर ही एक गोपुच्छके आकाररूपसे निपेक देखे जाते हैं और दूसरे विवक्षित कपायका सजातीय संव्वलनकी प्रथम स्थितिके साथ वही उत्पाद होता है, इसलिये आठ कवायोंसे जिन जिनका जघन्य स्वामित्व चाहा जाय उस उसका पूर्वोक्त प्रकारसे देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उदय कराके स्वामित्वका विधान करना चाहिये, अन्यथा जघन्यपत्ता नहीं प्राप्त हो सकता । तथा जो उपशामक उतरकर अनिवृत्तिकरणमें आया है वह पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इनका अपने अपने स्थानमें अपकर्षण करके उदयमें देगा किन्तु न देकर मरा और देवोंमें उत्पन्न हो गया उसके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें अपकर्षणादि तीनोंके ही भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओका जघन्य स्वामित्व प्रकरणवशा देना चाहिये । किन्तु यहाँपर भी कवायोकें स्तित्तुक्क संक्रमणकी सम्भावनाकी आशंका करना उचित नहीं है, क्योंकि कपायोंका स्तित्तुक्क संक्रमण नोकवायोंमें नहीं स्वीकार किया है । यदि कहा जाय कि ऐसा क्यों है सो इसका उत्तर यह है कि स्तित्तुक्कसंकमणका सम्बन्ध प्रायः समान जातीय प्रकृतियोंमें ही स्वीकार किया है, इसलिये यहाँपर जो उक्त प्रकारसे स्वामित्व बतलाया है वह निर्दोष है ?

समाधान—अब यहाँ इसका परिहार करते हैं—जो भी कोई उपशामत्रेणिमें सरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ है उसके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें विशुद्धि समान ही होती है इस

उरिसी चेष सेदीए अणंतगुणहीणाहियभावणिरवेकरा होइ त्ति एदेणाहिप्पाएण पयइमेदं सुत्तं । जइ एवं, जत्थ वा तत्थ वा सामित्तमदाऊण केणाहिप्पाएण उवसंतकसायचरो चेष देवो अवलंबिओ ? ण, अण्णत्थ सुत्तुत्तासंसपयडीणं सामित्तस्स दाउमसक्कियत्तेणेत्येव सामित्तविहाणादो । एत्थ जस्स जस्स जइण्णसामित्तमिच्छिज्जइ तस्स तस्स उवसंतकसायपच्चायददेवपढमसमए उदयं काऊण गहेयव्वं, अण्णहा अणुदइल्लत्तेण उदयावलियव्वंभंतरे णिकस्सेवासंभवादो । एत्थ चोदओ भणइ—ण एदं घडदे, देवेसुप्पण्णपढमसमए लोभं मोत्तूण सेसकसायाणमुदयासंभवादो । कुदो एस विसेसो लभए चे ? परमगुरूवएसादो । तदो लोभकसायवदिरित्तकसायाणमेत्थ सामित्तेण ण होदव्वं, तत्थ तेसिमुदयाभावादो त्ति । एत्थ परिहारो वुच्चदे—सञ्चमेवेदमेत्थ वि जइ तहाविहो अहिप्पाओ अवलंबिओ होज्ज, किंतु ण देवेसुप्पण्णपढमसमए एवंविहो णियमो अत्थि, अविसेसेण सव्वकसायाणमुदओ तत्थ ण विरुज्झइ त्ति एसो चुण्णिमुत्तयाराहिप्पाओ, अण्णहा एत्थ सामित्तविहाणाणुववतीए । तदो देवेसुप्पण्णपढमसमए सव्वकसायाणमुदओ संभवइ त्ति तत्थ जइण्णसामित्तविहाणमविरुद्धं सिद्धं ।

अभिप्रायसे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है । किन्तु इतनी विशेषता है कि उपशमश्रेणिमें जो विशुद्धिका अचान्तगुणा हीनाधिकभाव देखा जाता है उसकी यहां अपेक्षा नहीं की गई है ।

शंका—यदि ऐसा है तो जहां कहीं भी स्वामित्वका विधान न करके उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा ही स्वामित्वका विधान किस अभिप्रायसे किया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अन्यत्र सूत्रमे कही गई सब प्रकृतियोंके स्वामित्वका विधान करना सम्भव नहीं था, इसलिये यहां ही स्वामित्वका विधान किया है । यहांपर जिस जिस प्रकृतिका जघन्य स्वामित्व लाना इष्ट हो उस उसका उपशान्तकषायसे मरकर देवोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उदय कराकर स्वामित्वका ग्रहण करना चाहिये, अन्यथा उदय न होनेके कारण उदयावलिके भीतर अनुदयवाली प्रकृतियोंके निषेकोका निक्षेप होना सम्भव नहीं है ।

शंका—यहांपर शंकाकारका कहना है कि उक्त कथन नहीं वन सकता है, क्योंकि देवोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे लोभको छोड़कर शेष कषायोंका उदय नहीं पाया जाता है । यदि कहा जाय कि यह विशेषता कहासे प्राप्त हुई तो इसका उत्तर यह है कि परम गुरुके उपदेशसे यह विशेषता प्राप्त हुई है, इसलिये लोभकषायके सिवा शेष कषायोंका स्वामित्व यहां देवोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे नहीं होना चाहिये, क्योंकि वहां उनका उदय नहीं पाया जाता ?

समाधान—अब यहां इस शंकाका परिहार करते हैं—यह कहना तब सही होता जब यहां भी वैसा ही अभिप्राय विवक्षित होता । किन्तु प्रकृतमे चूर्णिसूत्रकारका यह अभिप्राय है कि देवोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे इसप्रकारका नियम नहीं पाया जाता और सामान्यसे सब कषायोका उदय वहां विरोधको नहीं प्राप्त होता । यदि ऐसा न होता तो यहां स्वामित्वका विधान ही नहीं किया जा सकता था, यतः देवोमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें सब कषायोका उदय सम्भव है इसलिये वहां जो जघन्य स्वामित्वका विधान किया है सो वह विना विरोधके सिद्ध है ।

विशोधार्थ—यहां पर आठ कषाय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन प्रकृतियोंके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले कर्म-परमाणुओंके जघन्य स्वामित्वका विधान करते हुए यह बतलाया है कि जो उपशान्तकषाय छद्मस्थ जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है उसके प्रथम समयमें यह जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता है। यहांपर शंकाकारने मुख्यतया तीन शंकाएं उठाई हैं जिनमेंसे पहली शंकाका भाव यह है कि उपशान्तकषायमें वारह कषायों और नोकषायोंकी प्रथम स्थिति तो पाई नहीं जाती, क्योंकि वहां अन्तरकालकी स्थितियोंमें निषेकोंका अभाव रहता है। अब जब यह जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है तब वहां इनकी प्रथम स्थिति एकसाथ कैसे उत्पन्न हो सकती है। इस शंकाका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि उपशान्तकषाय गुणस्थानमें जो करण उपशान्त रहते हैं वे देवके प्रथम समयमें अपना काम करने लगते हैं, इसलिये वहां द्वितीय स्थितिमें स्थित इन कर्मोंके कर्म-परमाणु अपकर्षित होकर प्रथम स्थितिमें आ जाते हैं। उसमें भी जिन प्रकृतियोंका प्रथम समयसे ही उदय होता है उनके कर्मपरमाणु उदय समयसे निक्षिप्त होते हैं और जिनका उदय प्रथम समयसे नहीं होता उनके कर्मपरमाणु उदयावलिके बाहरकी स्थितिमें निक्षिप्त होते हैं, इसलिये वहां प्रथम स्थितिमें विवक्षित प्रकृतियोंके कर्मपरमाणु सम्भव हो जानेसे जघन्य स्वामित्व भी प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी शंका यह है कि यतः संज्वलन लोभका उपशम दसवें गुणस्थानके अन्तमें होता है अतः इसकी अपेक्षा जो उपशान्तकषाय छद्मस्थ जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है उसके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्व भले ही प्राप्त होओ, क्योंकि इसके पूर्व मरकर जो जीव देवोंमें उत्पन्न होता है उसके संज्वलन लोभकी उदय समयसे लेकर अन्तरकालके पूर्व तककी या अन्तरकालके बिना ही प्रथम स्थिति पूर्ववत् बनी रहती है अतः ऐसे जीवको देवोंमें उत्पन्न करानेपर संज्वलन लोभकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व नहीं प्राप्त किया जा सकता। तथा शेष तीन संज्वलनोंकी अपेक्षा भी जघन्य स्वामित्व पूर्वोक्त प्रकारसे भले ही प्राप्त हो जाओ, क्योंकि इनकी अपेक्षा भी जघन्य स्वामित्व अन्य प्रकारसे नहीं बन सकता है। उदाहरणार्थ एक सूक्ष्मसाम्प्राय संयत जीव मरकर देव हुआ और उसके देव होनेके प्रथम समयमें मायासंज्वलनका उदय है तो इसमें लोभसंज्वलनके निषेक स्तिबुकसंक्रमण द्वारा संक्रमित होंगे जिससे मायासंज्वलनकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व नहीं बन सकेगा। इसीप्रकार मान और क्रोधसंज्वलनके सम्बन्धमें जानना चाहिये। इसलिये यद्यपि संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रकारसे जघन्य स्वामित्व बन जाता है पर शेष कषायोंकी अपेक्षा पूर्वोक्त प्रकारसे जघन्य स्वामित्व नहीं बनता, क्योंकि यदि अनिष्टिकरण गुणस्थानका जीव उनका अन्तर करके मरता और देवोंमें उत्पन्न होता है तो उसके उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा उदयावलिमें कम परमाणु पाये जाते हैं, इसलिये सूत्रमें उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा आठ कषायोंका जघन्य स्वामित्व कहना ठीक नहीं। इसप्रकार पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन नोकषायोंका जघन्य स्वामित्व भी उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि जो जीव उपशम-श्रेणिसे उत्तरकर और अनिष्टिकरणमें पहुँचकर इनका अपकर्षण करनेके एक समय पहले मरकर देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें इनका अपकर्षण करता है उसके उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा उदयावलिमें कम परमाणु प्राप्त होते हैं, इसलिये इनका जघन्य स्वामित्व भी अनिष्टिकरण-चर देवके ही होता है उपशान्तकषायचर देवके नहीं। उपशान्तकषायचर देवकी अपेक्षा अनिष्टिकरण-चर देवके प्रथम समयमें अपकर्षणसे उदयावलिमें कम परमाणु संक्लेशकी अधिकतासे प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसा नियम है कि जिसके संक्लेशकी अधिकता होती है उसके अपकर्षण कम परमाणुओंका होता है और जिसके विशुद्धिकी अधिकता होती है उसके अपकर्षण अधिक परमाणुओंका

❀ तस्सेव आवलियउववणस्स जहणणयमुदयादो भीष्णद्विदियं ।

§ ५५२. तस्सेव उवसंतकसायचरदेवस्स उप्पत्तिपढमसमयप्पहुडि आवलिय-
मेत्तकालं बोलाविय समवदियस्स जहणणयमुदयादो होइ । कुदो पढमसमयउववणं
परिहरिय एत्थ पयदजहणणसामित्तं दिज्जइ त्ति णासंकणिज्जं, तत्थतणपढमणिसेयादो
एदस्स विवक्खियणिसेयस्स समज्जणावलियमेत्तगोवुच्छविसेसेहि हीणतदंसणादो । ण
च एत्थ वि समज्जणावलियमेत्तकालमसंखेज्जल्लोयपडिभाएणोदीरिदद्वं तत्थासंतमत्थि

होता है । यतः उपशान्तकषायचर देवके विशुद्धिकी अधिकता होती है अतः इसके अधिक परमाणुओंका अपकर्षण होगा । तथा अनिष्टचिचर देवके संक्लेशकी अधिकता होती है अतः इसके कम परमाणुओंका अपकर्षण होगा, इसलिये आठ कषाय आदि उक्त प्रकृतियोंका स्वामित्व उपशान्तकषायचर देवको न देकर अनिष्टचिचर देवको देना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है । टीकामे इस शंकाका समाधान करते हुए जो यह बतलाया गया है कि उपशमश्रेणिमें कहींसे भी मर कर जो देव होता है उसके एकसे परिणाम होते हैं इस विवक्षसे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है और यहाँ पर उपशमश्रेणिमें स्थान भेदसे जो हीनाधिक परिणाम पाये जाते हैं उनकी विवक्षा नहीं की गई है सो इस समाधानका आशय यह है कि चूर्णिसूत्रकारने यद्यपि उपशान्तचर देवके उक्त प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व बतलाया है पर वह अनिष्टचिचर देवके भी सम्यक् प्रकारसे बन जाता है फिर भी चूर्णिसूत्रकारने एक साथ सब प्रकृतियोंके स्वामित्वके प्रतिपादनके लिहाजसे वैसा किया है ।

एक मत यह पाया जाता है कि नरकगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें क्रोधका, तिर्यच-
गतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मायाका मनुष्यगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें मानका
और देवगतिमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें लोभका उदय रहता है । इस नियमके आधारसे
शंकाकारका कहना है कि इस हिसाबसे देवगतिके प्रथम समयमें केवल लोभका जघन्य स्वामित्व
प्राप्त हो सकता है अन्यका नहीं, क्योंकि जिस जीवने उपशमश्रेणिमें बारह कषायोंका अन्तर
कर दिया है उसके देवोंमें उत्पन्न होनेपर प्रथम समयमें अपकर्षण होकर लोभका ही उदय
समयसे निक्षेप होगा अन्यका नहीं । अतः जब वहाँ अन्य प्रकृतियोंका उदयावलिमें निक्षेप
ही सम्भव नहीं तब उनका जघन्य स्वामित्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? इस शंकाका जो
समाधान किया गया है उसका आशय यह है कि देव पर्यायके प्रथम समयमें केवल लोभके
उदयका ही नियम नहीं है अतः वहाँ उक्त सभी कषायोंका जघन्य स्वामित्व बन जाता है ।

❀ उसी देवको जब उत्पन्न हुए एक आवलि काल हो जाता है तब वह
उदयसे भीनस्थितिवाले कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५५२. वही उपशान्तकषायचर देव जब उत्पत्तिकालसे लेकर एक आवलिकाल विताकर
स्थित होता है तब वह उदयसे भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।
यदि ऐसी आशंका की जाय कि प्रथम समयमें उत्पन्न हुए देवको छोड़कर यहाँ उत्पन्न होनेसे
एक आवलि कालके अन्तमें प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान क्यों किया जा रहा है सो ऐसी
आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रथम समयवर्ती जीवके जो निषेक होता है उससे यह
विवक्षित निषेक एक समयकम आवलिप्रमाण गोपुच्छविक्षेपोसे हीन देखा जाता है । यदि कहा
जाय कि एक समयकम आवलिप्रमाण काल तक असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार
उदीरणाको प्राप्त हुआ द्रव्य जो कि प्रथम समयमें नहीं है यहाँ पर पाया जाता है सो ऐसा

त्ति पच्यद्वेयं, एदम्हादो चैव सुत्तादो ततो एदस्स थोवभावसिद्धीदो ।

❁ अणंताणुबंधीयां जहणणयमोकङ्कुणादो उक्कङ्कुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं कस्स ?

§ ५५३. सुगममेदं पुच्छामुत्तं ।

❁ सुहृमणिओएसु कम्मट्टिदिमणुपालियूण संजमासंजमं संजमं च बहुसो लभिदाउओ चत्तारि वारे कसाए उवसामेयूण तदो अणंताणुबंधी विसंजोएऊण संजोइदो तदो वेद्धावट्टिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालेयूण तदो भिच्छुत्तं गदो तस्स पढमसमयमिच्छाइट्टिस्स जहणणयं तिण्हं पि भीणट्टिदियं ।

§ ५५४. खविदकम्मंसियपच्छायदभमिदवेद्धावट्टिसागरोवमपढमसमयमिच्छा-

निश्चय करना ठीक नहीं है, क्यों इसी सूत्रसे प्रथम समयवर्ती द्रव्यकी अपेक्षा यह विवक्षित द्रव्य कम सिद्ध होता है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर उपशान्तकपायचर देवके उत्पन्न होनेके समयसे लेकर एक आवलिकालके अन्तमें जघन्य स्वामित्व बतलाया है, देवपर्यायमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें क्यों नहीं बतलाया इसका उत्तर यह है कि उदय समयसे लेकर एक आवलिकाल तक निषेकोंकी जो रचना होती है वह उत्तरोत्तर चयहीन क्रमसे होती है अतः प्रथम समयमें जो द्रव्य प्राप्त होता है उससे आवलिके अन्तिम समयमें प्राप्त होनेवाला द्रव्य एक समय कम एक आवलि-प्रमाण चयोंसे हीन होता है यही कारण है कि विवक्षित जघन्य स्वामित्व देव पर्यायमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें न देकर प्रथम समयसे लेकर एक आवलिप्रमाण कालके अन्तिम समयमें दिया है । यद्यपि यह आवलिप्रमाण कालका अन्तिम समय जब तक उदय समयको प्राप्त होता है तब तक इसमें प्रति समय उदीरणाको प्राप्त होनेवाले द्रव्यका संचय होता रहता है तो भी वह सब मिलकर उक्त सूत्रके अभिप्रायानुसार प्रथम समयवर्ती द्रव्यसे न्यून होता है, इसलिये विवक्षित जघन्य स्वामित्व प्रथम समयमें नहीं दिया है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

❁ अनन्तानुबन्धियोंके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणसे भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५५३. यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

❁ कोई एक जीव है जो सूक्ष्मनिगोदियोंमें कर्मस्थितिप्रमाणकाल तक रहा तदनन्तर अनेक बार संयमासंयम और संयमको प्राप्त करके चार बार कपायोंका उपशय किया । फिर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके उससे संयुक्त हुआ । फिर दो झ्यासठ सागरप्रमाण कालतक सम्यक्त्वका पालन करके मिथ्यात्वमें गया । वह प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५५४. जो क्षपित कर्माशविधिसे आकर और दो झ्यासठ सागर काल तक भ्रमण

इद्विस्स पयदजहण्णसामितं होइ ति सुत्तथसंगहो । किमद्वमेसो सुहुमणिगोदेसु कम्मद्विदिं हिंदाविदो ? ण, कम्मद्विदिमेत्तकालं तत्थावद्वाणेण विणा जहण्णसंचयाणुववतीदो । अदो चेय संपुण्णा एसा सुहुमणिगोदेसु समाणेयव्वा । सुत्ते पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणुणियं कम्मद्विदिमच्छिदो ति अपरूवणादो । तत्थ य संसरमाणस्स वावारविसेसो छावासयपडिबद्धो पुवं परूविदो ति ण पुणो परूविज्जदि गंथगउरवभएण । तदो कम्मद्विदिबहिब्भूदपल्लिदोवमासंखेज्जदिभागमेत्तकालभंतरे संजमासंजमं संजमं च बहुसो लभिदाउओ । एत्थतण 'च' सद्देण अत्रुत्तसमुच्चयद्देण सम्मत्ताणंताणुबंधिविसंजोयणकंडयाणमंतम्भावो वत्तवो । बहुसो बहुवारं लभिदाउओ लद्धवंतओ । संजमासंजमादीणमसई लंभो ण णिप्पओजणो, गुणसेदिणिज्जराए बहुद्ववगालणफलत्तादो । तत्थेव अवांतरवावारविसेसपरूवणद्वमेदं वुत्तं । चत्तारि वारे कसाए उवसामियुण तदो अणंताणुबंधी विसंजोएऊण संजोइदो ति । बहुआ कसाउवसामणवारा किण्ण होंति ? ण, एयजीवस्स चत्तारि वारे मोत्तूण उवसमसेद्विआरोहणासंभवादो । कसायुवसामणवारारणं व संजमासंजम संजम-सम्मत्त-अणंताणुबंधिविसंजोयण-

करके मिथ्यादृष्टि हुआ है उस मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्व होता है यह इस सूत्रका सार है ।

शंका—इसे कर्मस्थितिप्रमाण काल तक सूक्ष्मनिगोदियोंमें क्यों भ्रमाया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कर्मस्थितिप्रमाण कालतक वहां रहे बिना जघन्य संचय नहीं बन सकता है । और इसीलिये पूरी कर्मस्थितिप्रमाण कालको सूक्ष्मनिगोदियोंमें विताना चाहिये, क्योंकि सूत्रमें पर्ययके असंख्यातवें भागप्रमाण कालसे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कालतक रहा ऐसा सूचित भी नहीं किया है ।

कर्मस्थितिप्रमाण कालके भीतर परिभ्रमण करते हुए जो छह आवश्यकसम्बन्धी व्यापार विशेष होता है उसका पहले कथन कर आये हैं, इसलिये ग्रन्थके चढ़ जानेके भयसे उनका यहाँ पुनः कथन नहीं किया जाता है । तदनन्तर कर्मस्थितिके बाहर पर्ययके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके भीतर बहुत बार संयमासंयम और संयमको प्राप्त किया । यहाँ सूत्रमें जो 'च' शब्द है वह अनुक्त विषयका समुच्चय करनेके लिये आया है जिससे सम्यक्त्वके काण्डकोके अन्तर्भावका और विसंयोजनासम्बन्धी काण्डकोके अन्तर्भावका कथन कर लेना चाहिये । इस प्रकार इन सबको बहुत बार प्राप्त करता हुआ । इन सबका अनेक बार प्राप्त करना निष्प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इसका फल गुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा बहुत द्रव्यका गला देना है । या वहीं पर अवान्तर व्यापारविशेषका कथन करनेके लिये यह कहा है । फिर चार बार कषायोंका उपशम करके फिर अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके उससे संयुक्त हुआ ।

शंका—कषायोंके उपशमानेके बार चारसे अधिक बहुत क्यों नहीं होते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि एक जीव चार बार ही उपशमश्रेणि पर आरोहण कर सकता है, इससे और अधिक बार उपशमश्रेणि पर आरोहण करना सम्भव नहीं है ।

शंका—जैसे कषायोंके उपशमानेके बारोंका स्पष्ट निर्देश किया है वैसे ही संयमासंयम,

परियदृगणवारणं एत्तियमेत्तां त्ति पमाणपरूवणा किण्ण कया ? ण, सव्वुक्कस्सा ण एत्थ होंति, किंतु तप्पाओग्गा चेवे त्ति जाणावणद्वमेत्तियमेत्ता त्ति अपरूवणादो । कुदो सव्वुक्कस्सवाराणमसंभवो ? ण, तथा संते णिव्वाणगमणं मोत्तूण वेच्चावट्टिसागरोवम-
मेत्तकालं संसारे परिव्वभमणाभावादो । ण चेसा सव्वा खविदकिरिया विसंजोइज्ज-
माणाणमणंताणुवंधीणं णिरत्थिया, सेसकसायदव्वस्स योवयरीकरणेण फलोवत्तंभादो ।
णेदं पयदाणुवजोगी, अणंताणुवंधी विसंजोएऊण पुणो वि अंतोमुहुत्तेण संजुज्जंतस्स
अधापवत्तसंकमेण पडिच्चिज्जमाणसेसकसायदव्वानमपपदरीभूदानम्वजोगित्तदंसणादो ।
एवमणंताणुवंधी विसंजोइय अंतोमुहुत्तसंजुत्तो अधापवत्तसंकमेण पडिच्चिज्जमाणसस-
कसायदव्वानमपपदरीभूदानम्वजोगित्तदंसणादो । एवमणंताणुवंधी विसंजोइय
अंतोमुहुत्तसंजुत्तो अधापवत्तभागहारोवट्टिददिवडूगुणहाणिमेत्तेइंदियसमयपवद्धदव्वं
सेसकसाएहंतो पडिच्चिदं सर्गतोभाविदअंतोमुहुत्तमेत्तणवकवंधं घेत्तूण तदो वेच्चावट्टि-
सागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालियूण मिच्छत्तं गओ । किमद्वमेत्तो सम्मत्तलंभेण वेच्चावट्टि-

संयम, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना इनके परिवर्तनवार इतने होते हैं इस प्रकार इनके प्रमाणका कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यहाँ पर उन संयमासंयमादिके सर्वोत्कृष्ट वार नहीं होते, किन्तु तत्प्रायोग्य होते हैं इस प्रकार इस बातके जतानेके लिये इतने होते हैं यह कथन नहीं किया ।

शंका—यहाँ सर्वोत्कृष्ट वार क्यों सम्भव नहीं हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट वारोंके मान लेनेपर निर्वाण गमनके सिवा दो छ्वासठ सागर कालतक संसारमें परिभ्रमण करना नहीं बन सकता है, इसलिये यहाँ पर सर्वोत्कृष्ट वार सम्भव नहीं है ।

यदि कहा जाय कि विसंयोजनाको प्राप्त होनेवालीं अनन्तानुबन्धियोंकी यह सब क्षणशा सम्बन्धी क्रिया निरर्थक है सो भी बात नहीं है, क्योंकि शेष कषायोंके द्रव्यका परिमाण अल्प कर देना यही इसका फल है । यदि कहा जाय कि शेष कषायोंका द्रव्य अल्प होता है तो होओ पर इसका प्रकृतमें क्या उपयोग है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके अन्तर्मुहूर्तमें पुनः इससे संयुक्त होने पर अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा शेष कषायोंका अल्प द्रव्य विच्छिन्न होकर इसमें प्राप्त होता है, इसलिये शेष कषायोंके द्रव्यके अल्प होनेकी उपयोगिता है । इस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके और अन्तर्मुहूर्तमें उससे संयुक्त होकर अल्प हुए शेष कषायोंके द्रव्यके अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा उनसे विच्छिन्न होकर इसमें प्राप्त होने पर शेष कषायोंके द्रव्यके अल्प होनेकी उपयोगिता देखी जाती है । इस प्रकार अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना करके जब पुनः अन्तर्मुहूर्तमें इससे संयुक्त होता है तब अधःप्रवृत्तभागहारसे भाजित डेढ़ गुणहानि प्रमाण एकैन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबद्ध द्रव्य शेष कषायोंसे विभक्त होकर इसमें प्राप्त होता है तथा अन्तर्मुहूर्त काल तक मिथ्यात्वमें रहनेके कारण अन्तर्मुहूर्त प्रमाण नवकसमयप्रबद्ध प्राप्त होते हैं । इस प्रकार अनन्तानुबन्धीके इतने द्रव्यको प्राप्त करके और तदनन्तर दो छ्वासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन करके यह जीव मिथ्यात्वमें जाता है ।

सागरोवमाणि भ्रमाडिदो ? ण, सम्मत्तमाहप्पेण वंधविरहियाणमणंताणुबंधीणमाएण विणा वयमुवगच्छंताणमइजहण्णगोबुच्छविहाणट्ठं तहा भ्रमाडणादो । पुणो मिच्छत्तं किं णीदो ? ण, अण्णहा एत्थुहुसे दंसणमोहक्खवणमाढवेंतस्स पयदजहण्णसामित्त-विघादप्पसंगादो । तस्स पढमसमयमिच्छाइट्ठिस्स जहण्णयं तिण्णं पि ओकड्डणादो भ्रीणद्विदियं होइ । एत्थ सिस्सो भणइ—मिच्छाइट्ठिपढमसमए अणंताणुबंधीणं सोदएण आवलियमेत्तद्विदीओ सामित्तविसईकयायो होंति । सम्माइट्ठिचरिमसमए पुण तेसिमुदयाभावेण त्थिवुक्कसंकमणादो समयूणावलियमेत्तद्विदीओ लब्भंति, तदो तत्थेव जहण्णसामित्तं दाहामो लाहदंसणादो त्ति ? ण एस दोसो, एत्थ वि अणंताणुबंधिकोहादीणमण्णदरस्स जहण्णभावे इच्छिज्जमाणे तस्साणुदयं कादूण परोदएणेव सामित्तविहाणे समयूणावलियमेत्तायां चेव गोबुच्छाणमुवलंभादो । तदो तत्परिहारणेत्थेव सामित्तं दिण्णं, गोबुच्छविसेसं पडुच्च विसेसोवल्हदीदो । जइ एवमुदयावलियमावाहं वा आवलियूणं वोलाविय उवरि जहण्णसामित्तं दाहामो ?

शंका—आगे सम्यक्त्व प्राप्त कराकर दो ब्रथासठ सागरप्रमाण काल तक क्यों भ्रमण कराया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सम्यक्त्वके माहात्म्यसे वन्ध न होनेके कारण आयाके विना व्ययको प्राप्त होनेवाली अनन्तानुबन्धियोंकी गोपुच्छाओंको अत्यन्त जघन्य करनेके लिये इस प्रकार भ्रमण कराया गया है ।

शंका—इस जीवको पुनः मिथ्यात्वमे क्यों ले जाया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यदि इसे पुनः मिथ्यात्वमें नहीं ले जाया गया होता तो वह दर्शनमोहनीयकी क्षुण्णाका प्रारम्भ कर देता जिससे इसके प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विघात प्राप्त हो जाता ।

शंका—प्रथम समयवर्ती वह मिथ्यादृष्टि अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा मीन स्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है इस प्रकार यह जो कहा है सो इस विषयमें शिष्यका कहना है कि मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमें अनन्तानुबन्धियोंका उदय होनेके कारण एक आवलि-प्रमाण स्थितियों स्वामित्वके विषयरूपसे प्राप्त होती हैं । किन्तु सम्यग्दृष्टिके अन्तिम समयमें तो अनन्तानुबन्धियोंका उदय नहीं होनेके कारण और उदय स्थितिका स्तित्वुक् संक्रमणद्वारा संक्रमण हो जानेसे एक समय कम एक आवलिप्रमाण स्थितियों प्राप्त होती हैं, इसलिये सम्यग्दृष्टिके अन्तिम समयमें ही प्रकृत स्वामित्वके देनेमें अधिक लाभ है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमें भी अनन्तानुबन्धिसम्बन्धी क्रोधादिकमेसे जिसका जघन्य स्वामित्व इच्छित हो उसका अनुदय करके परोदयसे ही स्वामित्वका कथन करने पर एक समय कम एक आवलिप्रमाण ही गोपुच्छाए पाई जाती हैं, इसलिये सम्यग्दृष्टिके अन्तिम समयको छोड़कर मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमें ही स्वामित्वका विधान किया है, क्योंकि गोपुच्छविशेषकी अपेक्षा विशेषकी उपलब्धि होती है ।

शंका—यदि ऐसा है तो उदयावलिको बित्ताकर या एक आवलि कम आवाधा कालको

तत्थतणगोवुच्छाणमेत्तो चडिदद्धानमेत्तविसेसेहि हीणत्तेण लाहदंसणादो । ण एत्थ णवकबंधासंका कायव्वा, आवाहादो उवरि तस्सावट्टाणादो ति ? णेदं घड्ढे, कुदो ? उदयावत्तियवाहिरे भिच्छाइट्टिपढमसमयप्पहुडि वज्झमाणाणमणंताणुबंधीणमुवरि समट्टिदीए सैतकसायदव्वस्स अधापवत्तेण संकमोवलंभादो बंधावत्तियमेत्तकालं वोलाविय सगणवकबंधस्स चिराणसंतेण सह ओकड्डिय समयविरोहेणावाहाबंभंतरे णिक्खित्तस्सोवलंभादो च । तम्हा अधापवत्तसंक्रमेण पडिच्छिददव्वे उदयावत्तियवाहिरट्टिदे संते जहण्णसामित्तं दिज्जइ ति समंजसमेदं सुत्तं ।

§ ५५५. तदो सुत्तस्स समुदायत्थो एवं वत्तव्वो—खविदकम्मंसियलवत्तणेण कम्मट्टिदिं समयविरोहेण परिभ्रमिय पुणो तसभावेण संजमासंजम-संजम-सम्मत्ताणं-ताणुबंधिविसंजोयणकंडयाणि तप्पाओग्गपमाणाणि बहूणि लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसामिय पुणो वि एइंदिएसु पल्लिदोवमासंखेज्जदिभागमेत्तकालबंभंतरे उवसामय-समयपवद्धे णिग्गालिय त्तो णिप्पिडिय असण्णिपंचिदिएसु अंतोमुहुत्तं वोलाविय आउअबंधवत्तेण देवेसुप्पज्जिय अंतोमुहुत्तेण छप्पज्जत्तीओ समाणिय उवसमसम्मत्तं

बिताकर ऊपरका स्थितियोंमें जघन्य स्वामित्वका विधान करना चाहिये, क्योंकि वहाँ की गोपुच्छाप यहाँसे जितना स्थान ऊपर जाकर वे प्राप्त हुई हैं उतने विशेषसे हीन हैं, अतः वहाँ जघन्य स्वामित्वका विधान करनेमें लाभ दिखाई देता है। और वहाँ नवकबन्धके प्राप्त होनेकी भी आशंका नहीं है, क्योंकि नवकबन्धका अवस्थान आबाधाके ऊपर पाया जाता है ?

समाधान—परन्तु यह कहना घटित नहीं होता, क्योंकि एक तो उद्यावलिके बाहर मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयसे लेकर वैधनेवाले अनन्तानुबन्धियोंके ऊपर समान स्थितिमें शेष कथायोंके द्रव्यका अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा संक्रमण पाया जाता है और दूसरे बन्धावलिके प्रमाण कालको बिताकर अपने नवकबन्धका प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मके साथ अपकर्षण होकर आगममें बतलाई गई विधिके अनुसार आबाधाके भीतर निक्षेप देखा जाता है, इसलिये उद्यावलिको बिताकर या एक आवलि कम आबाधाकालको बिताकर ऊपरकी स्थितियोंमें प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान करना उचित नहीं है।

इसलिये अधःप्रवृत्त संक्रमणके द्वारा विच्छिन्न हुए द्रव्यके उद्यावलिके बाहर स्थित रहते हुए जघन्य स्वामित्वका विधान किया गया है इसलिये यह सूत्र ठीक है।

§ ५५५. इतने निष्कर्षके बाद इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ इस प्रकार कहना चाहिये—जैसी आगममें विधि बतलाई है तदनुसार कोई एक जीव क्षपितकर्माराकी विधिसे कर्मस्थिति-प्रमाण काल तक परिभ्रमण करता रहा। फिर त्रस होकर तत्प्रायोग्य बहुत बार संयमासंयम, संयम, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजनासम्बन्धी काण्डकोंको करके चार बार कथायोंका उपशम किया। फिर दूसरी बार भी एकेन्द्रियोंमें जाकर पत्थके असंख्यातवें भाग-प्रमाण कालके भीतर उपशामकसम्बन्धी समयप्रबद्धोंको गलाकर और वहाँसे निकलकर असंखी बंधेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ और वहाँ अन्तर्मुहूर्त रहकर आयुबन्ध हो जानेसे देवोंमें उत्पन्न हुआ। फिर ऋन्तर्मुहूर्तमें छद् पर्यायियोंको पूरा करके उपशामसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। फिर उपशाम-

पडिवज्जिय उवसमसम्मत्तकालब्भंतरे चेष अणंताणुवंधिचउक्कं विसंजोइय पुणो वि परिणामवसेण अंतोमुहुत्तेण संजोइय पुव्वमुक्कड्ढिदसेसकसायदव्वमथापवत्तसंकमेण पडिच्चिय अघट्टिदिगलणेण विज्झादसंकमेण च तग्गालणट्ठं वेच्चावट्ठीओ समत्त-मणुपालिय मिच्छत्तं गदपढमसमए वट्ठंतओ जो जीवो तस्स तेसिमुक्कड्ढणादितिण्हं पि जहण्णयं भीणट्टिदियं होइ त्ति ।

❀ तस्सेव आवलियसमयमिच्छाइट्टिस्स जहण्णयमुदयादो भीण-ट्टिदियं ।

§ ५५६. तस्सेव खविदकम्मसियपच्चायदभमिदवेच्चावट्टिसागरोवममिच्छा-इट्टिस्स पढमसमयमिच्छाइट्टिआदिकमेण आवलियसमयमिच्छाइट्टिभावेणावट्टियस्स अहिकयकम्माणं जहण्णयमुदयादो भीणट्टिदियं होइ त्ति सुत्तत्थो । एत्थ पढमसमय-मिच्छाइट्टिपरिहारेणावलियचरिमसमए जहण्णसामित्तविहाणे कारणं पुव्वं परूविदं । उदयावलियवाहिरे जहण्णसामित्तं किण्ण दिण्णमिदि चे? ण, समट्टिदिसंकमपडिच्चिद-दव्वस्स उदयं पइ समाणस्स तत्थ बहुत्तुवत्तंभादो ।

सम्यक्त्वके कालके भीतर ही अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके फिर भी परिणामोकी परवशताके कारण अन्तर्मुहूर्तमे उससे संयुक्त हुआ । फिर पहले उत्कर्षणको प्राप्त हुए शेष कषायोके द्रव्यको अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा प्राप्त करके उसे अधःस्थितिगलनाके द्वारा और विध्यात संक्रमणके द्वारा गलानेके लिये दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन किया । फिर मिध्यात्वमे जाकर जब यह जीव उसके प्रथम समयमें विद्यमान होता है तब वह अनन्तानु-बन्धियोके अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है ।

* एक आवलि काल तक मिध्यात्वके साथ रहा हुआ वही जीव उदयसे भीनस्थितिवाले जघन्य कर्म परमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५५६. जो क्षपित कर्मांशकी विधिसे आकर दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करके मिध्यादृष्टि हुआ है और जिसे मिध्यादृष्टिके प्रथम समयसे लेकर मिध्यात्वके साथ रहते हुए एक आवलिकाल हुआ है ऐसा वही मिध्यादृष्टि जीव अधिकृत कर्मोंके उदयकी अपेक्षा भीन स्थितिवाले जघन्य कर्म परमाणुओंका स्वामी होता है यह इस सूत्रका अर्थ है । यहाँ पर प्रथम समयवर्ती मिध्यादृष्टिको छोड़कर एक आवलिके अन्तिम समयमें जघन्य स्वाभित्यके कथन करनेका कारण पहले कह आये हैं ।

शंका—उदयावलिके बाहर जघन्य स्वाभित्व क्यों नहीं दिया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उदयावलिके बाहर समान स्थितिमे स्थित द्रव्यका संक्रमण हों जानेसे उसकी अपेक्षा उदयमे अधिक द्रव्यकी प्राप्ति हो जाती है, इसलिये उदयावलिके बाहर जघन्य स्वाभित्व नहीं दिया ।

विशेषार्थ—यहाँ उदयकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धियोके भीनस्थितिवाले जघन्य कर्म परमाणुओंका स्वामी बतलाया है । यद्यपि इसका स्वामी भी वही होता है जो क्षपितकर्मांशकी

❊ एषु संयवेदस्स जहणणयमोकड्डणादितिएहं पि भीणट्टिदियं कस्स ?
 § ५५७, सुगमं ।

❊ अभवसिद्धियपाओगेण जहणणएण कम्मेण तिपल्लिदोवमिएसु उववण्णो । तदो अंतोसुहुत्तसेसे सम्मत्तं लद्धं, वेद्धावट्टिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालिदं, संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो । चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता अपच्छिमे भवे पुव्वकोडिआउओ मणुस्सो जादो । तदो देसूण-पुव्वकोडिसंजममणुपालियूण अंतोसुहुत्तसेसे परिणामपचएण असंजमं गदो । ताव असंजदो जाव गुणसेढी णिग्गलिदा त्ति । तदो संजमं पडिवज्जियूण अंतोसुहुत्तेण कम्मक्खयं काहिदि त्ति तस्स पढमसमयसंजमं पडिवणस्स जहणणयं तिएहं पि भीणट्टिदियं ।

§ ५५८, एदस्स सामित्तसुत्तस्स अत्थविवरणं कस्सामो । तं जहा—जो जीवो

विधिसे आकर और दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ है पर यह स्वामित्व मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें न देकर एक आवलिके अन्तिम समयमें देना चाहिये, क्योंकि तब उदयमें अनन्तानुबन्धीके सबसे कम कर्मपरमाणु पाये जाते हैं । इस पर किसी शंकाकारका कहना है कि स्थितिके अनुसार उत्तरोत्तर एक एक चयकी दानि होती जाती है, अतः उदयावलिके बाहरके निषेकके उदयमें प्राप्त होने पर और भी कम द्रव्य प्राप्त होगा, इसलिये यह जघन्य स्वामित्व उदयावलिकी अन्तिम स्थितिमें न देकर उदयावलिके बाहरकी स्थितिमें देना चाहिये । पर यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वमें अनन्तानुबन्धीका बन्ध होता है, इसलिये इसमें अन्य सजातीय प्रकृतियोंका संक्रमण होकर उदयावलिके बाहरका द्रव्य बढ़ जाता है, इसलिये वहाँ जघन्य स्वामित्व नहीं दिया जा सकता है ।

* नपुंसकवेदके अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य कर्म-परमाणुओंका स्वामी कौन है ?

§ ५५७, यह सूत्र सुगम है ।

* कोई एक जीव अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ तीन पल्ल्योपमकी आयुवालोंमें उत्पन्न हुआ । फिर अन्तर्मुहूर्त शेष रह जाने पर सम्यक्त्वको प्राप्त करके दो छयासठ सागर कालतक सम्यक्त्वका पालन किया । फिर बहुत बार संयमासंयम और संयमको प्राप्त हुआ । फिर चार बार कषायोंका उपशम करके अन्तिम भवमें एक पूर्व कोटिकी आयुवाला मनुष्य हुआ । फिर कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक संयमका पालन करके जब अन्तर्मुहूर्त शेष रहा तब परिणामवश असंयमको प्राप्त हुआ और गुणश्रेणिके गलने तक असंयमके साथ रहा । फिर संयमको प्राप्त होकर जो अन्तर्मुहूर्तमें कर्मक्षय करेगा वह प्रथम समयवर्ती संयमी जीव तीनोंकी अपेक्षा भीन स्थितिवाले जघन्य कर्म परमाणुओंका स्वामी है ।

§ ५५८, अब इस स्वामित्व सूत्रके अर्थका खुलासा करते हैं । वह इस प्रकार है—जो जीव

अभवसिद्धियपाओग्गेण जहणएण कम्मेण सह गदो तिपल्लिदोवमिएसु उववण्णो ति एत्थ पदसंबंधो । किमट्ठमेसो तिपल्लिदोवमिएसुप्पाइदो चे ? ण, णवुंसयवेदबंध-विरहिएसु सुहत्तिलेस्सिएसु पज्जत्तकाले तवबंधवोच्छेदं काऊणाएण विणा अधट्ठिदीए परपयडिंसक्रमेण च थोवयरगोवुच्छाओ गालिय अइजहण्णीकयणिरुद्धगोवुच्छगहणट्ठं तत्थुप्पायणादो । तदो चेय तेण गालिदत्तिपल्लिदोवममेत्तणवुंसयवेदणिसेएण सगाउए अंतोसुहुत्तसेसे सम्मत्तं लद्धं वेच्चावट्ठिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालिदमिदि सुत्तावयवो सुसंबद्धो । सम्मत्तपाहम्मणेण बंधविरहियस्स णवुंसयवेदस्स तत्थ वेच्चावट्ठिसागरोवम-पमाणधूलगोवुच्छाओ गालिय अइसण्हगोवुच्छाहिं जहण्णासामित्तिवाहाणट्ठं तथा भमाहणस्स सहलत्तदंसणादो । एत्थेव विसेसंतरपरुवणट्ठं संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो ति सुत्तावयवस्स अय्यारो । ण बहुवारं संजमासंजमादिल्लो भो णिरस्थओ, गुणसेट्ठिणिज्जराए णवुंसयवेदपयदणिसेयाणं णिज्जरणेण तस्स सहलत्तदंसणादो । किमेसो वेच्चावट्ठिसागरोवमाणमव्भंतरे चेय असई संजमासंजम-अणंताणुबंधिविसंजोयण-परियट्ठणवारे करेइ आहो तत्तो पुव्वमेवे ति पुच्छिदे तत्तो पुव्वमेव अभवसिद्धिय-

अभवयोके योग्य जघन्य कर्मके साथ गया और तीन पल्यकी आयुवालामे उत्पन्न हुआ इस प्रकार यहाँ पदोंका सम्बन्ध कर लेना चाहिये ।

शंका—इस जीवको तीन पल्यकी आयुवालामें क्यों उत्पन्न कराया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि एक तो वहाँ नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता दूसरे शुभ तीन लेश्याएँ पाई जाती हैं इसलिये वहाँ पर्याप्त कालमें नपुंसकवेदकी बन्ध व्युच्छित्ति कराकर आयुके विना अधःस्थितिके द्वारा और परप्रकृति संक्रमणके द्वारा स्तोक्तर गोपुच्छाओको गलाकर विवक्षित कर्मके अति जघन्य गोपुच्छा प्राप्त करनेके लिये इस जीवको तीन पल्यकी आयुवालामें उत्पन्न कराया है ।

तदन्तर तीन पल्य प्रमाण नपुंसकवेदके निषेकोंको गलाकर जब आयुमें अन्तर्सुहूर्त शेष रहता है तब सन्यक्त्वको ग्रहण कर उसने दो ज्ञ्यासठ सागर काल तक उसका पालन किया । इस प्रकार सूत्रके पद सुसंबद्ध हैं । फिर सन्यक्त्वके प्रभावसे वहाँ बन्धरहित नपुंसकवेदके दो ज्ञ्यासठ सागरप्रमाण स्थूल गोपुच्छाओको गलाकर अतिसूक्ष्म गोपुच्छाओके द्वारा जघन्य स्वामित्वको प्राप्त करनेके लिये इस प्रकारके परिश्रमण करानेमें लाभ देखा जाता है । तथा इसीमें विशेष अन्तरका कथन करनेके लिये 'संयमासंयम और संयमको बहुत बार प्राप्त हुआ' सूत्रके इस हिस्सेकी रचना हुई है । संयमासंयम आदिका बहुत बार प्राप्त करना निरर्थक भी नहीं है, क्योंकि गुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा नपुंसकवेदके प्रकृत निषेकोंकी निर्जरा हो जानेसे उसकी सफलता देवी जाती है ।

शंका—क्या यह दो ज्ञ्यासठ सागर कालके भीतर ही अनेक बार संयमासंयम और अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके परिवर्तन वारोंको करता है या इससे पहले ही ?

समाधान—दो ज्ञ्यासठ सागर कालको प्राप्त होनेके पूर्व ही जब यह जीव अभवयोके

पाओगजहृषणसंतकम्भेणागंतूण तसेसुप्पज्जिय तिपलिदोवमिएसुप्पज्जयाणो तस्मि संधीए पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तगुणसेठिणिज्जराकालभंतरे सेसकम्माणं व संजमासंजमादिकंडयाणि थोवूणाणि कादूण पुणो तत्थ जाणि परिसेसिदाणि ताणि वेच्चावट्टिसागरोवमभंतरे कत्थ वि कत्थ वि विक्खित्तसरूवेण करेदि त्ति एसो एत्थ परिणिच्छओ, सुत्तस्सेदस्स अंतदीवयत्तादो ।

§ ५५६. अत्रैवावान्तरव्यापारविशेषप्रतिपादनार्थमुत्तरसूत्रावयवः—चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता अपच्छिमे भवे पुव्वकोडिआउओ मणुसो जादो इदि । पलिदोवमा-संखेज्जदिभागमेत्तसंजमासंजमादिकंडयाणमट्टसंजमकंडयाणं च अंतरालेसु समयाविरोहेण चत्तारि कसाउवसामणवारे गुणसेठिणिज्जराविणाभावित्तेण पयदोवजोगी अणुपालिय चरिमदेहहरो दीहाउओ मणुसो जादो त्ति वुत्तं होइ । ण पुव्वकोडाउए उप्पादो णिरत्थओ, गुणसेठिणिज्जराविणाभाविदीहसंजमद्दाए पयदोवजोगित्तादो त्ति तस्स सहलत्तपदंसणट्टमुवरिमो सुत्तावयवो—तदो देसूणपुव्वकोडिसंजममणुपालियूणे त्ति । एत्थ देसूणपमाणमट्टवस्साणि अंतोमुहुत्तभहियाणि । एवं देसूणपुव्वकोडिसंजम-गुणसेठिणिज्जरं काऊणावडिदस्स आसण्णे सामित्तसमए वावारविसेसपटुप्पायणट्ट-मंतोमुहुत्तसेसे वरिणामपच्चएण असंजमं गदो त्ति उत्तं ।

§ ५६०. एत्थुद्देशे असंजमगमणे फलं परूवेइ—ताव असंजदो जाव गुणसेठी

योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ आकर और त्रसोमे उत्पन्न होकर तीन पल्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न होनेकी स्थितिमें होता है तब इस मध्यकालमें पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण गुणश्रेणिनिर्जरा कालके भीतर शेष कर्मोंके समान कुछ कम संयमासंयमादि काण्डकोंको करके फिर वहाँ जो कर्म शेष बचते हैं उन्हें दो छयासठ सागर कालके भीतर कहीं कहीं झुटित (विसृति) रूपसे करता है इस प्रकार यहाँ यह निश्चय करना चाहिये, क्योंकि यह सूत्र अन्तदीपक है ।

§ ५५९. अब यहाँ पर अवान्तर व्यापारविशेषका कथन करनेके लिये सूत्रका अगला हिस्सा आया है कि चार बार कषायोंका उपशम करके अन्तिम भवमें पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य हुआ । इसका आशय यह है कि पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण संयमासंयम आदि काण्डकोंके और आठ संयम काण्डकोंके अन्तरालमें आगममें जो विधि बतलाई है उस विधिसे गुणश्रेणिनिर्जराका अविनाभावी होनेसे प्रकृतमें उपयोगी चार कषायोंके उपशामन वारोंको करके बड़ी आयुवाला चरमशरीरी मनुष्य हुआ । यदि कहा जाय कि एक पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्यमें उत्पन्न कराना व्यर्थ है सो भी बात नहीं है, क्योंकि संयमकालका बड़ापन गुणश्रेणि निर्जराका अविनाभावी होनेसे प्रकृतमें उसका उपयोग है, इसलिये इसकी सफलता दिखलानेके लिये सूत्रके आगेका 'तदो देसूणपुव्वकोडिसंजममणुपालियूण' यह हिस्सा रचा गया है । यहाँपर देशानका प्रमाण अन्तमुहुत्त अधिक आठ वर्ष है । इस प्रकार कुछ कम पूर्वकोटि कालतक संयमगुणश्रेणिनिर्जराको करके स्थित हुए जीवके विवक्षित स्वामित्य समयके समीपमें आ जानेपर व्यापारविशेषको बतलानेके लिये 'जो अन्तमुहुत्त कालके शेष रहनेपर परिणामोंकी परवशताके कारण असंयमको प्राप्त हुआ' यह कहा है ।

§ ५६०. अब यहाँ असंयमको प्राप्त होनेका प्रयोजन कहते हैं—यह जीव तबतक असंयत

णिग्गलिदा त्ति । जाव संजदेण कदा गुणसेही णिरवसेसं गलिदा ताव असंजदो होऊणच्छिदो त्ति वुत्तं होइ । ण चेदं णिरत्थयं, गुणसेदिगोबुच्छाओ असंखेज्ज-पंचिदियसमयपबद्धपमाणाओ गालिय अइसण्हगोबुच्छाणं सामित्तविसईकरणेण फल्लोव-लंभादो । एवमसंजदभावेण गुणसेदिं णिग्गालिय पुणो केत्तिएण वावारेण जहण्ण-सामित्तं पडिवज्जइ त्ति । एत्थुत्तरमाह—तदो संजमं पडिवज्जियूण इञ्चाइणा । तदो असंजमादो संजमं पडिवज्जिय सब्बणिहद्धेणंतोसुहुत्तेण कम्मकरयं काहिदि त्ति अवडिदस्स तस्स पढमसमयसंजमं पडिवण्णस्स जहण्णयमोक्कड्डणादित्तिण्हं पि भीणद्विदियं होइ त्ति सुत्तत्थसंबंधो । संजदविदियादिसअएसु किमट्ठं सामित्तं ण दिज्जदे ? ण, संजमगुणपाहम्मोण पुणो वि उदयावलियवाहिरे णिक्खित्ताए गुणसेहीए उदयावलियवभंतरप्पवेसे जहण्णत्ताणुववत्तीदो । तम्हा एत्तिएण पयत्तेण सण्हीकय-समयूणावलियमेत्तगोबुच्छाओ वेत्तूण संजदपढमसमए पयदजहण्णसामित्तं होइ त्ति सुत्तत्थसत्तुच्चयो । एत्थ सिस्सो भणदि—एदम्हादो समयूणावलियमेत्तगोबुच्छदब्बादो जहण्णयमण्णमोक्कड्डणादिभीणद्विदियं पेच्छामो । तं कथमिदि भणिदे एसो चेव

रहता है जब तक गुणश्रेणि निर्वाण होती है । जब तक संयतके द्वारा की गई गुणश्रेणि पूरी गलती है तब तक यह जीव असंयत होकर रहता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । यदि कहा जाय कि यह सब कथन करना निरर्थक है सो भी बात नहीं है, क्योंकि पञ्चेन्द्रियोंके असंख्यात समयप्रबद्धप्रमाण गुणश्रेणियोंको पुच्छाओंको गलाकर प्रकृत स्वामित्वकी विषयभूत अतिसूक्ष्म गोपुच्छाओंके करने रूपसे इसका फल पाया जाता है । इस प्रकार असंयतरूप भावके द्वारा गुणश्रेणियोंको गला कर फिर कितनी प्रवृत्ति करके जघन्य स्वामित्वको प्राप्त होता है ? आगे यही बतलानेके लिये 'तदो संजमं पडिवज्जियूण' इत्यादि कहा है । आशय यह है कि फिर असंयमसे संयमको प्राप्त हुआ । इस बार संयमको तब प्राप्त करना चाहिए जब और सब विधिके साथ कर्मक्षयको अन्तर्मुहूर्तमें करनेकी स्थितिमें आ जाय । इस प्रकार संयमको प्राप्त होकर जो उसके प्रथम समयमें स्थित है वह अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य नपुंसकवेद-सम्बन्धी कर्मपरमाणुओंका स्वामी होता है यह इस सूत्रका आशय है ।

शंका—संयत होनेसे लेकर दूसरे आदि समयमें यह जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं दिया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि संयमगुणकी प्रधानतासे फिर भी उदयावलिके बाहर जो गुणश्रेणिकी रचना हुई है उसके उदयावलिके भीतर प्रवेश करने पर जघन्यपना नहीं बन सकता है ।

इसलिये इतने प्रयत्नसे सूक्ष्म की गई एक समय कम एक आवलिप्रमाण गोपुच्छाओंको लेकर संयतके प्रथम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है यह इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है ।

शंका—यहाँ कोई शिष्य कहता है कि यह जो एक समय कम एक आवलिप्रमाण गोपुच्छा द्रव्य है इससे हम अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला अन्य जघन्य द्रव्य देखते हैं वह कैसे ऐसा पूछने पर वह बोलता है कि क्षपितकर्मांशकी विधिसे भ्रमण करके

खविदकम्मंसियलक्खणेण भमिदजीवो पुव्वकोडिसंजमगुणसेडिणिज्जरं करिय अंतोमुहुत्तावसेसे जीविदव्वए त्ति उवसमसेडिमारूढो अंतरकिरियापरिसमत्तीए गालिदसमयूणावलिओ कालगदो वेमाणिओ देवो जादो । सो च देवेसुप्पण्णपहमसमयम्मि पुरिसवेदमोकड्डियूणुदयादिणिक्खेवं करेइ, उदयाभावेण ओकड्डिज्जमाणणवुंसयवेदादिपयडीणमुदयावलियबाहिरे णिक्खेवं करेइ । एवमुदयावलियवाहिरे गोबुच्छायारेण णिसित्तणवुंसयवेदस्स जाधे विदियसमयदेवस्स एयगोबुच्छमेत्तमुदयावलियव्भंतरं पविसइ ताधे तत्थ गवुंसयवेदस्स ओकड्डिणादितिण्हं पि जहण्णभीणडिदिदियं होइ । पुव्विन्लजहण्णसामित्तविसईकयसमयूणावलियमेत्तणिसेएहिंतो एदस्स एयणिसेयमेत्तस्स थोवयरत्तदंसणादो त्ति ? णेदं घट्ठे, पुव्विन्लजहण्णदव्वादो एदस्स असंखेज्जगुणत्तुवत्तंभादो । तं जहा—इमस्स देवस्स संखेज्जसागरोवमपमाणाउडिदिमेत्तो सम्मत्तकालो अज्ज वि अत्थि । संपहि एत्तियमेत्तणिसेए गालिय अपच्छिमे मणुस्सभवे अवट्ठिदो पुव्विन्लजहण्णदव्वसामिओ । एदस्स पुण असंखेज्जगुणहाणिमेत्तगोबुच्छाओ णाज्ज वि गत्तंति, तेण समयूणावलियमेत्तणिसेयदव्वादो एदमेयडिदिदव्वमसंखेज्जगुणं होइ, संखेज्जसागरोवमव्भंतरणागुणहाणिसलागाणमणोणणव्भत्थरासीए समयूणावलिओवट्ठिदाए गुणगारसरूवेण दंसणादो । तम्हा सुत्तुत्तमेव

आया हुआ यही जीव एक पूर्वकोटि काल तक संयमसम्बन्धी गुणश्रेणिकी निर्जरा करके जब जीवनमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहा तब उपशमश्रेणि पर चढ़ा और अन्तर क्रियाको समाप्त करके तथा नपुंसकवेदकी एक समय कम एक आवलिप्रमाण प्रथम स्थितिको गलाकर मरा और वैमानिक देव हो गया । और वह देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें पुरुषवेदका अपकर्षण करके उसका उदय समयसे लेकर निक्षेप करता है तथा उदय न होनेसे अपकर्षणको प्राप्त हुई नपुंसकवेद आदि प्रकृतियोंका उदयावलिके बाहर निक्षेप करता है । इस प्रकार उदयावलिके बाहर गोपुच्छाके आकाररूपसे जो नपुंसकवेदका द्रव्य निक्षिप्त होता है उसमेंसे जब द्वितीय समयवर्ती देवके एक गोपुच्छाप्रमाण द्रव्य उदयावलिके भीतर प्रवेश करता है तब वहाँ अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा नपुंसकवेदका जघन्य भौतस्थितिक द्रव्य प्राप्त होता है । इस प्रकार पूर्वोक्त जघन्य स्वामित्यके विषयभूत एक समय कम एक आवलिप्रमाण निषेकोंसे यह एक निषेकप्रमाण द्रव्य अरूप देखा जाता है ?

समाधान—यह कहना घटित नहीं होता, क्योंकि पूर्वोक्त जघन्य द्रव्यसे यह द्रव्य असंख्यातगुणा पाया जाता है । खुलासा इस प्रकार है—इस देवके संख्यात सागर आयुप्रमाण सम्यक्त्व काल अभी भी शेष है । अब इतने निषेकोंको गलाकर अन्तिम मनुष्यभवमें उत्पन्न होने पर पूर्वोक्त जघन्य द्रव्यका स्वामी होता है । परन्तु इस द्रव्यकी असंख्यात गुणहानिप्रमाण गोपुच्छाएँ अभी भी गली नहीं हैं, इसलिये एक समय कम एक आवलिप्रमाण निषेकोंके द्रव्यसे यह एक स्थितिगत द्रव्य असंख्यातगुणा होता है, क्योंकि यहाँ संख्यात सागरके भीतर नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्यान्याभ्यस्त राशिको एक समय कम एक आवलिसे भाजित करने पर जो लब्ध आता है उतना गुणकार देखा जाता है । इसलिये सूत्रमें कहा हुआ ही स्वामित्य

सामिचं गिरवज्जमिदि सिद्धं ।

❀ इत्थिवेदस्स वि जहणेणयाणि तिण्णि वि भीष्णट्ठिदियाणि एदस्स चेव तिपल्लिवोवमिपंसु णो उववणयस्स कायव्वाणि ।

निर्दोष है यह बात सिद्ध हुई ।

विशेषार्थ—यहाँ अपकर्षणादि तीनकी अपेक्षा नपुंसकवेदके भीनस्थितिवाले जघन्य कर्मपरमाणुओंका स्वामी बतलाया है । इसके लिये सूत्रमें जो विधि बतलाई है वह सब क्षुपित-कर्मशरकी विधि है, इसलिये इसका यहाँ विशेष खुलासा नहीं किया जाता है । टीकामें उसका खुलासा किया ही है । किन्तु कुछ बातें यहाँ ज्ञातव्य हैं, इसलिये उन पर प्रकाश डाला जाता है । प्रथम बात तो यह है कि सूत्रमें पहले दो छ्थासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिभ्रमण कराके फिर संयमासंयम आदि काण्डकोके करनेका निर्देश किया है, इसलिये यह प्रश्न हुआ कि ये संयमासंयमादि काण्डकोमें परिभ्रमण करनेके वार दो छ्थासठ सागर काल तक परिभ्रमण करनेके पहले होते हैं या बादमें होते हैं ? इस शंकाका जो समाधान किया है उसका आशय यह है कि ये दो छ्थासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिभ्रमण करनेके पहले ही हो जाते हैं, क्योंकि जिस समय ये होते हैं वह काल इसके पहले ही प्राप्त होता है । पहले जघन्य प्रदेशसत्कर्मका निर्देश करते हुए भी संयमासंयमादिकके काण्डकोको कराके ही दो छ्थासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ भ्रमण कराया गया है । इससे भी उक्त बातकी ही पुष्टि होती है, इसलिये यहाँ सूत्रमें जो व्यतिक्रमसे निर्देश किया है वह कोई खास अर्थ नहीं रखता ऐसा यहाँ समझना चाहिये । दूसरी बात यह है कि सूत्रमें जो यह निर्देश किया है कि ऐसा जीव पूर्वोक्त विधिते आकर जब अन्तमें संयमी होता है तब संयमको प्राप्त करनेके प्रथम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान करना चाहिये । इस पर शंकाकारका यह कहना है कि यदि प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्व न देकर द्वितीयादि समयमें जघन्य स्वामित्व दिया जाता है तो इससे विशेष लाभ है । वह यह कि प्रथम समयमें एक समय कम एक आवलिप्रमाण निषेकोमें जितना द्रव्य होता है द्वितीयादि समयमें वह और कम हो जायगा, क्योंकि आगे आगेके निषेकोमें एक एक चयघाट द्रव्य देखा जाता है । इस शंकाका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि संयमको प्राप्त होते ही प्रथम समयसे यह जीव गुणश्रेणिकी रचना करने लगता है । यतः नपुंसकवेद अनुदयरूप प्रकृति है अतः इसकी गुणश्रेणि रचना उदयावलिके वाहरके निषेकोमें होगी । अब जब यह जीव दूसरे समयमें जाता है तब इसके उदयावलिके भीतरका प्रथम निषेक स्तिबुक संक्रमणके द्वारा अन्य प्रकृतिरूप परिणाम जानेसे उदयावलिके वाहरका एक निषेक उदयावलिके प्रविष्ट हो जाता है । यतः उदयावलिके प्रविष्ट हुए इस निषेकमें प्रथम समयमें अपकर्षित हुआ गुणश्रेणि द्रव्य भी आ मिला है अतः दूसरे समयमें एक समय कम एक आवलिप्रमाण निषेकोका जो द्रव्य है वह प्रथम समयमें प्राप्त हुए एक समय कम एक आवलिप्रमाण निषेकोके द्रव्यसे अधिक हो जाता है, अतः द्वितीयादि समयमें जघन्य स्वामित्वका विधान न करके प्रथम समयमें ही किया है ।

❀ अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा स्त्रीवेदके भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका भी स्वामी यही जीव है । किन्तु इसे तीन पर्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न नहीं कराना चाहिये ।

§ ५६१. एदस्स चेवाणंतरपरूविदसामियस्स इत्थिवेदसंबंधीणि तिणिण वि पयद्दजहण्णभीणद्विदियाणि वत्तव्वाणि । णवरि तिपल्लिदोवमिएसु अणुववण्णस्स कायव्वाणि । कुदो ? तत्थ णवुंसयवेदस्सेव इत्थिवेदस्स बंधवोच्छेदाभावेण तत्थुप्पायणे फलाणुवलंभादो ।

❀ णवुंसयवेदस्स जहण्णयमुदयादो भीणद्विदियं कस्स ?

§ ५६२. सुगमं ।

❀ सुहुमणिगोदेसु कम्मद्विदिमणुपालियूण तसेसु आगदो । संजमा-संजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो गओ । चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता तदो एइंदिए गदो । पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमच्छिदो ताव जाव उवसामयसमयपवद्धा णिग्गलिदा त्ति । तदो पुणो मणुस्सेसु आगदो । पुव्वकोडी देसूणं संजममणुपालियूण अंतोमुहुत्तसेसे मिच्छत्तं गदो । दसवस्स-सहस्सिएसु देवेषु उववरणो । अंतोमुहुत्तसुववरणेण सम्मत्तं लद्धमंतोमुहुत्ता-यसेसे जीविदव्वए त्ति मिच्छत्तं गदो । तदो विकड्डिदाओ द्विदीओ तप्पाओग्गसव्वरहस्साए मिच्छत्तद्वाए एइंदिएसुववरणो । तत्थ वि

§ ५६१ यह जो अनन्तर जघन्य स्वामी कह आये हैं उसके ही स्त्रीवेदसम्बन्धी तीनों प्रकृत जघन्य भीनस्थितिक द्रव्य कइना चाहिये । किन्तु तीन पत्न्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न नहीं हुए जीवके यह सब विधि वतलानी चाहिये, क्योंकि तीन पत्न्यकी आयुवालोंमें जैसे नपुंसकवेदकी बन्धव्युच्छित्ति पाई जाती है वैसे स्त्रीवेदकी बन्धव्युच्छित्ति नहीं पाई जाती, इसलिये वहाँ उत्पन्न करानेमें कोई लाभ नहीं है ।

❀ नपुंसकवेदके उदयसे भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी कौन है ?

§ ५६२ यह सूत्र सुगम है ।

❀ जो जीव सूक्ष्म निगोदियोंमें कर्मस्थिति प्रमाणकाल तक रहकर त्रसोंमें आया है । फिर जिसने अनेक बार संयमासंयम, संयम और सम्यक्त्वको करके चार बार कषायोंका उपशम किया है । फिर एकेन्द्रियोंमें जाकर उपशामकसम्बन्धी समयप्रबद्धोंके गलनेमें लगनेवाले पत्न्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक वहाँ रहा । फिर मनुष्योंमें आकर और कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक संयमका पालन करते हुए जब अन्तर्मुहूर्त काल शेष बचा तब मिथ्यात्वमें गया । फिर दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त बाद सम्यक्त्वको प्राप्त किया तथा जब आयुमें अन्तर्मुहूर्त बाकी बचा तब मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । और वहाँ सम्यक्त्वकी अपेक्षा स्थितियोंको बढ़ाकर तत्प्रायोग्य सबसे जघन्य मिथ्यात्वका काल शेष रहनेपर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । फिर वहाँ तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ वह

तप्पाओगगउक्कस्सयं संकिल्लेसं गदो तस्स पढमसमयएइंदियस्स जहणय-
शुदयादो भीष्णद्विदियं ।

§ ५६३. एत्थ सुहुमणिगोदेसु कम्मद्विदियणुपालियूणे चि वुत्ते सुहुमवगण्फदि-
काइएसु जो जीवो सन्वावासयविसुद्धो संतो कम्मद्विदिमणुपालियूणागदो ति घेत्तव्वं,
अण्णाहा खविदकम्मंसियत्तविरोहादो । एवमभवसिद्धियपाओगगजहणसंतकम्मं काऊण
तसेसु आगदो । ण च तसपज्जायपरिणामो सुहुमणिगोदजोगादो असंखेज्जगुणजोगो
वि संतो णिण्फलो ति जाणावणट्ठं संजमासंजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो गदो
इच्चादी भणिदं । संजमासंजमादिगुणसेढिणिज्जराए पडिसमयमसंखेज्जपंचिदियसमय-
पवद्धपडिवद्धाए एइंदियसंचयस्स गालणेण फलोवल्लंभादो । ण च एत्थतणसंचयस्स
जोगबहुत्तमासंकणिज्जं, तस्स वारं पडि संखेज्जावलिमत्तवयादो असंखेज्ज-
गुणहीणत्तणेण पाहणियाभावादो पुणो वि तस्स एइंदिएसु पडिदोवमासंखेज्जदि-
भागमेत्तकालेण गालणादो च । तदेवाह—तदो एइंदिए गदो इत्यादी । एत्थ जदि वि
उवसामओ णवुंसयवेदं ण वंधइ, तो वि पुरिसवेदादीणं तत्थ वंधसंभवादो तेसिं
णवकवंधस्स गालणट्ठमेसो एइंदिए पवेसिदो । ण तेसिं कम्मंसाणसुवसामयसमय-

प्रथम समयवर्ती एकेन्द्रिय जीव उदयसे भीष्णस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका
स्वामी है ।

§ ५६३ यहाँ सूत्रमें जो 'सुहुमणिगोदेसु कम्मद्विदिमणुपालियूण' कहा है सो इसका
आशय यह है कि सब आवश्यकसे विशुद्ध होता हुआ जो जीव सूक्ष्म वनस्पतिक्रायिकोमें कर्म
स्थितिप्रमाण काल तक रह कर बाहर आया है । अन्यथा उसे क्षपितकर्मांश माननेमें विरोध
आता है । इस प्रकार यह अभव्योके योग्य जघन्य सत्कर्म करके त्रसोमे उत्पन्न हुआ । यदि कहा
जाय कि सूक्ष्म निगोदियोंके योगसे त्रसपर्यायमें प्राप्त होनेवाला योग असंख्यातगुणा होता है,
इसलिये त्रसपर्यायका प्राप्त कराना निष्फल है सो यह बात भी नहीं है । वर इसी बातका ज्ञान
करानेके लिये सूत्रमें 'संजमासंजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो गदो' इत्यादि सूत्र वचन कहा है । प्रत्येक
समयमें पंचेन्द्रियोंके असंख्यात समयप्रवद्धोंसे सम्बन्ध रखनेवाली संयमासंचय आदि सम्बन्धी
गुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा एकेन्द्रिय पर्यायमें हुए संचयको गला देता है । इस प्रकार त्रसपर्यायमें
उत्पन्न होनेकी यह सफलता है । यदि कहा जाय कि इस त्रस पर्यायमें संचय होता है वह योगकी
वहुतायतके कारण बहुत होता है सो ऐसी आशंका करनी भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो
प्रत्येक वार संख्यात आवलिप्रमाण समयप्रवद्धोंका उदय होता है उससे वह असंख्यातगुणा
हीन होता है, इसलिये प्रवृत्तमें उसकी प्रधानता नहीं है । दूसरे फिरसे एकेन्द्रियोंमें जाकर प्रत्येक
असंख्यातवत् भागप्रमाण कालके द्वारा उसे गला देता है । इसकार इसी बातके बतलानेके लिये
सूत्रमें 'तदो एइंदिए गदो' इत्यादि वाक्य कहा है । यहाँ पर यद्यपि उपशामक जीव नपुंसकवेदका
बन्ध नहीं करता है तो भी पुरुषवेदादिकका वहाँ बन्ध सम्भव होनेसे इनके नवकवन्धके
गालन करनेके लिये इसे एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न कराया है । यदि कहा जाय कि वे कर्मप्रमाण उप-

पबद्धेसु गलिदेसु णवुंसयवेदस्स फलाभावो^१ चि आसंकणिज्जं, तेसिमगालणे वज्झ-
माणवेदिज्जमाणणवुंसयवेदपयडीए उवरि परपयडिसंकमत्थिबुक्कसंकमदव्वस्स बहुत्त-
प्पसंगादो । तदो तप्परिहरणदमद्ववस्सभंतरणवुंसयवेदसंचयगालणदं च तत्थ पवेसो
पयदोवजोगि चि सिद्धं ।

§ ५६४. अंतदीवयं चेवेदमुवसामयसमयपवद्धणिग्गालणवयणं, तेण संजदा-
संजदादिसमयपवद्धणिग्गालणदमेसो बहुसो गुणसेदिणिज्जिराकालभंतरे सुहुभेइदिएसु
पवेसणिज्जो । एत्थ पुण सुत्तावयवे णिरवयवपरुविदावयवभावत्थे एवं पदसंबंधो
कायव्वो—तदो पच्छा ईदिए गदो संतो ताव अच्छिदो जाव उवसामयसमयपवद्धा
गालिदा चि । केत्तियकालं ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं, अण्णहा उवसामयसमय-
पवद्धाणं णिग्गलणाणुववत्तीदो ।

§ ५६५. एवं कम्मं हदसमुप्पत्तियं काऊण तत्थतणसंचयगालणदं तदो पुणो
मणुस्सेसु आगदो चि वुत्तं । तत्थागदस्स वावारविसेसपदुप्पायणदमाह—पुव्वकोडी
देसूणं संजममणुपालियूण अंतोमुहुत्तसेसे मिच्छत्तं गदो । संजमणुणसेदिणिज्जराए तं
मणुसभवं सहलं काऊण सव्वजहण्णंतोमुहुत्तसेसे आउए देवगदिपाओग्गे मिच्छत्तं गदो

शामकके समयप्रबद्धोंके साथ ही गल जाते हैं, इसलिये इससे नपुंसकवेदको कोई लाभ नहीं है सो
ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन कर्मपरमाणुओंके नहीं गलने पर बंधनेवाली
नपुंसकवेद प्रकृतिमें परप्रकृतिसंक्रमणके द्वारा और उदयको प्राप्त हुई नपुंसकवेद प्रकृतिमें स्तिबुक
संक्रमणके द्वारा बहुत द्रव्यका प्रसंग प्राप्त होता है । इसलिये दोषका परिहार करनेके लिये और
आठ वर्षके भीतर नपुंसकवेदका जो संचय हुआ है उसे गलानेके लिये एकेन्द्रियोंमें प्रवेश कराना
प्रकृतमें उपयोगी है यह सिद्ध हुआ ।

§ ५६६ सूत्रमें 'उवसामयसमयपवद्धा णिग्गलिदा' यह जो वचन दिया है वह अन्त-
दीपक है, इसलिये इससे यह ज्ञात होता है कि संयतासंयत आदिके समयप्रबद्धोंको गलानेके लिये
भी इस जीवको बहुत बार गुणश्रेणिनिर्जरा कालके भीतर सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें प्रवेश कराना
चाहिये । किन्तु यहाँ पर सूत्रके इस हिस्सेके सब अवयवोंका भावार्थ कहने पर पदोंका सम्बन्ध
इस प्रकार करना चाहिये—इसके बाद उपशामकके समयप्रबद्ध गलने तक यह जीव एकेन्द्रियोंमें
रहा । वहाँ कितने कालतक रहा यह बतलानेके लिए 'पत्त्यके असंख्यातवं भागप्रमाण कालतक
रहा' यह कहा है । अन्यथा उपशामकके समयप्रबद्ध नहीं गल सकते हैं ।

§ ५६५ इस प्रकार कर्मको हतसमुत्पत्तिक करके एकेन्द्रियोमे हुए संचयको गलानेके लिये
'तदो पुणो मणुस्सेसु आगदो' यह सूत्रवचन कहा है । फिर मनुष्योंमें आकर जो व्यापार विशेष
होता है उसका कथन करनेके लिये 'पुव्वकोडी देसूणं संजममणुपालियूण अंतोमुहुत्तसेसे मिच्छत्तं
गदो' सूत्र वचन कहा है । संयमणुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा उस मनुष्य भवको सफल करके
जब सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहता है तब देवगतिके योग्य आयुका बन्ध करके
मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

ति उत्तं होइ । आमरणंतं गुणसेदिणिज्जरमकराविय किमद्वयेसो मिच्छत्तं णीदो ? ण, अण्णहा दसवस्ससहस्सिएसु देवेषु उववज्जावेहुमसकियत्तादो । तत्थुप्पायणं च सव्वल्लहु एइंदिएसुप्पाइय सामिन्तविहाणद्वमवगंतव्वं । जइ एवं संजदो चैव अंतो-मुहुत्तसेसाजओ मिच्छत्तवसेण एइंदिएसुप्पाएयव्वो । दसवस्ससहस्सियदेवेषुप्पायण-मणत्थयं, दसवस्ससहस्सव्वभंतरसंचयस्स तत्थ संभवेण फलाणुवत्तंभादो । ण अंतो-मुहुत्तमुववण्णेण सम्मत्तं लद्धमिच्चेदेण सुत्तावयवेण तस्स परिहारो, स्तिवुक्कसंकमवसेण तत्थतणपुरिसवेदसंचयस्स दुप्पडिसेहादो ति ? एत्थ परिहारो बुच्चदे—ण ताव एसो संजदो मिच्छत्तं णेदूण एइंदिएसुप्पाइदुं सक्किज्जइ, तत्थुप्पज्जमाणस्स तस्स तिक्क-संकिलेसेण पुव्वगुणसेदिणिज्जराए थोवयरत्तप्पसंगादो । ण एत्थ वि त्था पसंगो, देवगइपाओग्गमिच्छत्तद्धादो एइंदियपाओग्गमिच्छत्तद्धाए संकिलेसावूरणक्कालस्स च संखेज्जगुणत्तेण एत्थतणहाणीदो बहुतरहाणीए तत्थुवत्तंभादो । ण एत्थ देवेषु संचओ

शंका—मरणपर्यन्त गुणश्रेणिनिर्जरा न कराके इसे मिथ्यात्वमें क्यों ले गये हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वमें ले जाये बिना दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न कराना अशक्य होता, इसलिये अन्तमें इसे मिथ्यात्वमें ले गये हैं । अतिशीघ्र एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न कराके प्रकृत स्वामित्वाका विधान करनेके लिये ही दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न कराया गया है यहाँ ऐसा जानना चाहिये ।

शंका—यदि ऐसा है तो संयतको ही अन्तमुहूर्त आयुके शेष रहने पर मिथ्यात्वमें ले जाकर और उसके कारण एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न कराना चाहिये । दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न कराना अनर्थक है, क्योंकि देवोंमें उत्पन्न करानेसे दस हजार वर्षके भीतर जो संचय प्राप्त होता है वह उसके बाद एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न करने पर वहाँ पाया जाता है, इसलिये देवोंमें उत्पन्न करानेसे कोई लाभ नहीं है । यदि कइ जाय कि इससे आगे सूत्रमें जो 'अंतो-मुहुत्तमुववण्णेण सम्मत्तलद्ध' इत्यादिक कहा है सो इस वचनसे उक्त शंकाका परिहार हो जाता है सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि देवपर्यायमें जो पुरुषवेदका संचय होता है एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने पर वह संचय स्तिवुकसंकमणके द्वारा नपुंसकवेदमे प्राप्त होने लगनेके कारण उसका निषेध करना कठिन है ?

समाधान—अब उक्त शंकाका परिहार करते हैं—इस संयतको मिथ्यात्वमें ले जाकर एकेन्द्रियोंमें तो उत्पन्न कराना शक्य नहीं है, क्योंकि जो संयत मिथ्यात्वमें जाकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेवाला है उसके तीव्र संक्लेश पाया जानेके कारण पूर्व गुणश्रेणिनिर्जरा बहुत ही कम प्राप्त होती है ।

यदि कहा जाय कि जो संयत मिथ्यात्वमें जाकर देव होनेवाला है उसके भी तीव्र संक्लेशके कारण पूर्व गुणश्रेणिनिर्जरा अति स्वल्प प्राप्त होती है सो यह बात नहीं है, क्योंकि देवगतिके योग्य मिथ्यात्वके कालसे एकेन्द्रियके योग्य जो मिथ्यात्वका काल है वह संख्यातरगुणा है और उसके योग्य संक्लेशको प्राप्त करनेमें भी जो काल लगता है वह भी संख्यातरगुणा है, इसलिये एकेन्द्रियोंके मिथ्यात्वमें गुणश्रेणिनिर्जराकी जितनी हानि होती है उससे देवगतिके मिथ्यात्वमें बहुत हानि पाई जाती है । यदि कहा जाय कि यहाँ देवोंमें अधिक संचय होता है, इसलिये उक्त दोष तो

अहिओ ति उचदोसो वि, तस्स संखेज्जावलियमेत्तसमयपवद्धपमाणस्स एयसमयगुण-
सेदिणिज्जराए असंखेज्जदिभागत्तेण पाहण्णियाभावादो । एदेणेव सेसगईसु वि उप्पा-
यणासंका पडिसिद्धा, तत्थुप्पत्तिपाभोग्गमिच्छत्तद्वाए बहुत्तदंसणादो । किमदमेसो
दसवस्ससहस्सिएसु सम्मत्तं गेण्हविओ ? ण, ओकङ्कणावहुत्तेण अहियारद्विदीए
सण्ठीकरणदं तहाकरणादो । मिच्छादिद्विम्मि वि एत्थासंती ओकङ्कणा बहुई अत्थि, तदो
उहयत्थ वि सरिसमेदं फलमिदि णासंकणिज्जं, तत्थ ओकङ्कणादो सम्माइद्विओकङ्कणाए
विसोहिपरतताए बहुवयरत्तदंसणादो । तम्हा सुहासियमेदमंतोमुहुत्तमुववण्णेण तेण
सम्मत्तं लद्धमिदि । एवमथद्विदीए णिज्जरं काऊण अंतोमुहुत्तावसेसे जीविदन्वए ति
मिच्छत्तं गदो, एइदिएसुप्पत्तीए अण्णहाणुवत्तीदो मिच्छत्तमेसो णीदो । तत्थ उप्पादो
किमदमिच्छज्जदे चे ? ण, एइदियोववादिणो देवस्स तप्पच्छायदपढमसमए एइदियस्स
च संकिलेसवसेण उकङ्कणावहुत्तमोक्कङ्कणोदीरणणं च थोवत्तमिच्छिय तहाब्भुवगमादो ।

बा ही रहता है अर्थात् मिथ्यात्वमें ले जाकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न करानेसे जो दोष प्राप्त होता है वह दोष यहाँ भी बना रहता है सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक देवके जो संख्यात आबलिप्रमाण समयप्रयत्नोंका संचय होता है वह एक समयमें होनेवाली गुणश्रेणि निर्जराके असंख्यातवै भागप्रमाण होनेसे उसकी यहाँ प्रधानता नहीं है । इसीसे शेष गतियोंमें भी उत्पन्न करानेकी आशंकाका निषेध हो जाता है, क्योंकि वहाँ उत्पन्न करानेके योग्य मिथ्यात्वका काल बहुत देखा जाता है ।

शंका—इसे दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें ले जाकर सम्यक्त्व किसलिये ग्रहण कराया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अधिक अपकर्षणाके द्वारा अधिकृत स्थितिके सूक्ष्म करनेके लिये वैसा कराया गया है ।

शंका—जो अपकर्षण यहाँ सम्यग्दृष्टिके नहीं होता वह मिथ्यादृष्टिके भी बहुत देखा जाता है इसलिये विवक्षित लाभ तो दोनों जगह ही समान है, फिर इसे सम्यग्दृष्टि करानेसे क्या लाभ है ?

समाधान—ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सम्यग्दृष्टिके जो अपकर्षण होता है वह विशुद्धिके निमित्तसे होता है इसलिये वह मिथ्यादृष्टिके होनेवाले अपकर्षणसे बहुत देखा जाता है ।

इसलिये सूत्रमें जो 'अंतोमुहुत्तमुववण्णेण तेण सम्मत्तं लद्धं' यह कहा है सो उचित ही कहा है । इस प्रकार उक्त जीव अधःस्थितिकी निर्जरा करता हुआ जब जीवनमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रह जाय तब मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ, क्योंकि अन्यथा एकेन्द्रियोंमें उत्पत्ति नहीं बन सकनेके कारण इसे मिथ्यात्वमें ले गये हैं ।

शंका—ऐसे जीवका अन्तमे एकेन्द्रियोंमें उत्पाद किसलिये स्वीकार किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जो देव एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें और जो एकेन्द्रिय एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें संक्लेशके कारण उत्कर्षण बहुत होता है और अपकर्षण तथा उदीरण

एदस्स चैव जाणावणद्विदमाह—तदो विकड्ढिदाओ द्विदीओ त्ति । सच्चैसिं कम्मणं द्विदीओ मिच्छत्तसहगदतिव्वयरसंकिल्लेसवसेण सम्मादिद्विबंधादो वियड्ढिदाओ वि दूरमक्खिविय पबद्धाओ संतद्विदीओ च गिरुद्धद्विदीए सह वट्टमाणाओ दूरयरमुक्कड्डिय णिक्खित्ताओ त्ति वुत्तं होइ । तप्पाओगसव्वरहस्साए मिच्छत्तद्धाए एत्थ सव्वरहस्सगहणेण ओघजहणमिच्छत्तकालस्स गहणं पसज्जइ त्ति तप्पडिसेहद्वं तप्पाओग्ग-विसेसणं कदं । 'एइंदिगुप्पत्तिप्पाओग्गसव्वजहणमिच्छत्तकालेणे त्ति भणिदं होइ । एवमेत्तिएण कालेण उक्कड्डणाए उक्कस्सद्विदिवंधाविणाभाविणीए वावदो पयदगोवुच्छं सण्हीकरिय एइंदिएसु उववण्णो, अण्णहा अइजहणणवुंसयवेदोदयासंभवादो । एत्थुद्देसे वि पयदोवजोगिपयत्तविसेसपदुप्पायणद्वमाह—तत्थ वि तप्पाओग्गउक्कस्सयं संकिल्लेसं गदो त्ति । तत्थ वि उक्कस्सयसंकिल्लेसं किमिदि णीदो ? उदीरणा-वहुत्तगिरायरणद्वं ।

§ ५६६. एवमेत्तिएण लक्खणेणोवळक्खियस्स तस्स पढमसमयएइंदियस्स णवुंसयवेदसंबंधी जहणयण्युदयादो भ्रीणद्विदियं होइ । एत्थ विदियसमयपपहुडि उवरि गोवुच्छविसेसहाणिवसेण जहणसामितं गेण्हामो त्ति भणिदे ण तहा येप्पइ,

कम होती है इसलिये ऐसा स्वीकार किया गया है ।

इस प्रकार इसी बातके जतानेके लिये 'तदो विकड्ढिदाओ द्विदीओ' यह सूत्रवचन कहा है । मिथ्यात्वके साथ प्राप्त हुए अति तीव्र संक्लेशरूप परिणामोंके कारण सब कर्मों की स्थितियोंको सम्यग्दृष्टिके बन्धसे बढाकर अर्थात् बहुत दूर निक्षेप करके बाँधा और विवक्षित स्थितिके साथ जो सत्कर्मकी स्थितियाँ विद्यमान हैं उन्हें बहुत दूर उत्कर्षित करके निक्षिप्त किया यह उक्त सूत्रवचनका तात्पर्य है । तप्पाओग्गसव्वरहस्साए मिच्छत्तद्धाए' इस सूत्र-वचनमे जो 'सव्वरहस्स' पदका ग्रहण किया है सो इससे ओघ जघन्य मिथ्यात्वके कालका ग्रहण प्राप्त होता है, इसलिये उसका निषेध करनेके लिये 'तत्पायोग्य' विशेषण दिया । इससे यहाँ एकेन्द्रियोंमें उत्पत्तिके योग्य सबसे जघन्य काल विवक्षित है यह तात्पर्य निकलता है । इस प्रकार इतने कालके द्वारा उत्कृष्ट स्थितिवन्धके अधिनाभावी उत्कर्षणमें लगा हुआ उक्त जीव प्रकृत गोपुच्छाको सूक्ष्म करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ, अथवा अत्यन्त जघन्य नपुंसकवेदका उद्भय नहीं बन सकता है । इस प्रकार एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर भी उक्त जीव प्रकृतमें उपयोगी पड़ने-वाले जिस प्रयत्नविशेषको करता है उसका कथन करनेके लिये 'तत्थ वि तप्पाओग्गउक्कस्सयं संकिल्लेसं गदो' यह सूत्रवचन कहा है ।

शंका— एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर भी इस जीवको उत्कृष्ट संक्लेश क्यों प्राप्त कराया गया ?

समाधान—जिससे इसके बहुत उदीरणा न हो सके, इसलिये इसे उत्कृष्ट संक्लेश प्राप्त कराया गया है ।

§ ५६६. इस प्रकार इतने लक्षणोंसे उपलक्षित प्रथम समयवर्ती वह एकेन्द्रिय जीव नपुंसकवेदके उद्भयसे भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी होता है । यहाँ पर कितने ही लोग दूसरे समयसे लेकर ऊपर गोपुच्छविशेषकी हानि होनेके कारण जघन्य स्वामित्वको ग्रहण

विदियादिसमएसु संकिलेससन्वहाणिदंसणादो । तम्हा एत्थेव सामित्तं णिरवज्जमिदि सिद्धं ।

❀ इत्थिवेदस्स जहणण्यमुदयादो भीणद्विदियं ?

§ ५६७. कस्से त्ति अहियारे संबंधो कायव्वो, अण्णहा सुत्तत्थस्स असंपुण्णत्त-
प्पसंगादो । सेसं सुगमं ।

❀ एसो चेव णवुंसयवेदस्स पुव्वं परुविदो जाये अपच्छिममणुस्स-
भवग्गहणं पुव्वकोडी देसूणं संजममणुपालियूण अंतोसुहुत्तसेसे भिच्छुत्तं
गओ । तदो वेमाणियदेवीसु उववणो अंतोसुहुत्तद्धमुववणो उक्कस्ससंकिलेसं
गदो । तदो विकड्ढिदाओ' द्विदीओ उक्कड्ढिदा कम्मसा जाये तदो अंतोसुहुत्तद्ध-
मुक्कस्सइत्थिवेदस्स द्विदिं वंधियूण पडिभग्गो जादो । आवलियपडिभग्गाए
तिस्से देवीए इत्थिवेदस्स उदयादो जहण्णयं भीणद्विदियं ।

करनेके लिये कहते हैं परन्तु तत्त्वतः वैसा ग्रहण करना शक्य नहीं है, क्योंकि दूसरे आदि समयोंमें पूरा संक्लेश न रहकर उसकी हानि देखी जाती है, इसलिये निर्दोष रीतिसे जघन्य स्वामित्व प्रथम समयमें ही प्राप्त होता है यह बात सिद्ध होती है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर उदयकी अपेक्षा नपुंसकवेदके भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व किस प्रकारके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें होता है इसका विशेष खुलासा टीकामें किया ही है । उसका आशय इतना ही है कि उक्त क्रमसे जो जीव आकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके नपुंसकवेदका द्रव्य उत्तरोत्तर घटता चला जाता है और इस प्रकार अन्तमें एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने पर प्रथम समयमें नपुंसकवेदका उदयगत सबसे जघन्य द्रव्य प्राप्त हो जाता है ।

* उदयकी अपेक्षा स्त्रीवेदके भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी कौन है ।

§ ५६७. इस सूत्रमें 'कस्स' इस पदका अधिकार होनेसे सम्बन्ध कर लेना चाहिये, अन्यथा सूत्रका अर्थ असंपूर्ण रहेगा । शेष कथन सुगम है ।

* नपुंसकवेदकी अपेक्षा पहले जो जीव विवक्षित था वही जब अन्तिम मनुष्य भवको ग्रहण करके और कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक संयमका पालन करके अन्तर्मुहूर्त कालके शेष रहने पर मिथ्यात्वमें गया । फिर वैमानिक देवियोंमें उत्पन्न हुआ । फिर वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त काल बाद उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ जिससे उसने वहाँ सम्भव उत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया । और जब यह क्रिया की तभी प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मोंका उत्कर्षण किया । फिर उस समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करके उत्कृष्ट संक्लेशसे निवृत्त हुआ । इस प्रकार निवृत्त हुए उस देवीको जब एक आवलि काल हो गया तब वह उदयकी अपेक्षा स्त्रीवेदके भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामी है ।

§ ५६८. एदस्स सामित्तमुत्तस्स अत्थविवरणं कस्सामो—एसो चेव जीवो णत्तुंसयवेदस्स सामित्तेण पुच्चपरुविदो समणंतरपरुविदासेसलक्खणोवलक्खिओ जाधे सामित्तकालं पेक्खियूण अपच्छिम्मं मणुस्स भवग्गहणं देस्सणपुच्चकोडिपमाणं पुच्चविहाणेण गुणसेट्ठिणिज्जिराविणाभाविंसंजममणुपाल्लियूण अंतोमुहुत्तसेसे सगाउए मिच्छत्तं गदो । एत्थ सच्चत्थ वि पुच्चपरुवणादो णत्थि णाणत्तं । णवरि किमट्ठमेसो मिच्छत्तं णीदो त्ति पुच्छिदे इत्थिवेदएसुप्पायणट्ठमिदि वत्तव्वं, अण्णहा तत्थुप्पत्तीए असंभवादो । ण तत्थुप्पादो गिरत्थओ, पयदसामित्तस्स सोदएण विणा विहाणाणुवत्तीदो । तमेवाह— तदो वेमाणियदेवीसु उववणो त्ति । सेसगइपरिहारेण देवगदीए चे उप्पायणं गुणसेट्ठि- लाहरक्खणट्ठं अण्णगइपाओग्गमिच्छत्तद्धाए बहुत्तेण तस्स विणासप्पसंगादो । अपज्जत्त- द्धाए च थोवीकरणट्ठं, अण्णहा तत्थ बहुदव्वसंचयावत्तीदो । भवणादिहेट्ठिमदेवीसु उप्पाइय गेण्हामो, विसेसाभावादो त्ति णासंकणिज्जं, तत्थुप्पज्जमाणजीवस्स पुच्चमेव एत्तो तिच्चसंकिलेसावूरणेण गुणसेट्ठिणिज्जिरालाहवहुत्तभावावत्तीदो । तत्र तथोत्पन्नस्य

§ ५६८. अब इस स्वामित्वविषयक सूत्रके अर्थका खुलासा करते हैं—जिस जीवका पहले नपुंसकवेदके स्वामित्वरूपसे कथन कर आये हैं समनन्तर पूर्वमें कहे गये सब लक्षणोसे युक्त वही जीव जब स्वामित्वकालकी अपेक्षा अन्तिम मनुष्यभवको ग्रहण करके और पूर्व विधिके अनुसार गुणश्रेणिनिर्णयके अविनाभावी संयमका कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक पालन करके अपनी आयुमें अन्तर्मुहूर्त बाकी रहने पर मिध्यात्वको प्राप्त हुआ । यहाँ सभी जगह नपुंसकवेद- सम्बन्धी पूर्व प्ररूपणासे कोई भेद नहीं है ।

शंका—इस जीवको मिध्यात्वमें किसलिये ले गये हैं ?

समाधान—स्त्रीवेदियोंमें उत्पन्न करानेके लिये इसे मिध्यात्वमें ले गये हैं, अन्यथा इसकी उत्पत्ति स्त्रियोंमें नहीं हो सकती ।

यदि कहा जाय कि इस जीवको मिध्यात्वमें उत्पन्न कराना निरर्थक है सो यह बात भी नहीं है, क्योंकि स्वोदयके विना प्रकृत स्वामित्वका विधान करना नहीं बनता है और स्त्रीवेदका उदय तब हो सकता है जब इसे मिध्यात्वमें ले जाया जाय, इसलिये इसे मिध्यात्वमें उत्पन्न कराया है । इसी बातको बतलानेके लिये 'तदो वेमाणियदेवीसु उववणो' यह कहा है । इसे देवगतिमें ही क्यों उत्पन्न कराया है इस प्रश्नका उत्तर देने के लिये आचार्य कहते हैं कि गुण- श्रेणिजन्य लाभकी रक्षा करनेके लिये शेष गतियोंको छोड़कर देवगतिमें ही उत्पन्न कराया है, क्योंकि अन्य गतिके योग्य मिध्यात्वका काल बहुत होनेसे वहाँ गुणश्रेणिजन्य लाभका विनाश प्राप्त होता है । दूसरे अपर्याप्त कालको कम करनेके लिये भी देवोमें उत्पन्न कराया है, अन्यथा वहाँ बहुत द्रव्यका संचय प्राप्त होता है । यदि कहा जाय कि भवनवासिनी आदि देवियोंमें उत्पन्न कराके जघन्य स्वामित्व प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है सो ऐसी आशंका करनी भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ उत्पन्न होनेवाले ऐसे जीवके पहलेसे ही तीव्र संक्लेश पाया जाता है, इसलिये इसके गुणश्रेणिजन्य बहुत लाभ नहीं बन सकता है । अतः भवनवासिनी देवियोंमें उत्पन्न न कराके वैमानिक देवियोंमें उत्पन्न कराया

तस्य व्यापारविशेषप्रतिपादनार्थमाह—अंतोमुहुत्तद्भ्रमुववणो इत्यादि । अत्रान्तर्मुहुत्त-
मपर्याप्तकाले संक्लेशोत्कर्षस्यासम्भवात्पर्याप्तकालविषयः संक्लेशोत्कर्षः प्ररूपितः ।
तथा परिणतः किंप्रयोजनमित्याशंक्याह—तदो इत्यादि । तदो तद्भा संक्लेशोत्कर्षो
हेउभूदादो वियङ्गिदाओ सव्वेसि कम्माणं द्विदीओ अंतोकोडाकोडिमेत्तद्विदिवंधादो
वि दूरमुक्कङ्खिय दीहावाहाए पवद्धाओ त्ति भणिदं होइ । जाधे एवमुक्कस्सओ संक्लेशो
आवूरिदो ताधे चैव उक्कङ्खणाकमेण चिराणसंतकम्मपदेसा वज्झमाणणवक्कबंधुक्कस्स-
द्विदीए उवरि उक्कङ्खिय णिक्खित्ता, द्विदिवंधस्सेव उक्कङ्खणाए वि तदण्णयवदिरैयाणु-
विहाणत्तादो । ण च उक्कङ्खणावहुत्ताविणाभाधी उक्कस्सावाहापडिवद्धो उक्कस्सओ
द्विदिवंधो णिरत्थओ, णिरुद्धद्विदिपदेसाणमुक्कङ्खणाए विणा सण्णीभावाणुप्पत्तीदो ।
एसो सव्वो वि वाचारविसेसो अहियारद्विदिमावाहाव्भंतरे पवेसिय संक्लेशपरिणद-
पढमसमए परूविदो । तदो प्पहुडि अंतोमुहुत्तद्भ्रमुक्कस्समित्थिवेदस्स द्विदि वंधियूण
पडिभग्गा जादा त्ति ।

§ ५६६. एत्थतणउक्कस्ससदो अंतोमुहुत्तद्भाए द्विदीए च विसेसणभावेण
संबंधेयव्वो । तेण सव्वुक्कस्समंतोमुहुत्तकालं संक्लेशमावूरिय पण्णारससागरोवमकोडा-
कोडिमेत्तमित्थिवेदस्समुक्कस्सद्विदि वंधियूण एत्तियं कालमुक्कङ्खणाए पयदणिसेयं जहण्णी-

है । इस प्रकार जो जीव वैमानिक देवियोंमें उत्पन्न हुआ है उसके व्यापारविशेषका कथन करनेके
लिये 'अंतोमुहुत्तद्भ्रमुववणो' इत्यादि कहा है । यहाँ अपर्याप्त कालके भीतर अन्तर्मुहुत्त तक
संक्लेशका उत्कर्ष नहीं हो सकता, इसलिये पर्याप्त कालविषयक संक्लेशका उत्कर्ष कहा है । इस
प्रकार संक्लेशरूपसे परिणत करानेका क्या प्रयोजन है ऐसी आशंका होने पर 'तदो' इत्यादि
कहा है । आशय यह है कि इस संक्लेशके कारण सब कर्मोंकी स्थितियोंको बढ़ाया अर्थात् जिन
कर्मोंका स्थितिवन्ध अन्तःकोडाकोडीप्रमाण हो रहा था उनका बड़े आबाधाके साथ बहुत
अधिक स्थितिको बढ़ाकर बन्ध किया । और जब इस प्रकारका उत्कृष्ट संक्लेश हुआ तब उत्कर्षणके
क्रमानुसार प्राचीन सत्तामें स्थित कर्मपरमाणुओंको बंधनेवाले नवकबन्धकी उत्कृष्ट स्थितिके
ऊपर उत्कर्षित करके निक्षिप्त किया, क्योंकि स्थितिवन्धके समान उत्कर्षणका भी संक्लेशके
साथ अन्यन्य-न्यतिरेकसम्बन्ध पाया जाता है । यदि कहा जाय कि प्रकृतमें बहुत उत्कर्षणका
अविनाभावी और उत्कृष्ट आबाधासे सम्बन्ध रखनेवाला उत्कृष्ट स्थितिवन्ध निरर्थक है सो यह
बात भी नहीं है, क्योंकि विवक्षित स्थितिके कर्मपरमाणु उत्कर्षणके विना सूक्ष्म नहीं हो सकते,
इसलिये बहुत उत्कर्षण और उत्कृष्ट स्थितिवन्ध दोनों सार्थक हैं । अधिकृत स्थितिको आबाधाके
भीतर प्रवेश कराके संक्लेशसे परिणत होनेके प्रथम समयमें इस सब व्यापारविशेषका कथन
किया है । फिर यहाँसे लेकर अन्तर्मुहुत्त काल तक स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके फिर
उसे उत्कृष्ट संक्लेशसे निवृत्त कराया है ।

§ ५६६. यहाँ सूत्रमें जो उत्कृष्ट शब्द आया है सो उसका अन्तर्मुहुत्त काल और स्थिति
इन दोनोंके साथ विशेषणरूपसे सम्बन्ध करना चाहिये । इससे यह अर्थ लेना चाहिये कि
सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मुहुत्त काल तक संक्लेशको बढ़ाकर उसके द्वारा पन्द्रह कोडाकोडी सागरप्रमाण
स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करके और इतने ही काल तक उत्कर्षण द्वारा प्रकृत निषेकको जघन्य

करिय संकिलेसादो पडिभग्गा जादा चि घेत्तव्वं, अंतोमुहुत्तादो, उवरि उक्कस्स-
द्विदिवंधपाओगुक्कस्ससंकिलेसेभावहाणाभावादो । किमेत्थेव पडिभग्गपढमसमय-
जहण्णसामितं दिज्जइ ? न, इत्याह—आवलयपडिभग्गाए तिस्से देवीए इत्यादि ।
तदित्थणिसेयस्स पयत्तेण जहण्णीकियत्तादो एत्तो तस्स समयूणावलयियेत्तगोबुच्च-
विसेसाणं हाणिदंसणादो च । जइ वि एत्थ ओक्कड्डणाए संभवो तो वि उदयावलय-
वाहिरे चेव ओक्कड्डिदपदेसगस्स णिवखेवो ति भावत्थो । णासंखेज्जलोगपडिभागियं
दव्वमासंकणिज्जं, तस्स दोगुणहाणिपडिभागियगोबुच्चविसेसादो असंखेज्जगुणहीणस्स
पाहणियाभावादो ।

करके संकलेशसे निवृत्त हुआ, क्योंकि उत्कृष्ट संकलेशका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसके बाद फिर उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य उत्कृष्ट संकलेशके साथ रहना नहीं बन सकता है । क्या यहाँ ही प्रतिभन्न होने के प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्व दिया गया है । नहीं, इस प्रकार इसी बातके वतलानेके लिये 'आवलयपडिभग्गाए तिस्से देवीए' इत्यादि कहा है । प्रतिभन्न होनेके समयसे लेकर एक आवलिप्रमाण कालके अन्तमें जघन्य स्वामित्व देनेका कारण यह है कि वहाँका निषेक प्रयत्नसे जघन्य किया गया है । दूसरे प्रतिभन्न होनेके समयके निषेकसे उसमें एक समय कम एक आवलिप्रमाण गोपुच्छाविशेषोंकी हानि देखी जाती है । यद्यपि यहाँ अपकर्षणकी सम्भावना है तो भी अपकर्षणको प्राप्त हुए कर्मपरमाणुओंका निक्षेप अधिकतर उदयावलिके बाहर ही होता है यह इसका भावार्थ है । यदि कहा जाय कि प्रकृतमें स्त्रीवेद उदयावली प्रकृति होनेसे अपकर्षणको प्राप्त हुए द्रव्यमें असंख्यात लोकका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना द्रव्य तो इस प्रकृतिके उदयावलिके भीतर ही प्राप्त होता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दो गुणहानि अर्थात् निषेकहारका भाग देनेसे जो गोपुच्छविशेष प्राप्त होता है उससे उक्त अपकर्षित द्रव्य असंख्यातगुणा हीन होता है, इसलिये उसकी प्रकृतमें प्रधानता नहीं है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर उदयकी अपेक्षा स्त्रीवेदके भीनस्थितवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी वतलाया है सो और सब विधि तो नपुंसकवेदके स्वामित्वके समान हैं किन्तु अन्तमें मनुष्यभवके बाद प्रक्रिया बदल जाती है । नपुंसकवेदके प्रकरणमें जैसे उस जीवको मनुष्यमें पैदा करानेके बाद फिर दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोमें ले गये और फिर वहाँसे एकेन्द्रियोंमें ले गये वैसे यहाँ न करके इस जीवको मनुष्य भवके बाद देवियोंमें उत्पन्न कराना चाहिये । फिर अन्तर्मुहूर्तके बाद स्त्रीवेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध और उद्वर्षण कराना चाहिये । फिर अन्तर्मुहूर्तमें उत्कृष्ट स्थिति-
बन्धसे निवृत्त होने पर एक आवलि कालके अन्तमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व कहना चाहिये । इस प्रकरणके अन्तमें टीकामें एक शंका उठाई गई है जिसका भाव यह है कि उद्वृष्ट संकलेशसे निवृत्त होनेके प्रथम समयमें प्रस्तुत जघन्य स्वामित्व न कहकर जो उस समयसे लेकर एक आवलिके अन्तमें जघन्य स्वामित्व कहा है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रति समय जो उपरितन स्थितिमें स्थित द्रव्यका अपकर्षण होता है उसके कारण एक आवलिके अन्तमें समयमें स्थित द्रव्यका प्रमाण प्रथम समयमें स्थित द्रव्यके प्रमाणसे अधिक हो जाता है ? इस शंकाका समाधान दो प्रकारसे किया गया है । समाधानमें पहली बात तो यह वतलाई गी है कि अपकर्षित द्रव्यका निक्षेप उदयावलिमें न होकर उदयावलिके बाहर होता है, इसलिये उदयावलिके अन्तमें समयमें स्थित द्रव्यका प्रमाण प्रथम समयमें स्थित द्रव्यके प्रमाणसे

❀ अरदि-सोगाणमोकड्डुणादितिगभीणद्विदियं जहणणयं कस्स ?

§ ५७०. सुगमं ।

❀ एइंदियकम्मेषु जहणणण तसेसु आगदो । संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धूण तिग्णि वारे कसाए उवसामेयूण एइंदिए गदो । तत्थ पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमच्छियूण जाव उवसामयसमयवद्धा गलंति तदो मणुस्सेसु आगदो । तत्थ पुव्वकोडी देसूणं संजममणुपालियूण कसाए उवसामेयूण उवसंतकसाओ कालगदो देवो तेत्तीससागरोवमिओ जादो । जावे चेय हस्स-रईओ ओकड्डिदाओ उदयादिणिक्खिताओ अरदि-सोगा ओकड्डिता

अधिक नहीं हो सकता । पर इस उत्तर पर यह शंका होती है कि यह नियम तो अनुदयवाली प्रकृतियोंके सम्बन्धमें है उदयवाली प्रकृतियोंके सम्बन्धमें नहीं, क्योंकि उदयवाली प्रकृतियोंमें अपकर्षित द्रव्यका निक्षेप उदय समयसे प्राप्त होता है, इसलिये पूर्वोक्त शंकासे मूल शंकाका निराकरण न होकर वह पूर्ववत् खड़ी रहती है, इसलिये इस अन्तर्वर्ती शंकाको ध्यानमें रखकर समाधानमें दूसरी बात यह कही गई है कि इस प्रकार अपकर्षण होकर जिस द्रव्यका उदयावलिमें निक्षेप होता है वह द्रव्य एक गोपुच्छविशेषके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिये उसकी यहाँ प्रधानता नहीं है । असंख्यात लोकका भाग देनेपर जो एक भागप्रमाण द्रव्य प्राप्त होता है उतने अपकर्षित द्रव्यका उदयावलिके अन्दर निक्षेप होता है । यह तो अपकर्षित द्रव्यका प्रमाण है । तथा दो गुणहानि आयामका भाग देनेपर गोपुच्छविशेष अर्थात् चयका प्रमाण प्राप्त होता है । सर्वत्र एक गुणहानिका काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इससे स्पष्ट है कि एक गोपुच्छविशेषसे उदयावलिमें प्राप्त होनेवाले अपकर्षित द्रव्यका प्रमाण असंख्यातगुणा हीन होता है, इसलिये वह यहाँ प्रधान नहीं है । यही कारण है कि उक्त संक्लेशसे निवृत्त होनेके प्रथम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व न कहकर एक आवलिकालके अन्तिम समयमें कहा है ।

* अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा अरति और शोकके भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी कौन है ।

§ ५७०. यह सूत्र सुगम है ।

* जो जीव एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें उत्पन्न हुआ । फिर संयमासंयम और संयमको अनेक बार प्राप्त करके और तीन बार कषायोंका उपशम करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ उपशामकके समयप्रवर्द्धोंके गलनेमें लगनेवाले पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक रहा । फिर आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ कुछ कम एक पूर्वकोटि कालतक संयमका पालन करके और कषायोंको उपशमा कर उपशान्तकषाय गुणस्थानको प्राप्त हुआ । फिर मरकर तेतीस सागरकी आयुवाला देव हुआ । और जब देव हुआ तब हास्य और रतिका अपकर्षण करके उनका उदय समयसे निक्षेप किया तथा अरति और शोकका अपकर्षण करके उनका

उदयावलिद्यबाहिरे णिक्खित्ता । से काले दुसमयदेवस्स एया द्विदी अरइ-
सोगाणमुदयावलिद्यं पविट्ठा ताथे अरदिसोगाणं जहणण्यं तिण्हं पि
भीष्णद्विदिद्यं ।

§ ५७१. एत्थ एइंदियकम्मणे जहणणणे त्ति उत्ते अभवसिद्धिय-
पाओरगजहणंसंतकम्मस्स गहणं कायव्वं, दोण्हमेदेसिं भेदाभावादो । सेसावयवा
बहुसो परुविदत्तादो सुगमा । णवरि तिण्णिवारे कसाए उवसामेयूणे त्ति वयणं
चउत्थकसायुवसामणवारस्स विसेसियपरुवण्हं । चउत्थवारे कसाए उवसामेयूण
उवसंतकसाओ कालगदो देवो तेत्तीससागरोवमिओ जादो त्ति भणंतस्साहिप्पाओ
उवसमसेठीए कालगदो अहमिंददेवेसु च उप्पज्जइ, अण्णत्थुकस्ससुकलेस्साए
असंभवादो त्ति । इंदि जाए लेस्साए परिणदो कालं करेइ तिससे जत्थ संबवो,
तत्थेव णियमेणुप्पज्जइ, ण लेस्संतरविसईकए विसए त्ति । कुदो एस णियमो ?
सदावदो । ताथे चेव तत्थुप्पण्णपढमसमए हस्स-रदीओ ओकड्ढिदाओ उदयादि-
णिक्खित्ताओ त्ति एदेण देवेसुप्पण्णपढमसमयप्पहुडि अंतोमुहुत्तकालं हस्स-रदीणं

उदयावलिक्के बाहर निक्षेप किया । तदनन्तर इस देवके दूसरे समयमें स्थित होनेपर
अरति और शोककी एक स्थिति जब उदयावलिमें प्रवेश करती है तब यह जीव
अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा अरति और शोकके भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका
स्वामी है ।

§ ५७१. यहां सूत्रमें 'जो एइंदियकम्मणे जहणणण' कहा है सो इससे अभव्योंके योग्य
जघन्य सत्कर्मका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कर्म और अभव्योंके
योग्य जघन्य सत्कर्म इन दोनोंमें कोई भेद नहीं है, दोनोंका एक ही अर्थ है । सूत्रके शेष
अवयवोंका अनेक बार प्ररूपण किया है, इसलिये वे सुगम हैं । किन्तु इतनी विशेषता है कि
चौथी बार कपायके उपशमानेके सम्बन्धमें विशेष वक्तव्य होनेसे सूत्रमें 'तिण्णिवारे कसाए
उवसामेयूण' यह वचन कहा है । फिर कुछ आगे चलकर सूत्रमें 'चउत्थवारे कसाए उवसामेयूण
उवसंतकसाओ कालगदो देवो तेत्तीससागरोवमिओ जादो' जो यह कहा है सो ऐसा कहनेका
यह अभिप्राय है कि उपशमभ्रैणिमे मरकर यह अहमिन्द्र देवोंमें उत्पन्न होता है, क्योंकि अन्यत्र
उत्कृष्ट शुक्ललेख्याकी प्राप्ति असम्भव है । यह निश्चित है कि मरते समय पाई जानेवाली
लेख्या जहां सम्भव होती है मरकर जीव नियमसे वहीं उत्पन्न होता है । किन्तु दूसरी लेख्याके
विषयभूत स्थानमें नहीं उत्पन्न होता ।

शंका—यह नियम किस कारणसे है ?

समाधान—स्वभावसे ।

फिर इसके आगे सूत्रमें जो 'ताथे चेव तत्थुप्पण्णपढमसमए हस्सरदीओ ओकड्ढिदाओ
उदयादिणिक्खित्ताओ' यह कहा है सो इससे यह ज्ञापित किया है कि देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम
समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त कालतक नियमसे हास्य और रतिका ही उदय होता है । तथा फिर

चेव गियमेणुदयो त्ति जाणाविदं । अरदि-सोगा ओकड्डित्ता उदयावलियवाहिरे णिक्खित्ता त्ति एदेण वि दोण्हमेदेसिमुदयस्स तत्थच्चंताभावो सूचिदो, अण्णहा उदयावलियवाहिरे णिक्खेवणियमाभावेण असंखेज्जलोगपडिभागोणुदयावलियब्भंतरे णिसित्तदव्वं घेतूण हस्स-रईणं व जहण्णसामित्तं होज्ज ।

§ ५७२. एवमुदयाभावेणुदयावलियवाहिरे ओकड्डिय एयगोबुच्छायारेण णिक्खित्ताणमरइ-सोगाणं से काले दुसमयदेवस्स एया द्विदी उदयावलियं पविट्ठा, हेट्ठा एगसमयस्स गलणादो । ताघे तेसिं जहण्णयमोकड्डणादितिण्हं पि भ्नीणद्विदियं होइ, आवलियपविट्ठेयणिसेयस्स ततो भ्नीणद्विदियत्तेण गहणादो । एत्थुवरि सामित्ता-संकाए णत्थि संभवो, तत्थ समयं पडि णिसेयवुट्ठिं मोत्तूण जहण्णभावाणुववत्तीदो । एत्थ के वि आइरिया अत्यसंबंधमत्रलंबमाणा भणति—जहा अंतरकदपढमसमयप्पहुडि समयूणावलियमेत्तद्धाणं गंतूण रइ-सोयाणं पढमद्विदिं गालिय कालं करिय देवेसु-

सूत्रमें 'ओकड्डित्ता उदयावलियवाहिरे णिक्खित्ता' जो यह कहा है सो इस वचनके द्वारा यह सूचित किया है कि इन दोनोंका उदय वहां अत्यन्त असम्भव है । यदि ऐसा न माना जाय तो उदयावलिके बाहर ही इनके द्रव्यके निक्षेपका नियम न रहनेसे असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार उदयावलिके भीतर निक्षिप्त हुए द्रव्यकी अपेक्षा हास्य और रतिके समान इनका भी जघन्य स्वामित्व हो जाता । यतः हास्य और रतिके समान इनका जघन्य स्वामित्व नहीं बतलाया, इससे ज्ञात होता है कि देवोंमें उत्पन्न होनेपर अन्तर्मुहूर्त कालतक अरति और शोकका उदय न होकर नियमसे हास्य और रतिका ही उदय होता है ।

§ ५७२. इस प्रकार उदय न होनेसे अपकर्षित करके एक गोपुच्छाके आकाररूपसे उदयावलिके बाहर निक्षिप्त हुए अरति और शोककी एक स्थिति तदनन्तर द्वितीय समयवर्ती देवके उदयावलिके प्रविष्ट होती है, क्योंकि देवके प्रथम समयसे द्वितीय समयवर्ती हो जानेके कारण उदयावलिके नीचे एक समय गल गया है । तब अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा अरति और शोकके मीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामी होता है, क्योंकि यहां पर उदयावलिके भीतर प्रविष्ट हुआ एक निषेक अपकर्षणादिकी अपेक्षा मीनस्थितिरूपसे ग्रहण किया गया है । यदि कहा जाय कि प्रकृतमें ऊपर अर्थात् देवपर्यायके तृतीय आदि समयोंमें प्रकृत स्वामित्व सम्भव है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रत्येक समयमें एक एक निषेककी वृद्धि होती रहती है, इसलिये जघन्यपना नहीं बन सकता है । आशय यह है कि जैसे प्रकृत अहमिन्द्रके द्वितीय समयमें अरति और शोकका उदयावलिके भीतर एक निषेक था वह स्थिति अगले समयोंमें नहीं रहती है । किन्तु तीसरे समयमें उदयावलिके दो निषेक हो जाते हैं, चौथे समयमें तीन निषेक हो जाते हैं । इस प्रकार उदयावलिके उत्तरोत्तर निषेकोंकी वृद्धि होनेसे दूसरे समयके सिवा अन्यत्र प्रकृत जघन्य स्वामित्व नहीं प्राप्त होता ।

शंका—प्रकरणवशा कितने ही आचार्य यहाँ पर इस प्रकार कथन करते हैं कि जैसे अन्तर करनेके बाद प्रथम समयसे लेकर एक समय कम एक आवलिप्रमाण स्थान जाने पर रति और शोककी प्रथम स्थितिको गलानेके बाद मरकर देवोंमें उत्पन्न कराने पर लाभ दिखाई

पपणयिदे लाहो दीसइ । तं कथं ? एत्थेव कालं काऊण देवेसुपपणपढमसमए अंतरदीह-
पमाणं बहुअं होइ दीहमंतरं च पूरेमाणेण गोबुच्छाओ सण्हीकरिय संखुब्भंति, अंतर-
द्विदीसु विहज्जिय तदावुरणहमोक्कड्ढिददव्वस्स पदणादो । तम्हा एवं णिसिचिया-
वद्विदविदियसमए देवस्स उदयावल्लियव्भंतरपविट्ठेयणिसेयदव्वमोक्कड्ढणादितिण्हं पि
जहण्णभीणाद्विदियं होइ । उवसंतकसाओ पुण कालं काऊण जइ तत्थुपपइज्जइ तो
अंतरदीहपमाणं थोवं होइ, हेइदो चेव बहुअस्स कालस्स गालणादो । थोवे चांतरि
पूरिज्जमाणे अंतरणिसेगा थोवा होऊण चिट्ठंति, पुव्वुत्तदव्वस्स एत्थेव संकुडिय
पदणादो ति । तदसमंजसं, कुदो ? अंतरायामाणुसारेणोक्कड्ढिददव्वादो तप्पूरणहं
पदेसग्गग्गहोवएसादो । तं जहा—दीहयमंतरं पूरेमाणेणंतरव्भंतरणिसिचिमाणदव्वादो
संखेज्जभागहीणदव्वं घेत्तूण थोवयरंतरपूरओ तत्थ णिसेयविरयणं करेइ । कुदो एवं
णव्वदे ? विदियद्विदिपढमणिसेएण सह एयगोबुच्छणहाणुववत्तीदो ।

देता है वैसे ही प्रकृतमें करना चाहिये । उक्त प्रकारसे मरकर देवोंमें उत्पन्न करनेसे क्या लाभ है
ऐसी आशंका होने पर शंकाकर कहता है कि जो जीव इसी स्थान पर मरकर देवोंमें उत्पन्न होता
है उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें अन्तरका प्रमाण बहुत अधिक पाया जाता है । और इस
दीर्घ अन्तरमें द्रव्यका निक्षेप करते हुए गोपुच्छाओंको सूक्ष्म करके उनका निक्षेप किया जाता है,
क्योंकि अन्तरको पूरा करनेके लिये जो अपकर्षित द्रव्य प्राप्त होता है उसका अन्तरकी स्थितियोंमें
विभाग होकर पतन होता है । यतः यहाँ पर अन्तरकाल बड़ा है अतः प्रत्येक निषेकमें कम द्रव्य
प्राप्त हुआ । इसलिये इस प्रकारसे निक्षेप करके जो देव दूसरे समयमें स्थित है उसके उदयावलि
के भीतर प्रविष्ट हुआ एक निषेक द्रव्य अपकर्षण आदि तीनोंकी अपेक्षा जघन्य भीनस्थितिरूप होता
है ? किन्तु उपशान्तकषाय जीव मरकर यदि वहाँ उत्पन्न होता है तो इसके अन्तरकालका प्रमाण
कम प्राप्त होता है, क्योंकि इसके यहाँ उत्पन्न होनेसे पूर्व ही अन्तरका बहुतसा काल व्यतीत हो
चुका है । यतः इस देवको थोड़े ही अन्तरको पूरा करना है इसलिये इसके अन्तरसम्बन्धी निषेक
थोड़े होनेसे स्थूल प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो द्रव्य पहले बड़े अन्तरके भीतर विभक्त होकर प्राप्त
हुआ था वह सबका सब यहाँ इस थोड़ेसे ही अन्तरमें संकुचित होकर पतनको प्राप्त हुआ है ?

समाधान—यह सब कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा उपदेश पाया जाता है कि जैसा
अन्तरायाम होता है उसीके अनुसार उसको पूरा करनेके लिये अपकर्षित द्रव्यके कर्मपरमाणु
होते हैं । खुलासा इस प्रकार है—बड़े अन्तरको पूरा करनेवाला जीव अन्तरायाममें जितने
द्रव्यका निक्षेप करता है थोड़े अन्तरको पूरा करनेवाला जीव उसके संख्यातर्वे भाग द्रव्यको लेकर
वहाँ निषेकरचना करता है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—अन्यथा द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकके साथ एक गोपुच्छा नहीं बन
सकती, इससे ज्ञात होता है कि अन्तरायामके अनुसार ही उसको भरनेके लिये अपकर्षित द्रव्य
प्राप्त होता है ।

विशेषार्थ—ऐसा सामान्य नियम है कि देवगतिमें उत्पन्न होने पर प्रथम समयसे
लेकर अन्तर्मुहूर्त तक अरति और शोकका उदय नहीं होता, इसलिये अपकर्षण आदि तीनोंकी

❀ अरइ-सोगाणं जहणणयमुदयादो भीणद्विदियं कस्स ?

§ ५७३. सुगमं ।

❀ एइंदियकम्मणं जहणणएणं तसेसु आगदो । तत्थ संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो । चत्तारि वारे कसायमुवसामिदा । तदो एइंदिए गदो । तत्थ पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमच्छिदो जाव उवसामयसमयपबद्धा णिग्गलिदा त्ति । तदो मणुस्सेसु आगदो । तत्थ पुव्वकोडी देसूणं संजम-मणुपालियूण अपडिबदिदेणं सम्मत्तेण वेमाणिएसु देवेसु उववणो । अंतो-मुहुत्तमुववणो उक्कस्ससंकिलेसं गदो । अंतोमुहुत्तमुक्कस्सद्विदिं वंधियूण पडिभग्गो जादो तस्स आवलियपडिभग्गस्स भय-दुगुंछाणं वेदयमाणस्स

अपेक्षा इन दो प्रकृतियोंके भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व जो क्षपितकर्मांश विधिसे आकर देवोंमें उत्पन्न हुआ है उसके कहां है । उसमें भी प्रकृत जघन्य स्वामित्वके लिये ऐसा स्थल चुना गया है जहाँ इन दोनों प्रकृतियोंका केवल एक एक निषेक ही उदयावलिके भीतर प्राप्त हो । यह तभी हो सकता है जब उपशमश्रेणियों अन्तरकरण करनेके बाद अन्तरकालमें स्थित इस जीवको देवोंमें उत्पन्न कराया जाय । यद्यपि यह अवस्था अन्तरकरणके बादसे लेकर नौवें, दसवें या ग्यारहवें किसी भी गुणस्थानसे मरकर देवोंमें उत्पन्न हुए जीवके हो सकती है पर यहाँ उपशान्तमोह गुणस्थानसे मरकर जो जीव देवोंमें उत्पन्न होता है उसके बतलाई है, क्योंकि तब अरति और शोकका केवल एक निषेक ही उदयावलिमें पाया जाता है । कुछ आचार्य अन्तरकरणके बाद प्रथम स्थितिके समाप्त हो जाने पर जो जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है, उसके दूसरे समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व बतलाते हैं पर वैसा कथन करनेमें कोई विशेष लाभ नहीं है, अतः उक्त स्वामित्व ही ठीक है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । शेष कथन सुगम होनेसे यहाँ उसका निर्देश नहीं किया है ।

❀ उदयकी अपेक्षा अरति और शोकके भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ?

§ ५७३. यह सूत्र सुगम है ।

❀ कोई एक जीव एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ बहुतवार संयमासंयम और संयमको प्राप्त करके और चार बार कषायोंका उपशम करके एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ उपशामकके समय-प्रवृद्धोंके गलनेवाले पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक रहा । फिर आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । वहाँ कुछ कम एक पूर्वकोटि कालतक संयमका पालन कर उससे च्युत हुए बिना सम्यक्त्वके साथ वैमानिक देवोंमें उत्पन्न हुआ । फिर उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त बाद उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ । फिर अन्तर्मुहूर्त कालतक उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके उससे निवृत्त हुआ । इस प्रकार निवृत्त हुए इसको जब एक आवलि काल हो जाता है तब भय और जुगुप्साका भी वेदन करता

अरदि-सोगाणं जहृण्यमुदयादो भीणद्विदियं ।

§ ५७४. एदस्स सुत्तस्स अवयवत्थपरूवणा सुगमा । णवरि अपडिवदिदेण सम्मत्तेण० एवं भणिदे तत्थ पुव्वकोटि संजमशुणसेदिमशुपाळिय तदवसाणे मिच्छत्तमंगंतूण सो संजदो अपडिवददेणेव तेण सम्मत्तेण कप्पवासियदेवेसुववण्णो त्ति भणिदं होइ । किमट्ठमेसो णवुंसय-इत्थिवेदसामिओ व्व मिच्छत्तं ण णीदो त्ति ? ण, तत्थ मिच्छत्तं गच्छमाणस्स गुणसेदिणिज्जरालाहस्स अस्पुण्णत्तप्पसंगादो गुणसेदि-णिज्जराए संपुण्णत्तविहाणट्ठं दंसणमोहणीयं खविय तत्थुपाइज्जमाणत्तादो च ण मिच्छत्तमेसो णेदुं सक्किज्जे । अंतोसुहुत्तउववण्णो उक्कस्ससंकिलेसं गओ त्ति भणिदे इहि पज्जतीहि पज्जत्तयो होऊणुक्कस्ससंकिलेसेण आवूरिदो त्ति वुत्तं होइ । संकिलेसा-वूरणे पयोजणमाह—अंतोसुहुत्तमुक्कस्सट्ठिदिं वंधियूणे त्ति । उक्कस्ससंकिलेसाणुक्कस्स-ट्ठिदिमरदि-सोगाणं बंधमाणो णिरुद्धट्ठिदिमावाहापविहत्तादो आयविरहियमुक्कण्णुणाए सण्हीकरिय पुणो उक्कस्ससंकिलेसक्खएण पडिभग्गो जादो त्ति संबंधो कायव्वो । एत्थावल्लियपडिभग्गस्स सामितविहाणे पुव्वपरूविदं कारणं, तस्सेव विसेसणंतर-माह—भय-दुगुंछाणं वेदयमाणस्से त्ति, अण्णहा पयदणिसेयस्सुवरि भय-दुगुंछगोवुच्छाणं

हुआ वह जीव उदयकी अपेक्षा अरति और शोकके भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी है ।

§ ५७४. इस सूत्रके सच पदोंका कथन सुगम है । किन्तु सूत्रमें जो 'अपडिवदिदेण सम्मत्तेण' इत्यादि कहा है सो इसका यह अभिप्राय है कि मनुष्य पर्यायमे कुछ कम एक पूर्व-कोटि काल तक संयमसम्बन्धी गुणश्रेणिका पालन करके उसके अन्तमें मिथ्यात्वमें न जाकर वह संयत संयमसे च्युत हुए बिना ही सस्यक्त्वके साथ कल्पवासी देवोंमे उत्पन्न हुआ ।

शंका—जैसे नर्पुसकवेद और खीवेदके स्वामीको मिथ्यात्वमें ले गये हैं वैसे ही इसे मिथ्यात्वमें क्यों नहीं ले गये हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वमें ले जाने पर गुणश्रेणिनिर्जराका पूरा लाभ नहीं प्राप्त होता है । दूसरे पूरी गुणश्रेणिनिर्जराके प्राप्त करनेके लिये दर्शनमोहनीयकी क्षणया कराके इसे बर्हा उत्पन्न कराया है, इसलिये इसे मिथ्यात्वमें ले जाना शक्य नहीं है ।

सूत्रमें जो 'अंतोसुहुत्तउववण्णो उक्कस्ससंकिलेसं गओ' यह कहा है सो इसका यह अभिप्राय है कि ब्रह्म पर्यायियोंसे पर्याप्त होकर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ । उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होनेका प्रयोजन बतलानेके लिये सूत्रमे 'अंतोसुहुत्तमुक्कस्सट्ठिदिं वंधियूण' यह कहा है । इसका प्रकृतमें ऐसा सम्बन्ध करना चाहिये कि उत्कृष्ट संक्लेशसे अरति और शोककी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधनेवाला यह जीव आबाधाके भीतर प्रविष्ट होनेके कारण आयसे रहित विवक्षित स्थितिको उत्कर्षणके द्वारा सूक्ष्म करके फिर उत्कृष्ट संक्लेशका न्य हो जानेसे उससे निवृत्त हुआ । यहाँ निवृत्त होने पर एक आवल्लिके अन्तमे जो स्वामित्वका विधान किया है सो इसका कारण तो पहले कह आये हैं किन्तु यहाँ पर उसका दूसरा विशेषण बतलानेके लिये सूत्रमें 'भयदुगुंछाणं वेदयमाणस्स' यह कहा है । यदि यहाँ इन दो प्रकृतियोंका वेदक नहीं बतलाया

तिथ्युक्कसंकमेण जहण्णत्ताणुववत्तीदो ।

❁ एवमोघेण सव्वमोहणीयपयडीणं जहण्णमोकड्डुणादिभीणदिय-
सामित्तं परूविदं ।

§ ५७५, एत्तो एदेण सूचिदासेसपरूवणा चोइसमग्गणापडिवद्धा अजहण्ण-
सामित्तपरूवणाए समयविरोहेणाणुमग्गियव्वा ।

तदो सामित्ताणियोगदारं समत्तं ।

❁ अप्पाबहुअं ।

§ ५७६, अहियारसंभालणसुत्तमेदं ।

❁ सव्वत्थोवं मिच्छत्तस्स उक्कस्सयसुदयादो भीणद्विदियं ।

§ ५७७, कुदो ? एदस्स चेव उदयणिसेयस्स एकलग्गीभूदसंजदासंजद-संजद-
गुणसेढिसीयस्स गुणिदकम्मंसियपयडिगोवुच्छसहगदस्स गहणादो ।

❁ उक्कस्सयाणि ओकड्डुणादो उक्कड्डुणादो संकमणादो च भीण-

जातां तो प्रकृत निषेकके ऊपर भय और जुगुप्साके गोपुच्छोंका स्तिवुक संक्रमण होते रहनेसे जघन्य स्वामित्व नहीं प्राप्त हो सकता था ।

विशेषार्थ—उक्त कथनका सार यह है कि जो क्षपितकर्माशवाला जीव पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य होकर संयमका पालन करे और अन्तमें देव होकर पर्याप्त हो जानेपर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हो । फिर अन्तर्गृहृत तक अरति और शोककी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता हुआ विवक्षित निषेकको सूक्ष्म करनेके लिये उत्कर्षण करे । फिर जब वह उत्कृष्ट संक्लेशसे च्युत होकर तबसे एक आवलि कालके अन्तमें स्थित होता है और भय तथा जुगुप्साके उदयसे भी युक्त रहता है तब उसके प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है ।

* इस प्रकार ओघसे अपकर्षणादि चारोंकी अपेक्षा मोहनीयकी सब प्रकृतियों-
के भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका स्वामी कहा ।

§ ५७५, आगे इससे सूचित होनेवाली चौदह मार्गणासम्बन्धी समस्त प्ररूपणा अजघन्य स्वामित्वसम्बन्धी प्ररूपणाके साथ आगमके अनुसार जान लेनी चाहिए ।

इस प्रकार स्वामित्व अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

* अब अल्पबहुत्वका अधिकार है ।

§ ५७६, अधिकारकी सम्हाल करनेके लिये यह सूत्र आया है ।

* मिथ्यात्वका उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला उत्कृष्ट द्रव्य सबसे थोड़ा है ।

§ ५७७, क्योंकि यहाँ मिथ्यात्वका ऐसा उदय निषेक लिया गया है जो गुणितकर्माशकी प्रकृतिगोपुच्छके साथ संयतासंयत और संयतके युगपत् प्राप्त हुए गुणश्रेणिसीर्वरूप है ।

* मिथ्यात्वके अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमणकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले

द्विदियाणि तिग्णिण वि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि ।

§ ५७८. कि कारणं ? समयूणावलयमेत्तदंसणमोहक्खवणगुणसेट्ठिगोबुच्छ-
पमाणत्तादो । एत्थ गुणगारपमाणं तप्पाओग्गपत्तिदोवमासंखेज्जदिभागमेत्तं । कुदो ?
संजमासंजम-संजमगुणसेट्ठीहितो दंसणमोहक्खवणगुणसेट्ठीए असंखेज्जगुणत्तदंसणादो ।

❀ एवं सम्मामिच्छुत्त-पण्यारसकसाय-छण्णोक्कसायाणं ।

§ ५८६. जहा मिच्छत्तस्स चउण्हं पदानं थोववहुत्तगवेसणा कया एवमेदेसिं
पि कम्माणमुक्कस्सत्त्पावहुअपरिक्खा कायच्चा, विसेसाभावादो ।

❀ सम्मत्तस्स सब्वत्थोवमुक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं ।

§ ५८०. चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयसव्वपच्छिमगुणसेट्ठीसीसयस्स
गहणादो ।

❀ सेसाणि तिग्णिण वि भीणद्विदियाणि उक्कस्सयाणि तुल्लाणि
विसेसाहियाणि ।

§ ५८१. कुदो तत्तो एदेसिं विसेसाहियत्तं ? ण, समयूणावलयमेत्तदुचरिमादि-
गुणसेट्ठिदव्वस्स तदसंखेज्जदिभागस्स तत्थ पवेसुवलंभादो ।

उत्कृष्ट द्रव्य ये तीनों परस्पर तुल्य होते हुए भी उससे असंख्यातगुणे हैं ।

§ ५७८. इसका क्या कारण है ? क्योंकि वह एक समय कम एक आवलिप्रमाण दर्शनमोह-
की क्षपणासम्बन्धी गुणश्रेणियोंपुच्छाप्रमाण है । यहाँ गुणकारका प्रमाण तत्रायोग्य पत्यका
असंख्यातवर्णों भाग लेना चाहिये, क्योंकि संयमासंयम और संयमकी गुणश्रेणियोंसे दर्शनमोहकी
क्षपणासम्बन्धी गुणश्रेणि असंख्यातगुणी देखी जाती है ।

❀ इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व, पन्द्रह कषाय और छह नोकपायोंकी अपेक्षा
अल्पबहुत्व है ।

§ ५७९. जैसे मिथ्यात्वके चार पदोंके अल्पबहुत्वका विचार किया वैसे ही उक्त कर्मोंके
भी उत्कृष्ट अल्पबहुत्वका विचार करना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है ।

❀ सम्यक्त्वका उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला उत्कृष्ट द्रव्य सबसे थोड़ा है ।

§ ५८०. क्योंकि जिसने दर्शनमोहनीयकी पूरी क्षपणा नहीं की है उसके अन्तिम समयमें
जो सबसे अन्तिम गुणश्रेणियोंका द्रव्य विद्यमान रहता है उसका यहाँ ग्रहण किया गया है ।

❀ सम्यक्त्वके श्रेण तीनों ही भीनस्थितिवाले उत्कृष्ट द्रव्य परस्पर तुल्य होते
हुए भी उससे विशेष अधिक हैं ।

§ ५८१. शंका—उससे ये विशेष अधिक क्यों हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि द्विचरम समयसे लेकर एक समय कम एक आवलिप्रमाण
द्रव्यका यहाँ प्रवेश पाया जाता है जो कि पूर्वोक्त द्रव्यके असंख्यातवर्णों भागप्रमाण है, इसलिये
इसे विशेष अधिक कहा है ।

❀ एवं लोभसंजलण-तिरिणवेदाणं ।

§ ५८२. जहा सम्मत्तस्स अप्पावहुअं परुविदमेवं लोभकसाय-संजलण-तिवेदाणमणूणाहियं परुवेयव्वं, विसेसाभावादो । एवमुक्कस्सप्पावहुअमोघेण समत्तं । एत्थादेसपरुवणा च जाणिय कायव्वा । तदो उक्कस्सयं समत्तं ।

❀ एत्तो जहण्णयं भ्मीणद्विदियं ।

§ ५८३. एत्तो उवरि जहण्णभ्मीणद्विदियस्स अप्पावहुअं भणिस्सामो त्ति पइज्जासुत्तमेदं ।

❀ मिच्छत्तस्स सव्वत्थोवं जहण्णयमुदयादो भ्मीणद्विदियं ।

§ ५८४. कुदो ? सासणपच्छायदपढमसमयमिच्छादिद्विणो ओदारियावलिय-मेत्तसण्हयाणं गोबुच्छाणं चरिमणिसेयस्स पयदजहण्णसामित्तविसईकयस्स गहणादो ।

❀ सेसाणि तिरिण वि भ्मीणद्विदियाणि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि ।

§ ५८५. कुदो ? संपुण्णावलियमेत्ताणमुदीरणागोबुच्छाणमिह गहणादो । को गुणगारो ? आवलिया सादिरेया । सेसं सुगमं । एदेणेव गयत्थाणमपुण्णं करेइ—

* इसी प्रकार लोभसंज्वलन और तीन वेदोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व है ।

§ ५८२. जिस प्रकार सम्यक्त्वका अल्पबहुत्व कहा है उसी प्रकार लोभसंज्वलन और तीन वेदोंका न्यूनाधिकताके विना अल्पबहुत्व कहना चाहिये, क्योंकि उससे इसमे कोई विशेषता नहीं है । इस प्रकार ओघसे उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । यहाँ आदेशा प्ररूपणाको जानकर उसका कथन करना चाहिये । तब जाकर उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त होता है ।

* इससे आगे जघन्य भीनस्थितिके द्रव्यका अल्पबहुत्व बतलाते हैं ।

§ ५८३. अब इस उत्कृष्ट अल्पबहुत्वके बाद भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यका अल्पबहुत्व कहते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञा सूत्र है ।

* मिथ्यात्वका उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला उत्कृष्ट द्रव्य सबसे थोड़ा है ।

§ ५८४. क्योंकि सासादन गुणस्थानसे पीछे लौटकर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके जो उदयावलि संज्ञावाला गोपुच्छाएँ हैं उनमेसे यहाँ पर प्रकृत जघन्य स्वाभित्वका विषयभूत अन्तिम निषेक लिया गया है ।

* मिथ्यात्वके शेष तीनों ही भीनस्थितिवाले द्रव्य परस्परमें तुल्य होते हुए भी उससे असंख्यातगुणे हैं ।

§ ५८५. क्योंकि यहाँ पर सम्पूर्ण आवलिप्रमाण उदीरणा गोपुच्छाओंका ग्रहण किया गया है ।

शंका—गुणकारका क्या प्रमाण है ?

समाधान—साधिक एक आवलि गुणकारका प्रमाण है ।

शेष कथन सुगम है । अब इसीसे जिन प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व ज्ञात हो जाता है उसका प्रमुखतासे निर्देश करते हैं—

❀ जहा मिच्छत्तस्स जहण्णयमप्पाबहुअं तहा जेसिं कम्मंसाण-
मुदीरणोदओ अत्थि तेसिं पि जहण्णयमप्पाबहुअं ।

§ ५८६. जहा मिच्छत्तस्स चत्तारि पदाणि असिसयूण जहण्णप्पाबहुअं
परुविदं तहा सेसाणं पि उदीरणोदइल्लाणं कम्मणं णेद्व्वमिदि सुत्तत्थसंगहो ।

❀ अणंताणुबंधि-इत्थि-ण्वुंसयवेद-अरइ-सोगा त्ति एदे अट्ट कम्मंसे
मोत्तूण सेसाणमुदीरणोदयो ।

§ ५८७. एत्थ उदीरणए चेव उदयो उदीरणोदओ त्ति सावहारणो सुत्तावयवो,
अण्णहा अणंताणुबंधिआदीणं परिवज्जणाणुववत्तीदो । जेसिं कम्मंसाणमुदयावलिक्खंभंतरे
अंतरकरणेण अच्चंतमसंताणं कम्मपरमाणूणं परिणामविसेसेणासंखेज्जलोगपडिभागे-
णोदीरिदाणमणुहवो तेसिमुदीरणोदओ त्ति एसो एत्थ भावत्थो । ण चाणंताणुबंधि-
आदीणमेवंविहो उदीरणोदयो संभवइ, तत्थ तदणुवत्वंभादो । तदो सुत्तुत्तपयडीओ अट्ट
मोत्तूण सम्मत्त-सम्माभिच्छत्त-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुगुंआणमुदीरणए
चेव सुद्धाए पत्तजहण्णसामित्ताणं मिच्छत्तस्सेव अप्पाबहुअमणूणाहियं वत्तव्वमिदि सिद्धं ।

❀ जेसिं ण उदीरणोदयो तेसिं पि सो चेव आत्तावो अप्पाबहुअस्स
जहण्णयस्स ।

* जैसे मिथ्यात्वका जघन्य अल्पबहुत्व है वैसे ही जिन कर्मों का उदीरणोदय
होता है उनका भी जघन्य अल्पबहुत्व जानना चाहिये ।

§ ५८६. जैसे मिथ्यात्वका चार पदोंकी अपेक्षा जघन्य अल्पबहुत्व कहा है वैसे
उदीरणोदयवाले शेष कर्मों का भी जघन्य अल्पबहुत्व जानना चाहिये यह इस सूत्रका
समुदायार्थ है ।

* अनन्तानुबन्धी, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोक इन आठ कर्मों को
छोड़कर शेष कर्म उदीरणोदयरूप हैं ।

§ ५८७. यहाँ पर उदीरणा ही उदयरूपसे विवक्षित है इसलिये उदीरणोदय यह सूत्रवचन
अवधारण सहित है । अन्यथा अनन्तानुबन्धी आदिका निषेध नहीं किया जा सकता है । अन्तर
कर देनेके कारण उदयावलि के भीतर जिन कर्मों के कर्मपरमाणु बिलकुल नहीं पाये जाते हैं,
परिणामिवशेषके कारण असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिभागके अनुसार उदीरणाको प्राप्त हुए उनका
अनुभव करना उदीरणोदय है यह इसका अभिप्राय है । अनन्तानुबन्धी आदिका इस प्रकार
उदीरणोदय सम्भव नहीं है, क्योंकि इन प्रकृतियोंका उदीरणोदय नहीं पाया जाता है । इसलिये
सूत्रोक्त आठ प्रकृतियोंके सिवा जो सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, वारइ कषाय, पुरुषवेद, हास्य,
रति, भय और जुगुप्सा प्रकृतियों हैं इनकी शुद्ध उदीरणा होने पर ही जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता
है इसलिये इनका अल्पबहुत्व न्यूनाधिकताके बिना मिथ्यात्वके समान कहना चाहिये यह बात
सिद्ध हुई ।

* तथा जिनका उदीरणोदय नहीं होता उनका भी जघन्य अल्पबहुत्वविषयक
आलाप उसी प्रकार है ।

§ ५८८. पुवुत्तासेसपयडीणमुदीरणोदङ्गलाणं जो जहण्णप्पावहुआलावो सो चेव उदीरणोदयविरहिदपयडीणं पि कायव्वो, विसेसाभावादो । होउणामाणात्ताणु-बंधीणमेसो अप्पावहुआलावो, सामित्ताणुसारित्तादो । ण वुण इत्थि-णवुंसयवेदाणं, तत्थ सामित्ताणुसरणे तिण्हं पि जहण्णभीणट्ठिदियादो उदयादो जहण्णभीणट्ठिदियस्स असंखेज्जगुणत्तदंसणादो । ण एस दोसो, तहाणव्वुवगमादो । तहा चेव उवरि पक्खंतरस्स परुविससमाणादो । किंतु त्थिउक्कसंकमपविवक्खिय समूहेणेव उदयादो वि जहण्णभीणट्ठिदियस्स वेखावट्ठिसागरोवमाणि भमाडिय सामित्तं दायव्वमिदि एदेणा-हिप्पाएण पयट्टमेदं । एदम्मि णए अवलंबिज्जमाणे उदयादो जहण्णभीणट्ठिदियं पेक्खियुण सेसाणं समयूणावलियगुणयारदंसणादो ।

§ ५८८. उदीरणोदयवाली पूर्वोक्त सच प्रकृतियोंका जो जघन्य अल्पबहुत्व कहा है, उदीरणोदयसे रहित प्रकृतियोंका भी उसी प्रकार अल्पबहुत्व समझना चाहिये, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है ।

शंका—अपने स्वामित्वके अनुसार होनेसे अनन्तानुबन्धियोंका यह अल्पबहुत्ववालाप रहा आवे, परन्तु स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका यह अल्पबहुत्व नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वहाँ पर स्वामित्वका अनुसरण करने पर जो अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा भीनस्थितिक जघन्य द्रव्य है उससे उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिक जघन्य द्रव्य असंख्यातगुणा देखा जाता है ।

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्यों वैसा स्त्रीकार नहीं किया है । पदान्तर रूपसे आगे इसी बातका कथन भी करेंगे । किन्तु स्तित्तुक्क शंक्रमणकी विवक्षा न करके समूहरूपसे ही उदयकी अपेक्षा भी जघन्य भीनस्थितिवाले द्रव्यका स्वामित्व दो छयासठ सागर काल तक भ्रमण कराके देना चाहिये इस प्रकार इस अभिप्रायसे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है । इस नयका अवलम्बन करने पर उदयकी अपेक्षा जघन्य भीनस्थितिवाले द्रव्यको देखते हुए शेष भीनस्थिति-वाले द्रव्योंका गुणकार एक समय कम एक आवलिप्रमाण देखा जाता है ।

विशेषार्थ—जो उपशमसम्यग्दृष्टि छह आवलि कालके शेष रहने पर सासादनमें जाता है और फिर वहाँसे मिथ्यात्वमें जाता है उसके प्रथम समयमें अपकर्षणादि तीनकी अपेक्षा और एक आवलि कालके अन्तमें उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य होता है । यतः अपकर्षणादि तीनकी अपेक्षा जो भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य प्राप्त होता है वह उदयावलिके निषेक प्रमाण होता है और उदयकी अपेक्षा जो भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य प्राप्त होता है वह उदयावलिके अन्तिम निषेक प्रमाण होता है, इसलिये यहाँ उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यसे अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा प्राप्त हुआ भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य असंख्यातगुणा नतलाया है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय, पुरुषवेद, दास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन प्रकृतियोंका चारोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य भी इसी प्रकार उदीरणोदयके होने पर ही प्राप्त होता है, इसलिये इनका अल्पबहुत्व भी पूर्वोक्त प्रकारसे प्राप्त हो जाता है । अब यहाँ शेष आठ प्रकृतियों से इनमेंसे चार अनन्तानुबन्धी प्रकृतियों तो ऐसी हैं जिनका उक्त चारोंकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व अपने उदयकालमें ही प्राप्त होता है, इसलिये उनका भी अल्पबहुत्व उक्त प्रकारसे बन जाता है । शेष चारमें भी अरति और शोक ऐसी

§ ५२६. संपहि एदेण सुत्तेणारइ-सोयाणं पि उदीरणोदएण विणा पत्तजहण्ण-
त्रामित्ताणमप्पणाए अइप्पसत्ताए तत्थ विसेसपट्ठप्पायणइमुत्तरसुत्तमाह—

❊ एवरि अरइ-सोगाणं जहण्णयमुदयादो भीणट्ठिदियं थोवं ।

§ ५२७. कुदो ? एयणिसेयपमाणत्तादो ।

❊ सेसाणि तिणिए वि भीणट्ठिदियाणि तुल्लाणि विसेसाहियाणि ।

§ ५२१. जइ वि तिणहमेदासि पि भीणट्ठिदियस्स खवियकम्मंसियपच्छायदोव-
अंतकसायचरदेवविदियसमए उदयावलियपविट्ठेयणिसेयं चेव घेत्तूण जहण्णसामित्तं
जादं तो वि अंतोमुत्तमुवरि गंतूण जादजहण्णभावादो पुव्विल्लेयणिसेयदब्बादो
विसेसाहियत्तं ण विरुज्जदे, ओइण्णद्धाणमेत्तगोबुच्छविसेसाणमहियत्तदंसणादो ।
एवमहिप्पायंतरमवलंबिय अप्पावहुअमेदेसि परुविय संपहि सामित्ताणुसारेण
थिवुकसंकमं पहाणीकाऊणप्पावहुअपरुवणट्ठमिदमाह—

प्रकृतियों हैं जिनके विषयमें उक्त नियम लागू नहीं होता यह बात अगले सूत्र द्वारा स्वयं चूर्णि-
सूत्रकार स्पष्ट करनेवाले हैं। किन्तु स्त्रीवेद और नपुंसकवेद ये दो प्रकृतियाँ ऐसी हैं जिनमें उक्त
प्रकारसे अल्पबहुत्व घटित नहीं होता है।

§ ५२६. अब इस सूत्र द्वारा उदीरणोदयके विना अरति और शोक इन प्रकृतियोंमें भी
जघन्य स्वामित्वका अतिप्रसंग प्राप्त हुआ, इसलिये इस विषयमें विशेष कथन करनेके लिये
आगेका सूत्र कहते हैं—

❊ किन्तु इतनी विशेषता है कि अरति और शोकका उदीयकी अपेक्षा भीन-
स्थितिवाला जघन्य द्रव्य थोड़ा है।

§ ५२७. क्योंकि इसका प्रमाण एक निषेक है।

❊ शेष तीनों भीनस्थितिवाले द्रव्य तुल्य होते हुए भी उससे, विशेष
अधिक हैं।

§ ५२१. यद्यपि क्षपितकर्माशिकी विधिसे आकर जो उपशान्तकषायचर देव हुआ है
उसके दूसरे समयमें उदयावलिके भीतर प्रविष्ट हुए एक निषेककी अपेक्षा अपकर्षणादि तीनोंसे
ही भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व होता है तथापि अन्तमुहूर्त ऊपर जाकर उदयकी
अपेक्षा जघन्यभावको प्राप्त हुए पूर्वोक्त एक निषेकके द्रव्यसे इसे विशेष अधिक माननेमें कोई
विरोध नहीं आता है, क्योंकि जितने स्थान नीचे उतरकर अपकर्षणादिकी अपेक्षा जघन्य
स्वामित्व प्राप्त है वहाँ उतने गोपुच्छविशेषोंकी अधिकता देखी जाती है।

विशेषार्थ—उक्त कथनका यह आशय है कि अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा जघन्य
स्वामित्व उपशान्तकषायचर देवके दूसरे समयमें प्राप्त हो जाता है और उदयकी अपेक्षा जघन्य
स्वामित्व अन्तमुहूर्त बाद प्राप्त होता है। अब यहाँ जितना काल आगे जाकर उदयकी अपेक्षा
जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता है उतने गोपुच्छविशेषोंकी अर्थात् चर्योंकी हानि हो जाती है, अतः
अपकर्षणादि तीनोंकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जो जघन्य द्रव्य होता है वह उदयकी अपेक्षा
भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यसे साधिक होता है यह सिद्ध हुआ।

❀ अहवा इत्थिवेद-एवुंसयवेदाणं जहणयाणि ओकड्डुणादीणि तिणिए वि भीणट्टिदियाणि तुल्लाणि थोवाणि ।

§ ५६२. जहाकमेण वेच्चावट्टिसागरोवम-तिपलिदोवमग्भहियवेच्चावट्टिसागरो-वमाणि भमाडिय सामित्तविहाणादो ।

❀ उदयादो जहणयं भीणट्टिदियमसंखेज्जगुणं ।

§ ५६३. पुव्वुत्तकालमगालिय सामित्तविहाणादो । तं पि कुदो ? तिथुक्कसंकम-बहुत्तभयादो ।

❀ अरइ-सोगाणं जहणयाणि तिणिए वि भीणट्टिदियाणि तुल्लाणि थोवाणि ।

§ ५६४. उवसंतकसायचरविदियसमयदेवस्स उदयावलियपविट्ठएयणिसेयस्स सव्वपयत्तेण जहणणीकयस्स गहणादो ।

❀ जहणयमुदयादो भीणट्टिदियं विसेसाहियं ।

इस प्रकार इन सब प्रकृतियोंका अभिप्रायान्तरकी अपेक्षा अल्पबहुत्वका कथन करके अब स्वामित्वके अनुसार स्तितुकसंक्रमणको प्रधान करके अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* अथवा स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा भीन-स्थितिवाले जघन्य द्रव्य परस्पर तुल्य होते हुए भी थोड़े हैं ।

§ ५६२. क्योंकि क्रमसे स्त्रीवेदकी अपेक्षा दो छ्यासठ सागर काल तक और नपुंसक-वेदकी अपेक्षा तीन पल्य अधिक दो छ्यासठ सागर काल तक भ्रमण कराके इन दोनों वेदोंके स्वामित्वका विधान किया गया है ।

* उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य उससे असंख्यातगुणा है ।

§ ५६३. क्योंकि पूर्वोक्त कालको न गलाकर स्वामित्वका विधान किया गया है ।

शंका—ऐसा क्यों किया गया ।

समाधान—स्तितुकसंक्रमणके बहुत द्रव्यके प्राप्त होनेके भयसे ऐसा किया गया है ।

विशेषार्थ—स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य क्रमसे दो छ्यासठ सागर पूर्व और तीन पल्य अधिक दो छ्यासठ सागर पूर्व प्राप्त होता है और अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य उक्त काल बाद प्राप्त होता है, इसलिये अपकर्षण आदिकी अपेक्षा प्राप्त हुए भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्यसे उदयकी अपेक्षा प्राप्त हुआ भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य असंख्यातगुणा बतलाया है ।

* अरति और शोकके अपकर्षण आदि तीनकी अपेक्षा भीनस्थितिवाले जघन्य द्रव्य परस्पर तुल्य होते हुए भी थोड़े हैं ।

§ ५६४. क्योंकि जो उपशान्तकषायचर देव दूसरे समयमें स्थित है उसके उदयावलिमें प्रविष्ट हुए और सब प्रयत्नसे जघन्य किये गये एक निषेकका यहाँ पर ग्रहण किया गया है ।

* उदयकी अपेक्षा भीनस्थितिवाला जघन्य द्रव्य उससे विशेष अधिक है ।

§ ५६५. कुदो ? हस्स-रइथिउक्कसंकमेण सह पत्तोदयएयणिसेयग्गहणादो । केचियमेत्तो विसेसो ? अंतोयुहुत्तमेत्तगोबुच्चविसेसेहिं ऊणहस्स-रइथिउक्कसंकममेत्तो ।

§ ५६६. संपहि एत्थुइंसे सव्वेसिमत्थाहियाराणं साहारणभूदमप्पावहुअदंडयं मज्झदीवयभावेण परूवइस्सामो । तं जहा—सव्वत्थोवो सव्वसंकमभागहारो । किं कारणं ? एगरूवपमाणत्तादो । गुणसंकमभागहारो असंखेज्जगुणो । किं कारणं ? पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपमाणत्तादो । ओक्कङ्कुणभागहारो असंखेज्जगुणो । एसो वि पल्लिदो० असंखेज्जदिभागो चेव, किंतु पुत्विबल्लदो एसो असंखेज्जगुणो ति गुरुवएसो । अधापवत्तभागहारो असंखेज्जगुणो । एदस्स कारणं सुत्तणिबद्धमेव । तं कथं ? द्विदिअतिए मिच्छत्तस्स उक्कस्सअधाणिसेयद्विदिपत्तयसंबंधेण ओक्कङ्कुणगाए कम्मस्स अवहारकालो थोवो । अधापवत्तसंकमेण कम्मस्स अवहारो असंखेज्जगुणो ति भणिहिदि । तदो सिद्धमेदस्सासंखेज्जगुणत्तं । जोगगुणगारो असंखेज्जगुणो । एदस्स कारणं वुचदे । तं जहा—वेदगे ति अणियोगदारे कोहसंजलणपदेसग्गस्स जहण्णबंध-संकम-उदय-उदीरण-संतकम्माणि अस्सिगुणप्पावहुअं भणिहिदि । तं कथं ? कोहसंजलण-

§ ५६५. क्योंकि हास्य और रतिका स्तितुकसंक्रमणसे जो द्रव्य प्राप्त होता है उसके साथ झरति और शोकके उदयको प्राप्त हुए एक निषेकका यहाँ पर ग्रहण किया गया है ।

शंका—कितना विशेष अधिक है ?

समाधान—हास्य और रतिका स्तितुकसंक्रमणसे जो द्रव्य प्राप्त होता है उसमेंसे अन्तर्ग्रहणप्रमाण गोपुच्छविशेषोंके कम कर देनेपर जो शेष रहे उतना विशेष अधिक है ।

§ ५६६. अब इस स्थान पर जो सभी अर्थाधिकारोंमें साधारण है ऐसे अल्पबहुत्वदण्डको मध्यदीपकभावसे दिखलाते हैं । यथा—सर्वसंक्रमणभागहार सबसे थोड़ा है, क्योंकि उसका प्रमाण एक है । इससे गुणसंक्रमणभागहार असंख्यातगुणा है, क्योंकि यह पल्पके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इससे अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार असंख्यातगुणा है । यद्यपि यह भी पल्पके असंख्यातवें भागप्रमाण है तो भी पूर्वोक्त भागहारसे यह असंख्यातगुणा है ऐसा गुरुका उपदेश है । इससे अधःप्रवृत्तसंक्रमणभागहार असंख्यातगुणा है । इसके असंख्यातगुणे होनेके कारणका निर्देश सूत्रमें ही किया है ।

शंका—सो कैसे ?

समाधान—आगे स्थित्यन्तिक अधिकारमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अधःनिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके सव्वन्धसे अपकर्षण-उत्कर्षणसे प्राप्त हुए कर्मका अवहारकाल थोड़ा और अधःप्रवृत्त संक्रमणसे प्राप्त हुए कर्मका अवहारकाल असंख्यातगुणा है ऐसा कहेंगे, इसलिये अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे अधःप्रवृत्तभागहार असंख्यातगुणा है यह सिद्ध होता है । अधःप्रवृत्तसंक्रमणभागहारके प्रमाणसे योगगुणकार असंख्यातगुणा है । अब इसका कारण कहते हैं । यथा—वेदक नामके अनुयोगद्वारमें क्रोध संज्वलनकर्मका जघन्य बन्ध, जघन्य संक्रम, जघन्य उदय, जघन्य उदीरण और जघन्य सत्कर्म इनकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहेंगे । यथा—'क्रोधसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशो-

जहणपदेसुदीरणा थोवा, उदयो असंखेज्जगुणो, वंधो असंखेज्जगुणो, संकमो असंखेज्जगुणो, संतकम्मं असंखेज्जगुणमिदि । एत्थ जहणवंधो त्ति उत्ते एगेइंदियसमयपवद्धयेत्तं गहिदं । जहणसंकमो त्ति उत्ते एगमेइंदियसमयपवद्धं द्विविय पुणो योलमाणजहणजोगेण वद्धपंचिंदियसमयपवद्धयिच्छामो त्ति जोगगुणगारमेदस्स गुणगारत्तेण ठविय पुणो वि एदस्स हेट्ठा अधापवत्तभागहारं ठविय ओवट्ठिदे जहणसंकमदव्वमागच्छइ । जइ एत्थ जोगगुणगारो थोत्रो होज्ज तो जहणसंकमदव्वस्सुवरि जहणवंधो असंखेज्जगुणो जाएज्ज । ण च एवं, वंधस्सुवरि संकमो असंखेज्जगुणो त्ति पट्ठिदत्तादो । तम्हा जोगगुणगारो अधापवत्तभागहारादो असंखेज्जगुणो त्ति सिद्धं ? कम्मट्ठिदिणाणागुणहाणिसलागाओ असंखेज्जगुणाओ । कुदो ? किंचूणपल्लिदोवमद्धछेदणयपमाणत्तादो । एदस्स कारणस्स णिरुत्तीकरणमिदं । तं जहा—दिवड्डुगुणहाणिं ठविय जोगगुणगारेण गुणिदे पल्लिदो० असंखे०भागमेत्तो चेव रासी उप्पज्जइ । पुणो एत्थ जोगगुणगारमवणिय तं चेव गुणिज्जमाणं दिवड्डुगुणहाणिपमाणं ठविय जइ पाणागुणहाणिसलागाहि गुणिज्जइ तो दिवड्डुकम्मट्ठिदिमेत्तो रासी उप्पज्जदि त्ति । एदेण जाणिज्जदे जहा जोगगुणगारादो कम्मट्ठिदिणाणागुणहाणिसलागाओ असंखेज्जगुणाओ त्ति । पल्लिदोवमस्स छेदणया विसेसा । केत्तियमेत्तो विसेसो ? पल्लिदोवमवग्गसलागछेदणयमेत्तो । कुदो एदं परिच्छिज्जदे ? परमगुरुवएसादो ।

दीरणा थोड़ी है । उससे उदय असंख्यातगुणा है । उससे वन्ध असंख्यातगुणा है । उससे संक्रम असंख्यातगुणा है और उससे सत्कर्म असंख्यातगुणा है । यहाँ जघन्य वन्ध ऐसा कहनेपर उससे एकेन्द्रियके समयप्रवद्धप्रमाण द्रव्यका ग्रहण किया है । जघन्य संक्रम ऐसा कहनेपर इस प्रकारसे प्राप्त हुए संक्रम द्रव्यका ग्रहण किया है । यथा—एकेन्द्रियके एक समयप्रवद्धको स्थापित करो । फिर घोलमान जघन्य योगके द्वारा बंधे गये पञ्चेन्द्रिय समयप्रवद्धको लाना चाहते हैं, इसलिये इसके गुणकाररूपसे योग गुणकारको स्थापित करो । फिर इसके नीचे अधःप्रवृत्तभागहारको स्थापित करके भाग देनेपर जघन्य संक्रमद्रव्य आता है । यदि यहाँ योगगुणकार अधःप्रवृत्तभागहारसे अल्प होता तो जघन्य संक्रमद्रव्यसे जघन्य वन्ध असंख्यातगुणा हो जाता । पर ऐसा है नहीं, क्योंकि सूत्रमें वन्धसे संक्रम असंख्यातगुणा बतलाया है, इसलिये अधःप्रवृत्तभागहारसे योगगुणकार असंख्यातगुणा है यह सिद्ध हुआ । योगगुणकारसे कर्मस्थितिके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानिशलाकाएँ असंख्यातगुणी हैं, क्योंकि वे कुछ कम पल्यके अर्धच्छेदप्रमाण हैं । इस कारणका खुलासा इस प्रकार है—डेढ़ गुणहानिको रखकर योगगुणकारसे गुणित करनेपर पल्यके असंख्यातवर्षे भागप्रमाण ही लब्ध राशि आती है । फिर यहाँ योगगुणकारको अलग करके और गुण्यमान उसी डेढ़ गुणहानिप्रमाण राशिको स्थापित करके यदि नानागुणहानिशलाकाओंसे गुणा किया जाता है तो डेढ़गुणी कर्मस्थितिप्रमाण राशि उत्पन्न होती है । इससे ज्ञात होता है कि योगगुणकारसे कर्मस्थितिके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानिशलाकाएँ असंख्यागुणी हैं । कर्मस्थितिके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानिशलाकाओंसे पल्यके अर्धच्छेद विशेष अधिक हैं ।

शंका—कितने अधिक हैं ?

समाधान—पल्यकी बर्गशलाकाओंके जितने अर्धच्छेद हों उतने अधिक हैं ।

पलिदोवमपढमवग्गमूलं असंखेज्जगुणं । सुगममेत्थ कारणं । एगपदेसगुणहाणिट्ठाणंतर-
मसंखेज्जगुणं । कारणं णाणागुणहाणिसत्तागाहि कम्मडिदीए ओवट्टिदाए असंखेज्जाणि
पलिदोवमपढमवग्गमूलाणि आगच्छंति च्चि । दिवड्डुगुणहाणिट्ठाणंतरं विसेसाहियं ।
के० विसेसो ? दुभागमेत्तेण । गिसेयभागहारो विसेसो । के०मेत्तेण ? तिभागमेत्तेण ।
अण्णोण्णवत्थरासी असंखे०गुणो । एत्थ कारणं सुगमं । पलिदोवममसंखेज्जगुणं ।
सुगमं । विज्झादसंक्रमभागहारो असंखेज्जगुणो । किं कारणं ? अंगुलस्स असंखे०-
भागप्रमाणत्तादो । उव्वेक्खणभागहारो असंखेज्जगुणो । दोण्हमेदेसिमांगुलस्सासंखे०-
भागप्रमाणत्ताविसेसे वि पदेससंक्रमप्पावहुअमुत्तादो एदस्सासंखेज्जगुणमवग्गममेदो ।
अणुभागवग्गमाणं णाणापदेसगुणहाणिसत्तागाओ अणंतगुणाओ । किं कारणं ?
अभवसिद्धिर्हंतो अणंतगुणं सिद्धाणमणंतभागप्रमाणत्तादो । एगपदेसगुणहाणि-

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—परम गुरुओंके उपदेशसे जाना जाता है ।

पल्यके अर्धच्छेदोंसे पल्यका प्रथम वर्गमूल असंख्यातगुणा है । इसका कारण सुगम है ।
इससे एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणा है, क्योंकि कर्मस्थितिमें नानागुणाहानि-
शलाकाओंका आग देनेपर पल्यके असंख्यात प्रथमवर्गमूल प्राप्त होते हैं । एकप्रदेशगुणहानि-
स्थानान्तरसे डेढ़गुणहानिस्थानान्तर विशेष अधिक है ।

शंका—कितना अधिक है ?

समाधान—दूसरा भाग अधिक है ।

डेढ़गुणहानिस्थानान्तरसे निषेकभागहार विशेष अधिक है ।

शंका—कितना अधिक है ?

समाधान—तीसरा भाग अधिक है ।

निषेकभागहारसे अन्योन्याभ्यस्तराशि असंख्यातगुणी है । इसका कारण सुगम है ।
इससे पल्य असंख्यातगुणा है । इसका भी कारण सुगम है । इससे विध्यातसंक्रमभागहार
असंख्यातगुणा है ।

शंका—इसके असंख्यातगुणे होनेका क्या कारण है ?

समाधान—क्योंकि विध्यातसंक्रमभागहार अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है,
इसलिये इसे पल्यसे असंख्यातगुणा वतलाया है ।

विध्यातसंक्रमभागहारसे उद्वेलनभागहार असंख्यातगुणा है । यद्यपि ये दोनों ही भागहार
अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं तो भी प्रदेशसंक्रमअल्पवहुत्वविषयक सूत्रसे ज्ञात होता
है कि विध्यातसंक्रमभागहारसे उद्वेलनभागहार असंख्यातगुणा है । उद्वेलनभागहारसे अनुभाग
वर्गणाओंकी नानाप्रदेशगुणहानिशलाकाएँ अनन्तगुणी हैं, क्योंकि ये अभव्योसे अनन्तगुणी
और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण हैं । इससे एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर अनन्तगुणा है ।

द्वाणंतरमणंतगुणं । दिवद्भुगुणहाणिद्वाणंतरं विसेसाहियं । णिसेयभागहारो विसेसो ।
अण्णोण्णब्भत्थरासी अणंतगुणो त्ति ।

एवमण्णावहुए समत्ते भ्नीणमभ्नीणं ति पदं समत्तं होदि ।

द्विदियं ति चूलिया

भदं सम्महंसणणाणचरित्ताणममलसाराणं ।

जिणवरवयणमहोवहिगब्भसमब्भूयरयणाणं ॥

सुहुमयतिहुवणसिहरद्विदियंतियसिद्धवदियं वीरं ।

इणमो पणमिय सिरसा वोच्छं द्विदियं ति अहियारं ॥१॥

❁ द्विदियं ति जं पदं तस्स विहासा ।

§ ५६७. एत्तो उवरि द्विदियं ति जं पदं मूलगाहाए चरिमावयवभूदं वा
सद्देण सूचिदासेसविसेसपरुवणं तस्स विहासा अहिकीरदि त्ति सुत्तथसंबंधो । तत्थ
किं द्विदियं णाम ? द्विदोओ गच्छइ ति द्विदियं पदेसगं द्विदिपत्तयमिदि उत्तं होदि ।

इससे द्व्यर्धगुणहानिस्थानान्तर विरोध अधिक है। इससे निपेकभागहार विशेष अधिक है।
इससे अन्योन्याभ्यस्तराशि अनन्तगुणी है।

इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त हो जानेपर गाथामें आये हुए

‘भ्नीणमभ्नीणं’ इस पदकी व्याख्या समाप्त होती है।

स्थितिग चूलिका

जैसे महोदधिके गर्भसे उत्तमोत्तम रत्न निकलते हैं उसी प्रकार जो जिनेन्द्रदेवके
वचनरूपी महोदधिसे निकले हैं और जो संसारके सब निर्मल पदार्थोंमें सारभूत हैं ऐसे
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप तीनों रत्नोंकी सदा जय हो ॥ १ ॥

सुखमय और तीन लोकके अग्र भागमें स्थित सिद्धरूपसे वन्दनीय ऐसे इन वीर
जिनको मस्तकसे प्रणाम करके स्थितिग नामक अधिकारका कथन करता हूँ ॥ २ ॥

❁ गाथामें जो ‘द्विदियं’ पद है उसका विशेष व्याख्यान करते हैं ।

§ ५७. इसके आगे अर्थात् मूल गाथामें आये हुए ‘भ्नीणमभ्नीणं’ पदकी व्याख्याके बाद
मूल गाथाके अन्तिम चरणमें जो ‘द्विदियं’ पद है और जिसके अन्तमें आये हुए ‘वा’ पदसे
सौगोपांग सब प्ररूपणाका सूचन होता है, अब उसके विशेष व्याख्यानका अधिकार है यह इस
सूत्रका तात्पर्यार्थ है ।

शंका—‘द्विदियं’ इस पदका क्या अर्थ है ?

समाधान—‘द्विदियं’ का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ स्थितिग अर्थात् स्थितिको प्राप्त हुए
कर्मपरमाणु होता है ।

तदो उक्कस्सट्ठिदिपत्तयादीणं सरूवविसैसजाणावणट्ठं पदेसविहत्तीए चूलियासरूवेण एसो अहियारो समोइण्णो त्ति घेत्तव्वो । संपहि एत्थ संभवंताणमणियोगद्वाराणं परूवणट्ठमुत्तरसुत्तं भणइ—

❀ तत्थ तियिण्णं अणियोगद्वाराणि । तं जहा—समुक्तिणा सामित्तमप्पावहुअं च ।

§ ५६८, तत्थ टिदियं ति एदस्स बीजपदस्स अत्थविहासाए कीरमाणाए तिणिण अणियोगद्वाराणि णादव्वाणि भवंति । काणि ताणि त्ति सिस्साभिप्पायं तं जहा त्ति आसंकिय तेसिं णामणिहेसो कीरदे समुक्तिणा इचाइणा । तत्थ समुक्तिणा णाम उक्कस्सट्ठिदिपत्तयादीणमत्थित्तमेत्तपरूवणा । तत्थ समुक्तिदाणं संवंधविसैसपरिक्खा सामित्तं णाम । तेसिं चेव थोववहुत्तपरिक्खा अप्पावहुअमिदि भण्णदे । एवमेत्थ तिणिण अणियोगद्वाराणि होंति त्ति परूविय संपहि तेहि पयदस्साणुगमं कुणमाणो जहा उदेसो तहा णिहेसो त्ति णायादो समुक्कत्तणाणुगममेव ताव विहासिट्ठुकापो इदमाह—

❀ समुक्तिणाए अत्थ उक्कस्सट्ठिदिपत्तयं णिसैयट्ठिदिपत्तयं अधाणिसैयट्ठिदिपत्तयं उदयट्ठिदिपत्तयं च ।

§ ५६९, सव्वेसिं कम्मणामेदाणि चत्तारि वि ट्ठिदिपत्तयाणि अत्थ त्ति

इसलिये उल्लूख स्थितिप्राप्त आदिकके विशेषे स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये प्रदेशविभक्तिके चूलिकारूपसे यह अधिकार आया है यह तात्पर्य यहाँ लेना चाहिये । अब यहाँ पर जो अधिकार सम्भव हैं उनका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ इस प्रकरणमें तीन अनुयोगद्वार हैं । यथा—समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पवहुत्व ।

§ ५६८, यहाँ पर अर्थात् 'टिदियं' इस बीजपदके अर्थका विवरण करते समय तीन अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं । वे तीन अनुयोगद्वार कौन कौन हैं इस प्रकार शिष्यके अभिप्रायको 'तं जहा' पदद्वारा प्रकट करके समुत्कीर्तना इत्यादि पदोंद्वारा उनका नामनिर्देश किया है । इनमेसे उल्लूख स्थितिप्राप्त आदि कर्मपरमाणुओंके अस्तित्वमात्रका कथन करना समुत्कीर्तना है । समुत्कीर्तना अनुयोगद्वारमें जिनका निर्देश किया है उनके सम्बन्धविशेषकी परीक्षा करना स्वामित्व है और उन्हींके अल्पवहुत्वकी परीक्षा करना अल्पवहुत्व कहलाता है । इस प्रकार इस प्रकरणमें तीन अनुयोगद्वार होते हैं इसका कथन करके अब उनके द्वारा प्रकृत विषयका अनुशीलन करते हुए 'उदेस्यके अनुसार निर्देश किया जाता है' इस न्यायके अनुसार समुत्कीर्तना अनुयोगद्वारका ही विवरण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ समुत्कीर्तनाकी अपेक्षा उल्लूख स्थितिप्राप्त, निषेकस्थितिप्राप्त, अधःनिषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त कर्मपरमाणु हैं ।

§ ५९९, सब कर्मोंके ये चार स्थितिप्राप्त होते हैं यह इसका तात्पर्य है । इस प्रकार इस

समुक्तित्दं होइ । एवमेदेसिमुक्कस्सादिद्विदिपत्तयाणमत्थित्तमेत्तमेदेण गुत्तेण समुक्कित्तिय संपहि तेसिं चैव सरूवविसए णिण्णयजणणद्वमद्वपदं परूवेमाणो उक्कस्सद्विदिपत्तययेव ताव पुच्छासुत्तेण पत्तावसरं करेइ—

❀ उक्कस्सयद्विदिपत्तयं णाम किं ।

§ ६००. उक्कस्सद्विदिपत्तयसरूवविसेसावहारणपरमेदं पुच्छासुत्तं । संपहि एदिस्से पुच्छाए उत्तरमाह—

❀ जं कम्मं बंधसमयादो कम्मद्विदीए उदए दीसइ तमुक्कस्स-द्विदिपत्तयं ।

§ ६०१. एतदुक्तं भवति—जं कम्मपदेसग्गं बंधसमयादो प्पहुडि कम्मद्विदिमेत्त-कालमच्छियूण सगकम्मद्विदिचरिमसमए उदए दीसइ तमुक्कस्सद्विदिपत्तयमिदि भण्णदे, अग्गद्विदीए वट्टमाणत्तादो त्ति । णाणासमयपवद्धे अस्सियूण किण्ण घेप्पदे ? ण, तेसिमक्कमेण अग्गद्विदिपत्तयत्तासंभवादो । बंधसमए चैव किण्ण घेप्पदे ? ण, चउण्हं पि द्विदिपत्तयाणमुदयं पेक्खियूण गहणादो । तत्थ वि ण चरिमणिसेयपरमाण्णं चैव सुद्धाणमुक्कस्सद्विदिपत्तयसण्णा, किंतु पढमणिसेयादिपदेसाणं पि तत्थुक्कड्ढिदाण-

सूत्र द्वारा इन उत्कृष्ट आदि स्थितिप्राप्त कर्मपरमाणुओंका अस्तित्वमात्र बतलाकर अब उनके स्वरूपके विषयमें विशेष निर्णय करनेके लिये अर्थपदका कथन करते हुए पृच्छासूत्र द्वारा सर्व-प्रथम उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तके निर्देशकी ही सूचना करते हैं—

* उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त किसे कहते हैं ।

§ ६००. उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तके स्वरूप विशेषका निश्चय करानेवाला यह पृच्छासूत्र है । अब इस पृच्छाका उत्तर कहते हैं—

* जो कर्म बन्धसमयसे लेकर कर्मस्थितिके अन्तमें उदयमें दिखाई देता है वह उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त है ।

§ ६०१. इस सूत्रका यह अभिप्राय है कि जो कर्मपरमाणु बन्ध समयसे लेकर कर्मस्थिति-प्रमाण कालतक रहकर अपनी कर्मस्थितिके अन्तिम समयमें उदयमें दिखाई देता है वह उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कर्म कहलाता है, क्योंकि वह अग्रस्थितिमें विद्यमान रहता है ।

शंका—यह उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कर्म नाना समयप्रबद्धोंकी अपेक्षा क्यों नहीं लिया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि नाना समयप्रबद्धोंका एक साथ अग्रस्थितिको प्राप्त होना सम्भव नहीं है ।

शंका—उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तका बन्ध समयमें ही क्यों नहीं ग्रहण किया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि चारों ही स्थिति प्राप्त कर्मोंका उदयकी अपेक्षा ग्रहण किया है ।

उसमें भी केवल अन्तिम निषेकके परमाणुओंकी यह उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त संज्ञा नहीं है

मेसा सपणा त्ति घेतव्वं, अपणहा उक्कस्सयसमयपवद्धस्स अग्गद्धिदीए जत्तियं णिसित्तं तत्तियमुक्कस्सेणे त्ति भणिस्समाणपरूवणाए सह विरोहपसंगादो । ण च चरिमणिसेयस्सेव अण्णाहियस्स जहाणिसित्तसरूवेणोदयसंभवो, ओकद्धिय विणासियत्तादो । तम्हा एयसमयपवद्धणाणाणिसेयावत्तंबणेण पयदद्धिदिपत्तयमवद्धिमिदि सिद्धं ।

किन्तु प्रथम निषेक आदिके जिन परमाणुओंका उत्कर्षण होकर वहाँ निक्षेप हो गया है उनकी भी यही संज्ञा है ऐसा अर्थ यहाँपर लेना चाहिये । यदि यह अर्थ न लिया जाय तो 'एक समयप्रवद्धकी अग्रस्थितिमें जितना द्रव्य निक्षिप्त होता है उतना द्रव्य उत्कृष्ट रूपसे अग्रस्थितिप्राप्त है' यह जो सूत्र आगे कहा जायगा उसके साथ विरोध प्राप्त होता है । यदि कहा जाय कि न्यूनाधिकताके बिना अन्तिम निषेकका ही बन्धके समय जैसा उसमें कर्मपरमाणुओंका निक्षेप हुआ है उसी रूपसे उदय होना सम्भव है सो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अपकर्षण होकर उसका विनाश देखा जाता है । इस लिये एक समयप्रवद्धके नाना निषेकोंके अवलम्बनसे ही प्रकृत स्थितिप्राप्त अवस्थित है यह बात सिद्ध होती है ।

विशेषार्थ—प्रदेशासत्कर्मका विचार करते हुए उत्कृष्टादिकके भेदसे उनका बहुमुखी विचार किया । उसके बाद यह भी बतलाया कि सत्तामें स्थित इन कर्मोंमेंसे कौन कर्मपरमाणु अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण और उदयके योग्य है और कौन कर्मपरमाणु इनके अयोग्य है । किन्तु अब तक यह नहीं बतलाया था जि इन सत्तामें स्थित कर्मपरमाणुओंके उदयकी अपेक्षा कितने भेद हो सकते हैं ? क्या जिन कर्मोंका जिस रूपमें बन्ध हाता है उसी रूपमें वे उदयमें आते हैं या उनमें हेर फेर भी सम्भव है । यदि हेर फेर सम्भव है तो उदयकी अपेक्षा उसके कितने प्रकार हो सकते हैं ? प्रस्तुत प्रकरणमें इसी बातका विस्तारसे विचार किया गया है । यहाँ ऐसे प्रकार चार बतलाये हैं—उत्कृष्टस्थितिप्राप्त, निषेकस्थितिप्राप्त, यथानिषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त । इनमेंसे प्रत्येकका खुलासा चूर्णिसूत्रकारने स्वयं किया है, इसलिये यहाँ हम सबके विषयमें निर्देश नहीं कर रहे हैं । प्रकृतमें उत्कृष्टस्थितिप्राप्त विचारणीय है । चूर्णिसूत्रमें इस सम्बन्धमें इतना ही कहा है कि बन्धसमयसे लेकर कर्मस्थितिके अन्तिम समयमें जो उदयमें दिखाई देता है वह उत्कृष्टस्थितिप्राप्त कर्म है । इस परसे अनेक शंकाएँ पैदा होती हैं ? कि क्या उस अग्रस्थितिमें नाना समयप्रवद्धोंके कर्मपरमाणु लिये जा सकते हैं यह पहली शंका है । इसका समाधान नकारात्मक ही होगा, क्योंकि नाना समयप्रवद्धोंकी अग्रस्थिति एक समयमें नहीं प्राप्त हो सकती । दूसरी शंका यह पैदा होती है कि बन्धके समय ही उत्कृष्टस्थितिप्राप्त यह संज्ञा न देकर जब वह अग्रस्थिति उदयगत होती है तभी उत्कृष्टस्थितिप्राप्त यह संज्ञा क्यों दी गई है ? इसका समाधान यह है कि ये संज्ञाएँ उदयकी अपेक्षासे ही व्यवहृत हुई हैं, इसलिये जब अग्रस्थिति उदयगत होती है तभी उत्कृष्टस्थितिप्राप्त इस संज्ञाका व्यवहार होता है । तीसरी शंका यह है कि बन्धके समय जिन कर्मपरमाणुओंमें उत्कृष्ट स्थिति पड़ती है वे ही केवल उत्कृष्ट स्थितिके उदयगत होनेपर उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कहलाते हैं या उत्कर्षण द्वारा उसी समयप्रवद्धकी अन्य स्थितियोंमें स्थित कर्मपरमाणुओंके भी उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्त करके उत्कृष्ट स्थितिके उदयगत होनेपर इन्हे कर्मपरमाणु भी उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कहलाते हैं ? इसका समाधान यह है कि अग्रस्थितिमें बन्धके समय जितने भी कर्मपरमाणु प्राप्त होते हैं अपनी स्थितिके अन्त समय तक वे वैसे ही नहीं बने रहते हैं । यदि स्थितिकाण्डकघात और संक्रमणकी चर्चाको छोड़ दिया जाय, क्योंकि वह चर्चा इस प्रकरणमें उपयोगी नहीं है तो भी बहुतसे कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण

❀ णिसेयट्टिदिपत्तयं णाम किं ?

§ ६०२. सच्चं पि पदेसगं णिसेयट्टिदिपत्तयमेव, णिसेयट्टिदिमपत्तयस्स कम्म-
त्ताणुववत्तीदो । तदो किण्णाम तं णिसेयट्टिदिपत्तयं जं त्तिसेसेणापुव्वं परुविज्जदि
त्ति ? एवंविहासंकासूचयमेदं पुच्छावक्कं । संपहि एदिस्से आसंकाए णिरायरणट्टं
तस्स सरुवमुत्तरमुत्तेण परुवेइ—

❀ जं कम्मं जिस्से ट्टिदीए णिसित्तं ओकड्ढिदं वा उक्कड्ढिदं वा तिस्से
चेव ट्टिदीए उदए दिस्सइ तं णिसेयट्टिदिपत्तयं ।

§ ६०३. एयमुक्तं भवति—जं कम्मं बंधसमए जिस्से ट्टिदीए णिसित्तमोक्कड्ढिदं
वा उक्कड्ढिदं वा संतं पुणो वि तिस्से चेव ट्टिदीए होऊण उदयकाले दीसइ तं णिसेय-
ट्टिदिपत्तयमिदि । एदं च णाणासमयपवद्धप्पयमेयणिसेयमवलंविण्य पयट्टमिदि घेत्तव्वं ।
कथमेत्थमोक्कड्ढिदमुक्कड्ढिदं वा पदेसगमुदयसमए तिस्से चेव ट्टिदीए दिस्सइ ति

हो जाता है और नीचेकी स्थितिमें स्थित बहुतसे कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण होकर वे अग्र-
स्थितिमें भी पहुँच जाते हैं । तात्पर्य यह है कि बन्धके समय निषेककी जैसी रचना हुई रहती है
उसके अपने उदयको प्राप्त होने तक उसमें बहुत हेरफेर हो जाता है । इससे ज्ञात होता है कि एक
समयप्रबद्धके नानानिषेकसम्बन्धी जितने कर्मपरमाणु अग्रस्थितिमें प्राप्त रहते हैं उनका उदय
होने पर वे सब उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कहलाते हैं । चूर्णिसूत्रमें आगे जो उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कर्मके
स्वामित्वका निर्देश करनेवाला सूत्र है उससे भी इसी बातकी पुष्टि होती है । इस प्रकार उत्कृष्ट
स्थितिप्राप्त कर्म किसे कहते हैं इसका विचार किया ।

❀ निषेकस्थितिप्राप्त किसे कहते हैं ?

§ ६०२. जितना भी कर्म है वह सबका सब निषेकस्थितिप्राप्त ही होता है, क्योंकि
जो निषेक स्थितिको प्राप्त नहीं होता वह कर्म ही नहीं हो सकता, इसलिये वह निषेकस्थितिप्राप्त
कौनसा कर्म है जिसका विशेष रूपसे यहाँ नये सिरेसे वर्णन किया जा रहा है । इस तरह इस
प्रकारकी आशंकाको सूचित करनेवाला यह पृच्छासूत्र है । अब इस आशंकाका निराकरण करनेके
लिये उसका स्वरूप अगले सूत्र द्वारा कहते हैं—

❀ जो कर्म जिस स्थितिमें निक्षिप्त हुआ है अपकर्षित होकर या उत्कर्षित
होकर उदयके समय यदि वह उसी स्थितिमें दिखाई देता है तो वह निषेकस्थिति-
प्राप्त कहलाता है ।

§ ६०३. इस सूत्रका यह आशय है कि बन्धके समय जो कर्म जिस स्थितिमें निक्षिप्त
हुआ है अपकर्षित होकर या उत्कर्षित होकर फिर भी उदयके समय यदि वह उसी स्थितिमें
दिखाई देता है तो वह कर्म निषेकस्थितिप्राप्त कहलाता है । यह सूत्र नाना समयप्रबद्धोंसे सम्बन्ध
रखनेवाले एक निषेककी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये ।

शंका—प्रकृतमें जिन कर्मोंका अपकर्षण और उत्कर्षण हुआ है वे कर्म उदय समयमें
उसी स्थितिमें कैसे दिखालाई देते हैं ?

णासंकणिज्जं, पुणो वि उक्कड्डुणोक्कड्डुणाहि तहाभावाविरोहादो । ण सन्वेसिं णिसेय-
द्विदिपत्तयत्तादो एदस्स विसेसियपरूवणा णिरत्थिया चि पुक्खिबल्लासंका वि, तेसिमेत्तो
विसेसणादो ।

❀ अधाणिसेयद्विदिपत्तयं एवम किं ?

§ ६०४. किमेदं कस्सद्विदिपत्तयं व एयसमयपवद्धपडिवद्धमाहो णाणासमय-
पवद्धणिवंधणिसेयद्विदिपत्तयं व, को वा तत्तो एदस्स लक्खणविसेसो चि ? एवं
विहादिप्पाएण पयइमेदं पुच्छामुत्तं ।

❀ जं कम्मं जिस्से द्विदीए णिसित्तं अणोक्कड्डिदं अणुक्कड्डिदं तिस्से चेव
द्विदीए उदए दिस्सइ तमधाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

§ ६०५. एतदुक्तं भवति—जइ चि एदं णाणासमयपवद्धावलंवि तो वि

समाधान—ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि पहले जिन कर्मों का अपकर्षण हुआ था उनका उत्कर्षण होकर और जिन कर्मों का उत्कर्षण हुआ था उनका अपकर्षण होकर उदय समयमें फिसे उसी स्थितिमें दिखाई देना विरोधको प्राप्त नहीं होता है ।

यदि कहा जाय कि सभी कर्म निषेकस्थितिप्राप्त होते हैं, इसलिये इसका विशेष रूपसे कथन करना निरर्थक है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे उनमें विशेषता आ जाती है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर निषेकस्थितिप्राप्त कर्मसे क्या अभिप्राय है इसका खुलासा किया गया है । यद्यपि निषेकत्वनाके बाहर कोई भी कर्म नहीं होता है पर प्रकृतमें यह अर्थ इष्ट है कि बन्धके समय जो कर्म जिस निषेकमें प्राप्त हुआ हो उदयके समय भी वह कर्म यदि उसी निषेकमें दिखाई देता है तो वह निषेकस्थितिप्राप्त है । जैसे उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तमें अग्रस्थितिकी मुख्यता रही निषेककी नहीं वैसे ही यहाँ किसी भी स्थितिकी मुख्यता न होकर निषेककी मुख्यता है । यही कारण है कि प्रकृतमें नाना समयप्रवद्धसम्बन्धी एक निषेकका ग्रहण किया है इस एक निषेकमें विविध समयप्रवद्धोंके विविध स्थितियाले कर्मपरमाणु पाये जाते हैं यह इसका तात्पर्य है । यहाँ इतना और विशेष जानना चाहिए कि अपकर्षण और उत्कर्षण होकर जो कर्म विवक्षित निषेकसे नीचेकी और ऊपरकी स्थितिमें निक्षिप्त हो गये हैं, पुनः उत्कर्षण और अपकर्षण होकर यदि वे उसी विवक्षित निषेकमें आकर उदय समयमें उसी निषेकमें दिखाई देते हैं तो उनका भी यहाँ ग्रहण हो जाता है ।

❀ यथानिषेकस्थितिप्राप्त किसे कहते हैं ।

§ ६०४. क्या यह उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त कर्मके समान एक समयप्रवद्धसम्बन्धी है या निषेक-
स्थितिप्राप्तके समान नाना समयप्रवद्ध सम्बन्धी है ? उनसे इसके लक्षणमें क्या विशेषता है इस तरह इस प्रकारके अभिप्रायसे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है ।

❀ जो कर्म जिस स्थितिमें निक्षिप्त हुआ है अपकर्षण और उत्कर्षणके विना यदि वह कर्म उदयके समय उसी स्थितिमें दिखाई देता है तो यह यथानिषेकस्थिति-
प्राप्त कहलाता है ।

§ ६०५. इस सूत्रका यह अभिप्राय है—यद्यपि इसका नाना समयप्रवद्धोंसे सम्बन्ध है

पुञ्जिल्लादो एदस्स महंतो विसेसो । कुदो ? जं कम्मं जिस्से द्विदीए बंधसमए णिसित्तमणोकड्ढिदमुकड्ढिदं जहा णिसित्तं तहावड्ढिदं संतं तिस्से चेव द्विदीए कम्मोदएण विपच्चिहिदि तमधाणिसेयद्विदिपत्तयमिदि गहणादो । पुञ्जिल्लं पुण ओकड्ढुकड्ढणवसेण जत्थ तत्थ वावक्खित्तसरूवेणावड्ढिदं संगल्लिदसरूवेण तम्मि चेव द्विदीए उदयमागच्छंतं गहिदिमिदि । कथं जहाणिसेयस्स अथाणिसेयववएसो त्ति ण पच्चवट्ठेयं, 'वच्चंति कगतदयवा लोवं अत्थं वहंति तत्थ सरा' इदि यकारस्स लोवं काऊण णिहंसादो । जहाणिसेयसरूवेणावड्ढिदस्स द्विदिक्खएणोदयमागच्छंतस्स णाणासमयपवद्धसंबंध-पदेसपुंजस्स अत्थाणुगओ पयदववएसो त्ति भणिदं होइ ।

❀ उदयद्विदिपत्तयं णाम किं ?

§ ६०६. पुञ्जिल्लाणि सन्वाणि चेव उदयं पेक्खियूण भणिदाणि. तम्हा ण ततो एदस्स भेदो त्ति एवंविहासंकाए पयट्ठमेदं पुच्छामुत्तं । संपहि एदिस्से आसंकाए णिरायरणद्वमिदमाह—

तो भी निषेकस्थितिप्राप्ते इसमें वड़ा अन्तर है, क्योंकि बन्धके समय जो कर्म जिस स्थितिमें निक्षिप्त हुआ है, अपकर्षण और उत्कर्षणके बिना जिस प्रकार निक्षिप्त हुआ है उसी प्रकार रहते हुए यदि कर्मोदयके समय उसी स्थितिमें वह फल देता है तो वह यथानिषेकस्थितिप्राप्त कर्म है ऐसा यहाँ ग्रहण किया है । परन्तु पहला जो निषेकस्थितिप्राप्त कर्म है सो वहाँ अपकर्षण और उत्कर्षणके वशसे यत्र तत्र कहीं भी निक्षिप्त होकर कर्म अवस्थित रहता है परन्तु गलते समय उसी स्थितिमें वह कर्म उदयको प्राप्त होता है, यह अर्थ लिया गया है ।

शंका—यथानिषिक्त कर्मकी यथानिषेक यह संज्ञा कैसे हो सकती है ?

समाधान—ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि—'क, ग, त, द, य और व इनका लोप होने पर स्वर उनके अर्थकी पूर्ति करते हैं ।' व्याकरणके इस नियमके अनुसार 'य' का लोप करके उक्त प्रकारसे निर्देश किया है । नाना समयप्रबद्धसम्बन्धी जो प्रदेशपुंज बन्धके समय जिस प्रकारसे निक्षिप्त हुआ है उसी प्रकारसे अवस्थित रहकर स्थितिका क्षय होने पर उदयमें आता है उसकी यह सार्थक संज्ञा है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

विशेषार्थ—निषेकस्थितिप्राप्ते इसमें इतना ही अन्तर है कि वहाँ तो जिनका अपकर्षण उत्कर्षण होकर अन्यत्र निक्षेप हुआ है, अपकर्षण उत्कर्षण होकर वे परमाणु यदि पुनः उसी स्थितिमें प्राप्त होकर उदयमें आते हैं तो उनका ग्रहण होता है परन्तु यथानिषेकस्थिति-प्राप्तमे उन्हीं परमाणुओंका ग्रहण होता है जो तदवस्थ रहकर अन्तमे उदयमें आते हैं । इसके सिवा इन दोनोंमें और कोई अन्तर नहीं है ।

❀ उदयस्थितिप्राप्त किसे कहते हैं ?

§ ६०६. पूर्वोक्त सभी स्थितिप्राप्त कर्म उदयकी अपेक्षा ही कहे हैं, इसलिये उनसे इसमें कोई भेद नहीं रहता इस प्रकारकी आशंकाके होने पर यह पृच्छासूत्र प्रवृत्त हुआ है । अब इस आशंकाके निराकरण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ जं कम्ममुदए जत्थ वा तत्थ वा दिस्सइ तमुदयद्विदिपत्तयं ।

§ ६०७. एदस्स भावत्थो—ण ताव अग्गद्विदिपत्तयम्मि एदस्स अंतवभावो, द्वेदिविसेसमेयसमयपवद्धं च पेक्खियूण तस्स परूवियत्तादो । एत्थ तहाविहणियमा-
भावादो । ण णिसेय-जहाणिसेयद्विदिपत्तएसु वि, तेसिं पि वंधसमयणिसेय-
पडिवद्धत्तादो । तदो जं कम्मं जत्थ वा तत्थ वा द्विदीए होदूण अविसेसेण उदय-
मागच्छदि तमुदयद्विदिपत्तयमिदि धेत्तव्वं ।

❀ एदमद्वपदं ।

§ ६०८. उक्कस्सद्विदिपत्तयादीणं चउण्हं पि अत्थविसयणिण्णयणिवंध-
मेदमद्वपदं सच्चेसिं कम्माणं साहारणभावेण परूविदमवहारेयव्वं । पुणो वि
विसेसिय चउण्हमेदेसिं परूवणद्वमुत्तरसुत्तं भणइ—

❀ एत्तो एक्केकद्विदिपत्तयं चउन्विहमुक्कस्समणुक्कस्सं जहणण-
मजहणणं च ।

§ ६०९. एत्तो अद्वपदपरूवणाणंतरमेक्केकद्विदिपत्तयं चउन्विहं होइ उक्कस्सादि-
भेएण । एत्थ एक्केकद्विदिपत्तयग्गहणं पादेक्कं चउण्हं चउहि अहिंसंघंधणद्वमेक्केकस्स
वा मिच्छत्तादिपयडिविसेसस्स चउन्विहं पि द्विदिपत्तयं पादेकमुक्कस्साइभेएण

* जो कर्म उदयके समय यत्र तत्र कहीं भी दिखाई देता है वह उदयस्थिति प्राप्त कहलाता है ।

§ ६०७. इस सूत्रका भावार्थ यह है कि अग्रस्थिति प्राप्तसे तो इसका अन्तर्भाव होता नहीं, क्योंकि वह स्थितिविरोध और एक समयप्रबद्धकी अपेक्षा प्रवृत्त हुआ है । किन्तु इसमें उस प्रकारका कोई नियम नहीं पाया जाता । निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त कर्मोंमें भी इसका अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि वे भी बन्ध समयके निषेकोंसे प्रतिबद्ध हैं, इसलिये जो कर्म जहाँ कहीं भी स्थितिमें रहकर अन्य किसी प्रकारकी विशेषताके बिना उदयको प्राप्त होता है वह उदयस्थितिप्राप्त कर्म है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये ।

* यह अर्थपद है ।

§ ६०८. उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदि चारोका भी अर्थविषयक निर्णय करनेके सम्बन्धमें यह अर्थपद आया है जो साधारणभावसे सब कर्मोंका कहा गया जानना चाहिये । अब फिर भी इन चारोके विषयमें विशेष बातके कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* एक एक स्थितिप्राप्तके चार चार भेद हैं—उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य ।

§ ६०९ अब इस अर्थपदके कथन करनेके बाद उत्कृष्ट आदिके भेदसे एक एक स्थितिप्राप्त चार-चार प्रकारका है यह बतलाते हैं । यहाँ सूत्रमें प्रत्येक स्थितिप्राप्तका चार चारसे सम्बन्ध बतलानेके लिये 'एक्केकद्विदिपत्तयं, पदका ग्रहण किया है । अथवा मिथ्यात्व आदिके एक एक

चउन्विहं होइ ति घेत्तन्वं । तदो सन्वेरिं कम्माणं पुध पुध गिरुंभणं काऊण चउण्हं
द्विदिपत्तयाणमुक्कस्सादिपदविसेसिदाणमोघादेसेहि पखुवणा कायन्वा । एवं कदे
समुक्कित्तणाणियोगहारं समत्तं ।

❀ सामित्तं ।

§ ६१०. सुगममेदमहियारसंभालणसुत्तं ।

❀ मिच्छुत्तस्स उक्कस्सयमग्गद्विदिपत्तयं कस्स ?

§ ६११. सुगममेदं पुच्छावक्कं । एवं सामित्तविसयाए पुच्छाए तस्सेव
परिकरभावेण अग्गद्विदिपत्तयवियप्पपरुवणद्वसुत्तरसुत्तं भणइ—

❀ अग्गद्विदिपत्तयमेक्को वा दो वा पदेसा एवमेगादि-एगुत्तरियाए
वड्डीए जाव ताव उक्कससयं समयपवद्धस्स अग्गद्विदीए जत्तियं णिसित्तं
तत्तियमुक्कस्सेण अग्गद्विदिपत्तयं ।

§ ६१२. अग्गद्विदिपत्तयस्स उक्कस्ससामित्ते पुच्छिदे तमपरुविय तन्वियप्प-
परुवणा किमद्वं कीरदे ? ण, उक्कस्सदन्वपमाणे अणवगए तन्विसयसामित्तस्स
सुहेणावगंतुमसक्कियत्तादां । अहवा उक्कस्ससामित्तपरुवणाए अणुक्कस्ससामित्तं पि

प्रकृतिविशेषके चारों ही स्थितिप्राप्त प्रत्येक उत्कृष्ट आदिके भेदसे चार चार प्रकारके होते हैं यह
अथे यहाँ पर लेना चाहिये । इसलिये सभी कर्मोंको अलग अलग विवक्षित करके उत्कृष्ट आदि
पदोंसे युक्त चारों ही स्थितिप्राप्तोंका ओष और आदेशकी अपेक्षा कथन करना चाहिये ।
इस प्रकार करने पर समुत्कीर्तना अनुयोगद्वार समाप्त होता है ।

* अब स्वामित्वका अधिकार है ।

§ ६१०. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है ।

* मिथ्यात्व कर्मकी अपेक्षा उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त कर्मका स्वामी कौन है ?

§ ६११. यह पृच्छावाक्य सरल है । इस प्रकार स्वामित्वविषयक पृच्छाके होने पर उसीके
परिकररूपसे अग्रस्थितिप्राप्तके भेदोंका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* एक कर्मपरमाणु अग्रस्थितिप्राप्त होता है, दो कर्मपरमाणु अग्रस्थिति-
प्राप्त होते हैं । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक कर्मपरमाणुके बढ़ाने पर एक समय-
प्रवद्धकी अग्रस्थितिमें जितना उत्कृष्ट द्रव्य निक्षिप्त होता है उत्कृष्ट रूपसे उतना
द्रव्य अग्रस्थितिप्राप्त होता है ।

§ ६१२. डांका—पूछा तो अग्रस्थितिप्राप्त कर्मके उत्कृष्ट स्वामित्वके विषयमे गया था
पर उसका कथन न करके यहाँ उसके भेदोंका कथन किसलिये किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट द्रव्यके प्रमाणके अनवगत रहने पर तद्विषयक
स्वामित्वका सुखपूर्वक ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिये यहाँ उसके भेदोंका कथन किया गया है ।

अथवा उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करते समय अनुत्कृष्ट स्वामित्वका भी कथन करना

परूवेयव्वं, अण्णहा एक्केवक्कं द्विदिपत्तयं चउण्विहमिदि परूवणाए विहलत्तपसंगादो । तं च उक्कस्सादो परमाणुणादिकमेणावद्धिदं णिरंतरसरूवेण जाव एओ परमाणु ति एदस्स जाणावणद्वेसेसा परूवणा ति सुसंवद्धमेदं ।

§ ६१३. संपहि एवं परूविदसंवंधस्सेदस्स सुत्तस्सत्थिविवरणं कस्सामो । तं जहा—कम्मद्विदिपदमसमए जं वद्धं मिच्छत्तपदेसग्गं तं सत्तरिसागरोवमकोडाकौडि-मेत्तकम्मद्विदीए असंखेज्जे भागे अच्चिय पुणो पत्तिदोवमासंखेज्जादिभागपमाणुक्कस्स-णिल्लोवणकालमत्थि ति सुद्धं होऊण गच्छइ । तत्तो उवरिभागंतरसमए वि सुद्धं होऊण गच्छइ । एवं णिरंतरं गंतूण जाव कम्मद्विदिचरिमसमए वि सुद्धं होदूण तस्स गमणं संभवइ । पुणो तमेवं णिल्लोविज्जमाणं कम्मद्विदीए पुण्णाए एको वि परमाणु होयूणावद्धानं लइइ । किं कारणमिदि भणिदे णिरुद्धसमयपवद्धस्स एणेण वि परमाणुणा विणा जइ कम्मद्विदिचरिमसमओ सुण्णो होऊण लब्भइ तो गल्लिदसेसंग-परमाणुणा सहियत्तं सुद्धु लहामो ति णत्थि एत्थ संदेहो । एवं दां वि परमाणु लब्भति । एदेण कारणेण अग्गद्विदिपत्तयमेको वा दो वा पदेसा ति सुत्ते उत्तं । एवमेगादि-एणुत्तरियाए चड्डीए ताव एवं णेदव्वं जाव समयपवद्धस्स अग्गद्विदीए जत्तिपमुक्कस्सयं पदेसग्गं तं णिसित्तं ति ।

§ ६१४. एत्थ समयपवद्धस्से ति भणिदे सण्णिणपंचिदियपज्जत्तएण उक्कस्स-

चाहिये, अन्यथा एक एक स्थिति प्राप्तको जो चार चार प्रकारका बतलाया है सो उस कथनको विफलताका प्रसंग प्राप्त होता है । और वह अनुत्कृष्ट उत्कृष्टमेंसे निरन्तर एक एक परमाणुके घटाने पर एक परमाणुके प्राप्त होने तक होता है, इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिये यह प्ररूपणा की है, इसलिये यह कथन सुसम्बद्ध है ।

§ ६१३. इस प्रकार इस सूत्रके सम्बन्धका कथन करके अब उसके अर्थका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है—कर्मस्थितिके प्रथम समयमे मिथ्यात्वका जो द्रव्य बंधा है वह सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण कर्मस्थितिके असंख्यात बहुभाग तक रहता है फिर पत्त्यके असंख्यातवें भागप्रमाण उत्कृष्ट निर्लेपन कालके भीतर उसका अभाव हो जाता है । या इससे एक समय और जाने पर उसका अभाव होता है । इस प्रकार निरन्तर एक एक समयके जाने पर कर्मस्थितिके अन्तिम समयमें भी अभाव होकर उसका गमन सम्भव है । यद्यपि वह इस प्रकार अभावको प्राप्त होता है तो भी कर्म कर्मस्थितिके अन्तिम समयमे एक परमाणु भी शेष रहता है । कारण यह है कि विवक्षित समयप्रवद्धके एक परमाणुके बिना भी यदि कर्मस्थितिका अन्तिम समय शून्यरूपसे प्राप्त हो सकता है तो इसमे जरा भे सन्देह नहीं कि अन्य सब परमाणुओंको गलाकर शेष बचे एक परमाणुके साथ भी कर्मस्थितिका वह अन्तिम समय प्राप्त किया जा सकता है । इसी प्रकार कर्मस्थितिके अन्तिम समयमें दो परमाणु भी प्राप्त होते हैं । इसी कारणसे सूत्रमें 'अग्गद्विदिपत्तयं एव्वा वा दो वा पदेसा' यह वचन कहा है । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक परमाणुको वढ़ाते हुए अग्रस्थितिमें जितना उत्कृष्ट द्रव्य निक्षिप्त होता है उसके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये ।

§ ६१४. यहाँ सूत्रमे जो 'सन्नयपवद्धस्स' यह पद दिया है सो उससे संज्ञी पञ्चन्द्रिय

जोगिणा वद्धेयसमयपवद्धस्स गहणं कायव्वं, अण्णहा अग्गट्ठिदीए उक्कस्सणित्सेयाणुव-
वत्तीदो । तत्तियमुक्कस्सेण अग्गट्ठिदिपत्तयं जत्तियं तमणंतरपरुत्तिदं । चरिमणित्सेय-
उक्कस्सपदेसग्गमेयसमयपवद्धणिवद्धं तत्तियमेत्तमुक्कस्सग्गेण अग्गिट्ठिदिपत्तयं होइ त्ति
एसो एत्थ सुत्तत्थसंगहो । ण चेदमेत्तियं जहाणित्सेयसरूवेण लब्भइ, ओकट्ठिय
कम्मट्ठिदिअब्भंतरे विणासियत्तादो । किं तु उक्कट्ठुणाए कम्मट्ठिदिचरिमसमए धरिद-
पदेसग्गमेत्तियं होइ त्ति गहेयव्वं । तम्हा एयसमयपवद्धणाणाणित्सेए उक्कट्ठिय
धरिदपदेसग्गमेत्तियमुदयगयमुक्कस्सयमग्गट्ठिदिपत्तयं होइ त्ति सिद्धं ।

§ ६१५. एवं विहाल्लिदपमाणस्सेदस्स अणुक्कस्सवियपेहि सह सामित्तविहाणट्ठ-
मुत्तरसुत्तं भणइ—

❀ तं पुण अरण्णदरस्स होज्ज ।

पर्याप्तके द्वारा उत्कृष्ट योगसे बाँधे गये एक समयप्रवद्धका ग्रहण करना चाहिये, अन्यथा
अग्रस्थितिमें उत्कृष्ट निषेक नहीं प्राप्त हो सकते हैं। उत्कृष्टरूपसे अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्य उतना
ही होता है जितनेका अनन्तर कथन कर आये हैं। एक समयप्रवद्धके अन्तिम निषेकमें
जितना उत्कृष्ट द्रव्य होता है उतना उत्कृष्टरूपसे अग्रस्थितिप्राप्त होता है यह यहाँ इस सूत्रका
समुदायरूप अर्थ है। जिस रूपसे इसका अग्रस्थितिमें निषेक होता है उसी रूपसे वह उतना
पाया जाता है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्यों कि अपकर्षण होकर कर्मस्थितिके भीतर ही
उसका विनाश देखा जाता है। किन्तु उत्कर्षणके द्वारा कर्मस्थितिके अन्तिम समयमें उतना
द्रव्य पाया जा सकता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये, इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि
एक समयप्रवद्धके नानानिषेकोंका उत्कर्षण होकर उदयगत उतना द्रव्य हो जाता है जो
अग्रस्थितिप्राप्त उत्कृष्ट द्रव्यके बराबर होता है।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वका विचार
करते समय यह बतलाया गया है कि उदयके समय अग्रस्थितिमें कमसे कम कितना और
अधिकसे अधिक कितना द्रव्य प्राप्त होता है। स्थितिकाण्डकघात आदिके द्वारा
अग्रस्थितिका सर्वथा अभाव हो जाय यह दूसरी बात है पर यदि उसका अभाव नहीं होता
तो यह सम्भव है कि एक परमाणुको छोड़कर उसके और सब द्रव्यका अपकर्षण होकर विनाश
हो जाय। यह भी सम्भव है कि दो परमाणुओंके सिवा और सब द्रव्यका अपकर्षण होकर
विनाश हो जाय। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक परमाणुको बढ़ाते हुए अग्रस्थितिमें एक समय-
प्रवद्धका जितना द्रव्य प्राप्त होता है उतना प्राप्त होने तक यह द्रव्य पाया जा सकता है। पर
सबका सब बन्धके समय अग्रस्थितिमें जैसा प्राप्त हुआ था वैसा ही अपने उदय कालके
प्राप्त होनेतक नहीं बना रहता है, किन्तु इसमेंसे बहुतसे द्रव्यका अपकर्षण आदि भी हो जाता
है, इसलिये यह घट तो जाता है तो भी उन्हींका पुनः या अन्य निषेकोंके द्रव्यका उत्कर्षण
करके वह उतना अवश्य किया जा सकता है यह इसका भाव है।

§ ६१५. इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तके प्रमाणका विचार करके अब अनुत्कृष्ट
विकल्पोके साथ इसके स्वामित्वका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ उस उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कोई भी जीव होता है।

§ ६१६. तं पुण पुवं पुच्छाए विसईकयमुक्कस्सद्विदिपत्तयं संगतोभाविदा-
पंताणुक्कस्सवियप्पमण्णदरस्स जीवस्स संबंधी होइ, विरोहाभावादो । गवरि खविद-
कम्मसियं योत्तूण उक्कस्ससामित्तं वत्तवं, तत्थुक्कस्साभावादो ।

❖ अधाणिसेयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयं कस्स ?

§ ६१७. एत्थ मिच्छत्तग्गहणमणुवद्दे । सेसं सुगमं ।

❖ तस्स ताव संदरिसणा ।

§ ६१८. तस्स जहाणिसेयद्विदिपत्तयस्स सामित्तप्परूवणद्दं ताव उवसंदरिसणा
एत्थुवजोगी संबंधद्दपरूवणा कीरइ त्ति पइज्जामुत्तमेदं ।

❖ उदयादो जहणयमाबाहामेत्तमोसक्कियूण जो समयपवद्धो तस्स
एत्थि अधाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

§ ६१९. जहाणिसेयसामित्तसमयादो जहण्णावाहामेत्तं हेट्ठदो ओसक्कियूण बद्धो
जो समयपवद्धो तस्स णिरुद्धद्विदीए णत्थि जहाणिसेयद्विदिपत्तयं पदेसग्गमिदि
वुत्तं होइ । कुदो तस्स तत्थ णत्थित्तं ? तत्तो अणंतरोवरिमद्विदिमादिं काऊणुवरि

§ ६१६. जिसका विषय पहले वतला आये हैं और जिसमें अनन्त अनुत्कृष्ट विकल्प
गमित है उस उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तका कोई भी जीव स्वामी हो सकता है, क्योंकि ऐसा माननेमें
कोई विरोध नहीं आता है। किन्तु इतनी विशेषता है कि क्षपितकर्मांश जीवको छोड़कर
अन्यके उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये, क्यों कि जो क्षपितकर्मांश जीव है उसके उत्कृष्ट
विकल्प सम्भव नहीं है।

विशेषार्थ—एक क्षपितकर्मांश जीवको छोड़कर अन्य सब जीवोंके बन्धके समयमें
अग्रस्थितिमें जितना द्रव्य प्राप्त हुआ था उदयके समय उत्कर्षणके सम्बन्धसे उतना द्रव्य
पाया जा सकता है, इसलिये उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी किसी भी जीवको वतलाया है।

❖ उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तका स्वामी कौन है ?

§ ६१७. इस सूत्रमें 'मिध्यात्व' पदकी अनुवृत्ति होती है। शेष कथन सुगम है।

❖ अब उसका स्पष्टीकरण करते हैं।

§ ६१८. अब उस यथानिषेकस्थितिप्राप्तके स्वामित्वका कथन करनेके लिए उपसंदर्शना
अर्थात् प्रकृतमे उपयोगी सम्बन्धित अर्थकी प्ररूपणा करते हैं। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा सूत्र है।

❖ उदय समयसे जघन्य आबाधाप्रमाण स्थान नीचे जाकर जो समयप्रबद्ध
बंधता है उसका विवक्षित स्थितिमें यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य नहीं है।

§ ६१९. यथानिषेकके स्वामित्वसमयसे जघन्य आबाधाप्रमाण स्थान नीचे (पीछे) जाकर
जो समयप्रबद्ध बंधा है उसका विवक्षित स्थितिमें यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य नहीं है यह इस
सूत्रका तात्पर्य है।

शंका—उसका वहाँ अस्तित्व क्यों नहीं है ?

समाधान—क्योंकि प्रकृत स्वामित्वके समयसे जो अनन्तरवर्ती उपरिम स्थिति है

पयदसमयपवद्धस्स णिसेयदंसणादो । एदं च अवत्थुवियप्पाणमंतदीवयभावेण परूविदं, तेण जहण्णावाहामेत्ता चेव जहाणिसेयस्स अवत्थुवियप्पा परूवेयन्वा ।

❁ समयुत्तराए आवाहाए एवदिमचरिमसमयपवद्धस्स अधाणिसेओ अत्थि ।

§ ६२०. कुदो ? आवाहामेत्तमइच्छाविय पयदसमयपवद्धस्स णिरुद्धिदीए णिसेयदंसणादो । एत्थ जहण्णगहणेणाणुवट्टमाणेण आवाहा विसेसियन्वा ।

❁ तत्तो पाए जाव असंखेज्जाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि तावदिमसमयपवद्धस्स अधाणिसेओ णियमा अत्थि ।

§ ६२१. तत्तो समयुत्तरजहण्णावाहमेत्तमोसक्किदूण वद्धसमयपवद्धादो प्पहुडि हेट्टिमसेसासेससमयपवद्धाणं जहाणिसेओ णिरुद्धिदीए णियमा अत्थि जाव असंखेज्जाणि पलिदोवमपढमवग्गमूलाणि हेट्टदो ओसरियूण वद्धसमयपवद्धस्स जहाणिसेओ

उससे लेकर ऊपरकी स्थितियोंमें प्रकृत समयप्रवद्धके निषेक देखे जाते हैं। अवस्तुविकल्पोके अन्तदीपकरूपसे इस विकल्पका कथन किया है। इसलिये यथानिषेकस्थितिप्राप्तके जघन्य आवाधाप्रमाण अवस्तुविकल्पोका कथन करना चाहिये।

विशेषार्थ—आवाधा कालके भीतर निषेकरचना नहीं होती है ऐसा नियम है और यहाँ पर यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यको उदय समयमें प्राप्त करना है। किन्तु यह तभी हो सकता है जब जघन्य आवाधाके सब समय गल जावें। इसलिए यहाँ पर जघन्य आवाधाके भीतर किसी भी समयमें बँधे हुए यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके अस्तित्वका विवक्षित स्वामित्व समयमें निषेध किया है। सूत्रमें अन्तदीपकरूपसे मात्र अन्तिम विकल्पका निर्देश किया है, इसलिए उससे आवाधा कालके भीतर बन्धको प्राप्त होनेवाले उन सब यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्योंका ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका विवक्षित स्वामित्व समयमें प्राप्त होना सम्भव नहीं है।

❁ आवाधाके एक समय अधिक होने पर उस अन्तिम समयप्रवद्धका यथानिषेक विवक्षित स्थितिमें है ।

§ ६२०. क्योंकि आवाधाप्रमाण कालको अतिस्थापनारूपसे स्थापित करके प्रकृत समयप्रवद्धका निषेक विवक्षित स्थितिमें देखा जाता है। इस सूत्रमें जघन्य पदके ग्रहण द्वारा उसकी अनुवृत्ति करके उससे आवाधाको विशेषित करना चाहिये।

❁ फिर वहाँसे लेकर पल्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण पीछेके कालके भीतर जितने समयप्रवद्ध बँधते हैं उनका यथानिषेक विवक्षित स्थितिमें नियमसे है ।

§ ६२१. उससे अर्थात् एक समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण स्थान पीछे जाकर जो समयप्रवद्ध बँधता है उससे लेकर पल्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण स्थान नीचे जाकर बँधे हुए समयप्रवद्धके यथानिषेक तकके पीछेके बाकी सब समयप्रवद्धोंका यथानिषेक विवक्षित स्थितिमें नियमसे है ।

ति । हेट्टिमासेसकम्मद्विदिअब्भंतरसंचिदसव्वदव्वस्स जहाणिसेओ अहियारद्विदीए किण्ण लब्भइ ति भणिदे ण, ओकडुक्कडुणाहि तस्स णिल्लेवणसंभवेण गिरंतरत्थित्त-
णियमाभावो । तं जहा—एयसमयम्मि वद्धकम्मपोगलदव्वं णिच्छएणासंखेज्ज-
पल्लिदोवमपढमवग्गमूलमेत्तणिसेएसु गिरंतरमवट्ठाणं लइइ । पुणो तदुवरिमगोवुच्छ-
प्पहुडि ओकडुक्कडुणवसेण एयपरमाणुणा विणा सुद्धा होऊण गच्छइ । एवं
णिल्लेविदे अहियारगोवुच्छाए उवरि तदित्थसमयपवद्धणिसेओ जहाणिसेयणसेय-
सरूवेण ण लब्भइ, तेण असंखेज्जपल्लिदोवमपढमवग्गमूलमाणवेदयकालस्सेव गहणं
कयं । अदो चय णियमा अत्थि ति परुविदं, अणियमेण हेट्टिमाणं पि सांतरसरूवेण
संभवविरोहाभावो । किमेषो अथाणिसेयसंचयकालो बहुओ आहो एयगुणहाणि-
ट्ठाणंतरमिदि ? एसो कालो असंखेज्जगुणो, एत्थासंखेज्जगुणहाणीणुवलंभादो ।
तम्हा एत्थियमेत्तकालव्भंतरसंचओ अप्पहाणीकयहेट्टिमसमयपवद्धो णिरुद्धद्विदीए
जहाणिसेयसरूवेण णियमा अत्थि ति सिद्धं ।

शंका—पीछेकी सब कर्मस्थितियोंके भीतर संचित हुए द्रव्यका यथानिषेक अधिकृत स्थितिमें कथो नहीं प्राप्त होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा उक्त द्रव्यका अभाव सम्भव है, इसलिये उसका निरन्तर अस्तित्व पाये जानेका कोई नियम नहीं है । खुलासा इस प्रकार है— एक समयमें जो पुद्गल द्रव्य बंधता है उसका नियमसे पल्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण निषेकोमें निरन्तर अवस्थान पाया जाता है । फिर इससे उपरिम गोपुच्छासे लेकर एक परमाणुके बिना शेष सब द्रव्यका अपकर्षण-उत्कर्षणके कारण अभाव हो जाता है । इस प्रकार उसका अभाव हो जाने पर अधिकृत गोपुच्छामें वहाँके समयप्रबद्धका निषेक यथानिषेकरूपसे नहीं पाया जाता है, इसलिये यहाँ पर पल्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण वेदककालका ही ग्रहण किया है । और इसीलिये सूत्रमें 'णियमा अत्थि' यह कहा है, क्योंकि अनियमसे पीछेके समयप्रबद्धोंके कर्मपरमाणुओंका भी यहाँ सान्तररूपसे सद्भाव माननेमें कोई विरोध नहीं आता ।

शंका—क्या यह यथानिषेकका संचय काल बहुत है या एक गुणहानिस्थानान्तर-प्रमाण है ?

समाधान—यह काल एक गुणहानिस्थानान्तरके कालसे असंख्यातगुणा है, क्योंकि यहाँ असंख्यात गुणज्ञानियों पाई जाती हैं ।

इसलिये इतने कालके भीतर जो संचय होता है वह विवक्षित स्थितिमें यथानिषेकरूपसे नियमसे है यह बात सिद्ध हुई । किन्तु यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि इसमें इस कालसे पीछेके समयप्रबद्धोंके द्रव्यको गौण कर दिया है । अर्थात् उस द्रव्यका यहाँ पाया जाना यद्यपि सम्भव तो है पर नियम नहीं, इसलिये उसकी विवक्षा नहीं की है ।

विशेषार्थ—प्रत्येक कर्म बंधनेके बाद वेदककाल तक तो नियमसे पाया जाता है । उसके बाद उसके पाये जानेका कोई नियम नहीं है । वेदककाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता

§ ६२२. एवमेदं परुविय संपहि एदस्सेव उक्कस्सअधाणिसेयसंचयस्स पमाण-
गवेसणट्टमुवरिमो सुत्तपबंधो—

❀ एककस्स समयपबद्धस्स एकिकस्से द्विदीए जो उक्कस्सओ
अधाणिसेओ तत्तो केवडिगुणं उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

§ ५२३. गिरुद्धद्विदीदो समयुत्तरजहण्णावाहमेत्तमोसक्कियूणावद्विदो जो
समयपबद्धो उक्कस्सजोगेण वद्धो तस्स एयस्स समयपबद्धस्स एकिकस्से जहण्णावाहा-
वाहिरद्विदीए जो उक्कस्सओ अधाणिसेओ तत्तो केवडिगुणं पल्लिदोवमासंखेज्जदि-
भागमेत्तसगुक्कस्ससंचयका ऋभंतरगल्लिदावसिट्ठणाणासमयपबद्धप्पयमुक्कस्सयमधाणिसेय-
द्विदिपत्तयं ? किं संखेज्जगुणमाहो असंखेज्जगुणमिदि पुच्छिदं होइ । एवं पुच्छिदे
एवदिगुणमिदि परुविससमाणो तस्सेव ताव गुणयारस्स पमाणपरुवणट्टमवहार-
कालप्पावहुअं णिदरिसणसरुवेण भणदि—

❀ तस्स णिदरिसणं ।

§ ६२४. तस्स गुणयारस्स सरुवपदंसणट्टं णिदरिसणं भणिस्सामो त्ति
वुत्तं होइ ।

❀ जहा ।

है जिसे परुवके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण बतलाया है । इसीलिये यहाँ पर विवक्षित
स्थितिमे वेदककालके भीतरके यथानिवेकोंका सद्भाव नियमसे बतलाया है ।

§ ६२२. इस प्रकार इसका कथन करके यथानिवेकके इसी उत्कृष्ट प्रमाणका विचार
करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* एक समयप्रबद्धकी एक स्थितिमें जो उत्कृष्ट यथानिवेक है उससे यह उत्कृष्ट
यथानिवेकस्थितिप्राप्त द्रव्य कितना गुणा है ?

§ ६२३. विवक्षित स्थितिसे एक समय अधिक जघन्य आबाधाप्रमाण स्थान पीछे
जाकर उत्कृष्ट योगसे बाँधा गया जो समयप्रबद्ध अवस्थित है उस एक समयप्रबद्धकी जघन्य
आबाधाके बाहरकी एक स्थितिमें जो उत्कृष्ट यथानिवेक प्राप्त होता है उससे परुवके
असंख्यातवें भागप्रमाण अपने उत्कृष्ट संचयकालके भीतर गलाकर शेष बचा हुआ नाना समयप्रबद्ध-
सम्बन्धी उत्कृष्ट यथानिवेकस्थितिप्राप्त द्रव्य कितना गुणा होता है ? क्या संख्यातगुणा होता है
या असंख्यातगुणा होता है, इस प्रकार इस सूत्र द्वारा यह बात पृच्छी गई है । इस प्रकार पृच्छने
पर इतना गुणा होता है यह बतलानेकी इच्छासे सर्व प्रथम उसी गुणकारके प्रमाणका कथन
करनेके लिये पहले उदाहरणरूपमें अवहारकालका अल्पबहुत्व कहते हैं—

* उसका उदाहरण देते हैं ।

§ ६२४. अब उसके अर्थात् गुणकारके स्वरूपको दिखलानेके लिए उदाहरण कहेंगे यह
उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* यथा—

§ ६२५. तं जहा त्ति आसंकावयणमेदं ।

❀ ओकड्डु क्कड्डुणाए कम्मस्स अवहारकालो थोवो ।

§ ६२६. एयसमयम्मि जं पदेसग्गमोकड्डुदि उक्कड्डुदि वा तस्स पदेसग्गस्स आगमणहेदुभूदो जो अवहारकालो सो थोवयरो त्ति भणिदं होदि ।

❀ अथापवत्तसंक्रमेण कम्मस्स अवहारकालो असंखेज्जगुणो ।

§ ६२७. जइ वि एत्थ मिच्छत्तस्स अथापवत्तसंक्रमो णत्थि तो वि ओकड्डु-क्कड्डुणभागहारस्स पमाणपरिच्छेदकरणद्वमेदस्स तत्तो असंखेज्जगुणत्तं पखुविदं । एदम्हादो थोवयरीभूदो ओकड्डुक्कड्डुणभागहारो एत्थ गुणयारो होदि त्ति । अथवा सोलसकसाय-णवणोकसायाणमेयसमयम्मि बद्धमेयद्विदिणिसिचपदेसग्गमावलिथमेत्त-काले वौलीणे पुणो उवरिमसमयप्पहुडि ओकड्डुक्कड्डुणाए विणासं गच्छइ । परपयडि-संक्रमेण वि तत्थोकड्डुक्कड्डुणाए विणासिज्जमाणदब्बं पहाणं, परपयडिसंक्रमेण विणासिज्जमाणदब्बमप्पहाणमिदि जाणावणद्वमेदमवहारकालत्त्पावहुगं भणिदं, अण्णहा तदवगमोवायाभावादो ।

❀ ओकड्डुक्कड्डुणाए कम्मस्स जो अवहारकालो सो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

§ ६२५. यह 'तद्यथा' इस प्रकार आशंकावचन है ।

* अपकर्षण-उत्कर्षण द्वारा कर्मका जो अवहारकाल होता है वह सबसे थोड़ा है ।

§ ६२६. एक समयमें जो कर्म अपकर्षित होता है या उत्कर्षित होता है उस कर्मको प्राप्त करनेके लिये जो अवहारकाल है वह सबसे थोड़ा है यह इस सूत्रका तात्पर्य है ।

* उससे अधःप्रवृत्तसंक्रमणद्वारा कर्मका जो अवहारकाल होता है वह असंख्यातगुणा है ।

§ ६२७. यद्यपि यहाँ मिथ्यात्वका अधःप्रवृत्तसंक्रम नहीं होता है तो भी अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके प्रमाणका निर्णय करनेके लिये इसे उससे असंख्यातगुणा वतलाया है । इस भागहारसे अल्परूप जो अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार है वह यहाँ गुणकार होता है । अथवा सोलह कषाय और नौ नोकषायोमेसे एक समयमें वैधा हुआ जो द्रव्य एक स्थितिमें चिह्नित हुआ है वह एक आवलि कालके व्यतीत होने पर उपरिम समयसे लेकर अपकर्षण-उत्कर्षण द्वारा विनाशको प्राप्त होता है । यहाँ परप्रकृतिसंक्रमणकी अपेक्षा अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा विनाशको प्राप्त होनेवाला द्रव्य ही प्रधान है किन्तु परप्रकृतिसंक्रमणके द्वारा विनाशको प्राप्त होनेवाला द्रव्य प्रधान नहीं है इस प्रकार इस बातको जतानेके लिये यह अवहारकालविषयक अल्पवहुत्व कहा है, अन्यथा उसका ज्ञान नहीं हो सकता है ।

* अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा कर्मका जो अवहारकाल होता है वह पन्थके असंख्यातवै भागप्रमाण है ।

§ ६२८, जो पुर्वं थोवभावेण परुविदो ओकहुकहुणाए कम्मस्स अवहारकालो सो पमाणेण पलिदोवत्तस्स असंखेज्जदिभागो होइ । कथमेदं परिच्छिज्जदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । संपहि एवमवहारिदपमाणस्स ओकहुकहुणभागहारस्स पयदगुणगारत्त-विहाणद्वयुत्तरसुत्तं—

❀ एवदिगुणमेकस्स समयपवद्धस्स एकस्से द्विदीए उक्कस्सयादो जहाणिसेयादो उक्कस्सयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं ।

§ ६२९, जावदिओ एसो ओकहु कहुणाए कम्मस्स अवहारकालो एवदिगुणं गिरुद्धद्विदीदो समयुत्तरजहण्णावाहमेत्तमोसकियुण वद्धसमयपवद्धपढमणिसेय-पडिवद्धादो उक्कस्सयादो अधाणिसेयादो ओघुक्कस्सयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं सगसंचय-कालभंतरसंचयं होइ ति भणिदं होदि ।

§ ६३०, संपहि एदेण सुत्तेण परुविदो कहुकहुणभागहारमेत्तगुणगारसाहणद्व-मिमा ताव परुवणा कीरदे । तं जहा—उक्कस्सयसामित्तसमयादो हेइदो समयुत्तर-

§ ६२८. जो पहले अल्परूपसे कर्मका अकर्षण-उत्कर्षणअवहारकाल कहा है वह पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है ।

इस प्रकार अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके प्रमाणका निश्चय करके अब उसका प्रकृत गुणकाररूपसे विधान करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ एक समयपवद्धकी एक स्थितिमें प्राप्त उत्कृष्ट यथानिषेकसे उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य इतना गुणा है ।

§ ६२९. अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा कर्मका यह अवहारकाल जितना है, विवक्षित स्थितिसे एक समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण स्थान पीछे जाकर जो समयपवद्ध बंधा है उसके प्रथम निषेकसम्बन्धी उत्कृष्ट यथानिषेकसे ओघ उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य अपने संचयकालके भीतर संचय रूप होता हुआ उतना गुणा है यह इस सूत्रका तात्पर्य है ।

विशेषार्थ—यहाँ विवक्षित स्थितिसे यथानिषेकस्थितिप्राप्त उत्कृष्ट द्रव्य कितना होता है इसका प्रमाण बतलाया है । यह तो पहले ही बतला आये है कि इसमें कितने कालके भीतर संचित हुए यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका ग्रहण किया गया है । अब उस संचयको प्राप्त करनेके लिये यह करना चाहिये कि विवक्षित स्थितिसे एक समय अधिक जघन्य आवाधाप्रमाण स्थान पीछे जाकर जो समयपवद्ध बंधा हो उसके प्रथम निषेकमें जितना उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य हो उसे अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे गुणा कर देना चाहिये । सो ऐसा करनेसे विवक्षित स्थितिसे उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका प्रमाण आ जाता है । यह उक्त कथनका तात्पर्य है । वहाँ प्रकरणसे कुछ अवहार कालको अल्पबहुत्व भी बतलाया है सो वह अपकर्षण-उत्कर्षण अवहारकालका प्रमाण प्राप्त करनेके लिये ही बतलाया है ऐसा समझना चाहिये ।

§ ६३०. इस सूत्र द्वारा जो अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारप्रमाण गुणकार कहा है सो उसकी सिद्धिके लिये अब यह प्ररूपणा करते हैं । वह इस प्रकार है—उत्कृष्ट स्वामित्वके समयसे नीचे

जहण्णावाहाए द्वाइदूण जं वद्धकम्मं तं दिव्वडुगुणहाणीए खंडेयूणेयखंडमहियार-
गोबुच्छाए उवरि संछुहदि । संपदि एदं बंधावलियादिवकंतमोकडुक्कहुणभागहारेण
खंडिय तत्थेयखंडं हेडा उवरिं च संछुहिय णासेइ । पुणो विदियसमयम्मि सेसदव्व-
मोकडुक्कहुणभागहारेण खंडेयूणेयखंडमेत्तं विणासेइ । णवरि पढमसमयम्मि विणासिद-
खंडादो विदियसमयविणासिदखंडं विसेसहीणं होइ । केत्तियमेत्तेण ? पढमसमयम्मि
विणासिददव्वं ओकडुक्कहुणभागहारेण खंडिदेयखंडमेत्तेण । एवं तदियसमए वि
विणासेदि । एत्थ वि अणंतरविणासिददव्वादो विसेसहीणपमाणं पुव्वं व वत्तव्वं ।
एवं चेव चउत्थसमयप्पहुडि गच्छइ जाव समयूणदोआवलिगुणजहण्णावाहमेत्तकालो
त्ति । किं कारणं समयूणदोआवलिगुणो ण लब्भंति त्ति भण्दि समयुत्तरजहण्णा-
वाहाए द्वाइदूण बद्धं जं कम्मं तमावाहापढमसमयप्पहुडि समयूणावलिगुणमेत्तकालं
बोलाविय ओकडुक्कहुणसरूवेण मासेदुं पारभदि । पुणो ताव ओकडुक्कहुणाए वावारा
जाव अहियारद्विदी उदयावलिगं चरिमसमअपविट्ठा त्ति । उदयावलिगुणं अंतरपविट्ठाए
पुण गत्थि ओकडुक्कहुणा उक्कहुणा वा । तेण कारणेणेदं सयल्लसुदयावलिगं पुव्विज्ज-

एक समय अधिक जघन्य आवाधाको स्थापित करके वहाँ जो कर्म बंधा हो उसमें डेह-
गुणहानिका भाग देने पर जो एक भागप्रमाण द्रव्य प्राप्त हो वह अधिकारप्राप्त गोबुच्छामें
निक्षिप्त होता है । फिर बंधावलि के वाद इस द्रव्यको अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे भाजित करके
जो एक भाग प्राप्त होता है उसका नीचे-ऊँचे निक्षेप करके नाश कर देता है । फिर शेष द्रव्यमें
अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग देकर जो एक भाग प्राप्त होता है उसका दूसरे समयमें
नाश करता है । किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम समयमें द्रव्यके जितने हिस्सेका नाश हांता
है उससे दूसरे समयमें नाशको प्राप्त होनेवाला द्रव्य विशेषहीन होता है ।

शंका—कितना कम होता है ?

समाधान—प्रथम समयमें विनाशको प्राप्त होनेवाले द्रव्यमें अपकर्षण-उत्कर्षण भाग-
हारका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतना कम होता है ।

इसी प्रकार तीसरे समयमें भी द्रव्यका नाश करता है । यहाँ पर भी पूर्व समयमें विनाशको
प्राप्त हुए द्रव्यसे विशेष हीनका प्रमाण पहलेके समान जानना चाहिये । इसी प्रकार चौथे समयसे
लेकर एक समय कम दो आवलियोंसे न्यून जघन्य आवाधाप्रमाण कालके प्राप्त होने तक यह
जीव उत्तरोत्तर प्रत्येक समयमें द्रव्यका नाश करता जाता है ।

शंका—यहाँ एक समय कम दो आवलियों क्यों नहीं प्राप्त होती हैं ?

समाधान—एक समय अधिक जघन्य आवाधा कालको स्थापित करके उस समय जो
कर्म बंधता है उसे आवाधाके प्रथम समयसे लेकर एक समय कम एक आवलि कालके वाद
अपकर्षण-उत्कर्षणरूपसे ग्रहण करता है । फिर यह अपकर्षण-उत्कर्षणका व्यापार तत्र तत्र चालू
रहता है जब तक अधिकृत स्थिति उदयावलि के अन्तिम समयमें प्रवेश नहीं करती । उदयावलि के
भीतर प्रवेश करने पर तो अपकर्षण और उत्कर्षण ये दोनों ही नहीं होते । इस कारणसे इस पूरी

समयूणबंधावलियं च एकदो मेलानिय एदाहि समयूणदोआवलियाहि परिहीणजहण्णा-
वाहामेत्तो तदित्थणिसेयस्स ओकड्डुकड्डुणफालो होइ ति भणिदं ।

§ ६३१. संपहि एदमेत्तियकालणद्वद्वमिच्छिय सयत्तेयसमयपवद्धं ठविय
एदस्स हेढा दिवड्डुगुणहाणिपदुप्पणमोकड्डुकड्डुणभागहारं समयूणदोआवलियूण-
जहण्णावाहाए ओवट्टिय विसेसाहियं काऊण भागहारभावेण द्विविदे णट्ठासेसद्व-
मागच्छइ । पुणो णट्ठसेसमाणिसेयद्वमिच्छामो त्ति एयसमयपवद्धं ठवेयूण सादिरैय-
दिवड्डुगुणहाणिमेत्तभागहारे ठविदे णासिदसेसद्वमागच्छइ । एदं च पढमणिसेओ त्ति
मणेण संकप्पिय पुथ द्ववेयव्वं । एगसमयुत्तरजहण्णावाहाए ठाइदूण वद्धसमयपवद्धस्स
जहाणिसेयपमाणपरूवणा गदा ।

§ ६३२. दुसमयुत्तरजहण्णावाहाए ठाइदूण वद्धसमयपवद्धस्स वि एदं चेव
परूवणा कायव्वा । णवरि पढमणिसेयमोकड्डुकड्डुणभागहारेण खंडिय तत्थेयखंडेण
विदियणिसेओ हीणो होइ, एयवारमोकड्डुकड्डुणए पत्ताहियवादत्तादो । एदं च
विसेसहीणद्वं पुच्चिल्लद्वस्स पासे विदियणिसेओ त्ति पुथ ठवेयव्वं । एवं
तिसमयुत्तरावाहावद्धसमयपवद्धप्पहुडि हेढा ओदारिदूण एगेगणिसेयं पुव्वभागहारेण
विसेसहीणं काऊण णेद्वं जाव ओकड्डुकड्डुणभागहारमेत्तद्वाने त्ति । एदं चेव

उदयावलिको और पूर्वोक्त एक समय कम बन्धवलिको एकत्रित करने पर इन एक समय कम
दो आवलियोंसे न्यून जघन्य आवाधाप्रमाण बहाके निषेकका अपकर्षण-उत्कर्षणकाल होता है
यह कहा है ।

§ ६३१. अब इतने कालके भीतर नष्ट हुए इस द्रव्यके लानेकी इच्छासे पूरे एक समय-
प्रबद्धको स्थापित करके इसके नीचे डेढ़ गुणहानिसे गुणित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारमें एक
समय कम दो आवलियोंसे न्यून जघन्य आवाधाका भाग देने पर जो लब्ध आवे उसे विशेषा-
धिक करके भागहाररूपसे स्थापित करने पर नष्ट हुए पूरे द्रव्यका प्रमाण आता है । फिर नष्ट
होनेसे जो यथानिषेक द्रव्य बाकी बचा है उसे लानेकी इच्छासे एक समयप्रबद्धको स्थापित करके
और उसके नीचे साधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहारके स्थापित करने पर नाश होनेसे बाकी
बचे हुए द्रव्यका प्रमाण आता है । यहाँ यह जो बाकी बचे हुए द्रव्यका प्रमाण आया है इसे
मनसे प्रथम निषेक मानकर अलगसे स्थापित करे । इस प्रकार एक समय अधिक जघन्य
आवाधाको स्थापित करके बंधे हुए समयप्रबद्धमें जो यथानिषेकका प्रमाण प्राप्त होता है उसका
कथन समाप्त हुआ ।

§ ६३२. दो समय अधिक जघन्य आवाधाको स्थापित करके बंधे हुए समयप्रबद्धका
भी इसी प्रकार कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रथम निषेकमें अपकर्षण-
उत्कर्षणभागहारका भाग देनेसे वहाँ जो एक भाग प्राप्त हो दूसरा निषेक उतना हीन होता है,
क्योंकि यहाँ अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारका एकबार अधिक भाग दिया गया है । इस विशेष हीन
द्रव्यको पूर्वोक्त द्रव्यके पासमें दूसरा निषेक मानकर पृथक् स्थापित करना चाहिये । इसी प्रकार
तीन समय अधिक आवाधाको स्थापित कर बद्धसमयप्रबद्धसे लेकर पीछे जाकर एक-एक
निषेकको पूर्वोक्त भागहार द्वारा एक-एक भाग कम करके अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारप्रमाण स्थानके

एयगुणहाणिअद्वाणपमाणमिदि थूलसरूवेण गहेयव्वं ।

§ ६३३. पुणो विदियगुणहाणिप्पहुडि हेददो वहुणं भीयमाणं गच्छइ जाव अथाणिसेयकालपढमसमओ चि । एत्थ सव्वत्थ वि गुणहाणिअद्वाणमणंतरपरुविद-
मवद्धिदसरूवेण घेत्तव्वं । णिसेयभागहारो पुण दुगुणोक्कड्डुकुहुणभागहारमेत्तो ।
एत्थ पुण एरिसीओ असंखेज्जाओ गुणहाणीओ अत्थि, अथाणिसेयसंचयकालस्स
असंखेज्जपल्लिदोवमपढमवग्गमूलपमाणत्तादो । तदो अथाणिसेयकालपढमसमयम्मि
वद्धसमयपवद्धदव्वमेत्थ चरिमणिसेओ चि घेत्तव्वं ।

§ ६३४. संपहि एदमसंखेज्जगुणहाणिदव्वं सव्वं समयुत्तरावाहाए ठाइदूण
वद्धसमयपवद्धक्कस्सपढमणिसेयपमाणेण समकरणं काउण जोइदे दिवड्डोक्कड्डुकुहुण-

भागहारमेत्तो गुणगारो उप्पज्जइ । सो च एसो

१
१
२

 । एसो च' सुत्तुत्तगुणयारादो

अद्वाहिओ जादो चि एदं मोत्तूण पयारंतरेण गुणगारपरूवणमणुवत्तइस्सामो । तं
जहा—समउत्तरजहण्णावाहाए ठाइदूण वद्धसमयपवद्धसव्वुक्कस्सजहाणिसेयप्पहुडि
हेदो विसेसहीणं विसेसहीणं होऊण गच्छमाणमोक्कड्डुकुहुणभागहारदुभागमेत्तद्वाणं

प्राप्त होने तक ले जाना चाहिये और यही एक गुणहानिस्थानका प्रमाण है ऐसा स्थूलरूपसे
ग्रहण करना चाहिये ।

§ ६३३. फिर दूसरी गुणहानिसे लेकर यथानिषेकके कालके प्रथम समयके प्राप्त होने
तक नीचे बहुतसा द्रव्य क्षयको प्राप्त हो जाता है । यहाँ सर्वत्र गुणहानिअध्वानको पूर्वमें कहे
गये गुणहानिअध्वानके समान अवस्थितरूपसे ग्रहण करना चाहिये । निषेकभागहार तो
अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारसे दूना है । परन्तु यहाँ पर ऐसी असंख्यात गुणहानियाँ होती हैं,
क्योंकि यथानिषेकका संचयकाल पत्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है, इसलिये यथा-
निषेकके कालके प्रथम समयमें जो समयप्रवद्धका द्रव्य बंधता है उसे यहाँ अन्तिम निषेकरूपसे
ग्रहण करना चाहिये ।

§ ६३४. अब इस असंख्यात गुणहानिप्रमाण समस्त द्रव्यको एक समय अधिक
आवाधाको स्थापित करके उस समय वैधे हुए समयप्रवद्धके उत्कृष्ट प्रथम निषेकके प्रमाणरूपसे
समीकरण करके देखने पर अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे डेढ़ गुणा गुणकार उत्पन्न होता है ।
वह यह १½ है । और यह सूत्रोक्त गुणकारसे अर्धभागप्रमाण अधिक हो गया है, इसलिए इसे
छोड़कर प्रकारान्तरसे गुणकारका कथन बतलाते हैं । वह इस प्रकार है—एक समय अधिक लघन्य
आवाधाको स्थापित करके जो समयप्रवद्ध वैधता है उसके सबसे उत्कृष्ट यथानिषेकसे लेकर
पीछेके निषेक एक एक चय कम होते जाते हैं । और इस प्रकार अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका

१. ता० प्रती 'एसो'

१
२
३

 । एसो च' इति पाठः ।

गंतूणेगसमयपवद्दपडिवद्दुक्कस्सजहाणिसेयद्दपमाणं चेद्वदिं । एदं चेव एयगुणहाणि-
पमाणमिदि घेत्तव्वं । एवमुवरि वि सव्वत्थोक्कड्डुक्कड्डुणभागहारं णिसेयभागहारं
काऊण णेदव्वं जाव जहाणिसेयकालपढमसमओ त्ति । पुणो पुव्वं व सव्वदव्वे
पढमणिसेयपमाणेण कदे ओक्कड्डुक्कड्डुणभागहारस्स तिण्णिचउव्वभागमेत्ता पढमणिसेया
होति । एत्थ वि गुणगारो सुत्तुत्तपमाणे ण जादो तम्हा सुत्तुत्तगुणगारुप्पायणद्वमेत्थो-
क्कड्डुक्कड्डुणभागहारस्स वेत्तिभागमेत्तं गुणहाणिअद्धानमिदि घेत्तव्वं ।

§ ६३५. संपहि एदस्स गुणहाणिअद्धानस्स साहणद्वमिमा परूवणा कीरदे ।
तं जहा—जहाणिसेयपढमगुणहाणिपढमणिसेयप्पहुडि हेट्ठा जहाकमं जहाणिसेय-
गोपुच्छपंती रचेयव्वा जाव ओक्कड्डुक्कड्डुणभागहारवेत्तिभागमेत्तद्धानमोयरिय द्विदगोबुच्छा
त्ति । एदं चेव एयगुणहाणिद्वानंतरं । एवं विरचिदपढमगुणहाणिदव्वे णिसेयं पडि
चरिमगोपुच्छपमाणं मोत्तूण सेसमहियदव्वं घेत्तूण पुध द्ववेयव्वं । एवं ठविदअहियदव्व-
पमाणगवेसणं कस्सामो । तत्थ ताव चरिमणिसेयादो अणतरोवरिमगोबुच्छा
एयपक्खेवमेत्तेण अहिया होइ । तस्स पमाणं केत्तिरं ? जहणणिसेयस्स संखेज्जदि-
भागमेत्तं । तस्स को पडिभागो ? रूवूणोक्कड्डुक्कड्डुणभागहारो ? तं पि कुदो ? एकवार-

जितना प्रमाण है उससे अर्धभागप्रमाण स्थान जाकर एक समयप्रवद्धसे प्रतिबद्ध उत्कृष्ट
यथानिषेकका प्रमाण आधा प्राप्त होता है । और यही एक गुणहानिका प्रमाण है ऐसा यहाँ
ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार आगे भी सर्वत्र अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारको निषेकभागहार
करके यथानिषेक कालके प्रथम समयके प्राप्त होनेतक ले जाना चाहिये । फिर पहलेके समान
सब द्रव्यको प्रथम निषेकके प्रमाणरूपसे करनेपर अपकर्षण उत्कर्षणभागहारके तीन बटे चार
भागप्रमाण प्रथम निषेक प्राप्त होते हैं । यहाँ पर भी गुणकार सूत्रमें कहे गये गुणकारके बराबर
नहीं हुआ है, इसलिये सूत्रमें कहे गये गुणकारको उत्पन्न करनेके लिये यहाँ पर अपकर्षण-
उत्कर्षण भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण गुणहानिअध्वान है ऐसा ग्रहण करना चाहिये ।

§ ६३५. अब इस गुणहानिअध्वानकी सिद्धिके लिये यह प्ररूपणा करते हैं । वह इस
प्रकार है—यथानिषेककी प्रथम गुणहानिके प्रथम समयसे लेकर नीचे अपकर्षण-उत्कर्षण
भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण स्थान जाकर जो गोपुच्छा स्थित है उसके प्राप्त होने तक
क्रमसे यथानिषेक गोपुच्छाओंकी पँक्तिकी रचना करना चाहिये और यहाँ एक गुणहानि-
स्थानान्तरका प्रमाण है । इस प्रकार प्रथम गुणहानिके द्रव्यको स्थापित करके उसके प्रत्येक
निषेकमेंसे अन्तिम गोपुच्छाके प्रमाणके सिवा शेष अधिक द्रव्यको एकत्रित करके अलग
रख दे । इस प्रकार अलग रखे गये अधिक द्रव्यके प्रमाणका विचार करते हैं । यहाँ पर अन्तिम
निषेकका जितना प्रमाण है उससे अनन्तर उपरिम गोपुच्छाका प्रमाण एक प्रक्षेपमात्र
अधिक है ।

शंका—उसका प्रमाण कितना है ?

समाधान—जवन्य निषेकके संख्यातर्वे भागप्रमाण है ।

शंका—उसका प्रतिभाग क्या है ?

पत्ताहिययादत्तादो । रूवृणत्तमेत्थानवेक्खिय संपुण्णोक्कडुकडुणभागहारमेत्तो पक्खेव-
पडिभागो वेत्तव्वो । एवं चरिमणिसैयादो दुचरिमणिसेयस्स विसेसो पख्विदो ।

§ ६३६. संपहि दुचरिमादो तिचरिमस्स अहियदव्वपमाणगुणमं कस्सामो ।
तं जहा—दुचरिमणिसेयं दोपडिरासीओ काऊण तत्थेयमोक्कडुकडुणभागहारेण खंडिय
पडिरासीकयरासीए उवरि पक्खित्ते तिचरिमणिसेओ उप्पज्जइ त्ति एत्थ चरिमणिसैयादो
अहियदव्वपमाणं दो पक्खेवा एओ च पक्खेवपक्खेवो होइ । एदं पि पुव्वं व
पडिरासिय तत्थेयमोक्कडुकडुणभागहारेण खंडिय तत्थेयखंडं तत्थेव पक्खित्ते
चउचरिमणिसेओ उप्पज्जइ त्ति तत्थ वि जहण्णदव्वादो अहियपमाणं तिण्णिण पक्खेवा
तिण्णिण चेव पक्खेवपक्खेवा अण्णेणो च तप्पक्खेवो लब्भइ । तहा पंचचरिमे वि
पुव्वविहाणेण चत्तारि पक्खेवा इ पक्खेवपक्खेवा चत्तारि च तप्पक्खेवा अण्णेणा
च चुण्णी होइ । पुणो तत्तो उवरिमे वि पंच पक्खेवा दस पक्खेवपक्खेवा तत्तियमेत्ता
चेव तप्पक्खेवा पंच चुण्णीओ अवरिणा च चुण्णाचुण्णी अहियसरूवेण लब्भंति ।
एवं जत्तियमद्दागमुव्वरि चडिय विसेसगवेसणा कीरइ चरिमणिसैयादो तत्थ तत्थ
रूवृणचडिदद्दाणमेत्ता पक्खेवा दुरूवृणचडिदद्दाणसंकलणमेत्ता च पक्खेवपक्खेवा

समाधान—एक कम अपकर्षण-उत्कर्षण भागहार है ।

शंका—ऐसा क्यों है ?

समाधान—क्योंकि वह एक बार अधिक घातसे प्राप्त हुआ है ।

यद्यपि ऐसा है तो भी एक कमकी विवक्षा न करके यहाँ पर प्रक्षेपका प्रतिभाग सम्पूर्ण
अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण लेना चाहिये । इस प्रकार चरम निषेकसे द्विचरम निषेकके
विशेषका कथन किया ।

§ ६३६. अब द्विचरम निषेकसे त्रिचरम निषेकमें जो अधिक द्रव्य है उसके प्रमाणका
विचार करते हैं । वह इस प्रकार है—द्विचरम निषेककी दो प्रति राशियाँ स्थापित करो । फिर
उनमेंसे एकमें अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग दो । भाग देने पर जो लब्ध आवे उसे अलग
स्थापित की गई दूसरी राशिमें मिला देने पर त्रिचरम निषेक उत्पन्न होता है, अतः उस त्रिचरम
निषेकमें चरम निषेकसे अधिक द्रव्यका प्रमाण दो प्रक्षेप और एक प्रक्षेपप्रक्षेप है । अब इस त्रिचरम-
निषेककी भी पूर्ववत् प्रतिराशि करो । फिर उनमेंसे एकमें अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग
दो । भाग देनेसे जो एक भाग लब्ध आवे उसे अलग स्थापित की गई उसी राशिमें मिला देनेपर
चतुश्चरम निषेक उत्पन्न होता है, अतः उस निषेकमें भी जघन्य द्रव्यसे जो अधिक द्रव्य है उसका
प्रमाण तीन प्रक्षेप, तीन प्रक्षेप-प्रक्षेप और एक तत्प्रक्षेप प्राप्त होता है । इसी प्रकार पाँचवें चरम-
निषेकमें भी पूर्व विधिसे अधिक द्रव्यका प्रमाण चार प्रक्षेप, छह प्रक्षेप-प्रक्षेप, चार तत्प्रक्षेप
और एक चूर्णि होता है । फिर इससे ऊपरके निषेकमें भी पाँच प्रक्षेप, दस प्रक्षेप-प्रक्षेप, उतने
ही अर्थात् दस ही तत्प्रक्षेप, पाँच चूर्णि और एक चूर्णिचूर्णि अधिक द्रव्य रूपसे उपलब्ध होते हैं ।
इस प्रकार जितना अध्वान ऊपर जाकर अधिक द्रव्यका विचार करते हैं अन्तिम निषेकसे वहाँ
एक कम ऊपर गये हुए अध्वान प्रमाण प्रक्षेप, दो कम ऊपर गये हुए अध्वानके संकलनप्रमाण

तिरूवूणचडिदद्दाणसंकलणासंकलणामेत्ता च तप्पक्खेवा उप्पाएयन्वा, तेसिं चेव पहाणत्तादो ।

§ ६३७. संपहि पढमणिसेयमस्सियूण चरिमणिसेयादो विसेसपमाणपरिक्खा कीरदे । तत्थ ताव रूवूणोकड्डु कड्डुणभागहारवेतिभागमेत्ता पक्खेवा लब्भति । ते च एदे

$\left[\begin{array}{c} ६ २ \\ ६ ३ \end{array} \right]$

। संपहि एत्थ जइ ओकड्डु कड्डुणभागहारतिभागमेत्ता पक्खेवा अत्थि तो एदं चरिमणिसेयपमाणं पावइ । तदो तेसिमुप्पायणविहिं वचइस्सामो । चडिदद्दाणसंकलण-

मेत्ता पक्खेवपक्खेवा वि एत्थत्थि त्ति $\left[\begin{array}{c} ० ६ १ २ ६ १ २ \\ ६ ६ १ ३ ३ २ \end{array} \right]$ एवमेदे आणिय पक्खेवपमाणेण

कदे ओकड्डु कड्डुणभागहारवेणवभागमेत्ता पक्खेवा होंति $\left[\begin{array}{c} ० ६ २ \\ ६ ६ \end{array} \right]$ । एत्थ जइ

ओकड्डु कड्डुणभागहारस्स णवभागमेत्ता पक्खेवा होंति तो एदे तस्स तिभागमेत्ता पक्खेवा जायंति । ते पुण तिरूवूणोकड्डु कड्डुणभागहारवेतिभागसंकलणासंकलणमेत्तत्तपक्खेवे आदिं कादूण सेसखंडे अवलंबिय आणेयन्वा । पुणो ते आणिय पुव्विल्लोकड्डु कड्डुण-भागहारवेणवभागमेत्तपक्खेवाणमुवरि पक्खिविय लद्धकिंचूणतत्तिभागमेत्ते पक्खेवे घेत्तूण पुव्वपरुविदोकड्डु कड्डुणभागहारवेतिभागमेत्तपक्खेवाणमुवरि पक्खित्ते जहणण-णिसेयपमाणं पढमणिसेयमस्सियूण अहियदव्वं होइ । एदं च मूलदव्वेण सह

प्रक्षेपप्रक्षेप, तीन कम ऊपर गये हुए अध्वानके संकलनासंकलनप्रमाण तत्प्रक्षेप उत्पन्न करने चाहिये, क्योंकि यहाँ उनकी ही प्रधानता है ।

§ ६३७. अब प्रथम निषेकमें अन्तिम निषेकसे जितना अधिक द्रव्य है उसके प्रमाणका विचार करते हैं । वहाँ एक अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण प्रक्षेप प्राप्त होते हैं । वे ये हैं— $\frac{६ २}{६ ३}$ । अब यहाँ पर यदि अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके तीसरे भागप्रमाण प्रक्षेप प्राप्त होते हैं तो यह अन्तिम निषेकके प्रमाणको प्राप्त होता है, इसलिये उनके उत्पन्न करनेकी विधि बतलाते हैं—जितना अध्वान आगे गये हैं उनके संकलनमात्र प्रक्षेपप्रक्षेप भी यहाँ पर हैं इसलिए $\frac{० ६ २ ६ २}{६ ३ ३ २}$ इस प्रकार इन्हें लाकर प्रक्षेपके प्रमाणसे करने पर अपकर्षण-

उत्कर्षण भागहारके दो बटे नौ भागप्रमाण प्रक्षेप होते हैं $\frac{० ६ २}{६ ६}$ । यहाँ पर यद्यपि अपकर्षण-

उत्कर्षण भागहारके नौ भागप्रमाण प्रक्षेप होते हैं तो ये उसके त्रिभागमात्र प्रक्षेप हो जाते हैं । परन्तु वे तीन रूप कम अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके दो बटे तीन भागके संकलनासंकलनप्रमाण तत्प्रक्षेपोसे लेकर शेष खण्डोंका अवलम्बन करके ले आने चाहिए । पुनः उन्हें लाकर पूर्वोक्त अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके दो बटे नौ भागप्रमाण प्रक्षेपको ऊपर प्रक्षिप्त करके लब्ध हुए उसके कुछ कम त्रिभागमात्र प्रक्षेपोंको ग्रहण करके पहले कहे गये अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण प्रक्षेपोंके ऊपर प्रक्षिप्त करनेपर प्रथम निषेकके आश्रयसे जघन्य निषेकप्रमाण अधिक

अहिकयणिसेयादो दुगुणमेत्तं जादमिदि सिद्धं ओकड्डुक्कड्डुणभागहारवेतिभागाणं गुणहाणिट्ठाणंतरत्तं । एत्तियमेत्ते गुणहाणिअद्धाणे संते सिद्धो सुत्तपरुत्विदो गुणमारो, सव्वदव्वे पढमणिसैयप्राणेण समकरणे कदे ससुप्पणदिवहुगुणहाणिगुणयारस्स संपुण्णोकड्डुक्कड्डुणभागहारपमाणत्तदंसणादो ।

§ ६३८. एवमेत्तिएण पवंधेण उक्कस्सअधाणिसैयद्विदिपत्तयस्स पमाणं जाणाविय संपहि तदुक्कस्ससामित्तपरुवणद्वसुत्तरसुत्तपबंधो—

❖ इदाणिसुक्कस्सयमधाणिसैयद्विदिपत्तयं कस्स ?

§ ६३९. एवं णिदरिसणपरुवणाए सव्वमवहारिदसखवसुक्कस्सयमधाणिसैयद्विदिपत्तयं कस्से ति पुव्वपुच्छाए अणुसंधाणसुत्तमेदं ।

❖ सत्तमाए पुढवीए णेरइयस्स जत्तियमधाणिसैयद्विदिपत्तयसुक्कस्सयं तत्तो विसेसुत्तरकालसुववण्णो जो णेरइओ तस्स जहण्णेण उक्कस्सयमधाणिसैयद्विदिपत्तयं ।

§ ६४०. एदस्स सुत्तसत्थो वुच्चदे—तसुक्कस्सयमधाणिसैयद्विदिपत्तयं सत्तमाए पुढवीए णेरइयस्स होइ ति पदसंबंधो । सेसगइजीवपरिहारेण सत्तमपुढविणेरइयस्सेव सामित्तं किमदं कीरदे ? ण, सेसगईसु संकिल्लेसविसोहीहि णिज्जारवहुत्तं पेक्खिय

द्रव्य होता है । किन्तु यह मूल द्रव्यके साथ अधिकृत निषेकसे दूना हो गया है, इसलिए अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके दो बटे तीन भागोंका गुणहानिस्थानान्तर सिद्ध हुआ । इतने मात्र गुणहानिअध्वानके रहते हुए सूत्रमे कदा गया गुणकार सिद्ध हुआ, क्योंकि सब द्रव्यके प्रथम निषेकके प्रमाणसे समीकरण करने पर उत्पन्न हुआ डेढ़ गुणहानिप्रमाण गुणकार सम्पूर्ण अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके प्रमाणरूपसे देखा जाता है ।

§ ६३८. इस प्रकार इतने कथनके द्वारा उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तका प्रमाण जताकर अब उसके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रोंकी रचना घतलाते हैं—

❖ अब उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तका स्वामी कौन है ?

§ ६३९. इस प्रकार उदाहरणके कथन द्वारा जिसके पूरे स्वरूपका निश्चय कर लिया है और जिसके उत्कृष्ट स्वामित्वके विषयमें पहले पृच्छा कर आये हैं अब उसी उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तके स्वामित्वका अनुसन्धान करनेके लिये यह सूत्र आया है—

❖ सातवीं पृथिवीके नारकीके उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तका जितना काल है उससे विशेष अधिक कालके साथ जो नारकी उत्पन्न हुआ है वह उस यथानिषेकके जयन्य कालके अन्तमें उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तका स्वामी है ।

§ ६४०. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—वह उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य सातवीं पृथिवीके नारकीके होता है ऐसा यहाँ पदोंका सम्बन्ध कर लेना चाहिये ।

शंका—शेष गतिके जीवोंको छोड़कर सातवीं पृथिवीके नारकीको ही स्वामी क्यों बतलाया है ?

तहाविहाणादो । तं जहा—सेसगदीसु विसोहिकात्ते बहुअमोकडिय हेद्दा संछुहइ । संकिलेसेण वि बहुअमुकडियुणुवरि संछुहइ त्ति दोहि मि पयारेहिं अहियारगोवुच्छाए बहुदव्ववओ होइ । सत्तमपुढविणेरइयम्मि पुण एयतेण संकिलेसो चेव तेणेयपयारेणेव तत्थ णिज्जरा होइ त्ति सेसपरिहारेण तस्सेव गहणं कदं । अथवा सत्तमपुढविणेरइयस्स संकिलेसवहुलस्स णिकाचणादिकरणेहि वहुअं दव्वमधाणिसेयट्टिदिपत्तयसरूवेण लब्भइ, ण सेसगईसु त्ति एदेणाहिप्पाएण तत्थेव सामित्तं दिण्णं ।

§ ६४१. संपहि तस्सेव विसेसलक्खणपरूवणद्वसुत्तरसुत्तावयवकळावो—एत्थ जत्तियमधाणिसेयट्टिदिपत्तयमुक्कस्सयमिदि उत्ते पुव्वं परूविदासंखेज्जपलिदोवमपढम-वग्गमूलपमाणुक्कस्सजहाणिसेयसंचयकालमेत्तमिदि घेत्तव्वं । तं कुदो परिच्छिज्जदे ? तत्तो विसेसुत्तरकालसुववण्णो जो णेरइओ त्ति सुत्तावयवादो । एत्थ विसेसुत्तरपमाण-मपज्जत्तकालेण सह गदजहण्णावाहमेत्तमिदि गहेयव्वं, आवाहाव्वंतरे जहाणिसेयसंभवा-भावादो अपज्जत्तकाले वि जोगवहुत्ताभावेण सव्वुक्कस्सपदेससंचयाणुववचीदो । तस्स जहण्णेण इदि वुत्ते तस्स तारिसस्स णेरइयस्स जहण्णेण अंतोसुहुत्तेणव्वहिय-

समाधान—नहीं, क्योंकि शेष गतियोंमें संक्लेश और विशुद्धिके कारण बहुत निर्जरा होती है, इसलिये उसे देखते हुए ऐसा विधान किया है । खुत्तामा इस प्रकार है—शेष गतियोंमें विशुद्धिके समय बहुत द्रव्यका अपकर्षण होकर उसका नीचेकी स्थितियोंमें निक्षेप होता है और संक्लेशके कारण बहुत द्रव्यका उत्कर्षण होकर उसका ऊपरकी स्थितियोंमें निक्षेप होता है इस प्रकार वहाँ दोनों ही प्रकारोंसे अधिकृत गोपुच्छाके बहुत द्रव्यका व्यय हो जाता है । किन्तु सातवीं पृथिवीके नारकीके तो एकान्तरूपसे संक्लेश ही पाया जाता है, इसलिये वहाँ एक प्रकारसे ही निर्जरा होती है, इसलिये शेष गतियोंका निराकरण करके केवल उसी गतिका ही ग्रहण किया है । अथवा सातवीं पृथिवीका नारकी संक्लेशबहुल होता है, इसलिये उसके निकाचना आदि करणोके द्वारा यथानिषेकस्थितिप्राप्त रूपसे बहुत द्रव्य पाया जाता है, शेष गतियोंमें नहीं, इस प्रकार इस अभिप्रायसे भी वहाँ पर स्वाभित्व दिया है ।

§ ६४१. अब उसीका विशेष लक्षण बतलानेके लिये सूत्रका शेष भाग आया है—यहाँ सूत्रमें जो 'जत्तियमधाणिसेयट्टिदिपत्तयमुक्कस्सय' यह कश है सो उससे पहले कहे गये पत्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण उत्कृष्ट यथानिषेक संचयकालका ग्रहण करना चाहिये ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रमें जो 'तत्तो विसेसुत्तरकालसुववण्णो जो णेरइओ' यह वचन कहा है उससे जाना जाता है ।

यहाँ पर विशेषोत्तर कालका प्रमाण अपर्याप्त कालके साथ व्यतीत हुआ जघन्य आबाधा-प्रमाण काल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एक तो आबाधाकालके भीतर यथानिषेकोकी सम्भावना नहीं है और दूसरे अपर्याप्त कालमें भी बहुत योग न होनेके कारण सर्वोत्कृष्ट प्रदेश संचय नहीं बन सकता है । तथा सूत्रमें जो 'तस्स जहण्णेण' यह कहा है सो इसका यह आशय है कि जो

मुक्कस्सयमधाणिसैयकालं भवद्विदीए आदिम्मि काऊणुप्पज्जिय सव्वलहुं सव्वाओ पज्जत्तीओ समाणिय उक्कस्सयजहाणिसैयद्विदिपत्तयस्सादिं कादूण पुरदो भण्णमाण-सयविसुद्धीए सम्ममणुपालिदत्तकालस्स तत्कालचरिमसमयम्मि वट्टमाणयस्स उक्कस्सय-मधाणिसैयद्विदिपत्तयं होइ त्ति घेत्तव्वं । अहवा जत्तिएण कालेण उक्कस्सयमधा-णिसैयद्विदिपत्तयं होइ तस्स कालस्स संगहो कायव्वो । केत्तिएण च कालेण तस्स संचओ ? जहण्णएण अधाणिसैयकालेण । एतदुक्कं भवति—अधाणिसैयकालो जहण्णओ वि अत्ति उक्कस्सओ वि । तत्थुक्कस्सकालब्भंतरे ओक्कड्डु कड्डुणाए वहु-दव्वविणासेण लाहादंसणादो जहण्णकालस्सेव संगहो कायव्वो त्ति । तदो तिरिक्खो वा मणुस्सो वा सत्तमाए पुढवीए गेरइएसु उव्वज्जमाणो जहण्णावाहाजहण्णा-पज्जत्तद्वासमासमेत्तंतोमुहुत्तब्भहियं जहण्णयमधाणिसैयद्विदिपत्तयसंचयकालभवद्विदीए आदिम्मि काऊणुप्पज्जिय छप्पज्जत्तीओ समाणिय उक्कस्सअधाणिसैयद्विदिपत्तयसंचय-मादविय समयविरोहेण समाणिदत्तकालो जो गेरइओ तस्सुक्कस्सयमधाणिसैयद्विदि-पत्तयं होइ त्ति सुत्तत्थसंगहो । जत्थ वा तत्थ वा गिरयाउअब्भंतरे संचयकालमपरुविय अंतोमुहुत्तववण्णगेरइयप्पहुडि संचयं कराविय सगसंचयकालचरिमसमए सामित्तं

नारकी जघन्य अन्तर्मुहूर्त अधिक उत्कृष्ट यथानिषेक कालको भवके प्रथम समयमें करके उत्पन्न हुआ है और जिसने अतिशीघ्र सब पर्याप्तियोंको समाप्त करके उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तसे लेकर आगे कहीं जानेवाली अपनी विशुद्धिके द्वारा उस कालका भले प्रकारसे रक्षण किया है उस नारकीके उस कालके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य होता है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिये । अथवा जितने कालके द्वारा उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य प्राप्त होता है उस कालका यहाँ संग्रह करना चाहिये ।

शंका—कितने कालके द्वारा उसका संचय होता है ?

समाधान—यथानिषेकके जघन्य काल द्वारा उसका संचय होता है । आशय यह है कि यथानिषेकका जघन्य काल भी है और उत्कृष्ट काल भी है । उससेसे उत्कृष्ट कालके भीतर अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा बहुत द्रव्यका विनाश हो जानेके कारण लाभ दिखाई नहीं देता है, इसलिये यहाँ जघन्य कालका ही संग्रह करना चाहिये ।

इसलिये जो तिर्यञ्च या मनुष्य सातवीं पृथिवीके नारकियोंमें उत्पन्न हो रहा है वह जघन्य आवाधा और जघन्य अपर्याप्त कालके जोड़रूप अन्तर्मुहूर्त कालसे अधिक यथानिषेकस्थिति-प्राप्तके जघन्य संचयकालको भवस्थितिके प्रथम समयमें प्राप्त करके उत्पन्न हुआ फिर वह पर्याप्तियोंको समाप्त करके और यथानिषेकस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट संचयका आरम्भ करके जब आगममें बतलाई हुई विधिके अनुसार उक्त कालको समाप्त कर लेता है उस नारकीके उत्कृष्ट यथानिषेकस्थिति प्राप्त द्रव्य होता है यह इस सूत्रका समुदायार्थ है ।

शंका—नरकायुके भीतर जहाँ कहीं भी संचय कालका कथन न करके नारकीके उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त कालसे लेकर संचयका आरम्भ कराकर फिर अपने संचय कालके अन्तिम समयमें सूत्रकारने जो स्वामित्वका कथन किया है सो उनके ऐसा कहनेका क्या अभिप्राय है ।

भणंतस्स सुत्तयारस्स को अहिप्पाओ ? ण, उवरि संकिलेसविसोहीणं परावत्त-
णुवलंभादो ।

§ ६४२. पुणो वि पयदसामियस्स संचयकालव्भंतरे आवासयविसेसपरुवणट्ठ-
सुत्तरो सुत्तकलावो—

❀ एदग्ग्हि पुण काले सो षेरइओ तप्पाओग्गउक्कस्सयाणि
जोगट्ठाणाणि अभिक्खं गदो ।

समाधान—नहीं, क्योंकि इस कालके सिवा अन्यत्र संक्लेश और विशुद्धिका परावर्तन
नहीं बन सकता है, इसलिये और आगे जाकर ऐसा नहीं कहा है ।

विशेषार्थ—एक तो शेष गतियोंमें कभी संक्लेशकी और कभी विशुद्धताकी बहुलता
रहती है, इसलिये वहाँ उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिप्राप्तका संचय नहीं हो सकता और दूसरे
यथानिपेकके उत्कृष्ट संचयके लिये निकाचितकरणकी प्राप्ति आवश्यक है । जिसमें विवक्षित
कर्मपरमाणुओंका उदरूपण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीरण ये कुछ भी सम्भव नहीं
हैं वह निकाचितकरण माना गया है । इस करणकी प्राप्तिके लिए बहुलतासे संक्लेशरूप
परिणामोकी प्राप्ति आवश्यक है । यतः बहुतायतसे ये परिणाम अन्य गतियोंमें नहीं पाये जाते,
इसलिये भी वहाँ उत्कृष्ट यथानिपेकस्थितिप्राप्तका संचय नहीं हो सकता । यही कारण है कि
इसका उत्कृष्ट स्वामित्व नरकगतिमें बतलाया है । उसमें भी सातवें नरकके नारकीके जितना
अधिक संक्लेश सम्भव है उतना अन्यत्र सम्भव नहीं है, इसलिये यह उत्कृष्ट स्वामित्व सातवें
नरकके नारकीको दिया गया है । अब यह देखना है कि सातवें नरकमें भी यह उत्कृष्ट स्वामित्व
कत्र प्राप्त होता है । इस विषयमें चूर्णिसूत्रकारका कहना है कि कोई मनुष्य या तिर्यक ऐसे
समयमें नरकमे उत्पन्न हुआ जब उत्पन्न होनेके कुछ ही काल बाद यथानिपेकस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट
संचयका प्रारम्भ होनेवाला है उसके उस कालके समाप्त होनेके अन्तिम समयमें यह उत्कृष्ट
स्वामित्व प्राप्त होता है । यहाँ जो कुछ अधिक काल बतलाया है सो उससे नारकीके योग्य जघन्य
अपर्याप्तकाल और जघन्य आबाधाकाल लेना चाहिये । सातवें नरकमें उत्पन्न होनेके इतने
काल बाद यथानिपेकस्थितिप्राप्तका संचयकाल प्रारम्भ होता है और जब यह काल समाप्त होता
है तब अन्तमें उत्कृष्ट स्वामित्व होता है । यह संचय काल पत्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूल
प्रमाण है यह तो पहले ही बतलाया जा चुका है । यद्यपि यह संचयकाल जघन्य और उत्कृष्टके
भेदसे अनेक प्रकारका है फिर भी यहाँ उत्कृष्ट कालका ग्रहण न करके जघन्य कालका ग्रहण किया
है, क्योंकि उत्कृष्ट कालके भीतर अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा बहुत अधिक द्रव्यके विनाश होनेका
भय है । सूत्रमें आये हुए 'जहण्णेण' पदसे भी इसी बातका सूचन होता है । यद्यपि इस पदका
जघन्य आबाधा अर्थ करके भी काम चलाया जा सकता है, क्योंकि तब जघन्य आबाधासे
अधिक उत्कृष्ट संचय कालके अन्तमें उत्कृष्ट स्वामित्व होता है यह अर्थ फलित किया जा सकता
है । किन्तु इससे पूर्वोक्त अर्थ मुख्य प्रतीत होता है और यहाँ कारण है कि इस पदके दो अर्थ करके
भी टीकामें पूर्वोक्त अर्थ पर जोर दिया है ।

§ ६४२. अब प्रकृत स्वामीके संचय कालके भीतर आवश्यक विशेषका कथन करनेके
लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ परन्तु इस संचय कालके भीतर वह नारकी तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट योगस्थानोंको
निरन्तर प्राप्त हुआ ।

§ ६४३. एदम्मि पुण अघाणिसेयसंचयकालब्भंतरे सो णेरइओ बहुसो बहुसो तप्पाओग्गुक्कस्सयाणि जोगट्ठाणाणि परिणदो, तेहि विणा पयदुक्कस्ससंचयाणुप्पत्तीदो च्चि एदेण जोगावासयं परुविदं । एत्थ तप्पाओग्गविसेसणं समयाविरोहेण तहा परिणदो च्चि जाणावणट्ठं । जाव संभवो ताव सव्वुक्कस्सजोगेणेव परिणमियं तस्सासंभवे तप्पाओग्गुक्कस्सयाणि जोगट्ठाणि बहुसो गदो च्चि भणिदं होइ ।

❀ तप्पाओग्गुक्कस्सयाहि वड्डीहि वड्ढिदो ।

§ ६४४. संखेज्जगुणवड्ढि-असंखेज्जगुणवड्ढि-संखेज्जभागवड्ढिसण्णिदाहि जोग-वड्डीहि पदेसबंधवड्ढिअविणाभावीहि समयाविरोहेण वड्ढिदो । तासिमसंभवे पुण असंखेज्जभागवड्ढीए वि वड्ढिदो च्चि वुत्तं होइ । णेदं पुव्वुत्तथपरुवणादो पुणरुत्तं, तस्सेव विसेसियुण परुवणादो । तन्हा एदेण वि जोगावासयं च्चव विसेसिदमिदि घेत्तव्वं ।

❀ तिस्से ढिदीए णिसेयस्स उक्कस्सपदं ।

§ ६४५. जहाणिसेयकालब्भंतरे सव्वथोवजहणणावाहाए उक्कस्सजोगेण च्च जहण्णयट्ठिदिं वंधमाणो सामित्तढिदीए उक्कस्सपदं काऊण णिसिचइ च्चि भणिदं होइ, णिसेयाणमण्णहा थोवभावाणुववत्तीदो । संपहि एदेण विहाणेणाणुसारिदथोवूण-

§ ६४३. परन्तु इस यथानिषेकके संचय कालके भीतर वह नारकी अनेक बार तद्योग्य उत्कृष्ट योगस्थानोंको प्राप्त हुआ, क्योंकि उत्कृष्ट योगस्थानोंको प्राप्त हुए विना प्रकृत उत्कृष्ट संचय नहीं बन सकता है इस प्रकार इस सूत्रके द्वारा योगावश्यकका कथन किया गया है । यहाँ सूत्रमें तत्प्रायोग्य यह विशेषण आगमात्नुसार उस प्रकारसे परिणत हुआ यह बतलानेके लिये दिया है । जब तक सम्भव हो तब तक सर्वोत्कृष्ट योगसे ही परिणत रहे और जब सर्वोत्कृष्ट योग सम्भव न हो तब बहुत बार तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट योगस्थानोंको प्राप्त होवे यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

❀ तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट वृद्धियोंसे वृद्धिको प्राप्त हुआ ।

§ ६४४. प्रदेशवन्धवृद्धिकी अविनाभावी संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और संख्यातभागवृद्धि इन तीन वृद्धियोंके द्वारा जो आगममें बतलाई गई विधिके अनुसार वृद्धिको प्राप्त हुआ है । परन्तु जब ये तीन वृद्धियाँ असम्भव हों तब वह असंख्यातभागवृद्धिसे वृद्धिको प्राप्त होवे यह उक्त कथनका सार है । यदि कहा जाय कि पुनरुक्त अर्थका कथन करनेवाला होनेसे यह सूत्र पुनरुक्त है सो भी बात नहीं है, क्योंकि उसी पूर्वोक्त सूत्रके विशेषणरूपसे इस सूत्रका कथन किया है । इसलिये इस सूत्र द्वारा भी योगावश्यकोंकी विशेषता बतलाई गई है यह अर्थ यहाँ पर लेना चाहिये ।

❀ उस स्थितिके निषेकके उत्कृष्ट पदको प्राप्त हुआ ।

§ ६४५. यथानिषेक कालके भीतर सबसे कम जघन्य आत्राधा और उत्कृष्ट योगके द्वारा जघन्य स्थितिको बंधनेवाला वह जीव स्वामित्वविषयक स्थितिसे उत्कृष्टरूपसे कर्मपरमाणुओंको करके उनका निक्षेप करता है यह इस सूत्रका तात्पर्य है, अन्यथा अल्प निषेक नहीं प्राप्त हो

जहाणिसेयसंचयकालस्स पयदणेरइयस्स' पच्चासण्णसामित्तुद्देसे जोगावासयपडिबद्ध-
वावारविसेसपरूवणद्वमुत्तरो पवंधो—

❁ जा जहणिया आवाहा अंतोमुहुत्तुरा एवदिसमयअणुदिण्णा सा
द्विदी । तदो जोगट्टाणाणमुवरिल्लमद्धं गवो ।

§ ६४६. अंतोमुहुत्तुरा जा जहण्णावाहा एवदिसमयअणुदिण्णा सा द्विदी
जा पुव्वणिरुद्धा सामित्तद्विदी । एत्थंतोमुहुत्तपमाणं जोगजवमज्झादो उवरि अच्चण-
कालमेत्तं । तदो जोगट्टाणाणमुवरिल्लमद्धं गओ जोगट्टाणाणमुवरिल्लभागं गंतूणंतोमुहुत्तमेत्त-
कालमच्छिदो त्ति भणिदं होइ । किमद्वमेसो जोगट्टाणाणमुवरिल्लमद्धं णीदो ? जोगवहुत्तेण
बहुदव्वसंचयकरणदं । जइ एवं, अंतोमुहुत्तं मोत्तूण सव्वकालं तत्थेव किण्ण
अच्छाविदो ? ण, तत्तो अहियं कालं तत्थावट्टाणासंभवादो । जेणेदमंतदीवयं तेण
पुव्वं पि जाव संभवो ताव तत्थच्छिदो त्ति धेत्तव्वं । एत्थेव णिळीणो चरिमजीवगुण-
हाणिट्ठाणंतरे आवलियाए असंखेज्जदिभागमच्छिदो त्ति अवंतरवावारविसेसो
परूवेयव्वो ।

सकते । अब इस विधिसे कुछ कम यथानिषेक संचयकालका अनुसरण करनेवाले प्रकृत नारकीके
स्वामित्वविषयक स्थानके समीपवर्ती होनेपर योगावश्यकसे सम्बन्ध रखनेवाला जो व्यापारविशेष
होता है उसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❁ अन्तमुहूर्त अधिक जो जघन्य आवाधा है इतने काल तक वह स्थिति
अनुदीर्ण रही । अनन्तर जो योगस्थानोंके उपरिम अद्धभागको प्राप्त हुआ ।

§ ६४६. अन्तमुहूर्त अधिक जो जघन्य आवाधा है इतने काल तक वह स्वामित्वस्थिति
अनुदीर्ण रहती है जिसका कथन पहले कर आये हैं । यहाँ अन्तमुहूर्तसे योगयवमध्यसे ऊपर
रहनेका जितना काल है वह काल लिया है । फिर सूत्रमें जो यह कहा है कि 'तदो जोगट्टाणाण-
मुवरिल्लमद्धं गओ' सो इसका यह आशय है कि इसके बाद योगस्थानोंके उपरिम भागको
प्राप्त होकर जो अन्तमुहूर्त काल तक रहा है ।

शंका—यह जीव योगस्थानोंके उपरिम भागको क्यों प्राप्त कराया गया है ?

समाधान—बहुत योगके द्वारा अधिक द्रव्यका संचय करनेके लिये यह जीव योग-
स्थानोंके उपरिम भागको प्राप्त कराया गया है ।

शंका—यदि ऐसा है तो अन्तमुहूर्त न रखकर पूरे काल तक वहीं इस जीवको क्यों
नहीं रखा गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि इससे अधिक काल तक वहाँ रहना संभव नहीं है ।

यतः यह कथन अन्तदीपक है अतः इससे यह अर्थ भी लेना चाहिये कि पूर्वमें भी जब
तक सम्भव हो तब तक यह जीव वहाँ रहे । यहाँ जीवकी अन्तिम गुणहानिस्थानान्तरमें
आवलिके असंख्यातवर्षे भागप्रमाण काल तक रहनेरूप जो अवान्तर व्यापारविशेष इसीमें गर्भित
है उसका कथन करना चाहिये ।

❀ दुसमयाहियआवाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए एयसमयाहिय-
आवाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए च उक्कस्सयं जोगसुववण्यो ।

§ ६४७. एत्थ तिस्से द्विदीए इदि अणुवट्टे । तेणेवमहिसंबंधो कायव्वो—
तिस्से सामिच्चद्विदीए दुसमयाहियजहण्णावाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए समयाहिय-
जहण्णावाहचरिमसमयअणुदिण्णाए च उक्कस्सजोगट्ठाणं पडिवण्णो त्ति । चरिम-
दुचरिम-तिचरिमसमयअणुदिण्णादिकमेणोरिय दुसमयाहिय-एयसमयाहियआवाहा-
चरिमसमयअणुदिण्णाए गिरुद्धद्विदीए सो णेरइओ उक्कस्सजोगट्ठाणेण परिणदो त्ति
भणिदं होइ । वे समए मोत्तूण वहुअं कालुक्कस्सजोगेणेव किण्ण अच्चाविदो ? ण,
वेसमयपाओगस्स तस्स तहांसंभवाभावादो ।

❀ तस्स उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

§ ६४८. तस्स तारिसस्स णेरइयस्स जाधे सा द्विदी उदयमागदा ताधे
उक्कस्सयमधाणिसेययद्विदिपत्तयं होइ त्ति उत्तं होइ ।

§ ६४९. संपहि एत्थ उवसंहारे भण्णमाणे तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोग-
द्वाराणि । तं जहा—संचयाणुगमो भागहारपमाणाणुगमो लद्धपमाणाणुगमो चेदि ।

* उस स्थितिके दो समय अधिक आवाधाके अन्तिम समयमें अनुदीर्ण होने
पर और एक समय अधिक आवाधाके अन्तिम समयमें अनुदीर्ण होने पर उत्कृष्ट
योगको प्राप्त हुआ ।

§ ६४७. इस सूत्रमें 'तिस्से द्विदीए' इस पदकी अनुवृत्ति होती है । इससे ऐसा सम्बन्ध
करना चाहिये कि उस स्वामित्वस्थितिके दो समय अधिक जघन्य आवाधाके अन्तिम समयमें
अनुदीर्ण रहने पर और एक समय अधिक जघन्य आवाधाके अन्तिम समयमें अनुदीर्ण रहने
पर जो उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ है । चरम समय, द्विचरम समय और त्रिचरम समयमें
अनुदीर्ण रहने आदिके क्रमसे उतरकर दो समय अधिक और एक समय अधिक आवाधाके
चरम समयमें विवक्षित स्थितिके अनुदीर्ण रहने पर वह नारकी उत्कृष्ट योगस्थानसे परिष्कृत
हुआ यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—दो समयको छोड़कर बहुत काल तक उत्कृष्ट योगके साथ ही क्यों नर्दी रखा
गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि जो योग दो समयके योग्य है उसका और अधिक काल तक
रहना सम्भव नहीं है ।

* वह नारकी उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६४८. इन पूर्वोक्त विशेषताओंसे युक्त जो नारकी है उसके जब वह स्थिति उदयको
प्राप्त होती है तब वह उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है यह इस सूत्रका
आशय है ।

§ ६४९. अब यहाँ पर उपसंहारका कथन करते हैं । उससे ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं ।
यथा—संचयानुगम, भागहारप्रमाणानुगम और लब्धप्रमाथानुगम । उनमेंसे सर्व प्रथम

तत्थ संचयाणुगमेण जहाणिसेयकालपढमसमयसंचिददव्वमहियारट्टिदीए जहाणिसेयसरूवेणत्थि । एवं णेदव्वं जाव चरिमसमयसंचओ ति । संचयाणुगमो गदो ।

§ ६५०. एत्तो भागहारपमाणाणुगमं वत्तइस्सामो । तं जहा—असंखेज्जपल्लिदोवमपढमवग्गमूलमेत्तं हेट्ठदो ओसरिय ट्टिदपढमसमयपवद्धसंचयस्स भागहारे उप्पाइज्जमाणे समयपवद्धमेगं ठविय जहाणिसेयसंचयकालब्भंतरणाणाणुगहाणिसलागाओ पल्लिदोवमपढमवग्गमूलद्वच्छेदणाहितो असंखेज्जगुणहीणाओ विरलिय दुगुणिय अण्णोपणब्भासणिप्पणरासिसादिरेओ भागहारो ठवेयव्वो । एवं ठविदे एत्तियमेत्तगुणहाणीओ गालिय परिसेसिदमहियारगोबुच्छादो प्पहुडि अंतोकोडाकोडिदव्वमागच्छइ । संपहिइमं सव्वदव्वमहियारगोबुच्छपमाणेण कीरमाणं दिवडुगुणहाणिमेत्तं होइ ति दिवडुगुणहाणीओ वि भागहारत्तेण ठवेयव्वाओ । तदो अहियारगोबुच्छदव्वं णिसेयसरूवेणागच्छइ । पुणो जहाणिसेयट्टिदिपत्तयमिच्छामो ति असंखेज्जा लोगा वि भागहारसरूवेणेदस्स ठवेयव्वा । तं जहा—पयदगोबुच्छदव्वं जहाणिसेयकालपढमसमयप्पहुडि बंधावलियमेत्तकाले वोलीणे ओकड्डुकुडुणभागहारेण खंडिदेयखंडमेत्तं हेट्ठोवरि परसरूवेण गच्छइ । विदियसमए वि ओकड्डुकुडुणभागहारपडिभागेण परसरूवेण

संचयानुगमकी अपेक्षा विचार करते हैं—यथानिषेक कालके प्रथम समयमें जो द्रव्य संचित होता है वह यथानिषेकरूपसे अधिकृत स्थितिमें है । इस प्रकार संचयकालके अन्तिम समय तक जानना चाहिये । आशय यह है कि संचय कालके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक प्रत्येक समयमें यथानिषेकरूपसे संचित होनेवाला द्रव्य विवक्षित स्थितिमें पाया जाता है । इस प्रकार संचयानुगम समाप्त हुआ ।

§ ६५०. अब इससे आगे भागहारप्रमाणानुगमको वतलाते हैं । यथा—पत्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण स्थान पीछे जाकर प्रथम समयमें प्राप्त हुए संचयका भागहार उत्पन्न करनेकी इच्छासे एक समयप्रबद्धको स्थापित करे । फिर उसका पत्यके प्रथम वर्गमूलके अर्धच्छेदोसे असंख्यातगुणी हीन यथानिषेक संचयकालके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानिशलाकाओंका विरलन कर और दूनाकर परस्परमें गुणा करके उत्पन्न हुई राशिसे कुछ अधिक भागहार स्थापित करे । इस प्रकार स्थापित करने पर इतनी गुणहानियोंको गलानेके बाद अधिकृत गोपुच्छासे लेकर अन्तःकोडाकोडीप्रमाण शेष द्रव्य प्राप्त होता है । अब इस पूरे द्रव्यको अधिकृत गोपुच्छाके बराबर हिस्सा करके विभाजित करने पर वह डेढ़ गुणहानिप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिये डेढ़ गुणहानिको भी भागहाररूपसे स्थापित करे । तब जाकर अधिकृत गोपुच्छाका द्रव्य निषेकरूपसे प्राप्त होता है । अब यहाँ यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य लाना है इसलिये इसका असंख्यात लोकप्रमाण भागहार और भी स्थापित करे । खुलासा इस प्रकार है—यथानिषेककालके प्रथम समयसे लेकर बन्धावलिप्रमाण कालके व्यतीत होने पर प्रकृत गोपुच्छाके द्रव्यमें अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग देने पर जो एक भागप्रमाण द्रव्य प्राप्त हो उतना द्रव्य नीचे ऊपर अन्य गोपुच्छारूप हो जाता है । दूसरे समयमें भी अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त हो उतना द्रव्य अन्य गोपुच्छारूप हो जाता है । इस

गच्छइ । एवमेगेगखंडे गच्छमाणे पुञ्चभागहारवेतिभागमेत्तद्भागं गंतूण पयदणिसेयस्स अद्धमेत्तं चेदइ । पुणो वि एत्तियमद्भागं गंतूण चच्चभागो चेदइ । एवमुवरि वि णेयव्वं जाव अहियारद्विदी उदयावलयिब्भंतरे एविद्वा त्ति । एवं होइ त्ति काऊणेत्थतंगणाणागुणहाणिसलागाणं पमाणाणुगमं कस्सामो । तं कथं ? ओकइ कहुणभागहारवेतिभागमेत्तद्भागं गंतूण जइ एया गुणहाणिसलागा लब्भइ तो असंखेज्जपल्लिदोवमपहमवग्गमूलपमाणं जहाणिसेयकालम्मि केत्तियाओ पाणागुणहाणिसलागाओ लहामो त्ति तेरासियं काऊण जोइदे असंखेज्जपल्लिदोवमपहमवग्गमूलमेत्ताओ लब्भंति । पुणो इमाओ विरलिय विगं करिय अण्णोण्णभासे कदे असंखेज्जा लोगा उप्पज्जंति । तदो एत्तियं पि भागहारत्तेण समयपवद्धस्स हेददो ठवेयव्वमिदि भणियं । पुणो एदे तिण्णि वि भागहारे अण्णोण्णपट्ठप्पण्णे करिय समयपवद्धम्मि भागे हिदे आदिसमयपवद्धमस्सियूण अहियारद्विदीए जहाणिसेयसरूवेणावद्विदपदेसग्गमागच्छइ । तम्हा असंखेज्जलोगमेत्तो आदिसमयपवद्धस्स संचयस्स अवहारो त्ति वेत्तव्वं । संपहि विदियसमयपवद्धसंचयस्स वि भागहारो एवं चेव वत्तव्वो । णवरि पहमसमयसंचयभागहारदो सो किंचूणो होइ । केत्तिएण्णो त्ति भणिदे ओकइ कहुणभागहारेण खंडिय तत्थेयखंडमेत्तेण । एवं भागहारो थोवूणकमेग तदियसमयपवद्धसंचयप्पहुडि

प्रकार एक एक खण्डके अन्य गोपुच्छारूप होते हुए पूर्व भागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण स्थानोंके जाने पर प्रकृत निषेक अर्धभागप्रमाण शेष रहता है । फिर भी इतने ही स्थान जाने पर प्रकृत निषेक चतुर्थ भागप्रमाण शेष रहता है । इस प्रकार आगे भी अधिकृत स्थितिके उदयावलिमें प्रवेश होने तक जानना चाहिये । ऐसा होता है ऐसा समझकर यहाँकी नाना गुणहानिशलाकाओंके प्रमाणका विचार करते हैं । यथा—अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके यदि दो बटे तीन भाग प्रमाण स्थान जाने पर एक गुणहानिशलाका प्राप्त होती है तो परस्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण यथानिषेक कालमे कितनी नाना गुणहानिशलाकाएँ प्राप्त होगी इस प्रकार त्रैशिक करने पर वे नाना गुणहानिशलाकाएँ परस्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण ही प्राप्त होती हैं । फिर इनका विरलन कर और दूना कर परस्परमें गुणा करने पर असंख्यात लोकप्रमाण राशि उत्पन्न होती है । इसीसे इसे भी भागहाररूपसे समयप्रवद्धके नीचे स्थापित करे यह कहा है । फिर इन तीनों ही भागहारोंका परस्परमे गुणा करके जो प्राप्त हो उसका समयप्रवद्धमें भाग देने पर प्रथम समयप्रवद्धकी अपेक्षा अधिकृत स्थितिमे यथानिषेकरूपसे जो द्रव्य अवस्थित है उसका प्रमाण आता है, इसलिये प्रथम समयप्रवद्धके संचयका भागहार असंख्यात लोकप्रमाण ग्रहण करना चाहिये । दूसरे समयप्रवद्धके संचयका भी भागहार इसी प्रकार कहना चाहिये । किन्तु प्रथम समयसम्बन्धी संचयके भागहारसे वह कुछ कम होता है ।

शंका—कितना कम होता है ?

समाधान—अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग देने पर जो एक भाग प्राप्त होता है उतना कम होता है ।

इस प्रकार भागहार उत्तरोत्तर कम होता हुआ तीसरे समयप्रवद्धके संचयसे लेकर

गंतूपोकङ्कुङ्कुणभागहारवेतिभागमेत्तद्वाणे पुव्वभागहारस्स अद्धमेत्तो होइ । एवं जाणियूण णेदव्वं जाव जहाणिसेयकालचरिमसमओ त्ति । णवरि चरिमसमयपवद्ध-संचयस्स भागहारो सादिरेयदिवहुगुणहाणिमेत्तो होइ ।

§ ६५१. संपहि लद्धपमाणानुगमं कस्सामो । तं जहा—चरिमसमयम्मि बंधियूण णिसित्तपमाणेण जहाणिसेयट्ठिदिपत्तयसव्वदव्वं कीरमाणमोकङ्कुङ्कुण-भागहारमेत्तं होइ । तं कथं ? चरिमसमयप्पहुडि ओकङ्कुङ्कुणभागहारवेतिभाग-मेत्तद्वाणं हेट्ठदो ओदरिय बद्धसमयपवद्धदव्वपढमणिसेयस्स अद्धपमाणं चेट्ठइ त्ति । तं चेव गुणहाणिट्ठाणंतरं होइ । तेण पढमगुणहाणिदव्वं सव्वं चरिमसमयम्मि बंधियूण णिसित्तपढमणिसेयपमाणेण कीरमाणमोकङ्कुङ्कुणभागहारवेतिभागणं तिण्णि-चउव्वभागमेत्तपढमणिसेयपमाणं होइ । तं च संदिट्ठीए एदं $\begin{array}{|c|} \hline ० \ ६ \\ \hline १ \ २ \\ \hline \end{array}$ । पुणो विदियादि-

सेसगुणहाणिदव्वं पि तप्पमाणेण कीरमाणं तेत्तियं चेव होइ $\begin{array}{|c|} \hline ० \ ६ \\ \hline १ \ २ \\ \hline \end{array}$ । संपहि दोण्हेमेदेसि एक्कदो मेलणे कदे ओकङ्कुङ्कुणभागहारो चेव दिवहुगुणहाणिपमाणं होइ । पुणो एदेण दिवहुगुणहाणिमोकङ्कुडिय समयपवद्धे भागे हिदे जं लद्धं तत्तियमेत्तमुक्कस्स-सामित्तविसईकयं जहाणिसेयट्ठिदिपत्तयं होइ ।

अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके दो बटे तीन भागप्रमाण स्थान जाने पर वह पूर्व भागहारसे आधा रह जाता है । यथानियेक कालके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक इसी प्रकार जानकर उसका कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि अन्तिम समयप्रबद्धके संचयका भागहार साधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण है ।

§ ६५१. अब लब्धप्रमाणका विचार करते हैं । यथा—अन्तिम समयमें बांधकर यथानियेकस्थितिप्राप्त सब द्रव्यके निश्चित हुए द्रव्यके बराबर खण्ड करनेपर वे, अपकर्षण-उत्कर्षण-भागहारका जितना प्रमाण है, उतने प्राप्त होते हैं ।

शंका—सो कैसे ?

समाधान—अन्तिम समयसे लेकर अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके दो बटे तीन भाग प्रमाण स्थान पीछे जाकर वंधे हुए समयप्रबद्धके द्रव्यका प्रथम निषेक आधा रह जाता है, इसलिये वही एक गुणहानिस्थानान्तर होता है, अतः प्रथम गुणहानिके सब द्रव्यको अन्तिम समयमें बांध कर निश्चित हुए प्रथम निषेकके बराबर बराबर खण्ड करनेपर अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारके दो बटे तीन भागका तीन बटे चार भागप्रमाण प्रथम निषेकका प्रमाण होता है । संदृष्टिकी अपेक्षा उसका प्रमाण $\frac{3}{4}$ का $\frac{3}{4}$ = $\frac{3}{4}$ होता है । फिर दूसरी आदि शेष गुणहानियोंका द्रव्य भी तत्प्रमाण खण्ड करने पर उतना $\frac{3}{4}$ का $\frac{3}{4}$ = $\frac{3}{4}$ ही होता है । अब इन दोनोंको एकत्रित करने पर अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार ही डेढ़ गुणहानिप्रमाण होता है । फिर इससे डेढ़ गुणहानिको अपवर्तित करके समयप्रबद्धमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना उत्कृष्ट स्वामित्त्वका विषयभूत यथानियेकस्थिति-प्राप्त द्रव्य होता है ।

§ ६५२. एवमेत्तिण पबंधेण उक्कस्सजहाणिसेयद्विदिपत्तयस्स सामितं परूविय संपहि एदेणेव गयत्थस्स णिसेयद्विदिपत्तयस्स वि सामित्तसमुपपणद्वमुत्तरं सुत्तं भणइ—

⊛ णिसेयद्विदिपत्तयं पि उक्कस्सयं तस्सेव ।

§ ६५३. गयत्थमेदं सुत्तं, पुव्विज्जादो अविंसिट्ठपरूवणत्तादो । अदो चेव कममुत्तंघिय तस्सेव पुव्वं सामित्तविहाणं कयं, अण्णहा एदस्स जाणावणावाया-भावादो । एत्थ पुण विसैसो—पमाणाणुगमे कीरमाणे पुव्विज्जदव्वादो ओकड्डु कड्डुणाए गंतूण पुणो वि तत्थेव पदिददव्वमेत्तेणेदं विसैसाहियं होइ ति वत्तव्वं ।

§ ६५४. संपहि जहावसरपत्तमुक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयस्स सामित्तं परूवेमाणो पुच्छामुत्तमाह—

⊛ उदयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयं कस्स ?

§ ६५५. एत्थ मिच्छत्तस्से ति अहियारसंबंधो । सेसं सुगमं ।

⊛ गुणित्कर्मसिञ्चो संजमासंजमगुणसेदिं संजमगुणसेदिं च काज्जण

§ ६५२. इस प्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्तके स्वामित्वका कथन करके अब यद्यपि निषेकस्थितिप्राप्त इसी प्रबन्धके द्वारा गतार्थ है तथापि उसके स्वामित्व को बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* उत्कृष्ट निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी भी वही है ।

§ ६५३. यह सूत्र अवगतप्राय है, क्योंकि पिछले सूत्रसे इसके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । और इसीलिये क्रमका उल्लंघन करके पहले उसीके स्वामित्वका कथन किया है, अन्यथा इसके ज्ञान करानेका दूसरा कोई उपाय नहीं था । किन्तु अमात्यानुगमके कथनमें यहाँ इतना विशेष और कहना चाहिये कि अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा जो द्रव्य अन्यत्र प्राप्त होता है वह फिरसे वहीं आ जाता है, इसलिये यथानिषेकस्थितिप्राप्तके द्रव्यसे इसका द्रव्य इतना विशेष अधिक होता है ।

विशेषार्थ—यथानिषेकस्थितिप्राप्तका जो संचयकाल और स्वामी पहले बतला आये हैं वही निषेकस्थितिप्राप्तका भी प्राप्त होता है, क्योंकि उत्कृष्ट संचय सातवें नरकमें उक्त प्रकारसे ही बन सकता है । तथापि यथानिषेकस्थितिप्राप्तसे इसका उत्कृष्ट द्रव्य विशेष अधिक हो जाता है । कारण यह है कि यथानिषेकस्थितिप्राप्तमें अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा जितना द्रव्य कम हो जाता है वह यहाँ पुनः बढ़ जाता है ।

§ ६५४. अब यथावसर प्राप्त उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्तके स्वामित्वका कथन करनेकी इच्छासे पुच्छा सूत्र कहते हैं—

* उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ।

§ ६५५. इस सूत्रमें मिथ्यात्वप्रकृतिका अधिकार होनेसे 'मिच्छत्तस्स' इस पदका सम्बन्ध कर लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

* जो गुणितकर्माभावला जीव संयमासंयमगुणश्रेणि और संयमगुणश्रेणिको

मिच्छुत्तं गदो जाये गुणसेदिसीसयाणि उदियणाणि ताये मिच्छुत्तस्स उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयं ।

§ ६५६. एदस्स सुत्तस्सत्यपरुवणा उदयादो उक्कस्सभीणद्विदियसामित्त-सुत्तभंगो । एवं मिच्छत्तस्स चउण्हं पि द्विदिपत्तयाणमुक्कस्ससामित्तं परुविय संपहि एदेण समाणसामियाणं सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणमप्पणं करेइ—

❀ एवं सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं पि ।

§ ६५७. जहा मिच्छत्तस्स चउण्हमग्गद्विदिपत्तयादीणं सामित्तविहाणं कदमेवं सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं पि, विसेसाभावादो । णवरि सम्मत्तस्स जहाणिसेय-णिसेय-द्विदिपत्तयाणमुक्कस्ससामित्तं भण्णमाणे उव्वेज्जणकालादो जइ जहाणिसेयकालो बहुओ होइ तो पुव्वमेव जहाणिसेयस्सादिं करिय पुणो संचयं करेमाणो चेव उवसमसम्मत्तं पडिवज्जिय अंतोमुहुत्तमच्छिय मिच्छत्तं गंतूण संचयं काऊण पुणो अविणद्वेदय-पाओग्गकालम्मि वेदयसम्मत्तग्गहणपढमसमए वट्टमाणो जो जीवो तस्स पढमसमय-वेदयसम्मादिद्विस्स तिसु वि जहाणिसेयगोबुच्छासु उदयं पविस्समाणोसु उक्कस्स-सामित्तं वत्तव्वं । अथ अधाणिसेयसंचयकालादो उव्वेज्जणकालो बहुओ होज्ज तो पुव्वमेव पडिवण्णसम्भत्तो मिच्छत्तं गंतूण पुणो जहाणिसेयद्विदिपत्तयस्सादिं काऊण

करके मिध्यात्वमें गया है उसके जब गुणश्रेणिशीर्ष उदयको प्राप्त हुए हैं तब वह मिध्यात्वके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६५६. पहले उदयसे मीनस्थितिवाले उत्कृष्ट द्रव्यके स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रका जैसा विवेचन किया है उसीप्रकार इस सूत्रका भी विवेचन कर लेना चाहिये । इसप्रकार मिध्यात्वके चारों ही स्थितिप्राप्तके स्वामित्वका कथन करके अब इससे जिनके स्वामी समान हैं ऐसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी मुख्यतासे कथन करते हैं—

❀ इसीप्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके स्वामित्वका भी विधान करना चाहिये ।

§ ६५७. जिस प्रकार मिध्यात्वके चारों अग्रस्थितिप्राप्त आदिके स्वामित्वका कथन किया है उसीप्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भी करना चाहिये क्योंकि इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वके यथानिषेक और निषेकस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करने पर उद्भेदनकालसे यदि यथानिषेकका काल बहुत होवे तो पहलेसे ही यथानिषेकका प्रारम्भ करके फिर संचय करता हुआ ही उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होकर और अन्तमुद्भेदकाल तक उसके साथ रहकर मिध्यात्वमें जावे । और वहां संचय करके वेदक योग्य कालके नाश होनेके पहले ही वेदकसम्यक्त्वको ग्रहण करके उसके प्रथम समयमें जो जीव स्थित है उस प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टिके तीनों ही यथानिषेक गोपुच्छाओंके उदयमें प्रवेश करने पर उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये । और यदि यथानिषेकके संचयकाल पर उद्भेदनका काल बहुत होवे तो पहले से ही सम्यक्त्वको प्राप्त करके मिध्यात्वमें जावे । फिर यथानिषेकस्थितिप्राप्तका

संचयं करिय गहिदवेदगसम्मत्तपढमसमए तिण्हं पि गोवुच्छाणं पदेसगमेक्कलगीभूद-
मुदयगदं धरिय द्विदो जीवो पयदुक्कस्ससाभिओ होइ ति वत्तव्वं । एत्थ पुण विसिट्ठोव-
एसयस्सियुण अण्णदरपक्खपरिग्गहो कायव्वो; संपहियकाले तहाविहोवएसाभावादो ।
संपहि इमपधाणिसैयगोवुच्छमुदयावलियं पवेसिय पढमसमए चेव सम्मत्तं गेण्हावेवो
जहण्णावाहमेत्तं वा सामित्तसमयादो हेट्ठदो ओसारिय, उवरि संचयाभावादो ति
भणिदे ण, सम्मत्तं पडिवज्जाविय पुणो उदयावलियं जहण्णावाहमेत्तकालं वा वोलाविय
सामित्ते दिज्जमाणे जहाणिसैयद्विदिदव्वस्स बहुअस्स ओकहुणाए विणासपसंगादो ।
किं कारणमुदयावलियवाहिरावद्विदावत्थाए ताव ओकहुणाए बहुदव्वविणासो
सम्मत्ताहियुहस्स होइ ति ण एत्थ संचओ । उदयावलियपविट्ठपढमसमए त्रि
सम्मत्तं गेण्हमाणो पुव्वमेवंतोमुहुत्तमत्थि ति तदहियुहावत्थाए चेव विजुज्भंतो बहुअं
दव्वमोकहुणाए णासेइ ति ण तत्थ सम्मत्तं पडिवज्जाविदो । एवं सम्मामिच्चत्तस्स
वि सामित्तं वत्तव्वं । णवरि पुव्वविहाणेण संचयं करिय सम्मामिच्चत्तं पडिवण्णपढम-
समयसम्मामिच्च्छाइट्ठिस्स जहाणिसैयद्विदिपत्तयं णिसैयद्विदिपत्तयं च कायव्वं ।

आरम्भ करके संचय करे और इसप्रकार जब यह संचयकालके अन्तमे वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके उसके प्रथम समयमें विद्यमान रहे तब उसके तीनों ही गोपुच्छाओंका द्रव्य एकत्रित होकर उदयको प्राप्त होने पर प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है ऐसा कथन करना चाहिये । परन्तु यहाँ विशिष्ट उपदेशको प्राप्त करके किसी एक पक्षको स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि वर्तमान कालमें ऐसा उपदेश नहीं पाया जाता जिससे समुचित निर्णय किया जा सके ।

शंका—अब इस यथानिषेकगोपुच्छाको उदयावलिमें प्रवेश कराके उसके प्रथम समयमें ही सम्यक्त्वको ग्रहण करावे या स्वामित्व समयसे जघन्य अबाधाकालका जितना प्रमाण है उतना पीछे जाकर सम्यक्त्वको ग्रहण करावे, क्योंकि इसके ऊपर उत्कृष्ट संचयका अभाव है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यदि सम्यक्त्वको प्राप्त कराके फिर उदयावलि या जघन्य अबाधाप्रमाण कालको बिताकर उत्कृष्ट स्वामित्व दिया जाता है तो अपकर्षणके द्वारा यथानिषेक-स्थितिप्राप्तके बहुत द्रव्यका अपकर्षणके द्वारा विनाश प्राप्त होता है, क्योंकि उदयावलिसे बाहर अवस्थित रहते हुए सम्यक्त्वके अभिमुख होनेके कारण इसके अपकर्षणके द्वारा बहुत द्रव्यका विनाश देखा जाता है इसलिये यहाँ उत्कृष्ट संचय नहीं हो सकता । इसीप्रकार जो उदयावलिमें प्रवेश करनेके प्रथम समयमें भी सम्यक्त्वको ग्रहण करता है वह अन्तर्मुहूर्त काल पहले ही सम्यक्त्वके सन्मुखरूप अवस्थाके होनेपर विशुद्धिको प्राप्त होता हुआ अपकर्षणद्वारा बहुत द्रव्यका नाश कर देता है, इसलिये वहाँ स्वामित्व नहीं प्राप्त कराया है । इसीप्रकार सम्यग्मिध्यात्वका भी स्वामित्व कहना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि पूर्वविधिसे संचय करके जो सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ है प्रथम समयवर्ती उस सम्यग्मिध्यादृष्टिके यथानिषेकस्थितिप्राप्त और निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य करना चाहिये ।

विशेषार्थ—मालूम होता है कि यथानिषेककाल और उद्वेलनाकाल इनमेंसे कौन छोटा है और कौन बड़ा इस विषयमें मतभेद रहा है । एक परम्पराके मतानुसार उद्वेलनाकालसे यथानिषेककाल बड़ा है और दूसरी परम्पराके मतानुसार यथानिषेककालसे उद्वेलनाकाल बड़ा है ।

§ ६५८. संपहि उदयद्विदिपत्तयस्स सामित्तविसेसपरुवणद्व्युत्तरसुत्तं भणइ—

✽ एवरि उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदिय-
भंगो ।

§ ६५९. सम्मत्तस्स चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स सव्वोदयं तं घेत्तूण
सम्मामिच्छत्तस्स वि उदिण्णसंजमासंजम-संजमगुणसेदिगोवुच्छसीसयाणि घेत्तूण
पढमसमयसम्मामिच्छाइद्विम्मि गुणिदकरियपच्छायदम्मि सामित्तविहाणं पडि ततो
विसेसाभावादो ।

§ ६६०. एवमेदं परुविय संपहि मिच्छत्तसमाणसामियाणं सेसाणं पि

टीकामें बतलाया है कि इस समय ऐसा विशिष्ट उपदेश प्राप्त नहीं जिसके आधारसे यह निर्णय किया जा सके कि अमुक मत सही है, अतः विशिष्ट उपदेश मिलने पर ही इस विषयका निर्णय करना चाहिये। तथापि यदि यथानिषेककाल बड़ा होवे तो उद्वेलनाका प्रारम्भ पीछेसे कराके उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त करना चाहिये और यदि उद्वेलनाकाल बड़ा हो तो उद्वेलनाका प्रारम्भ होनेके बादसे यथानिषेकके संचयका प्रारम्भ कराके उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि ऐसा किये बिना उत्कृष्ट स्वामित्व नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यहां पर टीकामें एक विवाद यह भी उठाया गया है कि सम्यक्त्व प्राप्त करानेके कितने काल बाद उत्कृष्ट स्वामित्व दिया जाय? सिद्धान्त पक्ष सम्यक्त्व प्राप्त कराके उसके प्रथम समयमें ही उत्कृष्ट स्वामित्व दिलानेका है पर शंकाकार यह स्वामित्व सम्यक्त्व प्राप्त करनेके बाद एक आवलिकाल या जघन्य आबाधाप्रमाण काल होने पर दिलाना चाहता है किन्तु विचार करने पर सिद्धान्त पक्ष ही समीचीन प्रतीत होता है जिसका विशेष खुलासा टीका में किया ही है। इसप्रकार सम्यक्त्वके यथानिषेक और निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वका विचार किया। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षासे भी विचार कर लेना चाहिए। किन्तु इसकी अपेक्षा उत्कृष्ट स्वामित्व सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमें प्राप्त होता है, क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वका उदय वहीं पर पाया जाता है।

§ ६५८. अब उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके स्वामित्वविशेषका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

✽ किन्तु इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका भंग उदयसे उत्कृष्ट भीनस्थितिप्राप्त द्रव्यके समान है ।

§ ६५९ जिसने दर्शनमोहनीयका पूरा क्षय नहीं किया है उसके दर्शनमोहनीयका क्षय करनेके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वका जो सर्वोदय होता है उसकी अपेक्षा गुणितुक्रियावाले जीवके उदयस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान किया गया है। इसीप्रकार उदयको प्राप्त हुए संयमा-संयम और संयमसम्बन्धी गुणश्रेणियोंपुच्छशीर्षोंकी अपेक्षा सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमें गुणितुक्रियावाले जीवके सम्यग्मिथ्यात्वके उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान किया है इसलिये इन दोनों प्रकृतियोंकी अपेक्षा उदयसे भीनस्थितिवाले द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वसे इसमें कोई भेद नहीं है।

विशेषार्थ—सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उदयसे भीनस्थितिवाले द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामित्व पहले बतला आये हैं उसीप्रकार प्रकृतमें जानना चाहिये ।

§ ६६०. इसप्रकार उक्त स्वामित्वका कथन करके मिथ्यात्वके समान स्वामीवाले शेष

समप्पणहमुत्तरो पर्वधो—

❖ अणंताणुबंधि-अट्टकसाय-छुण्णोकसायाणं मिच्छत्तभंगो ।

§ ६६१, जहा मिच्छत्तस्स सव्वेसिमुक्कस्सद्विदिपत्तयादीणं सामित्तपरूवणा कया तथा एदेसिं पि कम्मणं कायव्वा, विसेसाभावादो । संपहि एत्थ संभवविसेस-पटुप्पायणहमुत्तरमुत्तमाह—

❖ एवरि अट्टकसायाणमुक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयं कस्स ?

§ ६६२, सुगमं ।

❖ संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयकखवयगुणसेढिसीसएसु त्ति एदाओ निणिण वि गुणसेढीओ गुणिदकम्मसिण कदाओ । एदाओ काऊण अविण्णहेसु असंजमं गओ । पत्तेसु उदयगुणसेढिसीसएसु उक्कस्सयमुदय-द्विदिपत्तयं ।

§ ६६३, अणंताणुबंधीणमणूणाहिओ मिच्छत्तभंगो त्ति ते मोत्तूण पच्चक्खाणा-पच्चक्खाणकसाएसुक्कस्ससामित्तविहाययमुत्तस्सेदस्स उदयादो उक्कस्सभीणद्विदिय-सामित्तमुत्तस्सेव अवयवसमुदायत्थपरूवणा कायव्वा । एयंताणुवड्डिचरिमसमयसंजदा-संजद-संजदपरिणामेहि कदगुणसेढिसीसयाणि दोण्णिण वि एकदो काऊण पुणो वि

कर्मों का भी मुख्यरूपसे कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* अनन्तानुवन्धीचतुष्क, आठ कषाय और छह नोकषायोंका भंग मिथ्यात्वके समान है ।

§ ६६१, जिसप्रकार मिथ्यात्वके सभी उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त आदिकके स्वामित्वका कथन किया है उसी प्रकार इन कर्मों का भी करना चाहिये, क्योंकि इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । अब यहाँ जो विशेषता सम्भव है उसका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* किन्तु आठ कषायोंके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ?

§ ६६२, यह सूत्र सुगम है ।

* जो गुणितकर्मांशिक जीव संयमासंयम, संयम और दर्शनमोहनीयकी क्षण-सम्बन्धी गुणश्रेणिशीर्ष इन तीनों ही गुणश्रेणियोंको करके और इनका नाश किये बिना असंयमको प्राप्त हुआ है वह गुणश्रेणिशीर्षोंके उदयमें आनेपर उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६६३, अनन्तानुवन्धियोंका भंग न्यूनाधिकताके बिना मिथ्यात्वके समान है, अतः उन्हें छोड़कर प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण कषायोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान करने-वाले इस सूत्रके अवयवार्थ और समुदायार्थकी प्ररूपणा उच्चसे मीनस्थितिवाले द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रके समान करना चाहिये । एकान्तानुवृद्धिके अन्तिम समयमें सयतासंयत और संयतरूप परिणामोंके द्वारा किये गये दोनों ही गुणश्रेणिशीर्षोंको मिलाकर

ताणमुवरि दंसणमोहवखवयगुणसेदिसीसयं पक्खिविय कदकरणिज्जअथापवचसंजद-
भावेणंतोमुहुत्तं गुणसेदीओ आवूरिय से काले तिण्हं पि गुणसेदिसीसयाणमुदओ
होहदि चि कालं करिय देवेसुप्पणपणढमसमयअसंजदम्मि सत्थाणम्मि चव वा परिणाम-
पच्चणासंजमं गदपढमसमयम्मि सामित्तविहाणं पडि दोण्हं विसैसाणुवल्लंभादो ।

§ ६६४. एवमद्वकसायाणमुदयद्विदिपत्तयस्स उक्कस्ससामित्तविसैसं सूचिय
संपहि छण्णोकसायाणं पयदुक्कस्ससामित्तविसैसपरूवणद्वमुत्तरोपकमो—

❀ छुण्णोकसायाणमुक्कस्सयमुदयद्विपत्तयं कस्स ?

§ ६६५. सुगममेदमासंकासुत्तं ।

❀ चरिमसमयअपुव्वकरणे वट्टमाण्यस्स ।

§ ६६६. एत्थ गुणिदक्कम्मंसियस्स खवयस्से त्ति वक्कसेसो, अण्णहा उक्कस्स-
भावाणुववत्तीदो । सेसं सुगमं । एत्थेवांतरविसैसपरूवणद्वमुत्तरमुत्ताणमवयारो—

❀ हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं जइ कीरइ भय-दुगुंछाणमवेदओ कायव्वो ।

फिर भी उनके ऊपर दर्शनमोहनीयकी क्षणान्धवी गुणश्रेणिशीर्षकी प्रक्षिप्त करके फिर कृतकृत्य
और अधःप्रवृत्तसंयमरूप भावके द्वारा अन्तर्मुहूर्त कालतक गुणश्रेणियोंको पूरण करके तदनन्तर
समयमें तीनों ही गुणश्रेणियोंकी उदय होगा पर ऐसा न होकर पूर्व समयमें ही मरकर देवोंमें
उत्पन्न हुआ उस असंयत देवके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उत्कृष्ट स्वामित्व होता है । या
स्वस्थानमें ही परिणामोंके निमित्तसे असंयमको प्राप्त होने पर उसके प्रथम समयमें ही उत्कृष्ट
स्वामित्व होता है । इस प्रकार स्वामित्वकी अपेक्षा इन दोनोंमें कोई भेद नहीं है ।

विशेषार्थ—अप्रत्याख्यानवरण और प्रत्याख्यानावरण इन आठ कपायोंके उदयस्थिति-
प्राप्त उत्कृष्ट द्रव्यका स्वामी कौन है इसका प्रकृतमें विचार किया है सो यह पूरा वर्णन इन्हीं आठ
कपायोंके उदयसे भीनस्थितिप्राप्त द्रव्यके उत्कृष्ट स्वामित्वसे मिलता जुलता है, इसलिये उसके
समान इसका विस्तार समझ लेना चाहिये ।

§ ६६४. इसप्रकार आठ कपायोंके उदयस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट स्वामित्वविशेषको सूचित
करके, अब छह नोकषायोंके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वविशेषका कथन करनेके लिये आगेके
सूत्र कहते हैं—

❀ छह नोकषायोंके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ?

§ ६६५. यह आशंका सूत्र सुगम है ।

❀ जो अपूर्वकरणके अन्तिम समयमें विद्यमान है वह छह नोकषायोंके उत्कृष्ट
उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६६६. यहाँ अपूर्वकरण गुणस्थानवाला जीव गुणितकर्मांश क्षपक हांता है अतः सूत्रमें
'गुणिदक्कम्मंसियस्स खवयस्स' इतना वाक्य शेष है जो जोड़ लेना चाहिये, अन्यथा उत्कृष्ट भावकी
उत्पत्ति नहीं हो सकती । शेष कथन सुगम है । अब इस विषयमें अबान्तर विशेषका कथन
करनेके लिये आगेके सूत्र आये हैं—

❀ हास्य, रति, अरति और शोकका यदि उत्कृष्ट स्वामित्व करता है तो उसे
भय और जुगुप्साका अवेदक करना चाहिए ।

§ ६६७. सुगमं ।

❀ जह भयस्स तदो दुगुंछाए अवेदओ कायव्वो । अध दुगुंछाए तदो भयस्स अवेदओ कायव्वो ।

§ ६६८. सुगममेदं पि सुत्तं । एवं पुञ्चिल्लप्पणाए विसेसपरूढणं समाणिय सेसकम्माणमुक्कस्ससामित्तविहाणद्वमुत्तरो पवंधो—

❀ कोहसंजलणस्स उक्कस्सयमग्गट्टिदिपत्तयं कस्स ?

§ ६६९. सुगमं ।

❀ उक्कस्सयमग्गट्टिदिपत्तयं जहा पुरिमाणं कायव्वं ।

§ ६७०. जहा पुरिमाणं मिच्छत्तादिकम्माणमग्गट्टिदिपत्तयस्स उक्कस्ससामित्तं परूविदं तहा कोहसंजलणस्स वि परूवेयव्वं, विसेसाभावादो । एवमेदस्स समप्पणं कादूण संपहि सेसाणं ट्टिदिपत्तयाणमुक्कस्ससामित्तविहाणद्वमुत्तरिमगंधावयारो—

❀ उक्कस्सयमधाणिसेयट्टिदिपत्तयं कस्स ?

§ ६७१. सुगमं ।

❀ कसाए उवसामित्ता पड्विदिदूण पुणो अंतोमुहुत्तेण कसाया

§ ६६७. यह सूत्र सुगम है ।

* यदि भय हा उत्कृष्ट स्वामित्व करता है तो उसे जुगुप्साका अवेदक करना चाहिये । यदि जुगुप्साका उत्कृष्ट स्वामित्व करता है तो उसे भयका अवेदक करना चाहिये ।

§ ६६८. यह सूत्र भी सुगम है । इस प्रकार पहले जिनके विशेष व्याख्यानकी सूचना की रही उनका विरोध कथन समाप्त करके अब शेष कर्मोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* क्रोध संज्वलनके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ।

§ ६६९. यह सूत्र सुगम है ।

* मिथ्यात्व आदिके समान क्रोधसंज्वलनके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्ति द्रव्यका स्वामी करना चाहिए ।

§ ६७०. जिस प्रकार मिथ्यात्व आदि कर्मोंके अग्रस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन किया है उसी प्रकार क्रोधसंज्वलनका भी कथन करना चाहिये, क्योंकि इसके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । इस प्रकार इसका प्रमुखतासे कथन करके अब शेष स्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करनेके लिये आगेका ग्रन्थ आया है—

* उत्कृष्ट यथानिषेक स्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ?

§ ६७१. यह सूत्र सुगम है ।

* जो जीव कपायोंका उपशम करके उससे च्युत हुआ । फिर दूसरी बार

उवसामिदा विदियाए उवसामणाए आबाहा जम्हि पुण्णा सा द्विदी आदिट्ठा, तम्हि उक्कस्सयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं ।

§ ६७२. एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे । तं जहा—एक्केण जीवेण कसाए उवसामिता पडिवदिदूण पुणो अंतोयुहुत्तेण कसाया उवसामिदा । सो च जीवो संखेज्जंतोयुहुत्तवभहियसोलसवस्सूणमधाणिसेयकालं पुव्वविहाणेण गेरएसु संचयं कादूण तदो उवट्ठिदो । दो-तिण्णिणभवग्गहणाणि तिरिक्खेसु गमिय मणुस्सेसु आगदो ति घेत्तव्वं, अण्णाहा उक्कस्ससंचयाणुप्पत्तीदो । विदियाए उवसामणाए आबाहा जम्हि पुण्णा सा द्विदी आदिट्ठा एवं भणिदे जम्मि उद्देसे सामित्तभवसंबंधि-विदियवारकसायउवसामणाए वावदस्स तप्पाओग्गजहण्णिणया आबाहा पुण्णा सा द्विदी पुव्वमेव आदिट्ठा विवक्खिया ति वुत्तं होइ ।

§ ६७३. एत्थ गेरइएसु चेव मिच्छत्तादिकम्माणं व पयदुक्कस्ससामित्तमदादूण उवसमसेट्ठिं चढाविय साभित्तविहाणे लाहपदंसणट्ठमिमा ताव परूवणा कीरदे । तं जहा—संखेज्जंतोयुहुत्तवभहियसोलसवस्सेहि परिहीणं जहाणिसेयकालं पुव्वविहाणेण सत्तमपुढविणेरइएसु तदाउअचरिमभागे अधाणिसेयकालवभंतरे संचयं करिय कालं काऊण दो-तिण्णिणभवग्गहणाणि तिरिक्खेसु गमिय मणुस्सेसुवज्जिय गवभादिअट्ठ-वस्साणमंतोयुहुत्तवभहियाणसुवरि संजमेण सह पढमसम्मत्तमुप्पाइय पुणो वेदयसम्मा-

अन्तमुहुत्तकालके द्वारा कषायका उपशम किया । इस प्रकार इस दूसरी उपशामनाके होनेपर अबाधा जहाँ पूर्ण होती है प्रकृतमें वह स्थिति विवक्षित है । उसके उदयको प्राप्त होनेपर उससे युक्त जीव उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६७२. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । वह इस प्रकार है—एक जीव है जो कषायका उपशम करके उससे च्युत हुआ । फिर भी उसने अन्तमुहुत्त कालमें कषायका उपशम किया । वह जीव पहले संख्यात अन्तमुहुत्त अधिक सोलह वर्ष कम यथानिषेकके कालतक पूर्वविधिसे नारकियोंमें सञ्चय करके वहाँसे निकला और दो तीन भव तिर्यञ्चोंके लेकर मनुष्योंमें आया ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा उत्कृष्ट संचय नहीं बन सकता है । 'विदियाए उवसामणाए आबाहा जम्हि पुण्णा सा द्विदी आदिट्ठा' सूत्रमें जो यह कहा है सो इसका यह आशय है कि स्वामित्वसम्बन्धी भवमें दूसरी बार कषायको उपशामनाके जिस स्थानमें रहते हुये तत्प्रायोग्य जघन्य अबाधा पूर्ण होती है वह स्थिति पूर्वमें ही विवक्षित थी ।

§ ६७३. अब प्रकृतमें नारकियोंमें ही मिथ्यात्व आदि कर्मोंके समान प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व न देकर जो उपशमश्रेणिपर चढाकर स्वामित्वका विधान किया है सो इसमें लाभ है यह दिखलानेके लिये यह आगेकी प्ररूपणा करते हैं । यथा—कोई एक जीव है जिसने संख्यात अन्तमुहुत्त अधिक सोलह वर्षसे हीन यथानिषेकका जितना काल है उतने काल तक सातवीं पृथिवीका नारकी रहते हुए अपनी आयुके अन्तिम भागमें यथानिषेकके कालके भीतर पूर्वविधिसे यथानिषेकका संचय किया फिर मरा और तिर्यचोंके दो तीन भव लेकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । फिर गर्भसे लेकर आठ वर्ष और अन्तमुहुत्त हो जानेपर संयमके साथ प्रथमोपशम

इद्विभावेणंतोमुहुत्तमच्छिय पुणो वि सेदिसमारोहणद्वं दंसणमोहणीयमणंताणुवंधि-
विसंजोयणपुरस्सरमुवसामिय कसायाणमुवसामणद्वमधापवत्तकरणं पविद्वपढमसमए
वट्टमाणम्मि अहियारद्विदीए जहाणिसेयचिराणसंचयदव्वमेगसमयपवद्धस्स असंखेज्ज-
भागमेत्तं होइ ।

§ ६७४. तस्सोवट्टणे ठविज्जमाणे एणं पंचिदियसमयपवद्धं ठविय एदम्मि
ओकदडुकडुणभागहारेणोवद्विदसादिरेयदिवडुगुणहाणीए भागे हिदे तत्थतणचिराण-
संतकम्मसंचयदव्वभागच्छइ । एवंविहेण पुव्वसंचएणुवसमसेठिमेत्तो बहुदव्वसंचय-
करणद्वं चढमाणो अधापवत्तपढमसमयम्मि तदणंतरहेद्विमद्विदिवंधयादो पछिदोवमस्स
असंखेज्जिभागमेत्तमोसरिदूणंतोकोडाकोडिमेचद्विदिं वंधइ ।

§ ६७५. संपहियवंधमस्सियूण अहियारगोबुच्छाए उवरि णिसित्तदव्वे
इच्छिज्जमाणे एणं पंचिदियसमयपवद्धं ठविय पुणो एदस्स असंखेज्जभागवंधिय-
दिवडुभागहारं ठविदे पढमणिसेयादो संखेज्जावलियमेत्तद्धाणमुवरि चदियूणावद्विद-
अहियारद्विदीए णिसित्तदव्वभागच्छदि । एवं वंधमस्सियूण पयदगोबुच्छसंचयभाग-
हारो परुविदो । संपहि तत्थेव द्विदिपरिहाणिमस्सियूण लब्धमाणसंचयाणुणमं
वत्तइस्सामो । को द्विदिपरिहाणिसंचओ गाम ? उच्चदे—एयं द्विदिवंधं वंधिय पुणो

सम्यक्त्वको उत्पन्न किया । फिर वेदकसम्यक्त्वके साथ अन्तर्मुहूर्त तक रहकर श्रेणिपर चढ़नेके
लिये अचरन्तानुबन्धीकी विसंयोजनाके साथ दरानमोहनौयका फिरसे उपशम किया । इस प्रकार
यह जीव जब कषायोंका उपशम करनेके लिये उद्यत होता है तब इसके अधःकरणमें प्रवेश करके
उसके प्रथम समयमें विद्यमान रहते हुये विवक्षित स्थितिमें यथानिषेकका प्राचीन सकर्म एक
समयप्रवद्धका असंख्यातवर्षों भाग प्राप्त होता है ।

§ ६७४. अब इस द्रव्यको प्राप्त करनेके लिए भागहार क्या है यह बतलाते हैं—पंचेन्द्रियके
एक समयप्रवद्धको स्थापित करे । फिर इसमें अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारसे भाजित साधिक डेढ़
गुणहानिका भाग देनेपर वहाँका प्राचीन सत्कर्मरूप संचयद्रव्य आता है । इस प्रकार यहाँ जो पूर्व
संचय प्राप्त हुआ है सो उससे बहुत द्रव्यका संचय करनेके लिये यह जीव उपशमश्रेणिपर चढ़ता
हुआ अधःप्रवृत्तकारणके प्रथम समयमें इसके अनन्तरवर्ती पूर्व समयमें जितना स्थितिवन्ध किया
रहा उससे पर्यके असंख्यातवर्षों भाग कम अन्तःकोड़ाकोड़ाप्रमाण स्थितिवन्धको करता है ।

§ ६७५. अब इस समय वंधे हुए द्रव्यकी अपेक्षा अधिकृत गोपुच्छामें निक्षिप्त हुआ
द्रव्य जाना चाहते हैं, इसलिये पंचेन्द्रियके एक समयप्रवद्धको स्थापित करके फिर इसका असं-
ख्यातवर्षों भाग अधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहार स्थापित करे । ऐसा करनेसे प्रथम निषेकसे
संख्यात आवलि ऊपर जाकर स्थित हुई अधिकृत स्थितिमें जो द्रव्य निक्षिप्त होता है उसका
प्रमाण आ जाता है । इस प्रकार बन्धकी अपेक्षा प्रकृत गोपुच्छामें संचयको प्राप्त हुए द्रव्यके
भागहारका कथन किया । अब वहाँ पर स्थितिपरिहानिकी अपेक्षा प्राप्त होनेवाले संचयका विचार
करते हैं—

शंका—स्थितिपरिहानिसंचय किसे कहते हैं—

अंतोमुहुत्तेणणेगट्टिदिव'यं बंधमाणो अगट्टिदीदो हेट्टा पल्लिदोवमस्स संखे०भाग-
मेत्तमोसरियूण बंधइ । पुणो तं हीणट्टिदिपदेसग्गं सेसट्टिदीणमुवरि विहंजिय पदमाणं
ट्टिदिपरिहाणिसंचओ णाम । तस्सोवट्टणे ठविज्जमाणे एयं पंचिदियसमयपवद्धं ठविय
एयस्स सयलंतोकोडाकोडीअब्भंतरणाणागुणहाणिसळागाओ विरलिय विगं करिय
अण्णोण्णव्भत्थरूवूणीकदरासिम्मि परिहीणट्टिदिअब्भंतरणाणागुणहाणी विरलिय
विगं करिय अण्णोण्णव्भासजणिदरूवणरासिणोवट्टदम्मि भागहारत्तेण ठविदे ट्टिदि-
परिहाणिदव्वमागच्छइ । पुणो तम्मि सादिरेयदिवडुग्गुणहाणीए भागे हिदे अहियार-
ट्टिदीए उवरि ट्टिदिपरिहाणीए पदिददव्वसंचओ आगच्छइ । संपहि एवविहेसु तिसु
वि संचएसु ट्टिदिपरिहाणिसंचओ पहाणं, तस्सेव उवरि समयं पडि वडुदंसणादो ।

§ ६७६. एदं च ट्टिदिपरिहाणिकालभाविदव्वमधापवत्तकरणपढमसमयादो

समाधान—ऐसा जीव एक स्थितिवन्धको बौध्दक अन्तर्मुहूर्तवाद जब दूसरे स्थिति-
वन्धको बौध्दता है तो वह दूसरा स्थितिवन्ध अग्रस्थितिसे पल्यका संख्यातवौं भाग कम बौध्दता है ।
अर्थात् पहला स्थितिवन्ध जितना होता था उससे यह पल्यका संख्यातवौं भाग कम होता है । इस
प्रकार जितनी स्थिति कम जाती है उसके कर्मपरमाणु शेष स्थितियोंमें विभक्त होकर प्राप्त होते हैं ।
वस इस प्रकार जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे ही स्थितिपरिहानिसंचय कहते हैं । अब इस द्रव्यको
प्राप्त करनेके लिये भागद्वार क्या है यह बतलाते हैं—पंचेन्द्रियके एक समयप्रबद्धको भाव्यरूपसे
स्थापित करे । फिर पूरी अन्तःकोड़ाकोड़ीके भीतर जितनी नानागुणहानिशालाकाएँ प्राप्त हों
उनका विरलन करके दूना करे । फिर परस्परमें गुणा करके जो राशि उत्पन्न हो उनमेंसे एक कम
करे । फिर इसमें परिह्वीन स्थितिके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानियोंका विरलन करके और विरलित
राशिको दूना करके परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि आवे एक कम उसका भाग दे और इस
प्रकार जो राशि प्राप्त हो उसे पूर्वोक्त भाव्यराशिका भागद्वार करनेपर स्थितिपरिहानि द्रव्यका
प्रमाण प्राप्त होता है । फिर इसमें डेढ़ गुणहानिका भाग देनेपर अधिकृत स्थितिमें स्थितिपरि-
हानिसे द्रव्यका जितना संचय प्राप्त होता है उसका प्रमाण आ जाता है । इस प्रकार यहाँ जो
तीन प्रकारके संचय प्राप्त हुए हैं उनमेंसे स्थितिपरिहानिसे प्राप्त हुआ संचय प्रधान है, क्योंकि
आगे प्रत्येक समयमें उसीकी वृद्धि देखी जाती है ।

विशेषार्थ—बन्धकालके पूर्व समय तक अधिकृत स्थितिमें जितना द्रव्य प्राप्त हुआ रहता
है वह प्राचीन सत्कर्म संचित द्रव्य है । बन्धकी अपेक्षा अधिकृत स्थितिमें जितना द्रव्य प्राप्त होता
है वह बन्धकी अपेक्षा निश्चित हुआ द्रव्य है । तथा स्थितिपरिहानिसे विवक्षित स्थितिमें प्रति समय
जो अतिरिक्त द्रव्य प्राप्त होता है वह स्थितिपरिहानिसंचित द्रव्य है । यद्यपि स्थितिपरिहानिसंचित
द्रव्य बन्धकी अपेक्षा प्राप्त होनेवाले द्रव्यमें ही आ जाता है किन्तु बन्धसे प्राप्त होनेवाले द्रव्यको
ध्रुव करके उत्तरोत्तर स्थितिपरिहानिसे जो अतिरिक्त द्रव्य प्राप्त होता है उसकी यहाँपर अलगसे
परिगणना की है । इतना ही नहीं किन्तु वह उत्तरोत्तर बढ़ता भी जाता है, इसलिये उसकी प्रधानता
भी मानी है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इनमेंसे किसका कितना प्रमाण है और वह किस
प्रकार प्राप्त होता है इसका विचार मूलमें किया ही है ।

§ ६७६. अब स्थितिपरिहानिके कालमें कितना द्रव्य प्राप्त होता है इसका विचार करते

तदगंतरहेद्विमसमयम्मि वद्धसमयपवद्धं सादिरेयदिवद्गुणहाणीए भागं घेत्तूण लद्धद्वमेत्तं होदूण पुणो द्विदिपरिहाणीए लद्धअसंखेज्जभागमेत्तद्वेण अहियं होइ । इमं च तिससे अहियारद्विदीए ओकड्डुकड्डुणाहि गच्छमाणं पि दव्वं पेक्खियूण असंखेज्जभागवहियं होइ । तं कथं ? गच्छमाणदव्वस्सोवद्दणे ठविज्जमाणे एयं पंचिदिय-समयपवद्धं ठविय पुणो एदस्स ओकड्डुकड्डुणभागहारोवद्दिदिवद्गुणहाणिमेत्त-भागहारे ठविदे चिराणसंचयदव्वमागच्छदि । पुणो एदस्स ओकड्डुकड्डुणभागहारे ठविदे सादिरेयदिवद्गुणहाणिसमयपवद्धस्स पयदगोवुच्चवयागमणद्धं भागहारो जादो । पुव्वुत्तसंचओ पुण समयपवद्धं सादिरेयदिवद्गुणहाणीए खंडिय तत्थेयखंडं द्विदिपरिहीणदव्वं च दो वि घेत्तूण होइ, तेणेसो अगंतरहेद्विमसमयसंचयादो संपहिय-समयम्मि गच्छमाणदव्वादो च असंखेज्जदिभागवहियो होइ त्ति सिद्धं । संपहिय-संचएण चिराणसंतकम्मसंचयदव्वं पेक्खियूण असंखेज्जभागवद्दी चेव होइ । कुदो? ओकड्डुकड्डुणभागहारोवद्दिदिवद्गुणहाणिखंडिदेसमयपवद्धमेत्तचिराणसंचयादो एदस्स वद्धमाणसमयसंचयस्स असंखेज्जगुणहीणत्तदंसणादो । एवमपापवत्तकरण-पट्टसमयसंचयपरूवणा कदा । एत्तो अंतोमुहुत्तमेत्तकालं सव्वमेगमवद्दिद्विदि बंधं त्ति

हैं—अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे उसके अनन्तरवर्ती नीचेके समयमें बंधे हुए समयप्रवद्धमें साधिक डेढ़ गुणहानिका भाग देनेपर जितना लब्ध आवे उतना ग्रहणकर वह लब्ध द्रव्यप्रमाण होकर पुनः स्थितिकी परिहानिसे प्राप्त हुए असंख्यात भागप्रमाण द्रव्यसे अधिक होता है । और यह द्रव्य उस अधिकृत स्थितिमें अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा व्ययको प्राप्त होनेवाले द्रव्यकी अपेक्षा असंख्यातवें भागप्रमाण अधिक होता है ।

शंका—सो कैसे ?

समाधान—क्योंकि, जो द्रव्य व्ययको प्राप्त होता है उसको लानेके लिये भागहारके

स्थापित करनेपर पंचेन्द्रियका एक समयप्रवद्ध स्थापित करे । फिर इसका अपकर्षण-उत्कर्षण भाग-हारसे भाजित डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहार स्थापित करनेपर प्राचीन संचित द्रव्य प्राप्त होता है । फिर इस संचित द्रव्यके नीचे अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारको स्थापितकर भाग देनेपर प्रकृत गोपुच्छा-मंसे व्ययका प्रमाणा लानेके लिये वह साधिक डेढ़ गुणहानिप्रमाण समयप्रवद्धका भागहार हो जाता है । परन्तु पूर्वोक्त संचय तो एक समयप्रवद्धको साधिक डेढ़ गुणहानिसे भाजित करनेपर वही प्राप्त हुआ एक भाग और स्थितिपरिहीन द्रव्य इन दोनोंको मिलाकर होता है, इसलिए यह द्रव्य अनन्तरवर्ती नीचेके समयमें संचयको प्राप्त हुए द्रव्यसे और वर्तमान कालमें व्ययको प्राप्त होनेवाले द्रव्यसे असंख्यातवें भाग अधिक होता है यह सिद्ध हुआ । किन्तु इस वर्तमान कालीन संचयमें प्राचीन संचय द्रव्यकी अपेक्षा असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि डेढ़ गुणहानिमें अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका भाग देनेपर जो एक भाग प्राप्त हो उसका एक समयप्रवद्धमें भाग देनेपर प्राचीन संचय द्रव्य आता है । उससे यह वर्तमान समयका संचय असंख्यातगुणा हीन देखा जाता है । इस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयमें जो संचय होता है उसका कथन किया । अब इससे आगे एक अन्तसुद्धत कालतक पूरी अवस्थित स्थितिका बन्ध होता है, इसलिये वहाँ अवस्थित संचय

अवद्विदो संचओ होइ । णवरि गोबुच्छविसेसं पडि विसेसो अत्थि सो जाणियव्वो । ततो परं पळिदोवमस्स असंखे०भागमेत्तमोसरिय अण्णे द्विदिवंधे आहत्ते असंखेज्ज-भागवड्डीए विसरिसो संचओ समुप्पज्जइ । एत्थ वि पुव्वं व परूक्कणा कायव्वा । एवं जत्थजत्थ द्विदिवंधोसरणं भविस्सदि तत्थ तत्थ सेसद्विदिं द्विदिपरिहाणिं च जाणिदूण संचयपरूक्कणा कायव्वा । एवमणेण विहाणेण अधापवत्त-अपुव्वकरणाणि वोत्थिय अणियट्ठिअद्दाए संखेज्जे भागे च गंतूण जाव दूरावकिट्टिसण्णिदो द्विदिवंधो चेदइ ताव गच्छमाणदव्वं तदर्णंतरहेट्ठिमसमयसंचयं च पेक्खियूण समयं पडि जो संचओ सो असंखेज्जभागवड्डीए चेव गच्छइ । तदो पळिदोवमस्स संखे०भागमेत्तदूरावकिट्टि-सण्णिदद्विदिवंधे अच्चिदे सेसस्स असंखेज्जा भागा हाइयूण असंखेज्जदिभागो बज्भइ । एवं वंधमाणस्स वि असंखेज्जभागवड्डी चेव होऊण गच्छइ जाव जहण्ण-परित्तासंखेज्जेदणयमेत्तगुणहाणिपमाणो द्विदिवंधो जादो त्ति । तदित्थद्विदिं वंध-माणस्स असंखेज्जभागवड्डीए पज्जवसाणं होइ । पुणो एयगुणहाणिं हाइयूण वंध-माणस्स गच्छमाणदव्वं तदर्णंतरहेट्ठिमसमयसंचयं च पेक्खियूण संखेज्जभागवड्डीए आदी जादा । एदं च सेढीए संभवं पडुच्च भणिदं, अण्णहा सेससेसस्स असंखेज्जे भागे परिहाविय वंधमाणस्स तहाविहसंभवाणुवलंभादो । संपहि चिराणसंचयं पेक्खियूणासंखेज्जभागवड्डी चेव तस्सोकड्डुकडुणभागहारोवट्ठिददिवड्डुगुणहाणि-

होता है । किन्तु गोपुच्छविशेषकी अपेक्षा विशेषता है सो जान लेनी चाहिये । फिर उससे आगे पत्यका असंख्यातवों भाग कम अन्य स्थितिवन्ध होता है, इसलिए असंख्यातभागवृद्धिसे विसदृश संचय उत्पन्न होता है । यहाँ भी पहलेके समान कथन कर लेना चाहिये । इस प्रकार जहाँ जहाँ स्थितिवन्धापसरण होगा वहाँ वहाँ शेष स्थिति और स्थितिपरिधानिको जानकर सञ्चयका कथन करना चाहिये । इस प्रकार इस विधिसे अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणको बिता कर अनिवृत्ति करणके कालमें संख्यात बहुभागप्रमाण स्थान जाकर दूरापकृष्टि संज्ञावाले स्थितिवन्धके प्राप्त होने तक प्रति समयमें व्ययको प्राप्त होनेवाले द्रव्यसे और अनन्तरवर्ती नीचेके समयमें हुए सञ्चयसे प्रत्येक समयमें होनेवाला सञ्चय असंख्यातभागवृद्धिको लिये हुए होता है । फिर पत्यके संख्यातवों भागप्रमाण दूरापकृष्टिसंज्ञक स्थितिवन्धके रहते हुए शेष स्थितिके असंख्यात बहुभागप्रमाण स्थितिका घात करके असंख्यातवों भाग प्रमाण स्थितिका बन्ध होता है । सो इसप्रकारका बन्ध करनेवाले जीवके भी प्रति समय असंख्यातभागवृद्धि ही होती है और यह जन्य परीतासंख्यातके जितने अर्धच्छेद हों उतने गुणहानिप्रमाण स्थितिवन्धके प्राप्त होने तक होती रहती है । इस प्रकार यहाँ अन्तमें जो स्थिति प्राप्त हो उसका बन्ध करनेवाले जीवके असंख्यातभागवृद्धिका पर्यवसान होता है । फिर एक गुणहानिका कम स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके उस समय व्ययको प्राप्त होनेवाले द्रव्यकी अपेक्षा और अन्तरवर्ती नीचेके समयमें हुए संचयकी अपेक्षा संख्यातभागवृद्धिका प्रारम्भ होता है । किन्तु यह सब श्रेणिमें सम्भव है इस अपेक्षासे कहा है, अन्यथा उत्तरोत्तर जो स्थिति-बन्ध शेष रहता है उसका असंख्यातवों भाग कम होकर आगे आगे बन्ध होता है इस प्रकारकी सम्भावना नहीं उपलब्ध होती । यहाँ पुराने संचयकी अपेक्षा असंख्यातभागवृद्धि ही होती है, क्योंकि उसका प्रमाण एक समयप्रवृद्धमें अपकर्षण-उत्कर्षणसे भाजित डेढ़ गुणहानिका भाग

भजिदेयसमयपवद्धपमाणत्तदंसणादो । एवं रूवूण-दुरूवूणादिकमेण जहण्णपरित्तासंखेज्ज-
 छेदण्यमेत्तगुणहाणीसु परिहीयमाणासु संखेज्जभागवड्डीए गंतूण जत्थुदेसे एयगुण-
 हाणिआयामो द्विदिवंधो जादो तत्थुदेसे गच्छमाणदव्वं तदणंतरहेट्ठिमसमयसंचयं च
 पेक्खियूण संपहियसंचओ दुगुणो जादो । चिराणसंचयं पेक्खियूण पुण तक्काले वि
 असंखेज्जभागवड्डी चेव । पुणो पढमगुणहाणिं तिण्णिण खंडाणि काऊण तत्थ हेट्ठिम-
 दोखंडाणि मोत्तूण उवरिममेयखंडं सेसगुणहाणीओ च ओसरिय वंधमाणस्स तिगुणो
 संचओ जादो । तं जहा—पढमगुणहाणीए विसेसहाणिमजोइय सव्वणिसेया सरिसा
 त्ति आयामेण तिण्णिण खंडे काऊण तत्थेयखंडमवणिय पुध द्वेयव्वं । पुणो विदियादि-
 गुणहाणिदव्वं पि तावदियं चेव होदि त्ति तहेव तिण्णिण भागे काऊण तत्थ तिभागं
 घेत्तूण पुव्वमवणिय पुध द्विविदितिभागेण सह मेळाविदे ते वि वे-तिभागा जादा । एवमेदे
 तिण्णिण वे-तिभागा एकदो मेळिदा तिगुणत्तं सिद्धं । अथवा दुगुणं सादरेयमिदि
 वत्तव्वं । सुद्धमद्विदीए गिहालिज्जमाणे गुणहाणिअद्धमेत्तविसेसाणं हीणत्तदंसणादो ।
 एवमुवरि वि किंचूणत्तं जाणिय जोजेयव्वं । एवं गंतूण पढमगुणहाणिं रूवाहियजहण-
 परित्तासंखेज्जमेत्तखंडाणि काऊण तत्थ हेट्ठिमदोखंडाणि मोत्तूणुवरिमसव्वखंडाणि
 सेसगुणहाणीओ च ओसरिय वंधमाणे गच्छमाणदव्वं तदणंतरहेट्ठिमसंचयं च
 पेक्खिय असंखेज्जगुणवड्डीए आदी जादा । एत्तो प्पहुडि उवरि सव्वत्थ असंखेज्ज-

देने पर जो लब्ध आवे उतना देखा जाता है । इसप्रकार एक कम दो कम आदि के क्रमसे
 जघन्य परीतासंख्यातके अर्धच्छेदप्रमाण गुणहानियोंके हीन होनेतक संख्यातभागवृद्धिसे
 जाकर जहाँ एक गुणहानिआयामप्रमाण स्थितिवन्ध हो जाता है वहाँ व्ययको प्राप्त हुआ
 द्रव्य और अनन्तर नीचेके समयमे संचित हुआ द्रव्य इन दोनोंकी अपेक्षा वर्तमानकालीन
 संचय दूना हो जाता है । परन्तु पुराने सत्त्वकी अपेक्षा उस समय भी असंख्यातभागवृद्धि
 ही है । फिर प्रथम गुणहानिके तीन खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्ड छोड़कर
 ऊपरके एक खंड और शेष गुणहानियोंको घटाकर वन्ध करनेवाले जीवके तिगुना संचय हो
 जाता है । यथा—प्रथमगुणहानिमें जो उत्तरोत्तर निषेकोंकी विशेष हानि होती गई है इसकी गिनती
 नहीं करके सब निषेक समान हैं ऐसा मानकर उनके समान तीन खण्ड करके उनमेंसे एक
 खण्डको निकालकर अलग स्थापित कर दे । फिर द्वितीयादि गुणहानियोंका द्रव्य भी उतना ही
 होता है इसलिये उसीप्रकार तीन भाग करके उनमेंसे तीसरे भागको ग्रहण करके पूर्वमें निकालकर
 पृथक् स्थापित किये गये तीसरे भागमें मिला देनेपर वे भी दो बटे तीन भागप्रमाण हो जाते हैं ।
 इसप्रकार इन दो बटे तीन भागोंको एकत्रित करनेपर तिगुने हो जाते हैं इसलिये इस समय तिगुना
 संचय होता है यह वात सिद्ध हुई । अथवा साधिक दुगुना संचय होता है ऐसा कहना चाहिये,
 क्योंकि सूक्ष्मदृष्टिसे अवलोकन करने पर गुणहानिके अर्धभागप्रमाण विशेषोंकी हानि देखी जाती
 है । इसीप्रकार आगे भी कुछ कमको जानकर उसकी योजना करते जाना चाहिये । इस प्रकार
 आगे जाकर प्रथम गुणहानिके एक अधिक जघन्य परीतासंख्यातप्रमाण सखड करके उनमेंसे
 नीचेके दो खण्डोंके सिवा ऊपरके सब खण्ड और शेष गुणहानियोंको घटाकर वन्ध करने पर
 व्ययको प्राप्त हुआ द्रव्य और अनन्तर नीचेके समयमें सञ्चित हुआ द्रव्य इन दोनोंकी अपेक्षा

गुणवड्डी चैव होऊण गच्छइ ति घेत्तव्वं ।

§ ६७७. संपहि चिराणसंचयं पेक्खियूणासंखेज्जभागवड्डीए अंतो कम्मि उहेसे होइ ति भणिदे जहणपरितासंखेज्जेणोक्कड्डुकड्डुणभागहारं खंडेयूण लद्धपमाणेण पढमगुणहाणिं खंडिय तत्थ हेट्ठिमदोखंडाणि मोत्तूणवरिमासेसखंडाणि सेसगुणहाणीओ च हाइयूण वंधमाणस्स असंखेज्जभागवड्डीए चरिमवियप्पो होइ । तं कथमिदि भणिदे एयं पंचिदियसमयपवद्धं ठविय पुणो एदस्स दिवड्डुगुणहाणिभागहारं हेट्ठदो ठविय उवरि जहणपरितासंखेज्जेणोवट्ठिदओक्कड्डुकड्डुणभागहारे गुणयारसरूवेण ठविदे संपहियसंचओ आगच्छइ । चिराणसंचए पुणं इच्छिज्जमाणे एयं पंचिदियसमयपवद्धं ठविय पुणो एदस्स ओक्कड्डुकड्डुणभागहारोवट्ठिददिवड्डुगुणहाणिभागहारो ठवेयव्वो । एवं कदे चिराणसंचओ अधापवत्तकरणपढमसमयपडिवद्धो आगच्छइ । तेणासंखेज्ज-भागवड्डी एत्थ परिसमप्पइ ति णत्थि संदेहो ।

§ ६७८. संखेज्जभागवड्डीपारंभो कत्थ होइ ति पुच्छिदे उक्कस्ससंखेज्जोवट्ठिद-ओक्कड्डुकड्डुणभागहारपमाणेण पढमगुणहाणिं खंडिय तत्थ हेट्ठिमदोखंडं मोत्तूण उवरिम-सव्वखंडाणि सेसगुणहाणीओ च हाइयूण वंधमाणे संखेज्जभागवड्डीए आदी होइ । एत्थोवट्ठणं पुव्वं व काऊण सिस्साणं पव्वोहो कायव्वो । एत्तो प्पहुडि संखेज्ज-भागवड्डी चैव होऊण गच्छदि जाव ओक्कड्डुकड्डुणभागहारस्स एगरूवं भागहारत्तेण

असंख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ होता है । अब इससे आगे सर्वत्र असंख्यातगुणवृद्धिका ही क्रम चालू रहता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये ।

§ ६७७. अब पुराने सञ्चयकी अपेक्षा असंख्यातभागवृद्धिका अन्त किस स्थानमें होता है यह बतलाते हैं—जघन्य परीतासंख्यातसे अपकर्षण-उपकर्षण भागहारको भाजित करके जो लब्ध आवे उत्तने प्रथम गुणहानिके खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्डोंको छोड़कर ऊपरके बाकीके सब खण्ड और शेष गुणहानियोंको घटाकर बन्ध करनेवाले जीवके असंख्यातभागवृद्धिका अन्तिम विकल्प होता है । यह कैसे होता है अब इसी बातको बतलाते हैं—पंचेन्द्रिके एक समयप्रबद्धको स्थापित करके नीचे इसके डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहारको स्थापित करनेपर और ऊपर जघन्य परीतासंख्यातसे भाजित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारको गुणकाररूपपर स्थापित करनेसे वर्तमान-कालीन संचय प्राप्त होता है । किन्तु पुराने सञ्चयको लानेकी इच्छासे पंचेन्द्रिके एक समय-प्रबद्धको स्थापित करके फिर इसका अपकर्षण-उत्कर्षणसे भाजित डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहार स्थापित करे । ऐसा करनेसे अधःप्रवृत्तकरणका प्रथम समयसम्बन्धी पुराना संचय प्राप्त होता है । अतः यहाँ असंख्यातभागवृद्धि समाप्त होती है इसमें जरा भी सन्देह नहीं है ।

§ ६७८. अब संख्यातभागवृद्धिका प्रारम्भ कहाँपर होता है यह बतलाते हैं—प्रथम गुण-हानिके उत्कृष्ट संख्यातसे भाजित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण खण्ड करके उत्तमेंसे नीचेके दो खण्डोंको छोड़कर ऊपरके सब खण्ड और शेष गुणहानियोंको घटाकर बन्ध करनेपर संख्यात-भागवृद्धिका प्रारम्भ होता है । यहाँपर पहलेके समान अपवर्तन करके शिष्योंको ज्ञान कराना चाहिये । अब इससे आगे अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका एक अङ्क भागहाररूपसे प्राप्त होनेतक

चेइइ ति । पुणो तक्काले पढमगुणहाणिमोकड्डुकड्डुणभागहारमेत्तखंडाणि काऊण तत्थ हेडिमदोखंडाणि मोत्तूणवरिमसव्वखंडेहि सह सेसासेसगुणहाणीओ परिहाविय वंधमाणे संखेज्जगुणवट्टीए आदी जादा । तदो ओकड्डुकड्डुणभागहारदुगुणमेत्तं पढमगुणहाणि खंडिय तत्थ हेडिमदोखंडाणि मोत्तूण उवरियासेसखंडेहि सह सेसगुणहाणीओ ओसरिय वंधमाणे चिराणसंचएण सह तिगुणं संचओ होइ । एवं तिगुणचउग्गणादिकमेण गंतूणुक्कससंखेज्जगुणोकड्डुकड्डुणभागहारमेत्ताणि पढमगुणहाणिखंडाणि काऊण तत्थ हेडिमदोखंडाणि परिवज्जिय उवरिमासेसखंडाणि सेसगुणहाणीओ च द्विदिपरिहाणि करिय वंधमाणे असंखेज्जगुणवट्टीए आदी जादा । एत्तो पाए उवरि सव्वद्धा संखेज्जगुणवट्टीए चेव गच्छइ । एवं द्विदिवंधसहस्साणि वट्टणि गंतूण तदो उवरिमसंचयं गहिदमिच्छिय ओवट्टणे ठविज्जमाणे एयं पंचिदियसमयपवद्धं ठविय पुणो तम्मि असंखेज्जवस्सायामेण तक्कालियद्विदिवंधेण भागे हिंदे एयगोबुच्छपमाणमागच्छइ । पुणो वि अंतोमुहुत्तकालं तं चेव द्विदिं वंधइ ति अंतोमुहुत्तेण तम्मि ओवट्टिंदे समयपवद्धभागहारो होइ । एवमोवट्टिय इमो संचओ पुध द्ववेयव्वो ।

§ ६७६. संपहि अण्णेमं द्विदिवंधं वंधमाणो तदण्तरहेडिमवंधादो असंखेज्जगुणहीणं हेडदो ओसरइ । एत्थोवट्टणं पुच्चं व कायव्वं । गवरि पुच्चिज्जसंचयादो एस संचओ असंखेज्जगुणो होइ । इमं पि संचयदव्वं पुध द्ववेयव्वं । एवमसंखेज्ज-

संख्यातभागवृद्धिका ही क्रम चालू रहता है । फिर उस समय प्रथम गुणहानिके अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्डोंको छोड़कर ऊपरके सब खण्डोंके साथ वाक्रीकी सब गुणहानियोंको घटाकर बन्ध करनेपर संख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ होता है । फिर प्रथम गुणहानिके अपकर्षण-उत्कर्षणसे दूने खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्डोंको छोड़कर ऊपरके सब खण्डोंके साथ शेष गुणहानियोंको घटाकर बन्ध करनेपर पुराने सत्त्वके साथ तिगुना संचय होता है । इस प्रकार प्रथम गुणहानिके तिगुने और चौगुने आदिके क्रमसे आगे जाकर अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे उत्कृष्ट संख्यातगुणो खण्ड करके उनमेंसे नीचेके दो खण्डोंको छोड़कर ऊपरके सब खण्ड और शेष गुणहानिप्रमाण स्थितिको घटाकर बन्ध करनेपर असंख्यातगुणवृद्धिका प्रारम्भ होता है । अब इससे आगे सर्वदा संख्यातगुणवृद्धिका की क्रम चालू रहता है । इस प्रकार हजारो स्थितिलखण्डोंको बिताकर इससे ऊपरके सन्नयको लानेकी इच्छासे भारहारके स्थापित करनेपर पंचेन्द्रियके एक समप्रवद्धको स्थापित करके फिर उससे तत्काल वैधनेवाले असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्धका भाग देनेपर एक गोपुच्छाका प्रमाण प्राप्त होता है । फिर भी अन्तर्मुहूर्तकाल तक उसी स्थितिका बन्ध होता है, इसलिये उसमें अन्तर्मुहूर्तका भाग देनेपर जो लब्ध आवे वह समय-प्रवद्धका भागहार होता है । इस प्रकार अपवर्तित करके इस सन्नयको अलग स्थापित करना चाहिये ।

§ ६७६. अब एक अन्य स्थितिवन्धको बंधता हुआ इसके अनन्तरवर्ती नीचेके बन्धसे असंख्यातगुणो हीन नीचे जाकर बंधता है । यहाँपर भी पहलेके समान अपवर्तन करना चाहिये । किन्तु इतनी विरोधता है कि पूर्वके संचयसे यह संचय असंख्यातगुणा होता है । इस सन्नय द्रव्यको

वस्सायामाणि होऊण संखेज्जट्टिदिवंधसहस्साणि गच्छन्ति जाव संखेज्जवस्सट्टिदिवंधो जादो त्ति । कम्मिह पुणो संखेज्जवस्सिओ ट्टिदिवंधो होइ त्ति भणिदे अंतरकरण-समत्तिपढमसमए होइ ।

§ ६८०. संपहि एत्थतणसंचयं गहिदुमिच्छामो त्ति ओवट्टणे ठविज्जमाणे एयं पंचिदियसमयपवद्धं ठविय पुणो एदस्स संखेज्जावलियमेत्तं संपहियट्टिदिवंधायामं भागहारं ठविय भागे हिदे एयगोबुच्छमागच्छइ । एवमंतोमुहुत्तं चैव ट्टिदिं वंधइ त्ति अंतोमुहुत्तेण तम्मि भागहारे ओवट्टिदे समयपवद्धभागहारो संखेज्जरूवमेत्तो होइ । एदं पि दव्वं पुध ठवेयव्वं । पुणो अण्णेगं ट्टिदिवंधं वंधमाणो पुन्विन्ल्लवंधादो संखेज्जगुणहीणो हेट्टदो ओसरइ । एदस्स वि पुव्वओवट्टणं कायव्वं । णवरि पुव्विल्ल-संचयादो इमो संखेज्जगुणो । एसो वि पुध ठवेयव्वो । एवमेदेण कमेण संखेज्जगुणहीणो बंधो होऊण गच्छइ जाव वत्तीसवस्समेत्तो ट्टिदिवंधो जादो त्ति । सो कम्मिह होइ त्ति पुच्छिदे चरिमसमयपुरिसवेदवंधयम्मि होइ । ततो प्पहुट्टि ट्टिदिवंधो विसेसहीणो होऊण गच्छइ । एवं संखेज्जे ट्टिदिवंधे ओसारिय णेदव्वं जाव कोहसंजलणस्स संखेज्जंतोमुहुत्तव्वमहियअट्टवस्समेत्तट्टिदिवंधो त्ति । ततो उवरि संचयं ण लहामो । किं कारखं ? एत्तो उवरिमट्टिदिवंधाणमहियारट्टिदीदो हेट्टा चैव पत्तित्दंसणादो ।

भी पृथक् स्थापित करना चाहिये । इस प्रकार संख्यात वर्षका स्थितिवन्ध प्राप्त होनेतक असंख्यात वर्षके आयामवाले संख्यात हजार स्थितिवन्ध होते हैं ।

शंका—संख्यात वर्षका स्थितिवन्ध किस स्थानमें होता है ?

समाधान—अन्तरकरणकी समाप्तिके वाद प्रथम समयमें होता है ।

§ ६८०. अब यहाँका संचय लाना इष्ट है इसलिये इसके भागहारको बतलाते हैं— पंचेन्द्रियके एक समयप्रबद्धको स्थापित करके फिर इसका वर्तमान स्थितिवन्धके आयामवाला संख्यात आवलिप्रमाण भागहार स्थापित करके भाग देने पर एक गोपुच्छाका प्रमाण प्राप्त होता है । इसप्रकार अन्तर्मुहूर्त तक ही स्थिति बंधता है इसलिये इस भागहारमें अन्तर्मुहूर्तका भाग देने पर समयप्रबद्धका भागहार संख्यात अंकप्रमाण प्राप्त होता है । इस द्रव्यको भी पृथक् स्थापित करे । फिर एक दूसरे स्थितिवन्धको बंधता हुआ पूर्वोक्त वन्धसे संख्यातगुणा हीन नीचे जाकर बंधता है । इसे भी पहलेके समान भाजित करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि पिछले सञ्चयसे यह सञ्चय संख्यातगुणा होता है । इसे भी पृथक् स्थापित करना चाहिये । इस प्रकार वत्तीस वर्षप्रमाण स्थितिवन्धके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर वन्ध संख्यातगुणा हीन होता जाता है ।

शंका—वत्तीस वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध किस स्थानमें जाकर होता है ?

समाधान—पुरुषवेदके वन्धके अन्तिम समयमें होता है ।

इससे आगे स्थितिवन्ध उत्तरोत्तर विशेष हीन होता जाता है । इस प्रकार क्रोधसंज्वलनके संख्यात अन्तर्मुहूर्त अधिक आठ वर्षप्रमाण स्थितिवन्धके प्राप्त होने तक संख्यात स्थितिवन्ध हो लेते हैं । अब इससे आगे संचय नहीं प्राप्त होता, क्योंकि इससे ऊपरके स्थितिवन्ध अधिकृत

एवमुवरिं चदिय अंतोमुहुत्तद्धमच्छिय तदो अद्धाक्खएण परिवदमाणगो सुहुमसांपराइयद्धं
 वोळिय अणियट्टिउवसामगो जादो । संपहि एवमोदरमाणस्स कम्मिह पदेसे
 अहियारट्टिसंचयं लहइ ति पुच्छिदे जम्मिह उद्देसे चढमाणस्स संचयवोच्छेदो
 जादो तमुद्देसं थोवंतरेण ण पावेइ ति ओयरमाणस्स संखेज्जंतोमुहुत्तव्वभहियअद्ध-
 वस्समेत्तद्विदिवंधो जायदे । ततो प्पहुट्ठि अहियारगोमुच्छा अथाणिसेयसंचयं लहइ ।
 एवं णेदव्वं जाव असंखेज्जवस्समेत्तो द्विदिवंधो जादो ति । किंविहो सो असंखेज्ज-
 वस्सिओ द्विदिवंधो ति भणिदे तप्पाओग्गसंखेज्जखूवाणि ओक्कड्डुकड्डुणभागहारं च
 अण्णोण्णगुणं करिय णिप्पाइदो जो रासी तत्तियमेत्तो जाव एहूरं ताव संचयं लहामो ।
 एत्तो उवरि संचयं ण लहामो, ओक्कड्डुकड्डुणाहिं गच्छमाणदव्वस्स द्विदिपरिहाणि-
 संचयं पेक्खियूण बहुत्तुवलंभादो । एवमेत्तियमेत्तकाळसंचयं काळण तदो अणियट्टि-
 अपुव्व-अधापवत्तकमेण हेट्ठा परिवदिय पुणो वि अंतोमुहुत्तेण कसायउवसामणाए
 अब्भुट्टिदो । एदिस्से वि उवसमसेदीए संचयविही पुव्वं व परुवेयव्वा । णवरि
 चढमाणस्स जाधे संखेज्जखूवगुणिदोक्कड्डुकड्डुणभागहारमेत्तद्विदिवंधो जादो तदो
 पहुट्ठि संचयं लहामो, हेट्ठा आयादो वयस्स बहुत्तोवलंभादो । सेसविहीए णत्थि

स्थितिसे नीचे ही प्राप्त होते हैं । इस प्रकार ऊपर चढ़कर और अन्तर्मुहूर्त कालतक वहाँ रहकर
 फिर उपशान्तमोहका काल पूरा हो जानेके कारण वहाँसे गिरकर और सूक्ष्मसाम्प्रयािकके कालको
 विताकर अनिष्टत्तिउपशामक हो जाता है ।

शंका—इसप्रकार उतरनेवाले इस जीवके विवक्षित स्थितिका सञ्चय किस स्थानमें प्राप्त
 होता है ?

समाधान—जिस स्थानमें चढ़नेवाले जीवके सञ्चयकी व्युच्छित्ति होती है उस
 स्थानको थोड़े अन्तरसे नहीं प्राप्त करता, इसलिए उतरनेवाले जीवके जब संख्यात अन्तर्मुहूर्त
 अधिक आठ वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध होता है तब वहाँसे लेकर विवक्षित गोपुच्छा यथानियेक
 सञ्चयको प्राप्त होती है ।

इसप्रकार असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्धके होने तक जानना चाहिये ।

शंका—वह असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध किस प्रकारका होता है ?

समाधान—तद्योग्य संख्यात अंकोको और अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारको परस्परमें
 गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हुई उतना इतने दूर जाने तक यह संचय प्राप्त होता है, इससे
 ऊपर सञ्चय नहीं प्राप्त होता, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा व्ययको प्राप्त होनेवाला द्रव्य
 स्थितिपरिहानिसे होनेवाले सञ्चयकी अपेक्षा बहुत पाया जाता है ।

इस प्रकार इतने कालतक सञ्चय करके फिर अनिष्टत्तिकरण, अपूर्वकरण और अधःप्रकरणके
 क्रमसे नीचे गिरकर फिर भी अन्तर्मुहूर्त वाद् कषायोका उपशाम करनेके लिए उद्यत हुआ । इसके भी
 उपशामश्रेणिये सञ्चयका क्रम पहलेके समान कहना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि चढ़ने-
 वाले जीवके जब संख्यात अङ्कसे गुणित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण स्थितिवन्ध होता है
 तब वहाँसे सञ्चय प्राप्त होता है, क्योंकि नीचे आयेसे व्यय बहुत पाया जाता है । इसके अतिरिक्त

पाणत्तं । एवमुवरिं चडिय हेढा ओदरदूणंतोमुहुत्तेण मिच्छत्तं गंतूण, मणुस्साउअं वंधिय कमेण कालं काऊण मणुसेसुववण्णो अंतोमुहुत्तब्भहियअट्टवस्साणमुवरि सम्पत्तं संजमं च जुगवं पडिवज्जिय सव्वलहुं कसायउवसामणाए अब्भुट्ठिदो । एत्थ वि संचयविही पुव्वं व परूवेयव्वा । णवरि चढमाणो जाव अप्पणो चरिमट्ठिदिवंधो ताव संचयं लहदि त्ति वत्तव्वं । ओदरमाणो वि चढमाणस्स जम्मि चत्तारिमासमेत्तो चरिमट्ठिदिवंधो जादो तसुद्धेसमंतोमुहुत्तेण पावेदि त्ति अट्टमासमेत्तट्ठिदिवंधमाढवेइ ताधे पुव्विबल्लचरिमट्ठिदिवंधसंचयस्स अट्टमेत्तसंचयमहियारट्ठिदी लहइ । एत्तो प्पहुट्ठि पुव्वविहाणेण संचयं करेमाणो हेढा ओयरिय अंतोमुहुत्तेण पुणो वि उवसमसेट्ठिमाख्खो । एत्थ वि पुवं व संचयं कादूणोदरमाणस्स अणियट्ठिअट्ठाए अब्भंतरे जाधे तप्पाओगसंखेज्जखुण्णुणिकडडुकुण्णभागहारमेत्तो ट्ठिदिवंधो जादो ताधे तदित्थट्ठिदि वंधमाणेण अहियारगोवुच्छाए उवरि पढमणियेयं कादूणुवरि पदेसरयणा कदा । एदस्सुवरि असंखेज्जगुणमण्णेणं ट्ठिदिवंधं वंधमाणस्स संचयं ण लहामो, अहियारट्ठिदीए आवाहाब्भंतरे पवेसियत्तादो । एसो च अधाणियेयउक्कस्ससंचओ पुव्वमुवसमसेट्ठि चढमाणस्सोदरमाणस्स वा तम्मि भवे आवाहाब्भंतरमपविसिय आगदो संपहि चेव पविट्ठो । कथमेदं परिच्छिज्जे ? चढमाणोदरमाणअपुव्वकरण-अणियट्ठि-

शेष विधिमें कोई भेद नहीं है । इस प्रकार ऊपर चढ़कर और नीचे उतरकर अन्तर्मुहूर्तमें यह जीव मिथ्यात्वमें गया और मनुष्यायुको बाँधकर क्रमसे मरा और मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । फिर अन्तर्मुहूर्त अधिक आठ वर्षके बाद सम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्त करके अतिशीघ्र कषायोंका उपशम करनेके लिये उद्यत हुआ । यहाँपर भी सञ्चयविधिका कथन पहलेके समान करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि चढ़नेवाला जीव अपने अन्तिम स्थितिवन्धके प्राप्त होनेतक सञ्चय करता रहता है यहाँ इतना कथन करना चाहिए । उतरनेवाला जीव भी चढ़नेवाले जीवके जिस स्थानमें चार माह प्रमाण अन्तिम स्थितिवन्ध होता है उस स्थानको अन्तर्मुहूर्तमें प्राप्त करता है, इसलिये आठ माह प्रमाण स्थितिवन्धका आरम्भ करता है । उस समय पूर्वोक्त अन्तिम स्थितिवन्धके सञ्चयका आधा संचय विवक्षित स्थितिमें प्राप्त होता है । अब यहाँसे आगे पूर्वविधिसे सञ्चय करता हुआ नीचे उतरकर अन्तर्मुहूर्त वाद फिर भी उपशमश्रेणिपर चढ़ता है । यहाँ पर भी पहलेके समान सञ्चय करके उतरनेवाले जीवके अनिवृत्तिकरण कालके भीतर जब तद्योग्य संख्यात अङ्कोसे गुणित अपकषण-उत्कर्षण भागहारप्रमाण स्थितिवन्ध होता है तब उस स्थितिको बाँधनेवाला जीव अधिकृत गोपुच्छामें प्रथम निषेकका निक्षेप करके प्रवेशरचना करता है । फिर इसके ऊपर असंख्यातगुणो अन्य स्थितिवन्धको बाँधनेवाले जीवके अधिकृत स्थितिमें सञ्चय नहीं प्राप्त होता, क्योंकि तब विवक्षित स्थिति आधाकालके भीतर पाई जाती है । यह यथानिषेकका उत्कृष्ट संचय जो जीव पहले उपशमश्रेणिपर चढ़ा था और उतरा था उसके उसी भवमें आधाधाके भीतर नहीं प्रविष्ट होकर प्राप्त हुआ था किन्तु अब प्रविष्ट हुआ है ।

शंका—यह किस प्रमाण से जाना ?

समाधान—चढ़ते समयके और उतरते समयके अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म-

करण-सुहुमसांपराइय-उवसंतकसायकालसव्वसमासादो वेदगसम्मत्तं पडिवज्जिय पमत्ता-
पमत्तपरावत्तसहस्सवावारेणावद्विदकाळादो च मोहणीयस्स अणियट्टिजहणिया आवाहा
संखेज्जगुणा, तस्सेव मोहणीयस्स अपुव्वकरणम्मि उक्कस्सिया आवाहा संखेज्जगुणा,
अणियट्टिमि मोहणीयस्स जहण्णओ द्विदिवंधो संखेज्जगुणो त्ति उवसमसेदीए, अप्पा-
वहुअं भणिहिदि । एदेण णव्वदि जहा चदमाणअपुव्वावाहादो अंतोमुहुत्तव्वमहिधं
होऊण द्विदमहियारगोबुच्छं पुव्वं चदमाणोदरमाणणाणमावाहाव्वंतरमपविसियुणागमणं
लहइ त्ति । एदं च सव्वं मणेणावहारिय विदियाए उवसामणाए आवाहा जम्हि पुण्णा
सा द्विदी आदिद्वा त्ति सुत्तयारेण परुविदं ।

§ ६८१. एत्थ विदियाए त्ति उत्ते विदियभवगहणसंबंधिणो दो वि कसाउव-
सामणवारा घेप्पंति, तेसिं ज्ञाइदुवारेणेयत्तावलंवणादो सुत्तस्स अंतदीवयभावेण
पयट्टत्तादो वा । संपहि पुव्वं परुविदासंखेज्जवस्सद्विदिवंधियस्स पढमणिसेयं लद्धूणा-
वाहाव्वंतरे पविसिय अणियट्टिअद्धाए संखेजे भागे अपुव्वकरणं च वोत्तेयुण पुणो
कमेण पमत्तापमत्तङ्गाणे अहियारगोबुच्छाए उदयमागच्छमाणे कोहसंजळणस्स
उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं होइ । एदं च हियए करिय तम्हि उक्कस्सयमधा-
णिसेयद्विदिपत्तयमिदि वुत्तं । तम्मि द्विदिविसेसे उदयपत्ते पयदुक्कस्ससामित्तं होइ त्ति

साम्पराय और उपशान्तमोह इन सब कालोंका जितना जोड़ हो उससे तथा वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त
करके प्रमत्त और अप्रमत्तके हजारों परिवर्तनोंमें लगनेवाले अवस्थितकालसे मोहनीयकर्मकी
अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी जघन्य अवाधा संख्यातगुणी होती है । इससे उसी माहनीयकी अपूर्वकरणमें
उत्कृष्ट अवाधा संख्यातगुणी होती है । इससे अनिवृत्तिकरणमें मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध
संख्यातगुणा होता है । इसप्रकार आगे चलकर उपशमश्रेणिमें अल्पवहुत्व कहेंगे । इससे जाना जाता
है कि जो अधिकृत गोपुच्छा चढ़ते समय प्राप्त हुए अपूर्वकरणके अवाधाकालसे अन्तर्मुहूर्त अधिक
होकर स्थित है वह पूर्वमें जो उपशमश्रेणिपर चढ़ा और उतरा था उसके उस समय प्राप्त हुए
अवाधाकालके भीतर नहीं प्रविष्ट होकर प्राप्त होती है । इस सब व्यवस्थाको मनमें निश्चित
करके 'विदियाए उवसामणाए अवाहा जम्हि संपुण्णा सा द्विदी आदिद्वा' ऐसा सूत्रकारने
कहा है ।

§ ६८१. यहाँ सूत्रमें जो 'विदियाए उवसामणाए' ऐसा कहा है सो इससे दूसरे भवसम्बन्धी
कषायोके उपशमानेके दोनों ही बार ग्रहण करने चाहिये, क्योंकि जातिकी अपेक्षा ये दोनों एक हैं,
इसलिये एक वचनरूपसे इनका कथन किया है । या यह सूत्र अन्तदीपकभावसे प्रवृत्त हुआ है,
इसलिये सूत्रमें एकवचनका निर्देश किया है । अब पहले जो असंख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्ध
कहा है उसके प्रथम निषेकको प्राप्त कराके और अवाधाके भीतर प्रवेश कराके अनिवृत्तिकरणके
संख्यात भागोंको और अपूर्वकरणको धिताकर फिर क्रमसे जब अप्रमत्तसंयत और प्रमत्तसंयत
गुणस्थानमें अधिकृत गोपुच्छा उदयको प्राप्त होती है तब क्रोधसंञ्चलनका यथानिषेकस्थिति-
प्राप्त द्रव्य उत्कृष्ट होता है । इसप्रकार इस बातको हृदयमें करके सूत्रमें 'तम्हि उक्कस्सयमधा-
णिसेयद्विदिपत्तयं' यह वचन कहा है । उस स्थितिनिषेकके उदयको प्राप्त होनेपर प्रकृत उत्कृष्ट

भावत्यो ।

§ ६८२. संपहि एत्थ लद्धपमाणाणुगमे भण्णमाणे पढमवारं चढमाणेण लद्धं सव्वसंचयं ठविय पुणो चउहि ख्वेहि तम्हि गुणिदे एयसमयपवद्धस्स संखेज्जदि-भागो आगच्छइ, संखेज्जवस्सियट्ठिदिवंधसंचयस्सेव पाहणियादो । एवं कोहसंजलणस्स पयदुक्कस्ससाभित्तं परूविय संपहि एसो चेव णिसेयट्ठिदिपत्तयस्स वि सामिओ होइ ति जाणावणइमुत्तरसुत्तमोइण्णं—

❀ णिसेयट्ठिदिपत्तयं च तम्हि चेव ।

§ ६८३. तम्हि चेव ट्ठिदिविसेसे पुव्वणिरुद्धे णिसेयट्ठिदिपत्तयं पि उक्कस्सं होइ, दोण्हमेदेसिं ट्ठिदिपत्तयाणं सामित्तं पडि विसेसादंसणादो । णवरि दव्वविसेसो जाणेयव्वो, तत्तो एदस्स ओकड्डुककुणाहि गंतूण पुणो वि तत्थेव पदिददव्वमेत्तेणाहिय-भावोवत्तंभादो ।

❀ उक्कस्सयमुदयट्ठिदिपत्तयं कस्स ?

§ ६८४. सुगमं ।

स्वामित्व होता है यह इसका भावार्थ है ।

§ ६८२. अब यहाँ लब्धप्रमाणका विचार करते हैं—पहली वार उपशमश्रेणिपर चढ़ने और उतरनेसे जो संचय प्राप्त हो उस सबको स्थापित करे । फिर उसे चारसे गुणा करनेपर एक समयप्रबद्धका संख्यातवां भाग प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर संख्यात वर्षप्रमाण स्थितिवन्धका प्राप्त हुआ संचय ही प्रधान है । इसप्रकार क्रोधसंज्वलनके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करके अब यही निषेकस्थितिप्राप्तका भी स्वामी होता है यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र आया है—

* उत्कृष्ट निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका भी वही स्वामी है ।

§ ६८३. जो स्थिति यथानिषेकके उत्कृष्ट स्वामित्वके समय विवक्षित थी उसी स्थिति-विशेषमें निषेकस्थितिप्राप्त भी उत्कृष्ट होता है, क्योंकि इन दोनों ही स्थितिप्राप्तोंमें स्वामित्वकी अपेक्षा कोई भेद नहीं देखा जाता । किन्तु द्रव्यविशेषको जान लेना चाहिये, क्योंकि यथानिषेक-स्थितिमेंसे अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा जो द्रव्य व्ययको प्राप्त हो जाता है वह इसमें पुनः जहाँका तहाँ आ जाता है इसलिये यथानिषेककी अपेक्षा इसमें इतना द्रव्य अधिक पाया जाता है ।

विशेषार्थ—पिछले सूत्रमें यथानिषेकस्थितिप्राप्तका उत्कृष्ट स्वामी बतला आये हैं । उसीप्रकार निषेकस्थितिप्राप्तका भी उत्कृष्ट स्वामी जान लेना चाहिये, इसकी अपेक्षा इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है यह इस सूत्रका भाव है । किन्तु इतनी विशेषता है कि यथानिषेकस्थिति-प्राप्तका जितना उत्कृष्ट द्रव्य होता है उससे निषेकस्थितिप्राप्तका उत्कृष्ट द्रव्य अधिक होता है, क्योंकि यथानिषेकमें अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा जिस द्रव्यकी हानि हो जाती है इसमें वह द्रव्य पुनः जहाँका तहाँ आ जाता है ।

* उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ?

§ ६८४. यह सूत्र सुगम है ।

❊ चरिमसमयकोहवेदयस्स ।

§ ६८५. एत्थ गुणिदक्कम्मंसियविसेसणं फलाभावादो ण कदं । कुदो फलाभावो चे ? कोहसंजलणपोराणपढमद्विदिं सव्वं गाल्लिय पुणो किद्विवेदगेण ओकड्डियूणंतरव्भंतरे गुणसेदिआयारेण णिसित्तपढमद्विदीए समयाहियावल्लियचरिम-
णिसेयं वेत्तूण पयदसामित्तविहाणे गुणिदक्कम्मंसियत्तकयफलविसेसाणुवलंभादो ।
खवगचिसेसणमेत्थाणुत्तसिद्धमिदि ण कदं । एवं कोहसंजलणस्स सव्वेसिं द्विदिपत्तयाण-
मुक्कस्ससामित्तं पखुविय सेससंजलणाणं पि सव्वपदाणमेदेण समप्पणद्वमिद्माह—

❊ एवं माण-माया-लोहाणं ।

§ ६८६. जहा कोहसंजलणस्स चउण्हं द्विदिपत्तयाणं सामित्तविहाणं कय एवं माण-माया-लोहसंजलणाणं पि कायव्वं, विसेसाभावादो । णवरि जहाणिसेय-णिसेय-
द्विदिपत्तयाणमुक्कस्सदव्वसंचओ कोहसंजलणस्स वंधे वोच्छिण्णे वि लव्वभइ जाव
सगवंधवोच्छेदसमओ 'त्ति । अण्णं च लोभसंजलणस्स उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयं
गुणिदक्कम्मंसियस्सेव होइ, एत्तिओ चेव विसेसो ।

❊ जो जीव अपने अन्तिम समयमें क्रोधका वेदन कर रहा है वह उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६८५. इस सूत्रमें विशेष फल न देखकर गुणितकमांश यह विशेषण नहीं दिया है ।
शंका—इस विशेषणका विशेष फल क्यों नहीं है ?

समाधान—यह जीव क्षणिक समय क्रोधसंज्वलनकी पुपानी प्रथम स्थितिको पूरीकी पूरी गला देता है फिर कृष्टिका वेदन करते समय अन्तरकालके भीतर अपकर्षण द्वारा गुणश्रेणिरूपसे प्रथम स्थितिकी रचना करता है । तब एक समय अधिक एक आवलिके अन्तिम निषेककी अपेक्षा प्रकृत स्वामित्वका विधान किया जाता है, अतः इसमें गुणितकमांशकृत कोई विशेष फल नहीं पाया जाता है ।

सूत्रमें क्षणिक विशेषणका विना कहे ही ग्रहण हो जाता है, इसलिये उसे सूत्रमें नहीं दिया है । इसप्रकार क्रोधसंज्वलनके सभी स्थितिप्राप्तोके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करके शेष संज्वलनों के सभी पदोका उत्कृष्ट स्वामित्व भी इसीके समान है यह वतलानके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❊ इसी प्रकार मान, माया और लोभसंज्वलनके सब पदोंका उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए ।

§ ६८६. जिसप्रकार क्रोधसंज्वलनके चारों स्थितिप्राप्तोके स्वामित्वका कथन किया है उसी प्रकार मान, माया और लोभ संज्वलनोंका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि इनके कथनमें कोई विशंगता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि उक्त प्रकृतियोंकी अपेक्षा यथानिषेकस्थितिप्राप्त और निषेकस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट द्रव्यका संघय क्रोधसंज्वलनकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाननेर भी अपनी अपनी बन्धव्युच्छित्तिके समय तक होता रहता है । तथा दूसरी विशेषता यह है कि लोभ संज्वलनका उदयस्थितिप्राप्त उत्कृष्ट द्रव्य गुणितकमांशके ही होता है । वस इतनी ही विशेषता है ।

❀ पुरिसवेदस्स चत्तारि वि द्विदिपत्तयाणि कोहसंजलणभंगो ।

§ ६८७. पुरिसवेदस्स जहावसरपत्ताणि चत्तारि वि द्विदिपत्तयाणि कस्से ति आसंक्रिय कोहसंजलणभंगो ति अप्पणा कया, विसेसाभोवादो । संपहि उदयद्विदिपत्तयसामित्तगयविसेसपदुप्पायणद्व्युत्तरसुत्तारंभो—

❀ एवदि उदयद्विदिपत्तयं चरिमसमयपुरिसवेदखवयस्स गुणिदकम्मंसियस्स ।

§ ६८८. तत्थ चरिमसमयकोहवेदयस्स खवयस्स पयदुक्कस्ससामित्तं, एत्थ पुण चरिमसमयपुरिसवेदयस्स खवयस्से ति वत्तव्वं । अप्पणं च गुणिदकम्मंसियत्तं पि एत्थ विसेसो, तत्थ गुणिदकम्मंसियत्तस्साणुवजोगित्तादो । एत्थ पुण गुणिदकम्मंसियत्तमुवजोगी चेव, अप्पणहा पयडिगोसुच्छाए थूलभावाणुप्पत्तीदो ।

❀ इत्थिवेदस्स उक्कस्सयमग्गद्विदिपत्तयं मिच्छुत्तभंगो ।

§ ६८९. सुगममेदमप्पणासुत्तं ।

❀ उक्कस्सयअधाणिसेयद्विदिपत्तयं णिसेयद्विदिपत्तयं च कस्स ?

§ ६९०. सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

* पुरुषवेदके चारों ही स्थितिप्राप्त द्रव्योंका भंग क्रोधसंज्वलनके समान है ।

§ ६८७. अब पुरुषवेदके चारो ही स्थितिप्राप्तोंके स्वामित्वका कथन अवसर प्राप्त है, इसलिये उनका स्वामी कौन है ऐसी आशंका करके पुरुषवेदके चारो ही स्थितिप्राप्तोंका भङ्ग क्रोधसंज्वलनके समान है यह कहा है. क्योंकि क्रोधसंज्वलनके कथनसे इस कथनमें कोई विशेषता नहीं है। अब उदयस्थितिप्राप्त स्वामित्वसम्बन्धी विशेषताका कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

* किन्तु इतनी विशेषता है कि जो गुणितकर्मांशवाला जीव पुरुषवेदका क्षय कर रहा है वह अपने अन्तिम समयमें उसके उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामी है ।

§ ६८८. क्रोधसंज्वलनका कथन करते समय क्षय क्रोधवेदके अन्तिम समयमें प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है किन्तु यहाँ पर क्षय पुरुषवेदके अन्तिम समयमें यह उत्कृष्ट स्वामित्व होता है यह कहना चाहिये। दूसरे गुणितकर्मांशवाले जीवके इसका उत्कृष्ट स्वामित्व होता है यहाँ इतनी विशेषता और है। क्रोधसंज्वलनके उदयप्राप्तको गुणितकर्मांश होनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ उसका उपयोग नहीं है किन्तु यहाँपर गुणितकर्मांशपना उपयोगी ही है, अन्यथा प्रकृत गोपुच्छा स्थूल नहीं हो सकती ।

* स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है ।

§ ६८९. यह अर्पणासूत्र सुगम है ।

* उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त और निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी कौन है ।

§ ६९०. यह पुच्छासूत्र सुगम है ।

❀ इत्थिवेदसंजदेण इत्थिवेद-पुरिसवेदपूरिदकम्मंसिएण अंतो-
मुहुत्तस्संतो दो वारे कसाए उवसामिदा । जाथे विदियाए उवसामणाए
जहणणयस्स द्विदिवंधस्स पढमणिसेयट्ठिदी उदयं पत्ता ताथे अधाणिसेयादो
णिसेयादो च उक्कस्सयं द्विदिपत्तयं ।

§ ६६१. एत्थ इत्थिवेदसंजदेणे त्ति वयणं सोदएण सामित्तविहाणहं, परोदएण
पयदुक्कस्ससामित्तविहाणोवायाभावादो । तेणेत्यिवेदसंजदेणेत्यिवेद-पुरिसवेदपूरिद-
कम्मंसिएण अंतोमुहुत्तस्संतो दो वारे कसाया उवसामिदा । एकवारं कसाए उवसामिय
पडिवदिय पुणो वि सव्वलहुं कसाया उवसामिदा त्ति उत्तं होइ । ण च पुरिसवेद-
पूरिदकम्मंसियत्तमेत्थाणुवजेगी, त्थियक्कसंक्रमेणोवजोगित्तदंसणादो । ण णहुंसयवेद-
पूरियकम्मंसिएण अइप्पसंगो, असंखेज्जवस्साउएसु अधाणिसेयसंचयकालम्भंते तस्स
पूरणोवायाभावादो । सेसं जहा कोहसंजलणस्स भणिदं तथा वत्तव्वं । णवरि असंखेज्ज-
वस्साउअतिरिक्खेसु मणुस्सेसु वा संखेज्जंतोमुहुत्तम्भहियसोलसवस्सेहिं सादिरिय-
दसवस्ससहस्सपरिहीणमधाणिसेयसंचयकालमणुपालिय तत्थित्थिय-पुरिसवेदे पूरेयूण
तदो दसवस्ससहस्सिएसुववज्जिय कमेण मणुस्सेसु आगदो त्ति वत्तव्वं । जहा कोह-
संजलणस्स उवसामयसंचयाणुगमो लद्धपमाणाणुगमो च कओ तथा एत्थ वि णिरवसेसो

* स्त्रीवेद और पुरुषवेदके कर्मांशको पूरण करनेवाला जो स्त्रीवेदके उदयवाला
संयत जीव अन्तर्मुहूर्तके भीतर दो वार कषायोंका उपशम करता है और ऐसा करते
हुए जब उसके दूसरी उपशामनाके समय जघन्य स्थितिवन्धकी प्रथम निषेकस्थिति
उदयको प्राप्त होती है तब वह उत्कृष्ट यथानिषेक और निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका
स्वामी है ।

§ ६६१. सूत्रमे 'इत्थिवेदसंजदेण' यह वचन स्वोदयसे स्वामित्वका कथन करनेके लिये
दिया है, क्योंकि परोदयसे प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं है । ऐसा जो स्त्रीवेदके
उदयवाला संयत जीव है वह स्त्रीवेद और पुरुषवेदके कर्मांशका पूरण करके अन्तर्मुहूर्तकालके भीतर दो
वार कषायोंको उपशामता है । एक वार कषायोंका उपशाम करके और उपशामश्रेणीसे च्युत होकर
फिर भी अतिशोत्र कषायोंका उपशाम करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । यदि कहा जाय कि
पुरुषवेदके कर्मांशका पूरण करना प्रकृतमे अनुपयोगी है सो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि स्तिवुकु-
संक्रमणके द्वारा उसकी उपयोगिता देखी जाती है । और ऐसा कथन करनेसे जिसने नपुंसकवेदके
कर्मांशका पूरण किया है उसके साथ अतिप्रसङ्ग भी नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि असंख्यात वर्षकी
आयुवालोमे यथानिषेक संचयकालके भीतर उसका पूरण करना नहीं बन सकता है । शेष कथन
क्रोधसंखलनके समान करना चाहिये । किन्तु प्रकृतमें इतना विशेष कहना चाहिये कि असंख्यात
वर्षकी आयुवाले तिर्यच और मनुष्योंमें संख्यात अन्तर्मुहूर्त और सोलह वर्ष अधिक दस हजार
वर्षसे न्यून यथानिषेक संचयकालका पालन करके तथा वहाँ स्त्रीवेद और पुरुषवेदका पूरण करके
फिर वहाँसे निकलकर दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोमे उत्पन्न होकर क्रमसे मनुष्य हुआ ।
क्रोधसंखलनका जिस प्रकार उपशामकसम्यन्धी सञ्चयका और लब्धप्रमाणका विचार किया है

कायन्वो ।

❀ उदयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयं कस्स ?

§ ६६२. इत्थिवेदस्से त्ति अहियारसंब'धो । सेसं सुगमं ।

❀ गुणिदकम्मसियस्स खवयस्स चरिमसमयइत्थिवेदयस्स तस्स

उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयं ।

उसी प्रकार वह सबका सब विचार यहाँ भी करना चाहिये ।

विशेषार्थ—यहाँ पर स्त्रीवेदके यथानिषेक स्थितिप्राप्त और निषेकस्थितिप्राप्त उत्कृष्ट द्रव्यके स्वामीका विचार करते हुए जो यह बतलाया है कि पहले स्त्रीवेद और पुरुषवेदका पूरा पूरा करके स्त्रीवेदके उदयके साथ संयत होकर दो बार उपशामोका उपशाम करते हुए जब दूसरी बार उपशामनाके समय जघन्य स्थितिवन्धकी प्रथम निषेकस्थिति उदयमें आती है तब प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है सो इसका आशय यह है कि सर्वप्रथम यह जीव असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यंच या मनुष्योंमें उत्पन्न होवे । फिर वहाँ यथानिषेकका जितना संचयकाल है उससे संख्यात अन्तर्मुहूर्त और सोलह वर्ष अधिक एक हजार वर्षसे न्यून कालके शेष रहनेपर स्त्रीवेद और पुरुषवेदका संचय प्रारम्भ करे । और इस प्रकार वहाँकी आयु समाप्त करके दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होवे । फिर वहाँसे च्युत होकर मनुष्य होवे । फिर गर्भसे लेकर आठ वर्ष व्यतीत होनेपर अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वके साथ संयमको प्राप्त करे । फिर द्वितीयोपशाम-सम्यक्त्वको प्राप्त करके अतिशीघ्र उपशामश्रेणिएपर आरोहण करे और वहाँसे च्युत होकर दूसरी बार पुनः उपशामश्रेणिएपर आरोहण करे । फिर क्रमसे च्युत होकर और मिथ्यात्वमें जाकर पुनः मनुष्यायुका बन्ध करके दूसरी बार भी मनुष्य होवे और वहाँ भी पूर्वोक्त प्रकारसे क्रिया करे । इस प्रकार दूसरी बार उपशामना करनेवाले इस जीवके जब जघन्य स्थितिवन्धकी प्रथम निषेकस्थिति उदयमें आती है तब प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है । यहाँ स्त्रीवेदके संचयके साथ जो पुरुषवेदके सञ्चयका विधान किया है सो इसका फल यह है कि स्तित्वुक संक्रमणके द्वारा पुरुषवेदका द्रव्य स्त्रीवेदमें मिल जानेसे स्त्रीवेदकी यथानिषेकस्थिति या निषेकस्थितिका उदयगत उत्कृष्ट संचय बन जाता है । यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार तो नपुंसकवेदका द्रव्य भी मिलता है पर प्रकृतमें उसका विधान क्यों नहीं किया सो इसका यह समाधान है कि स्त्रीवेदकी यथानिषेकस्थिति या निषेकस्थितिका उत्कृष्ट सञ्चयकाल असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें व्यतीत होता है और वहाँ नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता, अतः ऐसे जीवके नपुंसकवेदका अधिक सञ्चय नहीं पाया जाता । यही कारण है कि प्रकृतमें इसका उल्लेख नहीं किया है । जैसे स्त्रीवेदका उदय रहते हुए इसका द्रव्य भी स्तित्वुक संक्रमणके द्वारा स्त्रीवेदमें प्राप्त होता रहता है । पर उसकी परिगणना यथानिषेकस्थितिमें या निषेकस्थितिमें नहीं की जा सकती । शेष व्याख्यान संवत्तन क्रोधके समान यहाँ भी जानना चाहिये ।

❀ उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामी कौन है ।

§ ६६२. इस सूत्रमें अधिकारके अनुसार 'इत्थिवेदस्स' पदका सम्बन्ध कर लेना चाहिये । शेष कथन सुगम है ।

❀ जो गुणितकर्मांश स्त्रीवेदी ज्ञापक जीव अपने उदयके अन्तिम समयमें विद्यमान है वह स्त्रीवेदके उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी है ।

§ ६६३. एत्थ गुणिदकम्मंसियणिदेसो तप्पडिवक्खकम्मंसियपडिसेहसुहेण पयडिगोबुच्छाए धूलभावसंपायणफलो । खवयणिदेसो अक्खवयवुदासपओजणो; अण्णत्थ गुणसेढीए बहुत्ताभावादो । चरिमसमयइत्थिवेदयणिदेसो तदण्णपरिहारदुवारेण गुणसेदिसीसयग्गहण्हो । एवंविहरस्स पयदुक्खस्ससामित्तं होइ ।

❀ एवं णवुंसयवेदस्स ।

§ ६६४. जहा इथिवेदस्स चउण्हमुक्खस्सद्विदिपत्तयाणं सामित्तपरूवणा कया एवं णवुंसयवेदस्स वि कायव्वा, विसेसाभावादो ।

❀ णवरि णवुंसयवेदोदयस्से त्ति भाणिदव्वाणि ।

§ ६६५. एत्थ 'णवरि' सद्दो विसेसद्विसूचओ । को विसेसो ? णवुंसयवेदस्से त्ति आलावो, अण्णहा पयदुक्खस्ससामित्तविहाणाणुववत्तीदो ।

एवमुक्खस्सद्विदिपत्तयसामित्तं समत्तं ।

❀ जहयणाणि द्विदिपत्तयाणि कायव्वाणि ।

§ ६६६. सुगममेदं पइज्जासुत्तं ।

§ ६६३. यहाँ सूत्रमें जो 'गुणिदकम्मंसिय' पदका निर्देश किया है सो यह इसके विपक्षी क्षपितकर्मांशके निषेधद्वारा प्रकृत गोपुच्छाकी स्थूलताको प्राप्त करनेके लिए किया है । 'खवय' इस पदका निर्देश अक्षपकका निराकरण करनेके लिए किया है, क्योंकि गुणश्रेणीके सिवा अन्यत्र बहुत द्रव्य नहीं पाया जाता है । तथा सूत्रमें जो 'चरिमसमयइत्थिवेदय' इस पदका निर्देश किया है सो वह लीवेदसे भिन्न वेदके निषेधद्वारा गुणश्रेणियोंके ग्रहण करनेके लिये किया है । इस तरह पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त जो जीव है उसके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है ।

* इसी प्रकार नपुंसकवेदका उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिये ।

§ ६६४. जिस प्रकार लीवेदके चारों ही स्थितिप्राप्तोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन किया है उसी प्रकार नपुंसकवेदका भी कथन करना चाहिये, क्योंकि उससे इसके कथनमे कोई विशेषता नहीं है ।

* किन्तु यह उत्कृष्ट स्वामित्व नपुंसकवेदके उदयवाले जीवके कहना चाहिये ।

§ ६६५. इस सूत्रमें जो 'णवरि' पद है वह भी विशेष अर्थका सूचक है ।

शंका—वह विशेषता क्या है ?

समाधान—यह उत्कृष्ट स्वामित्व नपुंसकवेदवालेके ही होता है यह विशेषता है जिसका कथन यहाँ करना चाहिये, अन्यथा प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान नहीं बन सकता है ।

इसप्रकार उत्कृष्ट स्थितिप्राप्त द्रव्योंका स्वामित्वका कथन समाप्त हुआ ।

* अब जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्योंका कथन करते हैं ।

§ ६६६. यह प्रतिज्ञासूत्र सुगम है ।

❀ सव्वकम्माणं पि अग्गट्ठिदियपत्तयं जहण्णयमेओ पदेसो । तं पुण अण्णदरस्स होज्ज ।

§ ६६७. कथमणंतपरमाणुसमण्णिणदस्स अग्गट्ठिदिणिसेयस्स जहण्णेणेओ पदेसोव-
लंभइ ? ण, ओकडुक्कडुणावसेण सुद्धं णिन्त्तेविज्जमाणस्स एयपरमाणुमेत्तावट्ठाणे
विरोहाभावादो । तं पुण अण्णदरस्स होज्ज, विरोहाभावादो ।

§ ६६८. एवं सव्वेसिं कम्माणमग्गट्ठिदिपत्तयजहण्णसामित्तमेक्कारेण परुविय
संपहि सेसट्ठिदिपत्तयाणं जहण्णसामित्तविहाणट्ठमुवरिमं पवंधामाढवेइ ।

❀ मिच्छत्तस्स णिसेयट्ठिदिपत्तयमुदयट्ठिदिपत्तयं च जहण्णयं कस्स ?

* सभी कर्मोंके अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य प्रमाण एक परमाणु है और उसका स्वामी कोई भी जीव है ।

§ ६६७. शंका—जब कि अग्रस्थितिप्राप्त निषेक अनन्त परमाणुओंसे बनता है तब फिर उसमें जघन्यरूपसे एक परमाणु कैसे पाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षणके कारण उन सबका अभाव होकर एक परमाणु मात्रका सद्भाव माननेमें कोई विरोध नहीं आता है । और इसका स्वामी कोई भी जीव हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं है ।

विशेषार्थ—यहाँ सभी कर्मोंके अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामीका कथन युगपत् किया है सो इसका कारण यह है कि अपकर्षण और उत्कर्षणके कारण अग्रस्थितिमें एक परमाणु रहकर जब वह उदयमें आता है तब यह जघन्य स्वामित्व होता है और यह स्थिति सभी कर्मोंमें घटित हो सकती है, अतः सब कर्मोंके स्वामित्वको युगपत् कहनेमें कोई बाधा नहीं आती । यहाँ यह शंका की जा सकती है कि अग्रस्थितिके कर्मपरमाणुओंका अपकर्षण होता है यह तो ठीक है पर उनका उत्कर्षण कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसा नियम है कि बन्धके समय जिनकी जितनी शक्तिस्थिति पाई जाती है उनका उतना ही उत्कर्षण हो सकता है । किन्तु अग्रस्थितिके कर्म परमाणुओंमें जब एक समय मात्र भी शक्तिस्थिति नहीं पाई जाती है तब फिर उनका उत्कर्षण होना सम्भव नहीं है । सो इस शंकाका यह समाधान है कि अग्रस्थितिके कर्म परमाणुओंका अपकर्षण होकर पहले उनका नीचेकी स्थितिमें निक्षेप हो जाता है और फिर उत्कर्षण हो जाता है, इस विवक्षासे अग्रस्थितिके कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण बन जाता है । इसी कारणसे यहाँ अग्रस्थितिके परमाणुओंके अपकर्षण और उत्कर्षणका विधान किया है । अथवा बन्धके समय जिन कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध नहीं हुआ उनकी अग्रस्थितिका शक्तिस्थितिप्रमाण उत्कर्षण हो सकता है, इस अपेक्षासे भी यहाँपर उत्कर्षण घटित किया जा सकता है और इसीलिए यहाँपर उत्कर्षणका विधान किया है ।

§ ६६८. इस प्रकार सभी कर्मोंके अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वको एक साथ कहकर अब शेष स्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वका कथन करनेके लिए आगेकी रचनाका आरम्भ करते हैं—

* मिथ्यात्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ?

§ ६६६. सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

ॐ उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयमिच्छाइद्विस्स तप्पाओग्गुक्कस्स-संकिलिदस्स तरस्स जहण्णयं णिसेयद्विदिपत्तयमुदयद्विदिपत्तयं च ।

§ ७००. उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयमिच्छाइद्विस्स जहण्णयं णिसेयद्विदिपत्तयं होइ त्ति एत्थ सुत्तथाहिसंबंधो । सो च उवसमसम्माइद्वी वसु आवलियासु उवसमसम्मत्तद्वाए सेसासु आसाणं गंतूण मिच्छत्तं पडिवण्णो त्ति वेत्तवं, अण्णहा उक्कस्ससंकिसेसाभावेणोदीरणाए जहण्णत्ताणुववतीदो । सुत्ते असंतमेदं कथमुवलब्भदे ? ण, तप्पाओग्गुक्कस्ससंकिलिदस्से त्ति विसेसणेण तदुत्तलद्धीदो । कथमेदस्स उवसमसम्माइद्विपच्छायदपढमसमयमिच्छाइद्विणा उवरिमद्विदीहिंतो ओकड्डियउदीरिददव्वस्स णिसेयद्विदिपत्तयत्तं, कथं च ण भवे वंधसमयणिसेयमस्सियूण, तस्स पुवं ससुक्कित्तिपत्तादो । ओकड्डणाणिसेयं पि पेक्खियूण ण तस्स वि णिसेयद्विदिपत्तयत्तं वीत्तुं जुत्तं, तहाव्वुवगमे गुणसेदिसीसओदएण णिसेयद्विदिपत्तयस्स उक्कस्ससामित्त-विद्वाणाइप्पसंगादो । तदो णेदं सामित्तविहाणं घडइ त्ति ? एत्थ परिहारो वुचदे—को

§ ६६६. यह पृच्छासुत्र सुगम है ।

* जो उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संवत्शसे युक्त प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव है वह निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है ।

§ ७००. उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव है वह निषेकस्थितिप्राप्तका जघन्य स्वामी होता है इस प्रकार यहाँ पर सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध करना चाहिये । किन्तु वह उपशमसम्यग्दृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलिप्रमाण कालके शेष रहनेपर सासादनमें जाकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये, अन्यथा परिणामोंमें उत्कृष्ट संवत्शसे नहीं प्राप्त होनेसे जघन्य उदीरणा नहीं बन सकती है ।

शंका—इसका निर्देश सूत्रमें तो किया नहीं है अतः यह अर्थ यहाँ कैसे लिया जा सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सूत्रमें जो 'तप्पाओग्गुक्कस्ससंकिलिदस्स' यह विशेषण दिया है सो इससे उक्त अर्थका ग्रहण हो जाता है ।

शंका—जो जीव उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि है वह जिस द्रव्यका ऊपरकी स्थितिसे अपकर्षण करके उदीरणा करता है वह द्रव्य निषेकस्थितिप्राप्त कैसे हो सकता है और वन्धके समय निषेकमें जो द्रव्य प्राप्त होता है वह निषेकस्थितिप्राप्त कैसे नहीं होता, क्योंकि पहले निषेकस्थितिप्राप्तका इसी रूपसे कथन किया है । यदि कहा जाय कि अपकर्षणसम्बन्धी निषेककी अपेक्षासे उसे निषेकस्थितिप्राप्त कहा जायगा सो ऐसा कथन करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर गुणश्रेणियोंके उदयसे निषेकस्थितिप्राप्तके उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान करनेपर अतिप्रसंग दोष आता है, इसलिये यह जो उक्त प्रकारसे स्वामित्वका कथन किया है वह नहीं बनता है ?

एवं भणइ ? उदीरणादव्वं सव्वमेव पयदजहण्णसामित्तविसईकयमिदि । किंतु तिस्से चेव द्विदीए पुव्वमंतरइसुकीरमाणीए पदेसग्गमोकड्डियूणुवरिमद्विदीसु समयाविरोहेण पक्खित्तमत्थित्तमेणिणभोकड्डिय असंखेज्जळोगपडिभागोणोदयम्मि पुणो वि तत्थेव णिसिंचमाणं पयदजहण्णसामित्तविसईकयमिदि भणामो । तदो णाणंतरुत्तदोसो त्ति ।

§ ७०१. संपहि एत्थ पयदसामित्तपडिग्गहिय दव्वपमाणाणुमं वत्तइस्सामो । तं जहा—मिच्छत्तस्स अंतरव्वंतरद्विदअहियारद्विदीए अंतरकरणपारंभसमए णाणा-समयपवद्धयडिबद्धणिसेए अस्सियूण तप्पाओग्गमेयसमयपवद्धमेत्तं पदेसग्गमत्थि तं पुण सव्वं णिसेयद्विदिपत्तयं ण होइ, किंतु हेद्विभोवरिमद्विदीणसुकड्डुणोकड्डुणेहि तत्थ संगळिददव्वेण सह समयपवद्धपमाणं होइ । पुणो केत्तियमेत्तमंतरकरणपारंभे अहियार-द्विदीए णिसेयद्विदिपत्तयमिदि पुच्छिदे तदसंखेज्जदिभागपमाणमिदि भणामो ।

समाधान—अब इस शंकाका परिहार करते हैं—प्रकृतमें ऐसा कौन कहता है कि जितना भी उदीरणाका द्रव्य है वह सभी प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विषय है । किन्तु यहाँ हम ऐसा कहते हैं कि पहले अन्तर करनेके लिये उत्कीरणा करते समय उसी स्थितिके द्रव्यका उत्कर्षण करके ऊपरकी स्थितियोंमें यथाविधि निक्षेप किया गया था अब इस समय असंख्यात लोकका भाग देकर जितना लब्ध हो उतने द्रव्यका अपकर्षण करके उदयगत उसी स्थितिमें फिसे निक्षेप करनेपर वह प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विषय होता है, इसलिये जो दोष पहले दे आये हैं वह यहाँ नहीं प्राप्त होता है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर मिथ्यात्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी बतलाया है । जो उपशमसम्यग्दृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वके कालमें छह आवलि कालके शेष रहनेपर सासादनमें जाता है और तदनन्तर मिथ्यात्वमें जाता है उसके प्रथम समयमें अपकर्षित होकर जो मिथ्यात्वका द्रव्य उदयमें आता है वह सबसे कम होता है, इसलिये उदय-स्थितिप्राप्तका जघन्य स्वामी यहाँ पर बतलाया है । इसी प्रकार निषेकस्थितिप्राप्तका जघन्य स्वामी भी जान लेना चाहिये । किन्तु यहाँ इतनी विशेषता है कि उस समय जितना भी द्रव्य उदयमें प्राप्त हुआ है वह सबका सब निषेकस्थितिप्राप्त नहीं कहलाता । किन्तु उसी स्थितिसम्बन्धी जितना भी द्रव्य अपकर्षित हो करके वहाँ पाया जाता है वह निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य कहलाता है । यतः यह भी जघन्य द्रव्य होता है, इसलिये निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व यहाँ पर दिया है । शेष कथन सुगम है ।

§ ७०१. अब यहाँ पर प्रकृत स्वामित्वकी अपेक्षा द्रव्यप्रमाणाका विचार करते हैं । जो इस प्रकार है—अन्तरकरणके प्रारम्भ समयमें अन्तरके भीतर जो विवक्षित स्थिति स्थित है उसमें मिथ्यात्वका नाना समयप्रबद्धोंसे सम्यन्ध रखनेवाले निषेकोंकी अपेक्षा तत्प्रायोग्य एक समयप्रबद्ध-प्रमाण द्रव्य पाया जाता है परन्तु वह सबका सब निषेकस्थितिप्राप्त नहीं होता है । किन्तु नीचेकी स्थितियोंका उत्कर्षण होकर और ऊपरकी स्थितियोंका अपकर्षण होकर वहाँ जो द्रव्यका संकलन होता है उसके साथ वह एक समयप्रबद्धप्रमाण होता है ।

शंका—तो फिर अन्तरकरणके प्रारम्भमें विवक्षित स्थितिमें निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य कितना होता है ?

तस्सोवट्टणे ठविज्जमारो तप्पाओग्गमेयसमपवद्धं ठविय पुणो जहाणिसेयकालभंतर-
संचयमिच्छामो त्ति तस्सोकड्डुकड्डुणभागहारोवट्टिददिवट्टुणहाणिभागहारं ठविदे
जहाणिसेयसंचओ आगच्छइ । ओकड्डुणादीहि गंतूण पुणो वि एत्थेव पदिदद्वमेदस्स
असंखेज्जदिभागमेत्तमिच्छिय तम्मि भागहारे किंचूणीकदे पयदणिसेयद्ववमागच्छइ ।
असंखेज्जभागूणं चेवमंतरं करेमाणेणुक्कड्डिय अणुकीरमाणीसु द्विदीसु ठविदद्वं होइ ।
पुणो एदस्सोकड्डुकड्डुणभागहारे ठविदे पढमसमयमिच्छादिट्ठिणोकड्डिदद्वं पयद-
णिसेयपडिवद्धमागच्छइ ।

§ ७०२. संपहि तप्पाओग्गुक्कस्ससंकिलेसेणोदीरिदद्वमिच्छामो त्ति असंखेज्ज-
लोगभागहारमावळियाए गुणिदं ठवेज्जणोकड्डिदे पयदजहण्णसामित्तपडिग्गहियं द्व-
मागच्छइ । एत्थ मिच्छाइट्ठिविदियादिसमएसु जहण्णसामित्तं दाहामो त्ति णासंकणिज्जं,
विदियादिसमएसु उदीरिज्जमाणवहुअद्ववपवेसेण जहण्णत्तणुववत्तीदो । पढम-
समयम्मि ओकड्डियूण णिसत्तद्वं विदियादिसमएसु उदयमागच्छमाणमत्थि चेव ।
तस्सुवरि पुणो वि पुवं तस्से द्विदीए उक्कड्डिदपदेसगमुदयावळियभंतरे ओकड्डियूण

समाधान—विवक्षित स्थितिमें जितना द्रव्य है उसका असंख्यातवों भागप्रमाण द्रव्य
निषेकस्थितिप्राप्त होता है ऐसा हम कहते हैं ।

अब इसको प्राप्त करनेके लिये भागहार क्या है यह बतलाते हैं—एक समय-
प्रवद्धको स्थापित करे फिर यथानिषेक कालके भीतर सञ्चय लाना इष्ट है इसलिये उसका
अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे भाजित डेढ़ गुणहानिप्रमाण भागहार स्थापित करे, इससे यथा-
निषेकका सञ्चय आ जाता है । अपकर्षणादिकके द्वारा ज्यको प्राप्त हुआ द्रव्य फिरसे इसीमें
अर्थात् यथानिषेकके द्रव्यमें सम्मिलित हो जाता है जो कि इसके असंख्यातवों भागप्रमाण है, अतः
उसे अलग करनेकी इच्छासे प्रकृत भागहारको कुछ कम कर देनेपर प्रकृत निषेकका द्रव्य आ जाता
है । तात्पर्य यह है कि अन्तरको करते समय उत्कर्षण द्वारा अनुत्कीर्णमाण स्थितियोंमें जो द्रव्य
प्राप्त होता है वह पूर्वोक्त द्रव्यसे असंख्यातवों भागप्रमाण कम होता है । फिर इसका अपकर्षण-
उत्कर्षणप्रमाण भागहार स्थापित करनेपर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके द्वारा प्रकृत निषेकसम्बन्धी
अपकर्षित द्रव्यका प्रमाण होता है ।

§ ७०२. अब तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशके द्वारा उदीरणाको प्राप्त हुआ द्रव्य लाना है,
इसलिये आवलिके असंख्यातवों भागसे गुणित असंख्यात लोकप्रमाण भागहारको स्थापित करके
जो द्रव्य प्राप्त हो उतने द्रव्यका अपकर्षण करनेपर प्रकृत जघन्य स्वामित्वसे सम्बन्ध रखनेवाला
द्रव्य आता है ।

शंका—यहाँ पर मिथ्यादृष्टिके द्वितीयादि समयोंमें जघन्य स्वामित्व दिया जाना चाहिये ?

समाधान—ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि द्वितीयादि समयोंमें उदीरणाके
द्वारा बहुत द्रव्यका प्रवेश हो जाता है, इसलिये वहाँ जघन्य द्रव्य नहीं प्राप्त हो सकता । आशय यह
है कि जिस द्रव्यका प्रथम समयमें अपकर्षण होकर ऊपरकी स्थितियोंमें निक्षेप हुआ है वह तो
द्वितीयादि समयमें उदयमें आता हुआ देखा ही जाता है । किन्तु इसके अतिरिक्त उस स्थितिके
जिस द्रव्यका पहले उत्कर्षण हुआ था उसका अपकर्षण होकर फिरसे उदयावलिके भीतर उस

संखुम्भइ । एवं च संखुम्भे एयसमयसंचयादो दुष्पहुडि समयसंचओ बहुओ होइ
 त्ति ण तत्थ लाहो । अत्थि, तदो ण तत्थ सामित्तं दाउं सक्किज्जइ ति भावत्थो । ण
 गोबुच्छविसेसहाणिप्रसिसयूण पच्चवट्ठेयं, तत्तो विदियादिसमयसंचयस्स बहुत्तञ्चुव-
 गमादो । एवं चेव उदयट्ठिदिपत्तयस्स वि जहण्णसामित्तं वत्तव्वं । णवरि एदस्स
 पमाणाणुगमे भण्णमाणे एयं समयपवद्धं ठविय पुणो एदस्स दिवड्डुगुणहाणिगुणयारे
 ठविदे विदियट्ठिदिसव्वदव्वमागच्छइ । पुणो ओक्कड्ठिददव्वमिच्छामो ति ओक्कड्डुक्कहुण-
 भागहारो ठवेयव्वो । पुणो वि उदीरणादव्वमिच्छिय असंखेज्जा लोगा आवलिय-
 पटुप्पणां भागहारसरूवेण ठवेयव्वा । एवं ठविदे पयदजहण्णसामित्तविसईकयदव्व-
 मागच्छइ ।

§ ७०३. एत्थ सिस्सो भणइ—उदयावलियचरिमसमए मिच्छाइट्ठिमि
 उदयादो जहण्णभीणट्ठिदियस्सेव पयदस्स वि जहण्णसामित्तं गेण्हामो, चडिदद्धान-
 मेत्तगोबुच्छविसेसपरिहाणिवसे ण तत्थेव जहण्णत्तदंसणादो । एवं णिसेयट्ठिदिपत्तयस्स
 वि वत्तव्वं, अण्णहा पुव्वावरविरोहदोसप्पसंगादो ति ? ण एस दोसो, गोबुच्छ-
 विसेसेहितो विदियादिसमयसंचिददव्ववहुचाहिप्पायावल्लवणेणेदस्स पयट्ठत्तादो । ण

स्थितिमे निक्षेप होता है । और इस प्रकार निक्षेप होनेपर एक समयके सञ्चयसे दो आदि समयोंका
 सञ्चय बहुत होता है, इसलिये उसमें कोई लाभ नहीं है, अतः द्वितीयादि समयोंमें स्वामित्व
 नहीं दिया जा सकता । यदि कहा जाय कि द्वितीयादि समयोंमें गोपुच्छविशेषकी हानि
 देखी जाती है, इसलिए वहाँ जघन्य स्वामित्व बन जायगा सो ऐसा निश्चय करना भी
 ठीक नहीं है, क्योंकि गोपुच्छविशेषका जितना प्रमाण है इससे द्वितीयादि समयोंका
 सञ्चय बहुत स्वीकार किया है । प्रकृतमें जैसे निषेकस्थितिप्राप्तका जघन्य स्वामित्व कहा है
 उसी प्रकार उदयस्थितिप्राप्तके जघन्य स्वामित्वका भी कथन करना चाहिये । किन्तु इसका
 प्रमाण लानेकी इच्छासे एक समयप्रबद्धको स्थापित करके फिर इसका डेढ़ गुणहानिप्रमाण
 गुणकार स्थापित करनेपर द्वितीय स्थितिका सब द्रव्य आ जाता है । फिर अपकर्षित द्रव्य
 जाना है, इसलिये अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारको स्थापित करना चाहिये । फिर भी उदीरणाको
 प्राप्त हुए द्रव्यके लानेकी इच्छासे एक आवलियसे गुणित असंख्यात लोकप्रमाण भागहार स्थापित
 करना चाहिये । इस प्रकार स्थापित करनेपर प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विषयभूत द्रव्य आ
 जाता है ।

§ ७०३. शंका—यहाँपर शिष्य कहता है कि जिसप्रकार उदयावलिके अन्तिम समयमें
 मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्वके उदयसे भीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व होता है उसीप्रकार
 प्रकृत उदयप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व भी उदयावलिके अन्तिम समयमें ही ग्रहण करना चाहिये,
 क्योंकि उदयावलिका अन्तिम समय जितना ऊपर जाकर प्राप्त है वहाँ उतने गोपुच्छविशेषोंकी
 हानि हो जानेसे उदयप्राप्त द्रव्यका जघन्यपना वहाँपर देखा जाता है । इसी प्रकार निषेकस्थितिप्राप्त
 द्रव्यका भी जघन्य स्वामित्व कहना चाहिये, अन्यथा पूर्वापर विरोध दोष प्राप्त होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि गोपुच्छविशेषोंकी अपेक्षा द्वितीयादि समयोंमें

पुत्रावरविरोहदोससंभवो वि, उवएसंतरपदंसणद्ध' तत्थ तथा परुवियत्तादो ।

§ ७०४. संपहि जहाणिसेयद्विदिपत्तयस्स जहण्णत्तामिन्तं परुवेमाणो पुच्छाए अवसरं करेइ—

संचित होनेवाला द्रव्य बहुत होता है इस अभिप्रायसे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है और इससे पूर्वापर विरोध दोष प्राप्त होना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि उपदेशान्तरके दिखलानेके लिये वहाँपर उस प्रकारसे कथन किया है ।

विशेषार्थ—जिस समय जो द्रव्य उद्यममें आता है वही उस समय उद्यमसे मीनस्थिति-वाला द्रव्य माना गया है, क्योंकि वह द्रव्य उद्यमप्राप्त होनेसे निर्जीर्ण हो जानेवाला है अतः उसमें पुनः उद्यमकी योग्यता नहीं पाई जाती । इस प्रकार विचार करनेपर उद्यमस्थितिप्राप्त द्रव्य और उससे मीनस्थितिवाला द्रव्य ये दोनों एक ही ठहरते हैं । यों जब ये एक हैं तो इनका जघन्य और उत्कृष्ट स्वामित्व भी एक ही होना चाहिये । अर्थात् जो उद्यमसे मीनस्थितिवाले द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामी होगा वही उद्यमस्थितिप्राप्त द्रव्यका उत्कृष्ट स्वामी होगा और जो उद्यमसे मीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामी होगा वही उद्यमस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी होगा । यद्यपि स्थिति ऐसी है तथापि मिथ्यात्वकी अपेक्षा इन दोनोंका जघन्य स्वामी एक नहीं बतलाया है । उद्यमसे मीनस्थितिवाले द्रव्यका जघन्य स्वामित्व बतलाते समय यह जघन्य स्वामित्व उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वको प्राप्त करनेके समयसे लेकर उद्यावलिके अन्तिम समयमें दिया है किन्तु उद्यमस्थिति प्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व बतलाते समय यह जघन्य स्वामित्व उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें दिया है । इसप्रकार देखते हैं कि इन दोनों कथनोंमें पूर्वापर विरोध है जो नहीं होना चाहिये था । टीकामें इस विरोधका जो समाधान किया गया है उसका आशय यह है कि पूर्वोक्त कथन इस आशयसे किया गया है कि मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयसे लेकर उद्यावलिके अन्तिम समय तक एक समय कम उद्यावलिके भीतर गोपुच्छ विशेषका जो द्रव्य संचित होता है उससे उस कालके भीतर अपकर्षण द्वारा संचित होनेवाला द्रव्य न्यून होता है । किन्तु यह कथन इस अभिप्रायसे किया गया है कि द्वितीयादि समयोंमें संचित होनेवाला द्रव्य गोपुच्छविशेषोंसे अधिक होता है, इसलिए उक्त दोनों कथनोंमें कोई विरोध नहीं है । इसप्रकार कौन कथन किस अभिप्रायसे किया गया है इसका पता भले ही लग जाता है तथापि इससे विरोधका परिहार नहीं होता है, क्योंकि आखिर यह प्रश्न ता वना ही रहता है कि मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयके द्रव्य और वहाँसे जाकर उद्यावलिके अन्तिम समयके द्रव्य इनमेंसे कौन कम है और कौन अधिक है ? इस शंकाका टीकामें जो समाधान किया है उसका आशय यह है कि इस विषयमें दो सम्प्रदाय पाये जाते हैं । एक सम्प्रदायके मतसे मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयसे लेकर उद्यावलिके अन्तिम समयमें जो द्रव्य होता है वह न्यून होता है । और दूसरा सम्प्रदाय यह है कि मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयमें जो द्रव्य होता है वह न्यून होता है । चूर्णिसूत्रकारके सामने ये दोनों ही सम्प्रदाय रहे हैं, इसलिये उन्होंने एकका उल्लेख मिथ्यात्वके उद्यमसे मीनस्थितिवाले द्रव्यके जघन्य स्वामित्वको बतलाते हुए कर दिया और दूसरेका उल्लेख यहाँ किया है । सत्कर्मप्राप्त और श्वेतान्वर मान्य कर्मप्रकृति व पंचसंग्रह इनमें प्रथम मतका ही उल्लेख है । अर्थात् वहाँ मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयसे लेकर उद्यावलिके अन्तिम समयमें ही जघन्य स्वामित्व बतलाया है ।

§ ७०४. अब यथानिवेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वका कथन करते हुए पृच्छासूत्र कहते हैं—

❀ मिच्छुत्तस्स जहणणयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं कस्स ?

§ ७०५. सुगमं ।

❀ जो एइंदियट्ठिदिसंतकम्मणे जहणणएण तसेसु आगदो । अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं पडिवण्णो । वेळ्ळावट्टिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालियूण मिच्छुत्तं गदो । तप्पाओग्गउक्कसिया मिच्छुत्तस्स जावदिया आबाहा तावदिमसमय मिच्छ्ळाइट्टिस्स तस्स जहणणयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं ।

§ ७०६. एदस्स सुत्तस्सत्थो वुच्चे । तं जहा—जो एइंदियट्ठिदिसंतकम्मणे जहणणएणे त्ति उत्ते एइंदिएसु ट्ठिदिसंतकम्मं हदसमुपत्तियं कारुण पलिदोवमासंखेज्ज-भागूणसागरोवमेत्तसव्वजहण्णेइंदियट्ठिदिसंतकम्मणेण सह गदो त्ति घेत्तव्वं । गुणिदकम्मंसियलक्खणेण तच्चिवरीयकम्मंसियलक्खणेण वा आगमणेण ण एत्थ पयोजणमत्थि । किंतु एइंदियसव्वजहण्णट्ठिदिसंतकम्ममेवेत्थोवजोगी, तत्थतणपदेस-थोववहुत्तेण पन्नोजणाभावादो त्ति भावत्थो । कुदो पओजणाभावो ? उवरि दूरद्दाणं गंतूण वेळ्ळावट्टिसागरोवमावसाणे पयदसामित्तविहाणुद्वेसे हेट्ठिमसंचयस्स जहाणिसेय-सख्खेणासंभवादो । एइंदियट्ठिदिसंतकम्मं पुण तत्थुद्वेसे तदभावीकरणेण पयदोव-

* मिथ्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ?

§ ७०५. यह सूत्र सुगम है ।

* एकेन्द्रियोंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें उत्पन्न होकर जिसने अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त किया है । फिर दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन करके जो मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ है । फिर वहाँ तत्प्रायोग्य मिथ्यात्वकी जितनी उत्कृष्ट आबाधा हो उतने काल तक जो मिथ्यात्वके साथ रहा है वह मिथ्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है ।

§ ७०६. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । जो इसप्रकार है—सूत्रमें जो 'जो एइंदियट्ठिदिसंतकम्मणे जहण्णएण' यह पद कहा है सो इससे यह अर्थ लेना चाहिये कि एकेन्द्रियोंमें स्थितिसत्कर्मको हतसमुत्पत्तिक करके जो जीव एकेन्द्रियका सबसे जघन्य स्थितिसत्कर्म जो पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम एक सागर बतलाया है उसके साथ त्रसोंमें उत्पन्न हुआ है । यहाँपर गुणितकर्मांशकी विधिसे या क्षपितकर्मांशकी विधिसे आनेसे कोई प्रयोजन नहीं है किन्तु एकेन्द्रियका सबसे जघन्य स्थितिसत्कर्म ही यहाँ उपयोगी है, क्योंकि ऐसे जीवके कर्म परमाणु थोड़े हैं या बहुत इससे प्रकृतमें प्रयोजन नहीं है यह उक्त कथनका भावार्थ है ।

शंका—प्रकृतमें कर्मपरमाणुओंके अल्पबहुत्वसे क्यों प्रयोजन नहीं है ?

समाधान—क्योंकि ऊपर बहुत दूर जाकर दो छयासठ सागर कालके अन्तमें जहाँ प्रकृत स्वामित्वका विधान किया है वहाँ इतने नीचेके संचयका यथानिषेकरूपसे पाया जाना सम्भव नहीं है । किन्तु उस स्थानमें जाकर एकेन्द्रियके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका अभाव कर देनेसे

जोगी, अण्णहा अंतोकोडाकोडीमेत्तद्विदिसं तकम्मस्स वेच्चावट्टिसागरोवमाणमुवरि वि संभवेण जहण्णभावाणुववत्तीदो । एइंदियजहण्णद्विदिसंतकम्मणेवे त्ति णावहारणमेत्थ कायव्वं, किंतु तत्तो समयुत्तरादिकमेण सादिरेयवेच्चावट्टिसागरोवममेत्तद्विदिसंतकम्मे त्ति ताव एदेसिं पि द्विदिविक्कपाणमेत्थ गहणे विरोहो गत्थि, वेच्चावट्टिसागरोवमाणि गालिय उवरि सामिच्चविहाणादो । तदो उवलक्खणमेत्तमेदं ति थेत्तव्वं ।

§ ७०७. एवंविहेण द्विदिसंतकम्मेण तसेसु आगदो । अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं पडिवण्णो एवं भणिदे असण्णिपंचिदियपज्जत्तएसु जहण्णाउपसुववज्जिय सव्वलहुं पज्जत्तीओ समाणिय अंतोमुहुत्तेण देवाउअं बंधिय क्रमेण कालं कादूण देवेसुववज्जिय सव्वलहुं सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो होदूण विस्संतो विसोहिमापूरिय सम्मत्तं पडिवण्णो त्ति भणिदं होइ । ण च सम्मत्तुप्पायणमेदं णिरत्थयं, सम्मत्तणुपाहम्मेण मिच्छत्तस्स बंधवोच्छेदं कादूणंतोमुहुत्तमेत्तसमयपवद्धाणं गालणेण फलोवलंभादो । एदस्सेव अत्थविसेसस्स पदंसणहं वेच्चावट्टिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालियूणे त्ति भणिदं । एवं वेच्चावट्टिसागरोवमाणि समयाविरोहेण सम्मत्तमणुपालिय तदवसाणे मिच्छत्तं गदो, अण्णहा पयदसामिच्चविहाणोवायाभावादो । एवं मिच्छत्तं

एकेन्द्रियके योग्य स्थितिसत्कर्म ही प्रकृतमें उपयोगी है, अन्यथा अन्तःकोडाकोडीप्रमाण स्थितिसत्कर्मका दो छयासठ सागरके ऊपर भी सम्भव होनेसे जघन्यपना नहीं वन सकता है ।

एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मके साथ ही जो त्रसोंमें उत्पन्न हुआ है ऐसा यहाँ अवधारण नहीं करना चाहिये । किन्तु एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मसे लेकर उत्तरोत्तर एक एक समय बढ़ते हुए साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण स्थितिसत्कर्म तकके इन सब स्थितिविकल्पोंका भी यहाँपर ग्रहण करनेमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि दो छयासठ सागर कालके चले जानेके बाद तदनन्तर स्वामित्वका विधान किया गया है, इसलिये 'एइंदियजहण्णद्विदिसंतकम्मेण' यह पद उक्त कथनका उपसक्तप्रमाण है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये ।

§ ७०७. इसके आगे सूत्रमें 'इस प्रकारके स्थितिसत्कर्मके साथ त्रसोंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ' जो ऐसा कहा है सो इसका यह तात्पर्य है कि जघन्य आयुके साथ असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । फिर अतिशीघ्र पर्याप्तियोंको पूरा करके अन्तर्मुहूर्तमें देवायुका बन्ध किया और क्रमसे मरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ । फिर अतिशीघ्र सब पर्याप्तियोंको पूरा किया । फिर विश्रामके बाद विशुद्धिको प्राप्त करके सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । यदि कहा जाय कि इस प्रकार सम्यक्त्वको उत्पन्न कराना निरर्थक है सो यह बात भी नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व गुणकी प्रधानतासे मिध्यात्वकी बन्धव्युच्छित्ति करके मिध्यात्वके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण समयप्रवद्धोंको गलाने रूप फल पाया जाता है । इस प्रकार इसी अर्थविशेषको दिखलानेके लिये सूत्रमें 'वेच्चावट्टिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालियूण' यह कहा है । इस प्रकार दो छयासठ सागर काल तक यथाविधि सम्यक्त्वका पालन करके उसके अन्तमें मिध्यात्वको प्राप्त हुआ । यदि इस जीवको अन्तमें मिध्यात्वमें न ले जाय तो प्रकृत स्वामित्वके विधान करनेका और कोई उपाय नहीं है, इसीसे इसे अन्तमें मिध्यात्वमें ले गये हैं । इस प्रकार मिध्यात्वको प्राप्त हुए इस जीवके

पडिवणस्स सामित्तुहेसपदुप्पायणद्वसुवरिमो सुत्तावयवो—तप्पाओग्गुक्कस्सिय-
मिच्छत्तस्स जावदिया आवाहा इच्चादि ।

§ ७०८. एत्थ वेच्चावट्ठीणमंते उक्कस्ससंकिलेसमावूरिय मिच्छत्तं गदस्स
पढमसमयमिच्छाइट्ठिस्स सामित्तमपरुविय पुणो वि अंतोमुहुत्तं गंतूण तप्पाओग्गु-
क्कस्सावाहाचरिमसमयमिच्छाइट्ठिमि कदमं लाहसुद्धिसिय जद्वणसामित्तविहाणं कीरइ
त्ति णासंकणिज्जं, तप्पाओग्गुक्कस्ससंकिलेसमावूरिय मिच्छत्तस्स तप्पाओग्गुक्कस्सट्ठिदिं
बंधमाणेणावाहाढभंतरावट्ठिदाहियारट्ठिदिपदेसाणमोकडडुक्कडुणाहिं जहणणीकरणेण
लाहदंसणादो पढमसमयउदयगदगोबुच्छादो तप्पाओग्गुक्कस्सावाहचरिमसमयगोबुच्छस्स
चडिदद्वानमेत्तगोबुच्छविसेसेहि परिहीणत्तदंसणादो च । ण एत्थ णवक्कबंधसंचयस्स
संभवो, आवाहावाहिरे तस्सावट्ठाणादो ।

स्थामित्वविषयक स्थानके दिखलानेके लिए 'तप्पाओग्गुक्कस्सियमिच्छत्तस्स जावदिया आवाहा'
इत्यादि ध्रागेका शेष सूत्र आया है ।

७०८. यहाँ पर यदि कोई ऐसी आशंका करे कि दो छयासठ सागरके अन्तमें उत्कृष्ट
संकलेशको पूरा करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुए प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके स्वामित्वका कथन न
करके फिर भी अन्तमूर्हत जाकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अवाधाके अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके
जो जघन्य स्वामित्वका विधान किया है सो इसमें क्या लाभ है सो उसकी ऐसी आशंका करना
ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करनेसे दो लाभ दिखाई देते हैं । प्रथम तो यह कि तत्प्रायोग्य संकलेशको
पूरा करके मिथ्यात्वकी तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिको बाँधनेवाले जीवके अवाधाके भीतर प्राप्त
हुई अधिकृत स्थितिके कर्मपरमाणु अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा जघन्य कर दिये जाते हैं और
दूसरे प्रथम समयमें उदयको प्राप्त हुई गोपुच्छासे तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अवाधाके अन्तिम समयमें
जा गोपुच्छा है उसमें जितने स्थान ऊपर जाकर वह स्थित है उतने गोपुच्छविशेषोकी हानि देखी
जाती है । इसप्रकार इन दो लाभोंको देखकर मिथ्यादृष्टि होनेके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्वका
विधान न करके उत्कृष्ट अवाधाके अन्तिम समयमें उसका विधान किया है । यदि कहा जाय कि
यहाँ नवकवन्धका सञ्चय हो जायगा सो यह बात भी नहीं है, क्योंकि इसका अवस्थान अवाधाके
बाहर पाया जाता है ।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्वके यथानिवेकस्थितिप्राप्तके जघन्य स्वामित्वका निर्देश किया
है । इसकी प्रथम विशेषता यह बतलाई है कि सर्वप्रथम ऐसे जीवको एकेन्द्रियके योग्य जघन्य
स्थितिसत्कर्मके साथ त्रसोभि उत्पन्न कराना चाहिये । टीकामें इस विशेषताका खुलासा करते हुए जो
कुछ लिखा है उसका भाव यह है कि त्रसोमें उत्पन्न होनेवाला यह जीव एकेन्द्रियके योग्य जघन्य
स्थितिसत्कर्मवाला ही हो ऐसा कोई एकान्त नियम नहीं है किन्तु इस कथनको उपलक्षण मानकर
इससे ऐसा जीव भी लिया जा सकता है जिसका मिथ्यात्व स्थितिसत्कर्म एकेन्द्रियके योग्य जघन्य
स्थितिसत्कर्मसे एक समय अधिक हो, दो समय अधिक हो । इस प्रकार उत्तरोत्तर स्थिति
वढ़ाते हुए जिसका स्थितिसत्कर्म साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण हो वह जीव भी यहाँ
लिया जा सकता है । इसका कारण यह बतलाया है कि जब प्रकृत जघन्य स्वामित्व साधिक
दो छयासठ सागरके बाद ही प्राप्त होता है तो, इतने, स्थितिसत्कर्मवाले जीवको ग्रहण करनेमें कोई

§ ७०६, एत्थ संचयाणुगमे भण्णमाणे एदमथाणिसेयद्विदिपत्तयजहण्णदव्वं केत्तियमेत्तकालसंचिदमिदि उत्ते अंतोमुहुत्तमेत्तकालसंचिदमिदि येत्तव्वं । तं जहा—
थावरकायादो णिग्गतूण असण्णिपंचिदिएसुववज्जिय अंतोमुहुत्तकालं सागरोवमसहस्समेत्ति
मिच्छत्तद्विदि वंधमाणो जहाणिसेयद्विदिसंचयं काळण पुणो देवेसुववज्जिय तत्थ वि
अपज्जत्तकालं सव्वमंतोकोडाकोडिमेत्तद्विदिवंधेण संचयं करिय पुणो वि जाव सम्मत्त-
ग्गहणपाओगो होइ ताव संचयं करेइ त्ति । एवमंतोमुहुत्तसंचओ लब्भइ । उवरि
सम्मत्तगुणमाहपेण मिच्छत्तस्स वंधवोच्छेदादो गत्थि संचओ । एदं च अंतोमुहुत्त-
पमाणसमयपवद्धपडिवद्धदव्वं सम्मत्तेण वैद्धावट्टिसागरोवमाणि परिब्भममाणस्स
संखेज्जरूववभहियआवलिपद्धेदणयमेत्तगुणहाणीओ उवरिं चडिदस्स संखेज्जावलिप-
मेत्तसमयपवद्धपमाणं णस्सियूणेगसमयपवद्धपमाणेणावचिदइ । पुणो एदं पि समय-

आपत्ति नहीं है, क्योंकि उक्त स्थानको प्राप्त होनेके पूर्व ही यह स्थितिसत्कर्म गल जायगा । इसके बाद सम्यक्त्व उत्पन्न कराकर दो छयासठ सागर कालतक यथाविधि इस जीवको सम्यक्त्वके साथ रखा है सो इसके दो फायदे बतलाये हैं । प्रथम तो यह कि इसके मिध्यात्वका न्यूनतन बन्ध नहीं होता और दूसरा यह कि यह जीव एकेन्द्रिय पर्यायके शेष रहे सञ्चयको तो गलाता ही है साथ ही साथ एकेन्द्रिय पर्यायके बाद त्रस पर्यायमें आनेपर जो सम्यक्त्वको प्राप्त करके पूर्वतक मिध्यात्वका न्यूनतन बन्ध हुआ है उसे भी यथाशक्य निर्जोर्ण करता है । इसके बाद इसे मिध्यात्वमें ले जाकर मिध्यात्वका वहाँके योग्य उत्कृष्ट बन्ध करावे और आवाधाके अन्तिम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व दे । मिध्यात्वको प्राप्त करनेके प्रथम समयमें यह जघन्य स्वामित्व न बतलाकर जो आवाधाके अन्तिम समयमें बतलाया है सो इसके दो कारण बतलाये हैं । प्रथम तो यह कि मिध्यात्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयसे लेकर जितने स्थान ऊपर जाकर आवाधाका अन्तिम समय प्राप्त होता है उतने चयोंकी उसमें हानि देखी जाती है और दूसरा यह कि अपकर्षण उदकर्षणके द्वारा भी उसका द्रव्य कम हो जाता है । इस प्रकार इन दो लाभोंको देखकर आवाधाके अन्तिम समयमें ही जघन्य स्वामित्व दिया है ।

§ ७०६. यहाँ पर सञ्चयानुगमका विचार करनेपर यह यथानिषेकस्थितिप्राप्त जघन्य द्रव्य कितने कालमें संचित होता है ऐसा पूछनेपर अन्तर्मुहूर्त कालमें सञ्चित होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिये । खुलासा इस प्रकार है—स्थावरकाय पर्यायसे निकलकर असंज्ञी पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्त कालतक एक हजार सागरप्रमाण मिध्यात्वकी स्थितिको बंधता हुआ यथानिषेकस्थितिका संचय करता है । फिर देवोंमें उत्पन्न होकर वहाँ भी अपर्याप्त कालतक अन्तः-कोडाकोड़ीप्रमाण स्थितिवन्ध करके संचय करता है । फिर भी पर्याप्त होनेपर जबतक यह जीव सम्यक्त्व ग्रहणके योग्य होता है तबतक सञ्चय करता है । इसप्रकार अन्तर्मुहूर्त कालतक होनेवाला सञ्चय प्राप्त हो जाता है । इसके आगे सम्यक्त्वगुणकी प्रधानतासे मिध्यात्वकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है, इसलिये सञ्चय नहीं प्राप्त होता । अब यह जो अन्तर्मुहूर्तप्रमाण समयप्रवद्धोंका द्रव्य है सो इससेसे सम्यक्त्वके साथ दो छयासठ सागर कालतक परिभ्रमण करनेवाले और संख्यात अङ्क अधिक एक आवलिके अर्धच्छेदप्रमाण गुणहानियों ऊपर चढ़े हुए जीवके संख्यात आवलिप्रमाण समयप्रवद्धोंका नाश होकर एक समयप्रवद्धप्रमाण द्रव्य शेष रहता है । फिर

पवद्धमेत्तसेसदव्वमसंखेज्जाओ गुणहाणीओ गालिय पच्छा मिच्छत्तं गंतूणावाहाचरिम-
समए समयपवद्धस्स असंखेज्जभागमेत्तं होदूण जहाणिसेयसरूवेण जहण्णयं होदि त्ति ।

§ ७१०. एदस्स भागहारपमाणानुगमं वत्तइस्सामो । तं जहा—एयं समय-
पवद्धं ठविय पुणो एदस्स संखेज्जावलियगुणगारे ठविदे असण्णिपंचिदिएसु देवेसु च
उववज्जिय अंतोमुहुत्तमेत्तकालं करिय संचयदव्वं होइ । पुणो एदस्स वेज्जावट्टिसागरोवम-
व्भंतरणाणागुणहाणिं विरलिय विंगं करिय अप्णोण्णवभत्थरासिम्मि भागहारे
ठविदे गलिदावसेसदव्वमागच्छइ । पुणो एदमहियारगोबुच्छपमाणेण कीरमाणं दिवडु-
गुणहाणिमेत्तं होइ त्ति दिवडुगुणहाणिभागहारे ठविदे अहियारगोबुच्छमागच्छइ ।
इमं वेज्जावट्टिसागरोवमकालं सव्वमोकड्डणाए णासेइ त्ति । पुणो वि ओकड्डुकड्डण-
भागहारवेत्तिभागायामेणुष्पाइदणाणागुणहाणिं विरलिय विंगं करिय अप्णोण्णवभास-
णिप्पण्णासंखेज्जलोगमेत्तरासिम्मि भागहारसरूवेण ट्ठिदे ओकड्डिदसेसं जहाणिसेय-
सरूवमहियारट्टिदिदव्वमागच्छइ । एवमागच्छइ त्ति कट्टु वेज्जावट्टिसागरोवमणाणा-
गुणहाणिसलागाणमपणोण्णवभत्थरासी दिवडुगुणहाणी असंखेज्जलोगा च अप्णोण्ण-
पदुप्पणा संखेज्जावलियोवट्टिदा समयपवद्धस्स भागहारो भागलद्धं च पयदजहण्ण-
सामित्तविसईकयं दव्वं होइ ।

यह जो एक समयप्रबद्धप्रमाण द्रव्य शेष रहा है सो उसमेंसे भी असंख्यात गुणहानियोंको गलाकर
अनन्तर मिथ्यात्वमे जाकर आवाधाके अन्तिम-समयमें जो एक समयप्रबद्धका असंख्यातवों
भाग शेष रहता है वही यथानिषेक जघन्य द्रव्य है ऐसा यहाँ समझना चाहिये ।

§ ७१०. अब इसके भागहारके प्रमाणका विचार करते हैं । यथा—एक समयप्रबद्धके
स्थापित करके फिर इसके संख्यात आवलिप्रमाण गुणकारके स्थापित करनेपर असंज्ञी पंचेन्द्रियों
और देवोंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर जितने द्रव्यका संचय होता है उसका प्रमाण
आता है । फिर इतकी दो छयासठ सागरके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानिशलाकाओंको विरलन करके
और दूना करके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसे उक्त राशिके भागहाररूपसे स्थापित
करनेपर गलकर शेष बचे हुये द्रव्यका प्रमाण प्राप्त होता है । फिर इसके अधिकृत गोपुच्छाके
बराबर हिस्से करनेपर वे डेढ़ गुणहानिप्रमाण प्राप्त होते हैं, इसलिए डेढ़ गुणहानिको भागहार
स्थापित करनेपर अधिकृत गोपुच्छा प्राप्त होती है । दो छयासठ सागर कालतक अपकर्षणके द्वारा
इसका भी नाश होता रहता है, इसलिये फिर भी अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके दो बटे तीन भागके
भीतर जितनी नाना गुणहानियों प्राप्त हों उनका विरलन करके और दूना करके परस्पर गुणा
करनेसे उत्पन्न हुई असंख्यात लोकप्रमाण राशिको भागहाररूपसे स्थापित करनेपर अपकर्षण
होनेके बाद शेष बचा हुआ यथानिषेकरूप अधिकृत स्थितिका द्रव्य आता है । इस प्रकार अधिकृत
स्थितिका द्रव्य प्राप्त होता है ऐसा मानकर दो छयासठ सागरके भीतर प्राप्त हुई नाना
गुणहानिशलाकाओंकी अन्यान्याभ्यस्त राशि डेढ़ गुणहानि और असंख्यात लोक इनको परस्पर
गुणा करके जो उत्पन्न हो उसमें संख्यात आवलियोंका भाग देनेपर जो लब्ध आवे वह एक समय
प्रबद्धका भागहार होता है और इस भागहारका एक समयप्रबद्धमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे
उतना प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विषयभूत द्रव्य होता है ।

§ ७११. संपहि एदेणेव गयत्थं सम्मत्तस्स वि जहाणिसेयट्टिदिपत्तयजहण्ण-
सामित्तं परूवेमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

❀ जेण मिच्छत्तस्स रचिदो अधाणिसेओ तस्स चेव जीवस्स
सम्मत्तस्स अधाणिसेओ कायव्वो । एवरि तिस्से उक्कस्सियाए सम्मत्तद्धाए
चरिमसमए तस्स चरिमसमयसम्माइट्टिस्स जहण्णयमधाणिसेयट्टिदिपत्तयं ।

§ ७१२. जेण जीवेण मिच्छत्तस्स जहण्णओ जहाणिसेओ पुव्वुत्तविहाणेण
विरइओ तस्सेव जीवस्स सम्मत्तस्स वि जहण्णओ जहाणिसेओ कायव्वो । गवरि
तिस्से उक्कस्सियाए वेद्धावट्टिसागरोवमपमाणाए सम्मत्तद्धाए चरिमसमए वट्टमाणस्स
तस्स चरिमसमयसम्माइट्टिस्स पयदजहण्णसामित्तं कायव्वं, अण्णहा तच्चिहाणोवाया-
भावादो । तं जहा—पुव्वविहाणेणागंतूण पढमद्धावट्टिं भमिय पुणो विदियद्धावट्टीए
अंतोमुहुत्तावसेसे दंसणमोहक्खवणमब्भुट्टिय अहियारट्टिदिदव्वं गुणसेट्ठिणिज्जराए
णासेमाणो उदयावलिखवाहिरट्टिदमिच्छत्तचरिमफालिदव्वं सव्वं समट्ठिदीए सम्मा-
मिच्छत्तस्सुवरि संकामिय पुणो तेणेव विहिणा सम्मामिच्छत्तचरिमफालिदव्वं पि सव्वं
सम्मत्तस्सुवरि संकामेदि । एवं तिण्हं पि जहाणिसेयट्टिदीओ एकदो कादूण पुणो

§ ७११. अब सम्यक्त्वके यथानिषेक स्थितिप्राप्तका जघन्य स्वामित्व भी इसीसे गतार्थ
है यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ जिसने मिथ्यात्वका यथानिषेकप्राप्त द्रव्य किया है उसी जीवके सम्यक्त्वके
यथानिषेकका कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वके उत्कृष्ट
कालके अन्तिम समयमें उस सम्यग्दृष्टिके रहनेपर वह अपने अन्तिम समयमें यथा-
निषेकस्थितिप्राप्त जघन्य द्रव्यका स्वामी है ।

§ ७१२. जिस जीवने मिथ्यात्वका जघन्य यथानिषेक द्रव्य पूर्वोक्तविधिसे प्राप्त किया है
उसी जीवके सम्यक्त्वके जघन्य यथानिषेकद्रव्यका भी कथन करना चाहिये । किन्तु इतनी विशेषता
है कि जो दो छयासठ सागरप्रमाण सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल है उसके अन्तिम समयमें विद्यमान
हुए (उस सम्यग्दृष्टि जीवके अन्तिम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान करना चाहिये,
अन्यथा प्रकृत जघन्य स्वामित्वके विधान करनेका और कोई उपाय नहीं है । खुलासा इस प्रकार
है—कोई एक जीव है जिसने पूर्वोक्त विधिसे आकर अथम छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण
किया । फिर दूसरे छयासठ सागरमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिये
उद्यत होकर वंह अधिकृत स्थितिके द्रव्यका गुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा नाश करने लगा और ऐसा
करते हुए वह उदयावलिके बाहर स्थित हुए मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिके सब द्रव्यको सम्यग्मि-
थ्यात्वकी समान स्थितिमें संक्रमित करके फिर उसी विधिसे सम्यग्मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिके
सब द्रव्यको भी सम्यक्त्वके ऊपर संक्रमित करता है । इस प्रकार तीनो ही कर्मोंकी यथानिषेक
स्थितियोंको एकत्रित करके फिर दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके अन्तिम समयमें उन तीनो ही

अक्खीणदंसणमोहचरिमसमयम्मि तिसु वि ढिदीसु सम्मत्तरूवेणुदयमागदासु जहणय-
मधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं होइ, चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्सेव चरिमसमयसम्माइट्ठि
त्ति सुत्ते विवक्खयत्तादो ।

❀ णिसेयादो च उदयादो च जहणयं ट्ठिदिपत्तयं करस्स ?

§ ७१३. एत्थ सम्मत्तस्से त्ति अहियारसंबंधो । सुगममण्णं ।

❀ उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयवेदयसम्माइट्ठिस्स तप्पाओग्ग-
उक्कस्ससंकिलिट्ठस्स तरस्स जहणयं ।

§ ७१४. एदस्स सुत्तस्स मिच्छत्तसामित्तसुत्तास्सेव णिरवयवा अत्थपरूवणा
कायवा, विसेसाभावादो । एत्तिओ पुणो विसेसो—तत्थ पढमसमयमिच्छाइट्ठिस्स
सामित्तं जादं, एत्थ पढमसमयवेदयसम्माइट्ठिस्से त्ति ।

स्थितियोंके सम्यक्त्वरूपसे उदयमें आनेपर जघन्य यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्य होता है। यहाँ सूत्रमें जो 'चरिमसमयसम्माइट्ठिस्स' पद दिया है सो इससे दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला अन्तिम समयवर्ती जीव ही विवक्षित है।

विशेषार्थ—यहाँ सम्यक्त्वके यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी वतलाया है। सो इसे प्राप्त करनेके लिये और सब विधि तो मिथ्यात्वके समान है किन्तु इतनी विशेषता है कि जब उक्त जीवको सम्यक्त्वके साथ दूसरे छयासठ सागरमें परिभ्रमण करते हुए अन्तर्मुहूर्त शेष रह जाय तब उससे क्षायिकसम्यग्दर्शनकी प्राप्ति करावे और ऐसा करते हुए जब सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयका अन्तिम समय प्राप्त होता है तब यथानिपेकस्थितिप्राप्तका जघन्य द्रव्य होता है।

* सम्यक्त्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ?

§ ७१३. इस सूत्रमें 'सम्मत्तस्स' इस पदका अधिकारवश संबन्ध होता है। शेष कथन सुगम है।

* जो उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे युक्त प्रथम समयवर्ती वेदकसम्यग्दृष्टि जीव है वह उक्त दोनों स्थितिप्राप्त द्रव्योंका जघन्य स्वामी है।

§ ७१४. जिस प्रकार मिथ्यात्वविषयक स्वामित्व सूत्रका सर्वांगीण कथन किया है उसी प्रकार इस सूत्रका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि इन दोनोंके कथनमें कोई विशेषता नहीं है। किन्तु इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वविषयक स्वामित्वका कथन करते समय प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके स्वामित्व प्राप्त कराया गया था किन्तु यहाँ पर वह प्रथम समयवर्ती वेदक-सम्यग्दृष्टिके प्राप्त कराना चाहिये।

विशेषार्थ—आशय यह है कि मिथ्यात्वकी अपेक्षा निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थिति-प्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व लानेके लिये जीवको उपशमसम्यक्त्वसे ब्रह्म आबलिकालके शेष

§ ७१५. संपहि सम्मत्तस्स जहाणित्सेयद्विदिपत्तयभंगेण सम्मामिच्छत्तजहाणित्सेयद्विदिपत्तयस्स सामित्तपरूवणं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

❀ सम्मत्तस्स जहण्यओ जहाणित्सेओ जहापरूविओ तीए चेव परूवणाए सम्मामिच्छत्तं गओ । तदो उक्कस्सियाए सम्मामिच्छत्तद्धाए चरिमसमए जहण्यं सम्मामिच्छत्तस्स अधाणित्सेयद्विदिपत्तयं ।

§ ७१६. सम्मत्तस्स जहण्यओ जहाणित्सेओ जहापरूविदो, तीए चेव परूवणाए अणूणाहियाए सम्मामिच्छत्तस्स वि पयदजहण्यसामित्तो परूवेयवो । णवरि सव्वुक्कस्ससम्मत्तद्धाए चरिमसमए सम्मत्तस्स णिच्छजहण्यसामित्तं जादं । एवमेत्थ पुण विदियद्धावट्टिकाल्लभंतरे अंतोमुहुत्तावसेसे सम्मामिच्छत्तं पडिवण्यस्स तप्पाओग्गुक्कस्संतोमुहुत्तमेत्तसम्मामिच्छत्तद्धाए चरिमसमयम्मि पयदजहण्यसामित्तं होइ त्ति एत्तिओ चेव वित्सेओ ।

रहने पर सासादनमें ले जाकर फिर मिथ्यात्वमें ले जाया गया था और तब मिथ्यात्वके प्रथम समयमें उक्त जघन्य स्वामित्व प्राप्त कराया गया था। किन्तु समयक्त्वका उदय मिथ्यात्व गुणस्थानमें सम्भव नहीं है, इसलिये जिस जीवको सम्यक्त्वकी अपेक्षा निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व प्राप्त करना हो उसे उपशमसम्यक्त्वका काल पूरा होनेपर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संकलेशानके साथ वेदकसम्यक्त्वमें ले जाय। इस प्रकार जब यह जीव वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करता है तब इसके उक्त वेदकसम्यक्त्वके प्रथम समयमें जघन्य स्वामित्व होता है। यहाँ सम्यक्त्वकी कम से कम उद्दीरण प्राप्त करने के लिये तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संकलेशानके साथ वेदकसम्यक्त्व प्राप्त कराया गया है।

§ ७१५. अब सम्यक्त्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वके समान ही सम्यग्मिध्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामित्व है यह बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ सम्यक्त्वके जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यकी जिस प्रकार प्ररूपणा की है उसी प्ररूपणाके अनुसार कोई एक जीव सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुआ। फिर जब वह सम्यग्मिध्यात्वके उत्कृष्ट कालके अन्तिम समयमें विद्यमान रहता है तब वह सम्यग्मिध्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है।

§ ७१६. जिस प्रकार सम्यक्त्वके जघन्य यथानिषेक द्रव्यका प्ररूपण किया, न्यूनाधिकतासे रहित उसी प्ररूपणाके अनुसार सम्यग्मिध्यात्वके प्रकृत जघन्य स्वामित्वका भी कथन करना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वके सर्वोत्कृष्ट कालके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वका प्रकृत जघन्य स्वामित्व प्राप्त हुआ था। किन्तु यहाँ पर दूसरे छयासठ सागरके भीतर अन्तर्मुहूर्त कालके शेष रहने पर सम्यग्मिध्यात्वको प्राप्त हुए जीवके सम्यग्मिध्यात्वके तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कालके अन्तिम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है, इतनी ही विशेषता है।

विशेषार्थ—सम्यग्मिध्यात्वके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके जघन्य स्वामित्वको प्राप्त करने के लिये और सब विधि सम्यक्त्व प्रकृतिके समान जानना चाहिये। किन्तु यहाँ इतनी विशेषता

❖ सम्मामिच्छत्तस्स जहणणयं णिसेयादो उदयादो च द्विदिपत्तयं कस्स ?

§ ७१७. सुगममेदं पुच्छामुत्तं ।

❖ उवसमसम्मत्तपच्छायदस्स पढमसमयसम्मामिच्छाहृदस्स तप्पाओ-गुक्कस्ससंकिट्टस्स ।

§ ७१८. सुगममेदं सुत्तं ।

❖ अणांताणुबंधीणं णिसेयादो अधाणिसेयादो च जहणणयं द्विदिपत्तयं कस्स ?

§ ७१९. सुगममेदं पुच्छावक्कं ।

❖ जो एइदियद्विदिसंतकम्मेषु जहणणण पंचिदिए गओ । अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं पडिवएणो । अणांताणुबंधिं विसजोइत्ता पुणो पडिवदिदो । रहस्स-

है कि दूसरे छथासठ सागरमे जब अन्तमुहूर्त काल शेष रह जाय तब इस जीवको सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें ले जाय । और वहाँ जब उसका अन्तिम समय प्राप्त हो तब प्रकृत जघन्य स्वामित्व कहना चाहिये । सम्यग्मिध्यात्वका उदय सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें ही होता है, इसलिये तो इसे उक्त गुणस्थानमें ले गये हैं । तथा सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें जितना स्थान ऊपर जाकर प्रकृत जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता है उतने गोपुच्छविशेषोंको कम करनेके लिये यह स्वामित्व सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानके प्रथम समयमें न बतलाकर उसके अन्तिम समयमें बतलाया है ।

* सम्यग्मिध्यात्वके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिद्रव्यप्राप्त द्रव्योंका जघन्य स्वामी कौन है ।

§ ७१७. यह पुच्छासूत्र सुगम है ।

* जो उपशमसम्यक्त्वसे पीछे आकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे युक्त प्रथम समयवर्ती सम्यग्मिध्यादृष्टि जीव है वह उक्त स्थितिप्राप्त द्रव्योंका जघन्य स्वामी है ।

§ ७१८. यह सूत्र सुगम है ।

विशेषार्थ—इस आशयका सूत्र अनेक बार आ चुका है, इसलिये वहाँ जिस प्रकार वर्णन किया है उसी प्रकार प्रकृतमें भी करना चाहिये । किन्तु सम्यग्मिध्यात्वका, उदय मिश्र गुणस्थानमें ही होता है, इसलिये उपशमसम्यक्त्वसे च्युत होने पर इस जीवको सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थानमें ही ले जाना चाहिये, यहाँ इतनी विरोधता है । शेष कथन सुगम है ।

* अनन्तानुबन्धियोंके जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्योंका स्वामी कौन है ?

§ ७१९. यह पुच्छासूत्र सुगम है ।

* जिसने एकैन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मके साथ पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर और अन्तमुहूर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त करके अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना की ।

कालेण संजोएऊण सम्मत्तं पडिबएणो । वेङ्खावट्टिसागरोवमाणि अणुपाखियूए मिच्छुत्तं गओ तस्स आवलियमिच्छाइट्टिस्स जहएणयं णिसेयादो अधा णिसेयादो च द्विदिपत्तयं ।

§ ७२०. एइ'दियद्विदिसंतकम्मस्स जहणयस्सेत्थालं वणमणुवजोगी, अणंताणु-
वंधि विसंजोयणाए णिसंतीकरिय पुणो पडिवादेण अइरहस्सकालपडिवद्धेण संजोइय
पडिवणवेदयसम्मत्तम्मि अंतोमुहुत्तमेत्तणवक्कवंथं घेत्तूण परिभमिदवेङ्खावट्टिसागरोवम-
जीवम्मि सामित्तविहाणादो ? ण एस दोसो, सेसकसायणं जुत्तावत्थाए अधापवत्तेण
समद्विदिसंकमवहुत्तणिवारणट्टं तदव्युवगमादो । ण च समद्विदिसंकमस्स जहाणिसेय-
द्विदिपत्तयत्ताभावमवलंबिय पच्चवट्टेयं, जहाणिसित्तसरूवेण समद्विदीए संकंतस्स
पदेसगस्स तहाभावाविरोहादो । तम्हा गुणित्कम्मसिओ वा खविदकम्मसिओ वा
एइ'दियजहणद्विदिसंतकम्मेण सह गदो असणिणपंचिदिएसु तप्पाओगजहणंतो-
मुहुत्तमेत्तजीविएसुववज्जिय समयाविरोहेण देवेसुववणो । तदो अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं
घेत्तूण अणंताणुवंधि विसंजोइसा पुणो अंतोमुहुत्तेण संजुत्तो होदूण सव्वरहस्सेण

फिर जो सम्यक्त्वसे च्युत होकर और अनन्तानुबन्धीका संयोजन करके अति शीघ्र
सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । फिर जो दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका
पालन करके मिथ्यात्वमें गया । उसे वहाँ गए जब एक आवलि काल होता है तब
वह जीव जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त और यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्योंका स्वामी है ।

§ ७२०. शंका—प्रकृतमें एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मका आलम्बन करना
अनुपयोगी है, क्योंकि विसंयोजना द्वारा अनन्तानुबन्धीको निःसत्त्व करके फिर सम्यक्त्वसे
च्युत होकर और स्वल्प कालद्वारा अनन्तानुबन्धीसे पुनः संयुक्त होकर जो वेदकसम्यक्त्वको
प्राप्त हुआ है और जिसने अन्तर्मुहूर्तप्रमाण नवक समयप्रवर्द्धोंको ग्रहण करके दो छयासठ
सागर काल तक परिभ्रमण किया है उसके प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान किया है । इस
शंकाका आशय यह है कि जब कि विसंयोजनाके बाद पुनः संयुक्त होने पर दो छयासठ
सागरके बाद प्रकृत जघन्य स्वामित्व कहा है तब इस जीवको प्रारम्भमें एकेन्द्रियके योग्य जघन्य
सत्कर्मवाला वतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब यह जीव अनन्तानुबन्धीसे पुनः संयुक्त
होता है तब अधःप्रवृत्तसंक्रमणके द्वारा इसमें शेष कषायोंका बहुत समस्थितिसंक्रमन न प्राप्त हो
एतदर्थ उक्त वात स्वीकार की है ।

यदि कहा जाय कि जो शेष कषायोंका समस्थितिसंक्रमन हुआ है उसमें यथानिषेक-
स्थितिपना नहीं पाया जाता है सो ऐसा निश्चय करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यथानिषेक-
रूपसे समस्थितिमें जो द्रव्य संक्रान्त होता है उसे यथानिषेकस्थितिरूप माननेमें कोई बाधा
नहीं आती । इसलिये गुणितकमांश या क्षपितकमांश जो जीव एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थिति-
सत्कर्मके साथ तत्प्रायोग्य जघन्य अन्तर्मुहूर्तप्रमाण आयुवाले असंज्ञियोंमें उत्पन्न होकर यथाविधि
देवोमें उत्पन्न हुआ । तदनन्तर अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त करके और अनन्तानुबन्धीकी

कालेण सम्मत्तं पडिवण्णो । वेद्धावट्टिसागरोचमाणि समयविरोहेण समत्तमणुपालिय तदवसाणे भिच्छ्रं गदो तस्सावलियभिच्छाड्डिस्स पयदजहण्णसामित्तं होइ । ततो परं सेसकसायाणं समट्टिदिसंक्रमेण पडिच्छिदवहुदव्वावट्टाणेण जहण्णभावाणुवत्तीदो ।

❀ उदयट्टिदिपत्तयं जहण्णयं कस्स ?

§ ७२१. अणंताणुवंधिग्गहणमिहाणुवट्टे । सेसं सुगमं ।

❀ एइंदियकम्मेण जहण्णएण तसेसु आगदो । तम्हि संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता एइंदिए गओ । असंखेज्जाणि वस्साणि अच्छियूण उवसामयसमयपबट्टेसु गलिदेसु

विसंयोजना करके फिर अन्तर्मुहूर्तमें अनन्तानुबन्धीसे संयुक्त होकर अति स्वल्प कालद्वारा सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । फिर दो छयासठ सागर काल तक यथाविधि सम्यक्त्वका पालन करके अन्तमें मिथ्यात्वमें गया उसके मिथ्यात्वमें गये एक आवलि कालके अन्तमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है । एक आवलि कालके बाद जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं होता इसका कारण यह है कि एक आवलिके बाद शेष कषायोंका समस्थितिसंक्रमण होकर अनन्तानुबन्धीमें बहुत द्रव्य प्राप्त हो जाता है, अतः जघन्यपना नहीं बन सकता ।

विशेषार्थ—यहाँ अनन्तानुबन्धीके निपेकस्थितिप्राप्त और यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी बतलाया है । जिसे यह स्वामित्व प्राप्त कराना है उसका प्रारम्भमें एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मवाला होना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इससे विसंयोजनाके उपाद-जव यह जीव अनन्तानुबन्धीसे पुनः संयुक्त होता है तब इसके समस्थिति-संक्रमण अधिक नहीं पाया जाता है । यदि ऐसा न मानकर इसके स्थितिसत्कर्मको संज्ञीके योग्य मान लिया जाता तो इससे निपेकस्थितिप्राप्त और यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्य बहुत हो जाता और तब उक्त द्रव्यको जघन्य प्राप्त करना सम्भव न होता । यही कारण है कि प्रकृतमें एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितिसत्कर्मवाले जीवको ग्रहण करके प्रकृत जघन्य स्वामित्व ग्रहण किया गया है । फिर भी यह वचन उपलक्षणरूप है जिससे यहाँ ऐसा जीव भी लिया जा सकता है जिसका स्थितिसत्कर्म अधिकसे अधिक साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण हो, क्योंकि जिस स्थल पर जाकर जघन्य स्वामित्व प्राप्त करना है उससे एक समय कम स्थितिके रहते हुए संयुक्त अवस्थामें समस्थितिसंक्रमणके द्वारा निपेकस्थितिप्राप्त और यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्यके अधिक होनेका डर नहीं है । शेष कथन सुगम है ।

❀ उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ?

§ ७२१. इस सूत्रमें 'अणंताणुवंधि' इस पदका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि यहाँ उसकी अनुवृत्ति पाई जाती है । शेष कथन सुगम है ।

❀ जो कोई एक जीव एकेन्द्रियके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें आया । वहाँ संयमासंयम और संयमको बहुतवार प्राप्त करके और चार बार कषायोंका उपशम करके एकेन्द्रियोंमें गया । वहाँ असंख्यात वर्षों तक रहकर उपशामक-सम्बन्धी समयप्रबद्धोंके गल जाने पर पंचेन्द्रियोंमें गया । वहाँ अन्तर्मुहूर्तमें अनन्तानु-

पंचिदिएसु गदो । अंतोमुहुत्तेण अणंताणुबंधिं विसंजोजित्ता तदो संजोएऊण
जहणएणएण अंतोमुहुत्तेण पुणो सम्मत्तं लद्ध ए वेद्धावट्टिसागरोवमाणि
अणंताणुबंधिणो गालिदा । तदो मिच्छत्तं गदो तस्स आवलियमिच्छा-
इट्टिस्स जहणयसुदयट्टिदिपत्तयं ।

§ ७२२. ण एत्थ पुणो वि विसंजोइज्जमाणगणमणंताणुबंधीणं खविदकम्मंसियत्तं
णिरस्थयमिदि आसंकणिज्जं, संजुतावत्थाए सेसकसाएहिंतो पडिच्चिजमाण —
दव्वस्स जहणणीकरणेण फलोवलंभादो । तम्हा जो जीवो एइंदियजहणपदेससंत-
कम्मेण सह तसेसु आगदो । तत्थ य संजमासंजमादीणमसइं लंभेण चहुक्खुचो
कसायाणमुवसामणाए च गुणसेट्टिसखेण बहुदव्वगालणं काऊण पुणो एइंदिएसु
पलिदोवमासंखेज्जभागमेचाकालमच्छिय णिग्गालिदोवसामयसमयपवद्धो समयविरोहेण
पंचिदिएसुववज्जिय अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तग्गहणपुरस्सरमणंताणुबंधिं विसंजोइय संजुचो
सव्वलहुं सम्मत्तपडिलंभेण वेद्धावट्टिसागरोवमाणि अथट्टिदीए गालिय पडिवदिदो
तस्स आवलियमिच्छाइट्टिस्स पयदजहणणसामिचं होइ चि सिद्धं ।

बन्धीकी विसंयोजना करके तदनन्तर उससे संयुक्त हो जघन्य अन्तर्गृहर्तकाल द्वारा
फिरसे सम्यक्त्वको प्राप्त करके दो छयासठ सागर काल तक अनन्तानुबन्धियोंको
गलाता रहा । तदनन्तर मिथ्यात्वमें गया । उसे वहाँ गये जब एक आवलि काल होता
है तब वह उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है ।

§ ७२२. यदि यहाँ ऐसी आशंका की जाय कि जब अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना
होनेवाली है तब उन्हे पूर्वमें ही क्षपितकर्मांश बतलाना निरर्थक है तो ऐसी आशंका करना ठीक
नहीं है, क्योंकि संयुक्त अवस्थामें अनन्तानुबन्धीमें शेष कषायोको द्रव्य जघन्य होकर प्राप्त
होता है, इसलिये इसकी सफलता है । अतः जो जीव एकेन्द्रियके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ
त्रसोमें आया और वहाँ संयमासंयमादिककी अनेकवार होनेवाली प्राप्ति द्वारा और चार बार हुई
कषायोकी उपशामना द्वारा गुणश्रेणिरूपसे बहुत द्रव्यको गलाकर फिर एकेन्द्रियोंमें परत्यके
असंख्यातर्वे भागप्रमाण काल तक रहकर और वहाँ उपशामकसम्बन्धी समयप्रवद्धोको गलाकर
यथाविधि पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ । फिर अन्तर्गृहर्तमें सम्यक्त्वको ग्रहण करके अनन्तानु-
बन्धियोंकी विसंयोजना की । फिर उससे संयुक्त होकर और अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त करके
अधःस्थिति द्वारा दो छयासठ सागरप्रमाण स्थितियोंको गलाकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ उसके
मिथ्यात्वको प्राप्त हुए एक आवलि कालके होने पर प्रकृत जघन्य स्वाभित्व होता है यह वात
सिद्ध होती है ।

विशेषार्थ—यहाँ पूर्वमें क्षपितकर्मांशकी विधि बतलाकर फिर अनन्तानुबन्धीकी
विसंयोजना कराई गई है । इस पर शंकाकारका यह कहना है कि जब आगे चलकर अनन्तानु-
बन्धीकी विसंयोजना होनेवाली ही है तब पूर्वमें क्षपितकर्मांशपनेके विधान करनेकी क्या सफलता
है । इसका जो समाधान किया है उसका आशय यह है कि क्षपितकर्मांशकी विधि अन्य कषायों

✽ बारसकसायाणं णिसेयट्ठिदिपत्तयमुदयट्ठिदिपत्तयं च जहणण्यं कस्स ?

§ ७२३. सुगमं ।

✽ जो उषसंतकसाओ सो मदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवस्स जहणण्यं णिसेयट्ठिदिपत्तयमुदयट्ठिदिपत्तयं च ।

§ ७२४. एदस्स सुत्तस्सत्थो उदयादो जहण्णभीणट्ठिदियसामित्तमुत्तस्सेव वक्खाणेयव्वो । णवरि एत्थ पढमसमयसामित्तविहाणं साहिप्पाओ मिच्छत्तस्सेव वत्तवो ।

✽ अधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं जहणण्यं कस्स ।

§ ७२५. सुगमं ।

✽ अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णण्ण कम्मेण तसेसु उववण्णो । तत्थ तप्पाओग्गुक्कस्सट्ठिदिं बंधमाणस्स जद्देही आवाहा तावदिमसमए तस्स जहण्णयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं । अइक्कते काले कम्मट्ठिदिअंतो सइं पि तसो ण आसी ।

पर भी लागू होती है । इससे यह लाभ होता है कि जब यह जीव अनन्तानुबन्धीसे संयुक्त होता है तब अन्य कषायोंका कम द्रव्य अनन्तानुबन्धीरूपसे संक्रमित होता है । शेष कथन सुगम है ।

✽ वारह कषायोंके निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ।

§ ७२३. यह सूत्र सुगम है ?

✽ जो उपशान्तकषाय जीव मरकर देव हुआ है वह प्रथम समयवर्ती देव निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है ।

§ ७२४. जिस प्रकार उदयसे मीनस्थितिविषयक स्वामित्त सूत्रके अर्थका व्याख्यान किया है उसी प्रकार इस सूत्रके अर्थका व्याख्यान करना चाहिये । किन्तु यहाँ जो प्रथम समयमें स्वामित्तका विधान किया है सो मिथ्यात्वके समान इसका अभिप्राय सहित व्याख्यान करना चाहिये ।

✽ यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी कौन है ?

§ ७२५. यह सूत्र सुगम है ।

✽ अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ जो त्रसोंमें उत्पन्न हुआ है । किन्तु इसके पूर्व कर्मस्थितिप्रमाण कालके भीतर जो एक बार भी त्रस नहीं हुआ है । फिर वहाँ तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिको वाँधते हुए जितनी आवाधा होती है उसके अन्तिम समयमें वह यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका जघन्य स्वामी है ।

§ ७२६. एदस्स सुत्तस्सत्थो वुच्चदे । तं जहा—जो जीवो सन्वावांसयविसुद्धीए सुहुमणिगोदेसु कम्मद्विदिमणुपालिय अभवसिद्धियपाओगाजहण्णपदेससंतकम्मं काऊण तेण सह सण्णिपंचिदिएसु उववण्णो । एसो च जीवो अइक्कंते काले कम्मद्विदीए अब्भंतरे सइं पि तसो ण आसी । कम्मद्विदिअब्भंतरे तसपज्जायपरिणामे को दोसो चे ? एइंदियजोगादो असंखेज्जगुणतसकाइयजोगेण तत्थुप्पज्जिय बहुदव्वसंचयं कुणमाणस्स गिरुद्धिदीए जहण्णजहाणिसैयाणुप्पत्तिदोसदंसणादो । तसकाइएसु आगंतूण सम्मत्तुप्पत्तिसंजमासंजमादिगुणसेठिणिज्जराहिं पयदणिसेयस्स जहण्णीकरणवावारेणच्छमाणस्स लाहो दीसइं चि णासकणिज्जं, ओकडहुक्कड्डुणभागहारादो जोगुणागारस्स असंखेज्जगुणत्तेण अधाणिसेयदव्वस्स तत्थ णिज्जारादो आयस्स बहुत्तदंसणादो । तम्हा अइक्कंते काले कम्मद्विदिअब्भंतरे तसपज्जायपडिसेहो सफलो चि सिद्धं ।

§ ७२७. एत्थ कम्मद्विदि चि भणिदे पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागोणभहिय-एइंदियकम्मद्विदीए गहणं कायव्वं, सेसकम्मद्विदिअवलंबणे पयदोवजोगिफलविसेसा-पुवत्तंभादो । जइ एवं पच्छा वि तसभावपत्थणा णिरत्थिया चि ण पच्चवट्ठेयं,

§ ७२६. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । जो इस प्रकार है—जो जीव समस्त आवश्यकोकी विशुद्धिके साथ सूक्ष्मनिगोदियोंमें कर्मस्थितिप्रमाण काल तक रहा और अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कर्म को प्राप्त करके उसके साथ संज्ञी पंचेन्द्रियोमे उत्पन्न हुआ । किन्तु यह जीव इसके पूर्व कर्मस्थितिप्रमाण कालके भीतर एक बार भी त्रस नहीं हुआ ।

शंका—कर्मस्थिति कालके भीतर त्रस पर्यायके योग्य परिणामोके होनेमें क्या दोष है ?

समाधान—एकेन्द्रियके योगसे असंख्यातगुणे त्रसकायिकोंके योगके साथ त्रसोमें उत्पन्न होकर बहुत द्रव्यका संचय करनेवाले जीवके विवक्षित स्थितिमें जघन्य यथानिषेककी प्राप्ति नहीं हो सकती है । यही बड़ा दोष है जिससे इस जीवको कर्मस्थिति कालके भीतर त्रसोमें नहीं उत्पन्न कराया है । यदि ऐसी आशंका की जाय कि त्रसकायिकोमे आकर सम्यक्त्वकी उत्पत्ति और संयमासंयम आदिके निमित्तसे होनेवालो गुणश्रेणिनिर्जराओके द्वारा प्रकृत निषेकको जघन्य करनेमे लगे हुए जीवके लाभ दिखाई देता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षणरूप भागहारसे योगका गुणकार असंख्यातगुणा होनेके कारण यथानिषेक द्रव्यकी वहाँ निर्जराकी अपेक्षा आय बहुत देखी जाती है, इसलिये पिछले वीते हुए समयमें कर्मस्थितिके भीतर त्रसपर्यायका निषेध करना सफल है यह सिद्ध होता है ।

§ ७२७. यहाँ सूत्रमे जो 'कर्मस्थिति' का निर्देश किया है सो उससे पत्यके असंख्यातवें भागसे अधिक एकेन्द्रियके योग्य कर्मस्थितिका ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि शेष कर्मस्थितिका अवलम्बन करने पर प्रकृतमे उपयोगीरूपसे उसका कोई विशेष लाभ नहीं दिखाई देता है । यदि ऐसा है तो एकेन्द्रिय पर्यायसे निकलनेके वाद भी पीछेसे त्रसपर्यायमे उत्पन्न कराना निरर्थक है

उकङ्कणाणिबंधणलाहस्स अंतोमुहुत्तपडिवद्धस्स तत्थ दंसणादो त्ति जाणावणद्वमेद-
मोइण्णं 'तत्थ तप्पाओग्गमुक्कस्सट्ठिदिं वंधमाणस्स' इच्चादि । तत्थुप्पण्णपढमसमए चेव
तप्पाओग्गमुक्कस्ससंकिलेसेण तप्पाओग्गमुक्कस्सट्ठिदिंमंतोमुहुत्तमावाहं काऊण वंधइ ।
एवं बंधमाणस्स जहेही एसा तप्पाओग्गमुक्कस्सिया आवाहा तेत्तियमेत्तकालमुक्कङ्कणाए
वावदस्स तस्स तावदिपसमयतसस्स पयदजहण्णसामित्तं होइ त्ति एसो एदस्स भावत्थो,
उवरिं सामित्ताविहाणं पि तत्थ तसकाइयणवगबंधस्सावट्ठाणादो । एत्थ संचयादि-
परूवणा जाणिय कायव्वा ।

❀ एवं पुरिसवेद-हस्स-रइ-भय दुगुंळ्ळाणं ।

सो ऐसा निश्चय करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक अन्तर्मुहूर्त काल तक होनेवाला उत्कर्षण-
निमित्तक लाभ वहाँ देखा जाता है। और इसी बातके बतलानेके लिये सूत्रमें 'तत्थ तप्पाओग्ग-
मुक्कस्सट्ठिदिं वंधमाणस्स' इत्यादि वाक्य कहा है। त्रसोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही तप्रायोग्य
उत्कृष्ट संक्लेशके द्वारा तद्योग्य उत्कृष्ट स्थितिको बंधता है जिसका आवाधा काल अन्तर्मुहूर्त
प्रमाण होता है। इस प्रकार बन्ध करनेवाले इस जीवके तद्योग्य जितनी उत्कृष्ट आवाधा होती है
उतने काल तक उत्कर्षणमें लगे हुए इस त्रसजीवके अन्तिम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता
है यह इस सूत्रका भावार्थ है। इसके आगे स्वामित्वका विधान इसलिये नहीं किया है, क्योंकि
वहाँ त्रसकायिकके नयकवन्धका सद्भाव पाया जाता है। यहाँ पर संचय आदिकी प्ररूपणा
जानकर कर लेनी चाहिए।

विशेषार्थ—आशय यह है कि अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कर्म करनेके लिये पहले
इस जीवको पल्यके असंख्यातवर्षे भागसे अधिक कर्मस्थितिप्रमाण काल तक सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें
रहने दे। तथा इसका एकेन्द्रियोंमें रहनेका जो काल है उस कालके भीतर इसे त्रसोंमें उत्पन्न
कराना युक्त नहीं है, क्योंकि इससे लाभके स्थानमें हानि अधिक है। लाभ तो यह है कि
अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा प्रकृत निषेकका द्रव्य उत्तरोत्तर कम होता जाता है पर जितना यह द्रव्य
कम होता है उससे बहुत अधिक न्यूनतम द्रव्य उसमें प्राप्त होता रहता है, क्योंकि अपकर्षण-उत्कर्षण
गुणकारसे योगशुणकार असंख्यातगुणा बड़ा है। इसलिये जब तक अभव्योंके योग्य जघन्य द्रव्य
नहीं होता तब तक इसे एकेन्द्रियोंमें ही रहने दे। फिर वहाँसे त्रसोंमें उत्पन्न करावे, यहाँ उत्पन्न
होने पर तद्योग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे तद्योग्य उत्कृष्ट आवाधा प्राप्त करनेके लिये उत्कृष्ट स्थितिवन्ध
करावे। फिर आवाधाके अन्तिम समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व प्राप्त करे। आवाधाके अन्तिम
समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व प्राप्त करानेमें दो लाभ हैं। एक तो त्रसपर्यायमें आने पर जितने
स्थान ऊपर जाकर जघन्य स्वामित्व प्राप्त हुआ है उतने गोपुच्छविशेषोंकी हानि देखी जाती है
और दूसरे उदयावृत्तिके सिवा उतने काल तक उत्कर्षण होता रहता है जिससे प्रकृत निषेकका
द्रव्य उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता जाता है। इस प्रकार बारह कपायोंके यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका
जघन्य स्वामी कौन है, इसका विचार किया।

* इसी प्रकार पुरुषवेद, हास्य, रति, भय और जुगुप्साके विषयमें भी जानना
चाहिये।

§ ७२८. जहा वारसकसायाणं तिण्ह पि द्विदिपत्तयाणं जहण्णसामिन्तं परुविदं तथा एदेसि पि कम्माणं परुवेयन्वं, विसेसाभावादो ।

❀ इत्थिण्वुं सयवेद-अरदि-सोगाणमधाणिसेयादो जहण्णयं द्विदिपत्तयं जहा संजलणाणं तथा कायन्वं ।

§ ७२९. अभवसिद्धियपाओग्गजहणपदेससंतकम्मणेण सह तसकाइएमुप्पाइय आवाहाचरिमसमए सामित्तविहाणेण विसेसाभावादो ।

❀ जम्हि अधाणिसेयादो जहण्णयं द्विदिपत्तयं तम्हि चेष णिसेयादो जहण्णयं द्विदिपत्तयं ।

§ ७३०. सुगममेदमप्पणासुत्तं, पुव्विज्जादो अविसिट्ठपरुवणत्तादो ।

❀ उदयद्विदिपत्तयं जहा उदयादो ऋणद्विदियं जहण्णयं तथा णिरवययं कायन्वं ।

§ ७३१. सुगममेदमप्पणासुत्तं ।

एवं जहण्णसामिन्तं समत्तं ।

—:०—

§ ७२८. जिस प्रकार वारह कपायोके तीनो ही स्थितिप्राप्त द्रव्योके जघन्य स्वामित्वका कथन किया है उसी प्रकार पूर्वोक्त कर्मोंके विषयमें भी जानना चाहिये, क्योंकि इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है ।

* स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोकके जघन्य यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका कथन संज्वलनोंके समान करना चाहिए ।

§ ७२९. क्योंकि दोनों स्थलोमे अभवयोके योग्य जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसकायिकोंमें उत्पन्न होकर आवाधाके अन्तिम समयमे स्वामित्वका विधान किया है, इसलिए उनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है ।

* उक्त कर्मोंका जिस स्थलपर जघन्य यथानिपेकस्थितिप्राप्त द्रव्य होता है उसी स्थलपर जघन्य निपेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका भी कथन करना चाहिये ।

§ ७३०. यह अर्पणासूत्र सुगम है, क्योंकि इसका व्याख्यान पूर्वोक्त सूत्रके व्याख्यानके समान है ।

* तथा उक्त कर्मोंके जघन्य उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका सम्पूर्ण कथन उदयसे भूनिस्थितियाले जघन्य द्रव्यके समान करना चाहिये ।

§ ७३१. यह अर्पणासूत्र सुगम है ।

इस प्रकार जघन्य स्वामित्वका कथन समाप्त हुआ ।

—०—

❀ अप्पावहुअं ।

§ ७३२. सुगममेदमहियारसंभालणसुत्तं । तं च दुविहं जहण्णुक्कस्सभेएण ।
तत्थुक्कस्सप्पावहुअपरुवणद्वसुत्तरसुत्तारंभो—

❀ सव्वपयडीणं सव्वत्थोवसुक्कस्सयमग्गट्ठिदिपत्तयं ।

§ ७३३. कुदो ? उक्कस्सजोगेण वद्धेयसमयपवद्धे अंगुलस्सासंखे०भागेण
खंडिदे तत्थेयखंडपमाणत्तादो ।

❀ उक्कस्सयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयमसंखेज्जगुणं ।

§ ७३४. एत्थ गुणगारपमाणमोकड्डुकड्डुणभागहारपदुप्पणकम्मट्ठिदिणाणागुण-
हाणिसत्तागण्णोण्णव्भत्थरासिमेत्तं । णवरि तिण्णिवेदचदुसंजलणार्णं तप्पाओग्गसंखेज्ज-
रुओवट्ठिदअंगुलस्सासंखे०भागमेत्तो गुणगारो । एत्थोवट्ठणं ठविय सिस्साणं गुणगार-
विसओ पडिओहो कायव्वो ।

❀ णिसेयट्ठिदिपत्तयसुक्कस्सयं विसेसाहियं ।

§ ७३५. केत्तियमेत्तेण ? ओकड्डुकड्डुणाहिं गंतूण पुणो वि तत्थेव पदिददव्व-

* अव अल्पवहुत्वका अधिकार है ।

§ ७३२. अधिकारका निर्देश करनेवाला यह सूत्र सुगम है । वह अल्पवहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । अव इनमेंसे उत्कृष्ट अल्पवहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है ।

§ ७३३. क्योंकि उत्कृष्ट योगसे बंधि गए एक समयप्रबद्धमें अङ्गुलके असंख्यातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना इसका प्रमाण है, इसलिये यह सबसे थोड़ा है ।

* उससे उत्कृष्ट यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है ।

§ ७३४. यहाँपर अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे कर्मस्थितिके भीतर प्राप्त हुईं नानागुणहानि-
शक्ताकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिकी गुणा करनेपर जो लब्ध आवे उतना गुणकारका प्रमाण है । अर्थात् इस गुणकारसे उत्कृष्ट अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यके गुणित करनेपर उत्कृष्ट यथानिषेकस्थिति-
प्राप्त द्रव्य प्राप्त होता है यह इसका भाव है । किन्तु इतनी विशेषता है कि अङ्गुलके असंख्यातवें भागमें तत्प्रायोग्य संख्यात अङ्गुलका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना तीन वेद और चार संख्यलनोंकी अपेक्षा गुणकार होता है । यहाँपर भागहारको स्थापित करके शिष्योंको गुणकार-
विषयक ज्ञान कराना चाहिये ।

* उससे उत्कृष्ट निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य विशेष अधिक है ।

§ ७३५. डांका—कितना अधिक है ?

समाधान—अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा जो द्रव्य व्ययको प्राप्त होता है उक्त .

मेत्तेण । तं पुण अघाणिसेयदव्वस्स असखे० भागमेत्तं । तस्स पडिभागो ओकड्डुकड्डुण-
भागहारो ।

❀ उदयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयमसंखेज्जगुणं ।

§ ७३६. कुदो ? सव्वेसिं कम्माणं गुणसेडिगोबुच्चोदएण पत्तुक्कस्सभावत्तादो ।
एत्थ गुणगारो सम्पत्तस्स अंगुलस्स असंखेदिभागो । लोहसंजलजस्स संखेज्जरूवगुणिद-
दिवड्डुगुणहाणिमेत्तो । तिण्णिसंजलण-तिवेदाणं तप्पाओग्गपल्लिदोवमासंखेज्जदिभागमेत्तो ।
सेसकम्माणमसंखेज्जपल्लिदोवमपढमवग्गमूलमेत्तो । एत्थोवट्टणं ठविय सिस्साणं पडिवोहो
कायव्वो ।

एवमुक्कस्सण्पावहुअं समत्तं ।

❀ जहण्णयाणि कायव्वाणि ।

§ ७३७. एत्तो उवरि जहण्णद्विदिपत्तयाणमण्पावहुअं कायव्वमिदि भणिदं
होइ ।

❀ सव्वत्थोवं मिच्छत्तस्स जहण्णयमग्गद्विदिपत्तयं ।

§ ७३८. किं कारणं ? एगपरमाणुपमाणत्तादो ।

फिरसे वहाँ प्राप्त होनेपर जितना इसका प्रमाण है उतना अधिक है किन्तु यह यथानिवेकस्थितिप्राप्त
द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । उसका प्रतिभाग अपकर्षण-उत्कर्षण भागहार है ।

* उससे उत्कृष्ट उदयस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है ।

§ ७३६. क्योंकि सभी कर्मोंके गुणश्रेणिगोपुच्छाके उदयसे इस उत्कृष्ट द्रव्यकी प्राप्ति
होती है, इसलिए यह उत्कृष्ट निषेकस्थितिप्राप्तसे भी असंख्यातगुणा है । यहाँ सम्यक्त्वका गुणकार
अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । लोभसंज्वलनका गुणकार संख्यात अङ्गुसे गुणित डेढ़
गुणहानिप्रमाण है । तीन संज्वलन और तीन वेदोंका गुणकार तद्योग्य पत्त्यके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण है । तथा शेष कर्मोंका गुणकार पत्त्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण है । यहाँ पर
भागहारका स्थापित करके शिष्योको प्रतिबोध कराना चाहिये ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पवहुत्व समाप्त हुआ ।

* अब जघन्य अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये ।

§ ७३७. अब इससे आगे जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्योके अल्पवहुत्वका कथन करना चाहिये,
यह इस सूत्रका तात्पर्य है ।

* मिथ्यात्वका जघन्य अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है ।

§ ७३८. क्योंकि इस प्रमाण एक परमाणु है ।

❀ जहणयणं णिसेयद्विदिपत्तयं अणंतगुणं ।

§ ७३६. कुदो ? अणंतपरमाणुपमाणत्तादो ।

❀ जहणयणमुदयद्विदिपत्तयमसंखेज्जगुणं ।

§ ७४०. कथमेदेसिमुवसमसम्माइद्विपच्छायदपठमसमयमिच्छाइद्विणोदीरिदा-संखेज्जलोगपडिभागियदव्वपडिवद्धत्तेण समाणसामियाणमणोणमत्रेक्खिय असंखेज्ज-गुणहीणाहियभावो त्ति णासंकणिज्जं, समाणसामियत्ते वि दव्वविसेसावल्लवणेण तहाभावाविरोहादो । तं जहा—णिसेयद्विदिपत्तयस्स अहियारद्विदीए अंतरं करेमाणेण उवरिमुक्कड्ढिदपदेसा पुणो संकिलेसवसेणासंखेज्जलोगपडिभाएणोदीरिदा सामित्त-विसईकया उदयादो जहणणद्विदिपत्तयस्स पुण अंतोकोडाकोहीमेत्तोवरिमासेसद्विदीहितो ओक्कड्ढिय उदीरिदसव्वपरमाणु सामित्तपडिगहिया तदो जइ वि एकम्मि चे उद्देसे दोण्हं सामित्तं संजादं तो वि णाणेयणिसेयपडिवद्धत्तेण असंखेज्जगुणहीणाहियभावो ण विरुद्धदे । एत्थ गुणयारोक्कड्ढुकड्ढुणभागहारोवद्विददिवड्ढुगुणहाणिवग्गमेत्तो ।

* उससे जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य अनन्तगुणा है ।

§ ७३९. क्योंकि इसका प्रमाण अनन्त परमाणु है ।

* उससे जघन्य उदयस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है ।

§ ७४०. शंका—जब कि अपशमसम्यक्त्यसे पीछे आकर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात लोकका भाग देकर जितने द्रव्यकी उदीरणा करता है उसकी अपेक्षा इन दोनोंका स्वामी समान है तब फिर इनमेंसे एकको असंख्यातगुणा हीन और दूसरेको असंख्यातगुणा अधिक क्यों बतलाया है ?

समाधान—ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि इनका स्वामी समान है तथापि द्रव्यविशेषकी अपेक्षा ऐसा होनेमें कोई विरोध नहीं आता । खुलासा इस प्रकार है—निषेकस्थितिप्राप्तकी अपेक्षासे अन्तरको करनेवाले जीवके द्वारा विचक्षित स्थितिके जिन कर्मपरमाणुओंका उत्कर्षण करके ऊपर निक्षेप किया है उनमेंसे संकेशरके कारण असंख्यात लोकका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतने वे ही कर्मपरमाणु उदीर्ण होकर स्वामित्वके विषयभूत होते हैं । किन्तु जघन्य उदयस्थितिप्राप्तकी अपेक्षा तो अन्तःकोडाकोड़ीप्रमाण ऊपरकी सब स्थितियोंमेंसे अपकर्षण होकर उदीरणाको प्राप्त हुए सब परमाणु स्वामित्वरूपसे स्वीकार किये गये हैं, इसलिये यद्यपि एक ही स्थलपर दोनों स्थितिप्राप्त द्रव्योंका स्वामित्व होता है तो भी एक स्थितिप्राप्तमें नाना निषेकोंके कर्मपरमाणु हैं और दूसरेमें एक निषेकके कर्मपरमाणु हैं, इसलिए इनके परस्परमें असंख्यातगुणों अधिक और असंख्यातगुणों हीन होनेमें कोई विरोध नहीं आता है । यहाँ पर अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारका डेढ़ गुणहानिके वर्गमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना गुणकारका प्रमाण है ।

❀ जहणणयमधाणिसेयट्टिदिपत्तयमसंखेज्जगुणं ।

§ ७४१. एत्थ गुणगारपमाणमसंखेज्जा लोगा तप्पाओगासंखेज्जखाणि वा । कथमसंखेज्जलोगमेत्तगुणयारूपत्ती ? उच्चदे—उदयट्टिदिपत्तयस्स जहणणदव्वे इच्छिज्जमाणे दिवड्डुगुणहाणिमेत्तसमयपवद्धे ठविय तेसिं ओकड्डुक्कड्डुणभागहारेण पट्टुप्पणा असंखेज्जा लोगा भागहारसरूवेण ठवेयव्वा । एवं ठविदे इच्छिददव्वमागच्छइ । जहाणिसेयट्टिदिपत्तयस्स पुण जहणणदव्वं संखेज्जावलियमेत्तसमयपवद्धे अंगुत्तस्स असंखेज्जदिभागेण खंडिय तत्थेयखंडमेत्तं होइ । एदस्सोवट्टणे ठविज्जमाणे संखेज्जावलियमेत्तसमयपवद्धाणं वेद्धावट्टिसागरोवमभंत्तरणाणागुणहाणिं विरलिय विगुणिय अण्णोण्ण-व्भत्थरासिम्मि भागहारत्तेण ठविदे गलिदसेत्तदव्वमागच्छइ । एवं च सव्वदव्वमुत्तरिम-अंतोकोडाकोडीमेत्तट्टिदिविसेसेसु विहज्जिय ट्टिदमधाणिसेयजहणणसामित्तविसईकय-गोवुच्छपमाणेण कीरमाणं दिवड्डुगुणहाणिपमाणं होइ त्ति दिवड्डुगुणहाणी वि एदस्स भागहारो ठवेयव्वो । एवं ठविदे इच्छिददव्वमागच्छइ । पुणो एदम्मि पुव्विज्जलदव्वे-णोवट्टिदे असंखेज्जा लोगा गुणगारो आगच्छइ ।

७४२. अहवा जहाणिसेयट्टिदिपत्तयस्स वि असंखेज्जा लोगा भागहारो ।

* उससे जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है ।

§ ७४१. यहाँ पर गुणकारका प्रमाण असंख्यात लोक है या तत्प्रायोग्य असंख्यात अङ्क है ।

शंका — असंख्यात लोकप्रमाण गुणकारकी उत्पत्ति कैसे होती है ?

समाधान—उदयस्थितिप्राप्त जघन्य द्रव्यको लानेकी इच्छासे डेढ़ गुणहानिप्रमाण समय-प्रबद्धोको स्थापित करके उनके भागहाररूपसे अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारके द्वारा उत्पन्न किये गये असंख्यात लोकोको स्थापित करना चाहिये । इस प्रकार स्थापित करनेपर इच्छित द्रव्यका प्रमाण आ जाता है । किन्तु यथानिषेकस्थितिप्राप्तका जघन्य द्रव्य तो संख्यात आवलिप्रमाण समय-प्रबद्धोके अङ्गुत्तके असंख्यातवे भागका भाग देनेपर जो एक भाग आवे उतना होता है । इसका भागहार स्थापित करनेपर संख्यात आवलिप्रमाण समयप्रबद्धोके भागहाररूपसे दो छयासठ सागरके भीतर प्राप्त हुईं नाना गुणहानिशलाकाओंको विरलन करके थोर दूना करके परस्पर गुणा करनेसे जो अन्योन्याभ्यस्त राशि उत्पन्न होती है उसे स्थापित करनेपर गलकर जो द्रव्य शेष रहता है उसका प्रमाण आ जाता है । इस प्रकार ऊपरके अन्तःकोडकाडो प्रमाण स्थितिविशेषोंमें जो सब द्रव्य विभक्त होकर स्थित है उसके यथानिषेकके जघन्य स्वामित्वके विषयभूत गोपुच्छके बराबर हिस्से करनेपर वे डेढ़ गुणहानिप्रमाण प्राप्त होते हैं, इसलिए डेढ़ गुणहानिको भी इसके भागहाररूपसे स्थापित करना चाहिए । इस प्रकार स्थापित करनेपर इच्छित द्रव्यका प्रमाण आ जाता है । फिर इसमें पूर्वोक्त द्रव्यका भाग देनेपर असंख्यात लोकप्रमाण गुणकार प्राप्त होता है ।

§ ७४२. अथवा यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका भी असंख्यात लोकप्रमाण भागहार होता है,

कुदो ? पुच्वपरुविदभागहारे संते पुणो वि ओकडुणमस्सियुण्णपणवेद्धावट्टिसागरोवम-
 ष्भंतराणाणुणहानिसलागाणमसंखेज्जपल्लिदोवमपढमवग्गमूलमेत्ताणं अण्णोण्णवभत्थ-
 रासीए असंखेज्जलोगपमाणाए भागहारत्तेण पवेसदंसणादो । तदो एदम्मि हेट्ठिमरासिणा
 ओवट्टिदें तप्पाओग्गासंखेज्जरुवमेत्तो गुणगारो आगच्छदि त्ति घेत्तव्वं ।

❀ एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-बारसकसाय-पुरिसवेद हस्स-रह-भय-
 दुगुञ्जाणं ।

§ ७४३. जहा मिच्छत्तस्स जहण्णओ अप्पावहुगआलावो कओ तहा सम्मत्तादि-
 पयडीणं पि अण्णहाहिओ कायव्वो, विसेसाभावादो । णवरि साभित्ताणुसारेण
 गुणयारविसेसो जाणियव्वो ।

❀ अणंताणुवंधीयं सव्वत्थोवं जहण्णयमग्गट्टिदिपत्तयं ।

§ ७४४. सुगमं ।

❀ जहण्णयमधाणिसेयट्टिदिपत्तयमणंतगुणं ।

§ ७४५. एत्थ वि कारणं सुगमं ।

❀ जहण्णयं णिसेयट्टिदिपत्तयं विसेसाहियं ।

क्योंकि पूर्वोक्त भागहारके रहते हुए फिर भी अपकर्षणकी अपेक्षा दो छयासठ सागरके भीतर
 उत्पन्न हुई पल्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण नाना गुणहानिरालाकाओंकी असंख्यात
 लोकप्रमाण अन्योन्याभ्यस्त राशिका भागहाररूपसे प्रवेश देखा जाता है । फिर इसे नीचेकी
 राशिसे भाजित करनेपर तत्प्रायोग्य असंख्यात अङ्कप्रमाण गुणकार आता है ऐसा यहाँ ग्रहण
 करना चाहिए ।

* इसी प्रकार सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, वारह काषाय, पुरुषवेद, हास्य,
 रति, भय और जुगुप्सा इनका भी जघन्य अल्पबहुत्व कहना चाहिए ।

§ ७४३. जिस प्रकार मिथ्यात्वके जघन्य अल्पबहुत्वका कथन किया है न्यूनाधिकताके
 विना उसी प्रकार सम्यक्त्व आदि प्रकृतियोंके अल्पबहुत्वका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि
 मिथ्यात्वके कथनसे इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि सबकी
 अपेक्षा गुणकार एकसा नहीं है इसलिए अपने अपने स्वामीके अनुसार गुणकार जानना चाहिये ।

* अनन्तानुबन्धियोंका जघन्य अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्य सबसे थोड़ा है ।

§ ७४४. इस सूत्रका अर्थ सुगम है ।

* उससे जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य अनन्तगुणा है ।

§ ७४५. यहाँ जो जघन्य अग्रस्थितिप्राप्त द्रव्यसे जघन्य यथानिषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यको
 अनन्तगुणा बतलाया है सो इसका कारण सुगम है ।

* उससे जघन्य निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्य विशेष अधिक है ।

§ ७४६. एदं पि सुगमं, समाणसामियत्ते वि दव्वगयविसेसमस्सियुण विसेसाहिय-
भावस्स पुव्वमेव समत्थियत्तादो ।

❀ जहणयसुदयद्विदिपत्तयमसंखेज्ज शुणं ।

§ ७४७. कुदो ? सामित्तभेदाभावे वि सेसकसाएहितो पडिच्चियुणकड्ढिद-
दव्वमाहप्येण पुव्विज्जादो एदस्सासंखेज्जगुणत्तदंसणादो । एत्थ गुणगारो असंखेज्जा
लोगा ।

❀ एवमित्थिवेद-णत्तुंसयवेद-अरदि-सोगाणं ।

§ ७४८. जहा अणंताणुवंधिचउक्कस्स जहण्णद्विदिपत्तयाणमप्पावहुअं परव्वियं
एवं पयदकम्माणं पि परव्वेयव्वं; दव्वद्विपणयावलं वणे विसेसाणुवलंभादो । पज्जवद्वियणए
पुण अवलंविज्जमाणे सामित्ताणुसारेण गुणयारविसेसो जाणियव्वो ।

एवमप्पावहुअं समत्तं । तदो द्विदियं ति पदस्स विहासा समत्ता । एत्थेव
'पयडी य मोहणिज्जा' एदिस्से मूलगाहाए अत्थो समत्तो ।

तदो पदेसविहत्ती सचूलिया समत्ता ।

—:०:—

§ ७४६. यह सूत्र भी सुगम है । यद्यपि यथानिषेक और निषेकस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी
एक है तथापि द्रव्यगत विशेषताकी अपेक्षासे विशेषाधिकता होती है इसका समर्थन पहले ही
कर आये है ।

* उससे जघन्य उदयस्थितिप्राप्त द्रव्य असंख्यातगुणा है ।

§ ७४७. क्योंकि यद्यपि निषेकस्थितिप्राप्त और उदयस्थितिप्राप्त द्रव्यका स्वामी एक है
तथापि शेष कषायोसे संक्रमित होकर उत्कर्षणको प्राप्त हुए द्रव्यके माहात्म्यसे पूर्वकी अपेक्षा
यह असंख्यातगुणा देखा जाता है । यहाँ पर गुणकारका प्रमाण असंख्यात लोक है ।

* इसीप्रकार स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोकका अल्पवहुत्व जानना
चाहिये ।

§ ६४८. जिसप्रकार अनन्तानुबन्धियोंके चारो जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्योका अल्पवहुत्व कहा
है इसीप्रकार प्रकृत कर्मोंके जघन्य स्थितिप्राप्त द्रव्योंका अल्पवहुत्व भी कहना चाहिये, क्योंकि
द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं पायी जाती । पर्यायार्थिक नयका
अवलम्बन करने पर तो स्वामित्वके अनुसार गुणकारविशेष जानना चाहिये ।

इसप्रकार अल्पवहुत्वके समाप्त होनेपर 'द्विदियं' पदका विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ ।
तथा यहाँ पर 'पयडी य मोहणिज्जा' इस मूल गाथाका अर्थ समाप्त हुआ ।

इसप्रकार चूलिका संहित प्रदेशविभक्ति समाप्त हुई ।

—:०:—



१ पदेसविहत्तिचुरिणसुत्ताणि

पुस्तक ६

१पदेसविहत्ती दुविहा—मूलपयडिपदेसविहत्ती उत्तरपयडिपदेसविहत्ती च । तत्थ मूलपयडिपदेसविहत्तीए गदाए २उत्तरपयडिपदेसविहत्तीए एगजीवेण सामित्तं । ३मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्ती कस्स ? वादरपुढविजीवेसु कम्मडिदिमिच्छिदाउओ तदो उवट्ठिदो तसकाए वेसागरोवमसहस्साणि सादिरेयाणि अच्चिदाउओ अपच्चिमाणि तेत्तीसं सागरोवमाणि दोभवग्गहणाणि तत्थ अपच्चिमे तेत्तीसं सागरोवमिए णेरइयभवग्गहणे चरिमसमयणेरइयस्स तस्स मिच्छत्तस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । ४एवं वारसकसाय-उण्णोकसायाणं । ५सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ को होदि ? गुणिदकम्मस्सिओ दंसणमोहणीयक्खवओ जम्मि मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्ते पक्खित्तं तम्मि सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ । ६सम्मत्तस्स वि तेणेव जम्मि सम्मामिच्छत्तं समत्ते पक्खित्तं तस्स सम्मत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मं । ७णुंसयवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ ईसाणं गदो तस्स चरिमसमयदेवस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । ८इत्थिवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ असंखेज्जवस्साउए गदो तम्मि पलिदोवमस्स असंखेज्जिदिभागेण जम्हि पूरिदो तस्स इत्थिवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । ९पुरिसवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ ईसाणेण्णु णुंसयवेदं पूरेदूण तदो कमेण असंखेज्जवस्साउएसु उववण्णो । तत्थ पलिदोवमस्स असंखेज्जिदिभागेण इत्थिवेदो पूरिदो । तदो सम्मत्तं लुब्भिदूण मदो पलिदोवमट्ठिदीओ देवो जादो । तत्थ तेणेव पुरिसवेदो पूरिदो । तदो चुदां मणुसो जादो सव्वलहुं कसाए खवेदि । तदो णुंसयवेदं पक्खिविदूण जम्हि इत्थिवेदो पक्खित्तो तस्समए पुरिसवेदस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । १०तेणेव जाधे पुरिसवेद-उण्णोकसायाणं पदेसग्गं कोधसंजलणे ११पक्खित्तं ताधे कोधसंजलणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । १२एसेव कोधो जाधे माणे पक्खित्तो ताधे माणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । १३एसेव माणो जाधे मायाए पक्खित्तो ताधे मायासंजलणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं । एसेव माया जाधे लोभसंजलणे पक्खित्ता ताधे लोभसंजलणस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं ।

(१) पृ० २ । (२) पृ० ६० । (३) पृ० ७२ । (४) पृ० ७६ । (५) पृ० ८१ । (६) पृ० ८८ ।
 (७) पृ० ६१ । (८) पृ० ६६ । (९) पृ० १०४ । (१०) पृ० ११० । (११) पृ० १११ । (१२) पृ० ११३ ।
 (१३) पृ० ११४ ।

'मिच्छत्तस्स जहण्णपदेससंतकम्मिओ को होदि ? सुहुमणिगोदेसु कम्मद्विदि-
मच्छिदाउओ तत्थ सन्ववहुआणि अपज्जत्तभवग्गहणाणि दीहाओ अपज्जत्तद्धाओ
तप्पाओग्गजहण्णयाणि जोगट्ठाणाणि अभिक्खं गदो । तदो तप्पाओग्गजहण्णियाए
वड्डीए वड्ढिदो । जदा जदा आउअं बंधदि तदा तदा तप्पाओग्गजहण्णिएसु जोगट्ठाणेसु
वट्ठदि हेट्ठिल्लीणं द्विदीणं णिसेयस्स उक्कस्सपदेसतप्पाओग्गं उक्कस्सविसोहिमभिक्खं
गदो । जाथे अभवसिद्धियपाओग्गं जहण्णगं कम्मं कदं तदो तसेसु आगदो । संजमा-
संजमं संजमं सम्मतं च बहुसो लद्धो । चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता तदो
वेज्जावट्ठिसागरोवमाणि सम्मतमणुपालेदूण तदो दंसणमोहणीयं खवेदि । अपच्छिम-
ट्ठिद्विखंडयमविणिज्जमाणयमवणिदमुदयावलियाए जं तं गलमाणं तं गलितं । जाथे
एक्किस्से द्विदीए दुसमयकालट्ठिदिगं सेसं ताथे मिच्छत्तस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं ।
'तदो पदेसुत्तरं दुपदेसुत्तरमेवमणंताणि ट्ठाणाणि तम्मि द्विदिविसेसे । 'केण कारणेण ?
जं तं जहाक्खयागदं तदो उक्कस्सयं पि समयपवद्धमेत्तं । 'जो पुण तम्मि एक्कम्मि
द्विदिविसेसे उक्कस्सगस्स विसेसो असंखेज्जा समयपवद्धा । 'तस्स पुण जहण्णयस्स
संतकम्मस्स असंखेज्जदिभागो । 'एदेण कारणेण एयं फड्ढयं । 'दोसु द्विदिविसेसेसु
विदियं फड्ढयं । 'एवमावलियत्तमयूणमेत्ताणि फड्ढयाणि । 'अपच्छिमस्स द्विद्विखंडयस्स
चरिमत्तमयजहण्णफड्ढयमादिं कादूण जाव मिच्छत्तस्स उक्कस्सं ति एदमेगं फड्ढयं ।

'सम्पामिच्छत्तस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? तथा चेव सुहुमणिगोदेसु
कम्मद्विदिमच्छिदूण तदो तसेसु संजमासंजमं संजमं सम्मतं च बहुसो लद्धूण चत्तारि
वारे कसाए उवसामेदूण वेज्जावट्ठिसागरोवमाणि सम्मतमणुपालेदूण मिच्छत्तं गदो ।
दीहाए उव्वेलणद्धाए उव्वेलिदं तस्स जाथे सन्वं उव्वेत्थिदं उदयावलिया गलिदा
जाथे दुसमयकालट्ठिदियं एक्कम्मि द्विदिविसेसे सेसं ताथे सम्पामिच्छत्तस्स जहण्णं
पदेससंतकम्मं । 'तदो पदेसुत्तरं । 'दुपदेसुत्तरं । णिरंतराणि ट्ठाणाणि उक्कस्सपदेस-
संतकम्मं ति । 'एवं चेय सम्मतस्स वि । 'दोण्हं पि पदेसिं संतकम्माणमेगं फड्ढयं ।

'अट्ठण्हं कसायाणं जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? अभवसिद्धियपाओग्ग-
जहण्णयं काऊण तसेसु आगदो संजमासंजमं संजमं सम्मतं च बहुसो लद्धूण
चत्तारिवारे कसाए उवसामिदूण एदंदिए गदो । तत्थ पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग-
मच्छिदूण कम्मं हदसमुप्पत्तियं कादूण कालं गदो तसेसु आगदो कसाए खवेदि

(१) पृ० १२४-१२५ । (२) पृ० १५६ । (३) पृ० १५७ । (४) पृ० १५६ । (५) पृ० १६२ ।
(६) पृ० १६३ । (७) पृ० १६४ । (८) पृ० १६६ । (९) पृ० १६७ । (१०) पृ० २०२-२०३ । (११) पृ०
२१७ । (१२) पृ० २१८ । (१३) पृ० २४४ । (१४) पृ० २४५ । (१५) पृ० २४६ ।

अपच्छिमे द्विदिवंढए अवगदे अधद्विदिगलणाए उदयावलियाए गलतीए एकस्से द्विदीए सेसाए तम्मि जहण्णयं पदं । तदो पदेसुत्तरं । गिरंतराणि द्वाणाणि जाव एगद्विदिविसेसस्स उक्कस्सपदं । एदमेगफदयं । एदेण कमेण अट्टण्हं पि कसायाणं समययूणावलियमेत्ताणि फदयाणि उदयावलियादो । अपच्छिमद्विदिवंढयस्स चरम-समयजहण्णपदमादिं कादूण जावुक्कस्सपदेससंतकम्मं ति एदमेगं फदयं ।

अणंताणुवंधीणं भिच्छत्तभंगो । णवुंसयवेदस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? तथा चेव अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णेण संतकम्मेण तसेसु आगदो संजमासंजमं संजमं सम्मत्तं च बहुसो लद्धूण चत्ताणि वारे कसाए उवसामिदूण तदो तिपल्लिदो-वमिएसु उववण्णो । तत्थ अंतोसुहुत्तावसेसे जीविद्ववए त्ति सम्मत्तं घेतूण वेद्वावद्वि-सागरोवमाणि सम्मत्तद्धमणुपालिदूण भिच्छत्तं गंतूण णवुंसयवेदमणुस्सेसु उववण्णो । सव्वचिरं संजममणुपालिदूण खवेदुमादत्तो । तदो तेण अपच्छिमद्विदिवंढयं संछुहमाणं संछुद्धं । उदओ णवरि गिरवसेसो तस्स चरिमसमयणवुंसयवेदस्स जहण्णयं पदेससंत-कम्मं । तदो पदेसुत्तरं । गिरंतराणि द्वाणाणि जाव तप्पाओग्गो उक्कस्सओ उदओ त्ति । एदमेगं फदयं । अपच्छिमस्स द्विदिवंढयस्स चरिमसमयजहण्णपदमादिं कादूण जाव उक्कस्सपदेससंतकम्मं गिरंतराणि द्वाणाणि । एवं णवुंसयवेदस्स दो फदयाणि । एवमित्थिवेदस्स । णवरि तिपल्लिदोवमिएसु णो उववण्णो । पुरिसवेदस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? चरिमसमयपुरिसवेदोदयक्खवगेण धोलमाणजहण्ण-जोगद्वारेण वट्टमाणेण जं कम्मं वद्धं तं कम्ममावलियसमयअवेदो संकामेदि । जत्तो पाए संकामेदि तत्तो पाए सो समयपवद्धो आवलियाए अकम्मं होदि । तदो एगसमय-मोसक्किदूण जहण्णयं पदेससंतकम्मद्वारणं । तस्स कारणमिमा परूवणा कायव्वा । पढमसमयअवेदगस्स केत्तिया समयपवद्धा । दो आवलियाओ दुसमज्जाओ । केण कारणेण ? जं चरिमसमयसवेदेण वद्धं तमवेदस्स विदियाए आवलियाए तिचरिम-समयादो त्ति दिस्सदि दुचरिमसमए अकम्मं होदि । जं दुचरिमसमयसवेदेण वद्धं तमवेदस्स विदियाए आवलियाए चदुचरिमसमयादो त्ति दिस्सदि । तिचरिमसमए अकम्मं होदि । एदेण कमेण चरिमावलियाए पढमसमयसवेदेण जं वद्धं तमवेदस्स पदमावलियाए चरिमसमए अकम्मं होदि । जं सवेदस्स दुचरिमाए आवलियाए पढमसवए पवद्धं तं चरिमसमयसवेदस्स अकम्मं होदि । जं तिस्से चेव दुचरिमसमय-सवेदावलियाए विदियसमए वद्धं तं पढमसमयअवेदस्स अकम्मं होदि । एदेण

(१) पृ० २५३ । (२) पृ० २५५ । (३) पृ० २५६ । (४) पृ० २६७-२६८ । (५) पृ० २७४ ।
(६) पृ० २८२ । (७) पृ० २८३ । (८) पृ० २८९ । (९) पृ० २९३ । (१०) पृ० २९४ । (११) पृ० २९५ । (१२) पृ० २९६ ।

कारणेण वेसमयपवद्धेण लहदि अवगदवेदो । सवेदस्स दुचरिमावलियाए दुसमयूणाए चरिमावलियाए सव्वे च एदे समयपवद्धे अवेदो लहदि । एसा ताव एका परूवणा । ^१इमा अण्णा परूवणा । दोहि चरिमसमयसवेदेहि तुल्लजोगेहि वद्धं कम्मं तेसि तं संतकम्मं चरिमसमयअणिल्लेविदं पि तुल्लं । दुचरिमसमयअणिल्लेविदं पि तुल्लं । एवं सव्वत्थ । ^२एदाहि दोहि परूवणाहि पदेससंतकम्मट्टाणाणि परूवेदव्वाणि । ^३जहा— जो चरिमसमयसवेदेण वद्धो समयपवद्धो तम्हि चरिमसमयअणिल्लेविदे घोलमाण-जहण्णजोगट्टाणमादिं कादूण जत्तियाणि जोगट्टाणाणि तत्तियमेत्ताणि संतकम्मट्टाणाणि । ^४चरिमसमयसवेदेण उक्कस्सजोगेणे त्ति दुचरिमसमयसवेदेण जहण्णजोगट्टाणेणे त्ति एत्थ जोगट्टाणमेत्ताणि [संतकम्मट्टाणाणि] लब्भंति । ^५चरिमसमयसवेदो उक्कस्सजोगो दुचरिमसमयसवेदो उक्कस्सजोगो तिचरिमसमयसवेदो अण्णदरजोगट्टाणे त्ति एत्थ पुण जोगट्टाणमेत्ताणि पदेससंतकम्मट्टाणाणि [लब्भंति] । ^६एवं जोगट्टाणाणि दोहि आवलियाहि दुसमयूणाहि पदुप्पण्णाणि । एत्तियाणि अवेदस्स संतकम्मट्टाणाणि सांतराणि सव्वाणि । ^७चरिमसमयसवेदस्स एगं फहयं । ^८दुचरिमसमयसवेदस्स चरमट्टिदिखंडगं चरिमसमयविणट्टं । ^९तस्स दुचरिमसमयसवेदस्स जहण्णगं संतकम्म-मादिं कादूण जाव पुरिसवेदस्स ओघुक्कस्सपदेससंतकम्मं ति एदमेगं फहयं ।

^{१०}कोधसंजलणस्स जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? चरिमसमयकोधवेदगेण खवगेण जहण्णजोगट्टाणे जं वद्धं तं जं वेत्तं चरिमसमयअणिल्लेविदं तस्स जहण्णयं संतकम्मं । ^{११}जहा पुरिसवेदस्स दोआवलियाहि दुसमज्जणाहि जोगट्टाणाणि पदु-प्पण्णाणि एवदियाणि संतकम्मट्टाणाणि सांतराणि । एवमावलियाए समज्जणाए जोगट्टाणाणि पदुप्पण्णाणि एत्तियाणि कोधसंजलणस्स सांतराणि संतकम्मट्टाणाणि । ^{१२}कोधसंजलणस्स उदए वोच्छिण्णे जा पढमावलिया तत्थ गुणसेढी पविट्टन्लिया । तिस्से आवलियाए चरिमसमए एगं फहयं । ^{१३}दुचरिमसमए अण्णं फहयं । ^{१४}एव-मावलियसमयूणमेत्ताणि फहयाणि । चरिमसमयकोधवेदयस्स खवयस्स चरिमसमय-अणिल्लेविदं खंडयं होदि । तस्स जहण्णसंतकम्ममादिं कादूण जाव ओघुक्कस्सं कोधसंजलणस्स संतकम्मं ति एदमेगं फहयं ।

^{१५}जहा कोधसंजलणस्स तहा माण-मायासंजलणाणं । ^{१६}लोभसंजलणस्स जहण्णगं पदेससंतकम्मं कस्स ? अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णगेण कम्मेण तसकायं गदो ।

(१) पृ० २६७ । (२) पृ० २६८ । (३) पृ० २६९ । (४) पृ० ३०२ । (५) पृ० ३१५ । (६) पृ० ३१७ । (७) पृ० ३१९ । (८) पृ० ३७३ । (९) पृ० ३७३ । (१०) पृ० ३७६ । (११) पृ० ३७७ । (१२) पृ० ३७८ । (१३) पृ० ३७९ । (१४) पृ० ३८० । (१५) पृ० ३८१ । (१६) पृ० ३८२ । (१७) पृ० ३८३ ।

तस्मि संजमासंजमं संजमं च बहुवारं लद्धाडओ कसाए च उवसामिदाडओ । तदो क्रमेण मणुस्सेसुववण्णो । दीहं संजमद्धमणुपालेदूण कसायक्खवणाए अब्बुद्धिदो तस्स चरिमसमयअधापवत्तकरणे जहण्णमं लोभसंजलणस्स पदेससंतकम्मं । 'पदमादिं कादूण जावुक्कस्सयं संतकम्मं गिरंतराणि द्वाणाणि । 'ब्बण्णोकसायाणं जहण्णयं पदेससंतकम्मं कस्स ? अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णएण कम्मेण तसेसु आगदो । तत्थ संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धो । चत्तारि वारं कसाए उवसामेदूण तदो क्रमेण मणुसो जादो । तत्थ दीहं संजमद्धं कादूण खवणाए अब्बुद्धिदो तस्स चरिम-समयद्विदिव्खंडए चरिमसमयअणिल्लेविदे ब्बणं कम्मंसाणं जहण्णयं पदेससंतकम्मं । तदादियं जाव उक्कस्सियादो एगमेव फहयं ।

पुस्तक ७

'कालो । 'मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ । अणुक्कस्सपदेसविहत्तिओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । 'अण्णोवदेसो जहण्णेण असंखेज्जा लोगा ति । अधवा खवमं पडुच्च वासपुधत्तं । 'एवं सेसाणं कम्माणं णादूण णेदव्वं । 'णवरि सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणमणुक्कस्सदव्वकालो जहण्णेण अंतोसुहुत्तं । 'उक्कस्सेण वेद्धावड्डिसागरोवमाणि सारिदेयाणि । 'जहण्णकालो जाणिदूण णेदव्वो ।

'अंतरं । मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मियंतरं जहण्णुक्कस्सेण अणंतकाल-मसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । 'एवं सेसाणं कम्माणं णेदव्वं । णवरि सम्मत्त-सम्मा-भिच्छत्ताणं पुरिसवेद-चदुसंजललणाणं च उक्कस्सपदेसविहत्तिअंतरं गत्थि । 'अंतरं जहण्णयं जाणिदूण णेदव्वं ।

'णाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो जहण्णुक्कस्सभेदेहि । अट्ठपदं कादूण सव्व-कम्माणं णेदव्वो । 'सव्वकमाणं णाणाजीवेहि कालो कायव्वो । 'अंतरं णाणाजीवेहि सव्वकमाणं जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

'अण्णवहुत्तं । सव्वत्थोवमपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं । 'कोधे उक्कस्स-पदेससंतकम्मं विसैसाहियं । मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । 'कोधे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसैसाहियं । मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसैसाहियं ।

(१) पृ० ३८४ । (२) पृ० ३८५-३८६ । (३) पृ० ३८६ । (४) पृ० १ । (५) पृ० २ । (६) पृ० ३ । (७) पृ० ४ । (८) पृ० ५ । (९) पृ० ६ । (१०) पृ० ७ । (११) पृ० २५ । (१२) पृ० २६ । (१३) पृ० २७ । (१४) ३७ । (१५) पृ० ५० । (१६) पृ० ५३ । (१७) पृ० ७४ । (१८) पृ० ७५ । (१९) पृ० ७६ ।

‘एद्दिपसु सन्वत्थोवं सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंतकम्म’ । ^१सम्मामिच्छत्ते उक्कस्स-
पदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । ^२अपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । कोहे
उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं
विसेसाहियं । कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । ^३मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं
विसेसाहियं । लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । अणंताणुबंघिमाणे उक्कस्सपदेस-
संतकम्मं विसेसाहियं । कोहे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायाए उक्कस्स-
पदेससंतकम्मं विसेसाहियं । ^४लोभे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मिच्छत्ते
उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । हस्से उक्कस्सपदेससंतकम्ममणंतगुणं । रदीए
उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । ^५इरियवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं ।
सोगे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । अरदीए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
णवुंसयवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । ^६दुगुंढ्याए उक्कस्सपदेससंतकम्मं
विसेसाहियं । भए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । पुरिसवेदे उक्कस्सपदेससंतकम्मं
विसेसाहियं । माणसंजलणे उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । कोहे उक्कस्सपदेस-
संतकम्मं विसेसाहियं । मायाए उक्कस्सपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । ^७लोहे उक्कस्स-
पदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

जहणणदंडओ ओघेण सकारणो भणिहिदि । ^८सन्वत्थोवं सम्मत्ते जहणणपदेस-
संतकम्मं । ^९सम्मामिच्छत्ते जहणणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । ^{१०}क्रेण कारणेण १
^{११}सम्मत्ते उव्वेत्थिल्लदे सम्मामिच्छत्तं जेण कालेण उव्वेत्थेल्लोदि एद्दिमि काले एक्कं पि
पदेसगुणहाणिट्ठार्णंनरं णत्थि एदेण कारणेण । ^{१२}अणंताणुबंघिमाणे जहणणपदेससंत-
कम्ममसंखेज्जगुणं । ^{१३}कोहे जहणणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायाए जहणणपदेससंत-
कम्मं विसेसाहियं । लोहे जहणणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मिच्छत्ते जहणणपदेस-
संतकम्ममसंखेज्जगुणं । ^{१४}अपच्चक्खाणमाणे जहणणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । ^{१५}कोहे
जहणणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायाए जहणणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
लोहे जहणणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । पच्चक्खाणमाणे जहणणपदेससंतकम्मं विसेसा-
हियं । ^{१६}कोहे जहणणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायाए जहणणपदेससंतकम्मं
विसेसाहियं । लोभे जहणणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । कोहसंजलणे जहणणपदेस-

(१) पृ० ६१ । (२) पृ० ६२ । (३) पृ० ६३ । (४) पृ० ६४ । (५) पृ० ६५ । (६) पृ० ६६ ।
(७) पृ० ६७ । (८) पृ० ६८ । (९) पृ० ६९ । (१०) पृ० १०० । (११) पृ० १०२ । (१२) पृ० १०३ ।
(१३) पृ० १०४ । (१४) पृ० १०५ । (१५) पृ० १०७ । (१६) पृ० १०६ । (१७) पृ० ११० ।
(१८) पृ० १११ ।

संतकम्ममणंतगुणं । ^१माणसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । पुरिसवेदे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । ^२मायासंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । णवुंसयवेदे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । इत्थिवेदस्स जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । ^३हस्से जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । ^४रदीए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । सोगे जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । अरदीए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । दुगुंढाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । ^५भए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । लोभसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

णिरयगइए सव्वत्थोवं समत्ते जहण्णपदेससंतकम्मं । ^६सम्मामिच्छत्ते जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । अणंताणुवंधिमाणे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । कोहे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । लोभे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मिच्छत्ते जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । ^७अपच्चक्खाणमाणे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । ^८कोहे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । लोभे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । पच्चक्खाणमाणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । कोहे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । ^९लोभे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । इत्थिवेदे जहण्णपदेससंतकम्ममणंतगुणं । णवुंसयवेदे जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । पुरिसवेदे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । ^{१०}हस्से जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । रदीए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । सोगे जहण्णपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । अरदीए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । दुगुंढाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । ^{११}भए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । माणसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । कोहसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायासंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । लोहसंजलणे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । ^{१२}जहा णिरयगईए तहा सव्वाहु गईसु । णवरि मणुसगदीए ओघ ।

^{१३}एइदिएसु सव्वत्थोवं समत्ते जहण्णपदेससंतकम्मं । सम्मामिच्छत्ते जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । अणंताणुवंधिमाणे जहण्णपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । ^{१४}कोहे जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायाए जहण्णपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

- (१) पृ० ११२ । (२) पृ० ११३ । (३) पृ० ११४ । (४) पृ० ११५ । (५) पृ० ११६ ।
 (६) पृ० ११७ । (७) पृ० ११८ । (८) पृ० ११९ । (९) पृ० १२० । (१०) पृ० १२१ । (११) पृ० १२२ ।
 (१२) पृ० १२३ । (१३) पृ० १२४ । (१४) पृ० १२५ ।

लोभे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मिच्छत्ते जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं ।
 'अपच्चक्खाणमाणे जहणपदेससंतकम्ममसंखेज्जगुणं । कोधे, जहणपदेससंतकम्मं
 विसेसाहियं । मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । लोभे जहणपदेससंतकम्मं
 विसेसाहियं । 'पच्चक्खाणमाणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । कोहे जहण-
 पदेससंतकम्मं विसेसाहियं । मायाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । लोहे जहण-
 पदेससंतकम्मं विसेसाहियं । पुरिसवेदे जहणपदेससंतकम्ममणंतगुणं । इत्थिवेदे
 जहणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । 'हस्से जहणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । रदीए
 जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । सोगे जहणपदेससंतकम्मं संखेज्जगुणं । 'अरदीए
 जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । णासुंसयवेदे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 दुग्गुञ्जाए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । भए जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।
 माणसंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । कोहसंजलणे जहणपदेससंतकम्मं
 विसेसाहियं । मायासंजलणे जहणपदेससंतकम्मं विसेसाहियं । 'लोभसंजलणे जहण-
 पदेससंतकम्मं विसेसाहियं ।

एत्तो भुजगारं पदणिकखेव-वड्डीओ च कायव्वाओ । जहा उक्कस्सयं पदेस-
 संतकम्मं तथा संतकम्मढाणाणि । एवं पदेसविहत्ती समत्ता ।

भीणाभीणचूलिया

'एत्तो भीणमभीणं ति पदस्स विहासा कायव्वा । तं जहा । अत्थि ओकहुणादो
 भीणट्ठिदियं उक्कहुणादो भीणट्ठिदियं संकमणादो झीणट्ठिदियं उदयादो भीणट्ठिदियं ।
 'ओकहुणादो भीणट्ठिदियं णाम किं ? जं कम्ममुदयावलियब्भंतरे द्वियं तमोकहुणादो
 भीणट्ठिदियं । जमुदयावलियबाहिरे द्विदं तमोकहुणादो अजभीणट्ठिदियं । 'उक्कणादो
 भीणट्ठिदियं णाम किं ? जं ताव उदयावलियपविट्ठं तं ताव उक्कहुणादो भीणट्ठिदियं'
 "उदयावलिवाहिरे वि अत्थि पदेसग्गमुक्कहुणादो भीणट्ठिदियं । तस्स णिदरिसणं ।
 तं जहा—जा समयाहियाए उदयावलियाए द्विदी एदिस्से द्विदीए जं पदेसमं
 तमादिट्ठं । "तस्स पदेसग्गस्स जइ समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी
 विदिव्कंता वद्धस्स तं कम्मं ण सक्का उक्कट्ठिट्ठुं । "तस्सेव पदेसग्गस्स जइ त्ति दुसमया-
 हियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिव्कंता तं पि उक्कहुणादो भीणट्ठिदियं ।
 "एवं गंतूण जदि वि जहणियाए आवाहाए ऊणिया कम्मट्ठिदी विदिव्कंता तं पि ।

(१) पृ० १२६ । (२) पृ० १२० । (३) पृ० १२१ । (४) पृ० १२२ । (५) पृ० १२३ ।
 (६) पृ० १७१ । (७) पृ० २२५ । (८) पृ० २२७ । (९) पृ० २२६ । (१०) पृ० २४२ । (११) पृ० २४३ ।
 (१२) पृ० २४४ । (१३) पृ० २४५ । (१४) पृ० २४६ ।

उक्कड्डणादो भ्नीणट्टिदियं । 'समयुत्तराए उदयावलियाए तिस्से द्विदीए जं पदेसग्गं तस्स पदेसग्गस्स जइ जहणियाए आवाहाए समयुत्तराए ऊणिया कम्मट्टिदी विदिककंता तं पदेसग्गं सका आवाधामेतपुक्कड्डिउमेक्किस्से द्विदीए णिसिचिदुं । 'जइ दुसमयाहियाए आवाहाए ऊणिया कम्मट्टिदी विदिककंता तिसमयाहियाए वा आवाहाए ऊणिया कम्मट्टिदी विदिककंता । एवं गंतूण वासेण वा वासपुधत्तेण वा सागरोवमेण वा सागरोवमपुधत्तेण वा ऊणिया कम्मट्टिदी विदिककंता तं सव्वं पदेसग्गं उक्कड्डणादो अज्झणीणट्टिदियं ।

'समयाहियाए उदयावलियाए तिस्से चेव द्विदीए पदेसग्गस्स एगो समओ पवद्धस्स अइच्छिदो त्ति अवत्थु । दो समया पवद्धस्स अइच्छिदा त्ति अवत्थु । तिण्णि समया पवद्धस्स अइच्छिदा त्ति अवत्थु । एवं णिरंतरं गंतूण आवलिया पवद्धस्स अइच्छिदा त्ति अवत्थु । 'तिस्से चेव द्विदीए पदेसग्गस्स समयुत्तरावलिया वद्धस्स अइच्छिदा त्ति एसो आदेसो होज्ज ।' तं पुण पदेसग्गं कम्मट्टिदिं णो सका उक्कड्डिदुं । समयाहियाए आवलियाए ऊणियं कम्मट्टिदिं सका उक्कड्डिदुं । 'एदे वियप्पा जा समयाहियउदयावलिया तिस्से द्विदीए पदेसग्गस्स । 'एदे चेय वियप्पा अपरिसेसा जा दुसमयाहिया उदयावलिया तिस्से द्विदीए पदेसग्गस्स । 'एवं तिसमयाहियाए चदुसमयाहियाए जाव आवाधाए आवलियुणाए एवदिमादो त्ति ।

'आवलियाए समयुणाए ऊणियाए आवाहाए एवदिमाए द्विदीए जं पदेसग्गं तस्स के वियप्पा ? 'जस्स पदेसग्गस्स समयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्टिदी विदिककंता तं पि पदेसग्गमेदिस्से द्विदीए णत्थि । जस्स पदेसग्गस्स दुसमयाहियाए आवलियाए ऊणिया कम्मट्टिदी विदिककंता तं पि णत्थि । 'एवं गंतूण जइही एसा द्विदी एत्तिएण ऊणा कम्मट्टिदी विदिककंता जस्स पदेसग्गस्स तमेदिस्से द्विदीए पदेसग्गं होज्ज । तं पुण उक्कड्डणादो भ्नीणट्टिदियं । एदं द्विदिमादिं कादूण जाव जहणियाए आवाहाए एत्तिएण ऊणिया कम्मट्टिदी विदिककंता जस्स पदेसग्गस्स तं पि पदेसग्गमेदिस्से द्विदीए होज्ज । तं पुण सव्वमुक्कड्डणादो भ्नीणट्टिदियं । 'आवाधाए समयुत्तराए ऊणिया कम्मट्टिदी विदिककंता जस्स पदेसग्गस्स तं पि एदिस्से द्विदीए पदेसग्गं होज्ज । तं पुण उक्कड्डणादो भ्नीणट्टिदियं । 'तेण परमज्झणीणट्टिदियं । 'समयुणाए आवलियाए ऊणिया आवाहा एदिस्से द्विदीए वियप्पा समत्ता ।

(१) पृ० २४७ । (२) पृ० २४८ । (३) पृ० २५१ । (४) पृ० २५२ । (५) पृ० २५३ ।
 (६) पृ० २५७ । (७) पृ० २५८ । (८) पृ० २६० । (९) पृ० २६१ । (१०) पृ० २६२ ।
 (११) पृ० २६३ । (१२) पृ० २६४ । (१३) पृ० २६५ । (१४) पृ० २६६ ।

एदादो द्विदीदो समयुत्ताए द्विदीए वियप्पे भणिस्सामो ।^१ सा पुण का द्विदी । दुसमयूणाए आवलियाए ऊणिया जा आवाहा एसा सा द्विदी । इदाणिमेदिस्से द्विदीए अवत्थुवियप्पा केत्तिया ? जावदिया हेद्विद्धियाए द्विदीए अवत्थुवियप्पा तदो रूवुत्तरा ।^२ जद्देही एसा द्विदी तत्तियं द्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसयं जस्स पदे-सग्गस्स तं पदेसग्गमेदिस्से द्विदीए होज्ज । तं पुण उक्कड्डणादो भ्नीणद्विदियं । एदादो द्विदीदो समयुत्तरद्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसयं जस्स पदेसग्गस्स तमुक्कड्डणादो भ्नीणद्विदियं । एवं गंतुण आवाहामेत्तद्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसं जस्स पदेसग्गस्स एदीए द्विदीए दीसइ तं पि उक्कड्डणादो भ्नीणद्विदियं ।^३ आवाहासमयुत्तरमेत्तं द्विदि-संतकम्मं कम्मद्विदीए सेसं जस्स पदेसग्गस्स तं पि उक्कड्डणादो भ्नीणद्विदियं । आवाधा दुसमयुत्तरमेत्तद्विदिसंतकम्मं कम्मद्विदीए सेसं जस्स पदेसग्गस्स एदिस्से द्विदीए दिस्सइ तं पि पदेसग्गमुक्कड्डणादो भ्नीणद्विदियं ।^४ तेण परमुक्कड्डणादो अज्भ्नीण-द्विदियं । दुसमयूणाए आवलियाए ऊणिया आवाहा एवडिमाए द्विदीए वियप्पा समत्ता ।

एत्तो समयुत्तराए द्विदीए वियप्पे भणिस्सामो । एत्तो पुण द्विदीदो समयुत्तरा द्विदी कदमा ? जहणिया आवाहा तिसमयूणाए आवलियाए ऊणिया एवडिमा द्विदी ।^५ एदिस्से द्विदीए एत्तिया चेव वियप्पा । णवरि अवत्थुवियप्पा रूवुत्तरा । एस कपो जाव जहणिया आवाहा समयुत्तरा त्ति ।^६ जहणियाए आवाहाए दुसमयुत्तराए पहुडि णत्थि उक्कड्डणादो भ्नीणद्विदियं ।^७ एवमुक्कड्डणादो भ्नीणद्विदियस्स अट्टपदं समत्तं ।

एत्तो संकमणादो भ्नीणद्विदियं । जं उदयावलियपविट्ठं तं, णत्थि अण्णो वियप्पो ।

^८ उदयादो भ्नीणद्विदियं । जमुदिण्णं तं, णत्थि अण्णं ।

^९ एत्तो एगेगभ्नीणद्विदियमुक्कस्सयमणुक्कस्सयं जहणयमजहणयं च ।

साभित्तं ।^{१०} मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमोक्कड्डणादो भ्नीणद्विदियं कस्स ? गुणिद-कम्मंसियस्स सव्वलहुं दंसणमोहणीयं खवेंतस्स अपच्चिद्धमट्ठिदिखंडयं संलुब्धमाणयं संलुब्धमावलिा समयूणा सेसा तस्स उक्कस्सयमोक्कड्डणादो भ्नीणद्विदियं ।^{११} तस्सेव उक्कस्सयमुक्कड्डणादो संकमणादो च भ्नीणद्विदियं । उक्कस्सयमुदयादो भ्नीणद्विदियं कस्स ?^{१२} गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजमणुणसेढी संजमणुणसेढी च एदाओ गुणसेढीओ

(१) पृ० २६७ । (२) पृ० २६८ । (३) पृ० २६९ । (४) पृ० २७० । (५) पृ० २७१ ।
(६) पृ० २७२ । (७) पृ० २७३ । (८) पृ० २७४ । (९) पृ० २७५ । (१०) पृ० २७६ ।
(११) पृ० २७८ । (१२) पृ० २७९ ।

काऊण मिच्छत्तं गदो । जाधे गुणसेदिसीसयाणि पढमसमयमिच्छादिद्विस्स उदयमागयाणि ताधे तस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं ।

^१सम्मत्तस्स उक्कस्सयमोकड्डुणादो उक्कड्डुणादो संकमणादो उदयादो च भीणद्विदियं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ सव्वलहुं दंसणमोहणीयं कम्मं खवेदुमादत्तो 'अधद्विदियं' गलंतं जाधे उदयावलियं पविस्समाणं पविदं ताधे उक्कस्सयमोकड्डुणादो वि उक्कड्डुणादो वि संकमणादो वि भीणद्विदियं । ^२तस्सेव चरिमसमयअक्खीणदंसणमोहणीयस्स सव्वमुदयं तमुक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं ।

^३सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सयमोकड्डुणादो उक्कड्डुणादो संकमणादो च भीणद्विदियं कस्स ? गुणिदकम्मंसियस्स सव्वलहुं दंसणमोहणीयं खवेमाणस्स सम्मामिच्छत्तस्स अपच्छिमद्विदिवंढयं संखुब्भमाणयं संखुद्धं उदयावलिया उदयवज्जा भरिदल्लिया तस्स उक्कस्सयमोकड्डुणादो उक्कड्डुणादो संकमणादो च भीणद्विदियं । उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजम-संजमगुणसेदीओ काऊण ताधे गदो सम्मामिच्छत्तं जाधे गुणसेदिसीसयाणि पढमसमयसम्मामिच्छाद्विस्स उदयमागदाणि ताधे तस्स पढमसमयसम्मामिच्छाद्विस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं ।

^४अणंताणुवंधीणमुक्कस्सयमोकड्डुणादितिण्हं पि भीणद्विदियं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजम-संजमगुणसेदीहि अविणहाहि अणंताणुवंधी विसंजोएदुमादत्तो तेसिमपच्छिमद्विदिवंढयं संखुब्भमाणयं संखुद्धं तस्स उक्कस्सयमोकड्डुणादितिण्हं पि भीणद्विदियं । उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं कस्स ? संजमासंजम-संजमगुणसेदीओ काऊण तत्थ मिच्छत्तं गदो जाधे गुणसेदिसीसयाणि पढमसमयमिच्छाद्विस्स उदयमागयाणि ताधे तस्स पढमसमयमिच्छाद्विस्स उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं ।

^५अद्वण्हं कसायाणमुक्कस्सयमोकड्डुणादितिण्हं पि भीणद्विदियं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ कसायक्खवणाए अब्बुद्विदो जाधे अद्वण्हं 'कसायाणमपच्छिमद्विदिवंढयं संखुब्भमाणयं संखुद्धं ताधे उक्कस्सयं तिण्हं पि भीणद्विदियं । उक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं कस्स ? 'गुणिदकम्मंसियस्स संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयक्खवण-गुणसेदीओ एदाओ तिण्णि गुणसेदीओ काऊण असंजमं गदो तस्स पढमसमय-असंजदस्स गुणसेदिसीसयाणि उदयमागदाणि तस्स अद्वकसायाणमुक्कस्सयमुदयादो भीणद्विदियं ।

^६कोहसंजलणस्स उक्कस्सयमोकड्डुणादितिण्हं पि भीणद्विदियं कस्स ? गुणिद-

(१) पृ० २८४। (२) २८५। (३) पृ० २८६। (४) पृ० २८७। (५) २८८। (६) पृ० २८९। (७) पृ० २९२। (८) पृ० २९३। (९) पृ० २९४। (१०) पृ० २९५। (११) पृ० २९६। (१२) पृ० ३००।

कर्मसियस्स कोधं खवेतस्स चरिमद्धिदिवंडयचरिमसमयअसंखुहमाणयस्स उक्कस्सयं तिण्हं पि भ्मीणद्धिदियं । उक्कस्सयमुदयादो भ्मीणद्धिदियं पि तस्सेव । एवं चेव माणसंजलणस्स । णवरि माणद्धिदिकंडयं चरिमसमयअसंखुहमाणयस्स तस्स चत्तारि वि उक्कस्सयाणि भ्मीणद्धिदियाणि । एवं चेव मायासंजलणस्स । णवरि मायाद्धिदिकंडयं चरिमसमयअसंखुहमाणयस्स हस्स चत्तारि वि उक्कस्सयाणि भ्मीणद्धिदियाणि । लोहसंजलणस्स उक्कस्सयमोकड्डणादितिण्हं पि भ्मीणद्धिदियं कस्स ? गुणिदकम्मसियस्स सव्वसंतकम्ममावळियं पविस्समाणयं पविट्ठं ताथे उक्कस्सयं तिण्हं पि भ्मीणद्धिदियं । उक्कस्सयमुदयादो भ्मीणद्धिदियं कस्स ? चरिमसमयसकसायक्खवयस्स ।

इत्थिवेदस्स उक्कस्सयमोकड्डणादिचउएहं पि भ्मीणद्धिदियं कस्स ? इत्थिवेदपूरिदकम्मसियस्स आवळियचरिमसमयअसंखोहयस्स तिण्णि वि भ्मीणद्धिदियाणि उक्कस्सयाणि । उक्कस्सयमुदयादो भ्मीणद्धिदियं चरिमसमयइत्थिवेदक्खवयस्स ।

पुरिसवेदस्स उक्कस्सयमोकड्डणादिचदुण्हं पि भ्मीणद्धिदियं कस्स ? शुणिदकम्मसियस्स पुरिसवेदं खवेमाणयस्स आवळियचरिमसमयअसंखोहयस्स तस्स उक्कस्सयं तिण्हं पि भ्मीणद्धिदियं । उक्कस्सयमुदयादो भ्मीणद्धिदियं चरिमसमयपुरिसवेदस्स ।

णवुंसयवेदस्स उक्कस्सयं तिण्हं पि भ्मीणद्धिदियं कस्स ? गुणिदकम्मसियस्स णवुंसयवेदेण अविद्विदस्स खवयस्स णवुंसयवेदआवळियचरिमसमयअसंखोहयस्स तिण्णि वि भ्मीणद्धिदियाणि उक्कस्सयाणि । उक्कस्सयमुदयादो भ्मीणद्धिदियं तस्सेव चरिमसमयणवुंसयवेदक्खवयस्स ।

छण्णोकसायाणमुक्कस्सयाणि तिण्णि वि भ्मीणद्धिदियाणि कस्स ? शुणिदकम्मसिएण खवएण जाथे अंतरं कीरमाणं कदं तेसिं चेव कम्मसाणमुदयावळियाओ पुण्णाओ ताथे उक्कस्सयाणि तिण्णि वि भ्मीणद्धिदियाणि । तेसिं चेव उक्कस्सयमुदयादो भ्मीणद्धिदियं कस्स ? शुणिदकम्मसियस्स खवयस्स चरिमसमयअपुव्वकरणे वट्टमाणयस्स । णवरि हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं जइ कीरइ भय-दुयुंझाणमवेदगो कायव्वो । जइ भयस्स तदो दुयुंझाए अवेदगो कायव्वो । अह दुयुंझाए तदो भयस्स अवेदगो कायव्वो । उक्कस्सयं सामित्तं समत्तमोवेण ।

एतो जहण्णयं सामित्तं वचइस्सामो । मिच्छत्तस्स जहण्णयमोकड्डणादो उक्कड्डणादो संकमणादो च भ्मीणद्धिदियं कस्स ? उवसामओ छसु आवळियासु सेसासु

- (१) पृ० ३०२ । (२) पृ० ३०३ । (३) पृ० ३०४ । (४) पृ० ३०५ । (५) पृ० ३०६ । (६) पृ० ३०७ । (७) पृ० ३०८ । (८) पृ० ३०९ । (९) पृ० ३१० । (१०) पृ० ३११ । (११) पृ० ३१२ ।

आसाणं गओ तस्स पढमसमयमिच्छाइट्टिस्स जहण्णयमोकहुणादो उक्कहुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं । ^१उदयादो जहण्णयं भीणट्टिदियं तस्सेव आवलियमिच्छादिट्टिस्स ।

^२सम्मत्तस्स ओकहुणादितिण्हं पि भीणट्टिदियं कस्स ? उवसमसमत्तपच्छायदस्स पढमसमयवेदयसम्माइट्टिस्स ओकहुणादो उक्कहुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं । ^३तस्सेव आवलियवेदयसम्माइट्टिस्स जहण्णयमुदयादो भीणट्टिदियं । ^४एवं सम्मामिच्छत्तस्स । णवरि पढमसमयसम्मामिच्छाइट्टिस्स आवलियसम्मामिच्छाइट्टिस्स चेदि ।

अट्टकसाय-चउसंजलण-पुरिसवेद-हस्स-रदि-भय-दुरुंब्बाणं जहण्णयमोकहुणादो उक्कहुणादो च भीणट्टिदियं कस्स ? उवसंतकसाओ मदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवस्स जहण्णयमोकहुणादो उक्कहुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं । ^५तस्सेव आवलियउववण्णस्स जहण्णयमुदयादो भीणट्टिदियं ।

^६अणंताणुवंधीणं जहण्णयमोकहुणादो उक्कहुणादो संकमणादो च भीणट्टिदियं कस्स ? सुहुमणिओएसु कम्मट्टिदिमणुपालियूण संजमासंजमं संजमं च बहुसो ल्भिदाउओ चत्तारि वारे कसाए उवसामेयूण तदो अणंताणुवंधी विसंजोएउण संजोइदो । तदो वेच्चावट्टिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालेयूण तदो मिच्छत्तं गदो तस्स पढमसमयमिच्छाइट्टिस्स जहण्णयं तिण्हं पि भीणट्टिदियं । ^७तस्सेव आवलियसमयमिच्छाइट्टिस्स जहण्णयमुदयादो भीणट्टिदियं ।

^८णवुंसयवेदस्स जहण्णयमोकहुणादितिण्हं पि भीणट्टिदियं कस्स ? अभवसिद्धियपाओग्गेण जहण्णएण कम्मेण तिपलित्थोवमिएसु उववण्णो । तदो अंतोमुहुत्तसेसे सम्मतं लद्धं । वेच्चावट्टिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालिदं । संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो । चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता अपच्छिमे भवे पुव्वकोडाउओ मणुस्सो जादो । तदो देसूणपुव्वकोडिसंजममणुपालियूण अंतोमुहुत्तसेसे परिणामपच्चएण असंजमं गदो । ताव असंजदो जाव गुणसेढी णिग्गलिदा त्ति तदो संजमं पडिवज्जियूण अंतोमुहुत्तेण कम्मक्खयं काहिदि त्ति तस्स पढमसमयसंजमं पडिवण्णस्स जहण्णयं तिण्हं पि भीणट्टिदियं । ^९इत्थिवेदस्स वि जहण्णयाणि तिण्णि वि भीणट्टिदियाणि एदस्स चेव । तिपलित्थोवमिएसु णो उववण्णयस्स कायव्वाणि । ^{१०}णवुंसयवेदस्स जहण्णयमुदयादो भीणट्टिदियं कस्स ? सुहुमणिगोदेसु कम्मट्टिदिमणुपालियूण तसेसु आगदो । संजमासंजमं संजमं सम्मतं च बहुसो गओ । चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता

(१) पृ० ३१६ । (२) पृ० ३२० । (३) पृ० ३२२ । (४) पृ० ३२२ । (५) पृ० ३२७ । (६) पृ० ३२८ । (७) पृ० ३३३ । (८) पृ० ३३४ । (९) पृ० ३३६ । (१०) पृ० ३४० ।

'अरइ-सोगाणं जहणयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं' । 'एवमोघेण सव्वमोहणीयपयडीणं जहणमोकङ्कणादिभ्नीणट्टिदियसामित्तं परुविदं' ।

अप्पावहुअं । सव्वत्थोवं मिच्चत्तस्स उक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं । उक्कस्सयाणि ओकङ्कणादो उक्कङ्कणादो संकमणादो च भ्नीणट्टिदियाणि तिण्णि वि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि । एवं सम्मामिच्चत्त-पण्णारसकसाय-अण्णोकसायाणं । सम्मतस्स सव्वत्थोवमुक्कस्सयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं । सेसाणि तिण्णि वि भ्नीण-ट्टिदियाणि उक्कस्सयाणि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । 'एवं लोभसंजलण-तिण्णिवेदाणं ।

एत्तो जहणयं भ्नीणट्टिदियं' । मिच्चत्तस्स सव्वत्थोवं जहणयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं । सेसाणि तिण्णि वि भ्नीणट्टिदियाणि तुल्लाणि असंखेज्जगुणाणि । 'जहा मिच्चत्तस्स जहणयमप्पावहुअं तथा जेसिं कम्मंसाणमुदीरणोदयो अत्थि तेसिं पि जहणयमप्पावहुअं । अणंताणुबंधि-इत्थिवेद-णवुंसयवेद-अरइ-सोगा ति एदे अट्ठ कम्मंसे मोत्तूण सेसाणमुदीरणोदयो । जेसिं ण उदीरणोदयो तेसिं पि सो चेव आलावो अप्पावहुअस्स जहणयस्स । 'णवरि अरइ-सोगाणं जहणयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं थोवं । सेसाणि तिण्णि वि भ्नीणट्टिदियाणि तुल्लाणि विसेसाहियाणि । 'अहवा इत्थि-णवुंसयवेदाणं जहणयाणि ओकङ्कणादीणि तियिण वि भ्नीणट्टिदियाणि तुल्लाणि थोवाणि । उदयादो जहणयं भ्नीणट्टिदियमसंखेज्जगुणं । अरइ-सोगाणं जहणयाणि तियिण वि भ्नीणट्टिदियाणि तुल्लाणि थोवाणि । जहणयमुदयादो भ्नीणट्टिदियं विसेसाहियं' । 'एवमप्पावहुए समत्ते भ्नीणट्टिदियं ति पदं समत्तं होदि ।

भ्नीणाभ्नीणाहियारो समत्तो ।

ट्टिदियं ति चूलिया

ट्टिदियं ति जं पदं तस्स विहासा । 'तत्थ तिण्णि अणियोगहाराणि । तं जहा—समुक्कित्तणा सामित्तमप्पावहुअं च । समुक्कित्तणाए अत्थि उक्कस्सट्टिदिपत्तयं णिसेय-ट्टिदिपत्तयं अथाणिसेयट्टिदिपत्तयं उदयट्टिदिपत्तयं च । "उक्कस्सयट्टिदिपत्तयं णाम किं ? जं कम्मं बंधसमयादो उदए दीसइ त्थुक्कस्सट्टिदिपत्तयं' । "णिसेयट्टिदिपत्तयं णाम किं ? जं कम्मं जिस्से ट्टिदीए णिसित्तं ओकट्टिदं वा उक्कट्टिदं वा तिस्से चेव ट्टिदीए उदए

(१) पृ० ३५५ । (२) पृ० ३५६ । (३) पृ० ३५७ । (४) पृ० ३५८ । (५) पृ० ३५९ । (६) पृ० ३६१ । (७) पृ० ३६२ । (८) पृ० ३६६ । (९) पृ० ३६७ । (१०) पृ० ३६८ । (११) पृ० ३७० ।

दिस्सइ तं णिसेयट्ठिदिपत्तयं । 'अधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं' णाम किं ? जं कम्मं जिस्से
ट्ठिदीए णिसित्तं अणोकट्ठिदं अणुक्कट्ठिदं तिस्से चेव ट्ठिदीए उदए दिस्सइ तमधाणिसेय-
ट्ठिदिपत्तयं । 'उदयट्ठिदिपत्तयं' णाम किं ? 'जं कम्मं उदए जत्थ वा तत्थ वा दिस्सइ
तमुदयट्ठिदिपत्तयं' । एदमट्ठपदं । एत्तो एककेक्कट्ठिदिपत्तयं चउविहमुक्कस्समणुक्कस्सं
जहण्णमजहण्णं च ।

'सामित्तं । भिच्छत्तस्स उक्कस्सयमग्गट्ठिदिपत्तयं कस्स ? अग्गट्ठिदिपत्तय-
मेक्को वा दो वा पदेसा एवमेगादि-एगुत्तरियाए वड्डीए जाव ताव उक्कस्सयं समय-
पवद्धस्स अग्गट्ठिदीए जत्तियं णिसित्तं तत्तियमुक्कस्सेण अग्गट्ठिदिपत्तयं । 'तं पुण
अण्णदरस्स होज्ज । 'अधाणिसेयट्ठिदिपत्तयमुक्कस्सयं कस्स ? तस्स ताव संदरिसणा—
उदयादो जहण्णयमावाहामेत्तमोसक्किगुण जो समयपवद्धो तस्स णत्थि अधाणिसेय-
ट्ठिदिपत्तयं । 'समयुत्तराए आवाहाए एवदिमचरिमसमयपवद्धस्स अधाणिसेओ
अत्थि । तत्तो पाए जाव असंखेज्जाणि पलिदोवमवग्गमूलाणि तावदिमसमयपवद्धस्स
अधाणिसेओ गियमा अत्थि । 'एक्कस्स समयपवद्धस्स एक्किस्से ट्ठिदीए जो उक्कस्सओ
अधाणिसेओ तत्तो केवडिगुणं उक्कस्सयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं ? तस्स णिदरिसणं ।
जहा—'ओक्कट्ठुक्कट्ठुणाए कम्मस्स अवहारकालो थोवो । अधापवत्तसंक्रमेण कम्मस्स
अवहारकालो असंखेज्जगुणो । ओक्कट्ठुक्कट्ठुणाए कम्मस्स जो अवहारकालो सो
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 'एवदिगुणमेक्कस्स समयपवद्धस्स एक्किस्से
ट्ठिदीए उक्कस्सयादो जहाणिसेयादो उक्कस्सयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं ।

'इदाणिमुक्कस्सयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं कस्स ? सत्तमाए पुढवीए णेरइयस्स
जत्तियमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयमुक्कस्सयं तत्तो विसेमुत्तरकालमुववण्णो जो णेरइओ तस्स
जहण्णेण उक्कस्सयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं । 'एदम्हि पुण काले सो णेरइओ
तप्पाओग्गुक्कस्सयाणि जोगट्ठाणाणि अभिक्खं गदो । 'तप्पाओग्गुक्कस्सयाहि
वड्डीहि वट्ठिदो । तिस्से ट्ठिदीए णिसेयस्स उक्कस्सपदं । 'जा जहण्णिया
आवाहा अंतोमुहुत्तत्तरा एवदिसमयअणुदिण्णा सा ट्ठिदी । तदो जोगट्ठाणाण-
मुवरिन्लमद्धं गदो । 'हुसमयाहियआवाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए एयसमयाहिय-
आवाहाचरिमसमयअणुदिण्णाए च उक्कस्सयं जोगमुववण्णो । तस्स
उक्कस्सयमधाणिसेयट्ठिदिपत्तयं । 'णिसेयट्ठिदिपत्तयं पि उक्कस्सयं तस्सेव ।

(१) पृ० ३७१ । (२) पृ० ३७२ । (३) पृ० ३७३ । (४) पृ० ३७४ । (५) पृ० ३७६ ।
(६) पृ० ३७७ । (७) पृ० ३७८ । (८) पृ० ३८० । (९) पृ० ३८१ । (१०) पृ० ३८२ । (११) पृ० ३८६ ।
(१२) पृ० ३८२ । (१३) पृ० ३८३ । (१४) पृ० ३८४ । (१५) पृ० ३८५ । (१६) पृ० ३८६ ।

उदयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ संजमासंजमगुणसेहिं संजम-
गुणसेहिं च काऊण 'मिच्छत्तं गदो जाधे गुणसेहिसीसयाणि उदिण्णाणि ताधे
मिच्छत्तस्स उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयं । एवं समत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पि । ^१णवरि
उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयमुदयादो भ्मीणद्विदियभंगो ।

^२अणंताणुबंधिचउक्क-अट्टकसाय-अण्णोकसायाणं मिच्छत्तभंगो । णवरि अट्ट-
कसायाणमुक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयं कस्स ? संजमासंजम-संजम-दंसणमोहणीयक्खवय-
गुणसेहीओ त्ति एदाओ त्तिण्णि वि गुणसेहीओ गुणिदकम्मंसिएण कदाओ । एदाओ
काऊण अविण्णोसु असंजमं गओ । पत्तेसु उदयगुणसेहिसीसएसु उक्कस्सयमुदयद्विदि-
पत्तयं । ^३अण्णोकसायाणमुक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयं कस्स ? चरिमसमयअपुव्वकरणे
वट्टमाणयस्स । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं जइ कीरइ भय-दुगुंझाणमवेदओ कायव्वो ।
^४जइ भयस्स तदो दुगुंझाए अवेदओ कायव्वो । अथ दुगुंझाए तदो भयस्स अवेदओ
कायव्वो ।

कोहसंजलणस्स उक्कस्सयमग्गद्विदिपत्तयं कस्स ? उक्कस्सयमग्गद्विदिपत्तयं जहा
पुरिमाणं कायव्वं । उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं कस्स ? कसाए उवसामित्ता पड्विदिदूण
पुणो अंतोमुहुत्तेण कसाया उवसामिदा विदियाए उवसामणाए आवाहा जम्हि
पुण्णा सा द्विदी आदिहा । तम्हि उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं । ^५णिसेयद्विदिपत्तयं
च तम्हि चेव । उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयं कस्स ? ^६चरिमसमयकोहवेदयस्स । एवं
माण-माया-लोहाणं ।

^७पुरिसवेदस्स चत्तारि वि द्विदिपत्तयाणि कोहसंजलणभंगो । णवरि उदयद्विदि-
पत्तयं चरिमसमयपुरिसवेदखवयस्स गुणिदकम्मंसियस्स । इत्थिवेदस्स उक्कस्सयमग्ग-
द्विदिपत्तयं मिच्छत्तभंगो । उक्कस्सयअधाणिसेयद्विदिपत्तयं णिसेयद्विदिपत्तयं च
कस्स ? ^८इत्थिवेदसंजदेण इत्थिवेद-पुरिसवेदपूरिदकम्मंसिएण अंतोमुहुत्तस्संतो दो
वारे कसाए उवसामिदा । जाधे विदियाए उवसामणाए जहणयस्स द्विदिवंधस्स
पट्टमणियेसद्विदी उदयं पत्ता ताधे अधाणिसेयादो णिसेयादो च उक्कस्सयं द्विदिपत्तयं ।
^९उदयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयं कस्स ? गुणिदकम्मंसियस्स खवयस्स चरिमसमयइत्थिवेदयस्स
तस्स उक्कस्सयमुदयद्विदिपत्तयं । ^{१०}एवं णुंसयवेदस्स । णवरि णुंसयवेदोदयस्से
त्ति भाणिदव्वाणि ।

(१) पृ० ४०० । (२) पृ० ४०२ । (३) पृ० ४०३ । (४) पृ० ४०४ । (५) पृ० ४०५ ।
(६) पृ० ४०६ । (७) पृ० ४१८ । (८) पृ० ४१९ । (९) पृ० ४२० । (१०) पृ० ४२१ ।
(११) पृ० ४२२ । (१२) पृ० ४२३ ।

जहणण्याणि द्विदिपत्तयाणि कायच्चाणि । 'सव्वकम्माणं पि अग्गद्विदिपत्तयं' जहणण्यामेओ पदेसो । तं पुण अण्णदरस्स होज्ज । मिच्छत्तस्स णिसेयद्विदिपत्तय-
मुयद्विदिपत्तयं च जहणणयं कस्स ? 'उवसमसम्मत्तपच्चायदस्स पढमसमयमिच्छाइद्विस्स
तप्पाओग्गुक्कस्ससंकिलिट्ठस्स तस्स जहणणयं णिसेयद्विदिपत्तयमुदयद्विदिपत्तयं
च । 'मिच्छत्तस्स जहणणयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं कस्स ? जो एइंदियद्विदिसंतकम्मेण
जहणणएण तसेसु आगदो अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं पडिवण्णो । वेच्चावट्टिसागरोवमाणि
सम्मत्तमणुपालियूण मिच्छत्तं गदो । तप्पाओग्गुक्कस्सियमिच्छत्तस्स जावदिया
आवाहा तावदिमसमयमिच्छाइद्विस्स तस्स जहणणयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं ।

'जेण मिच्छत्तस्स रचिदो अधाणिसेओ तस्स चेव जीवस्स सम्मत्तस्स
अधाणिसेओ कायचो । णवरि तित्से उक्कस्सियाए सम्मत्तद्धाए चरिमसमए तस्स
चरिमसमयसम्माइद्विस्स जहणणयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं । 'णिसेयादो च उदयादो च
जहणणयं द्विदिपत्तयं कस्स ? उवसमसम्मत्तपच्चायदस्स पढमसमयवेदयसम्माइद्विस्स
तप्पाओग्गुक्कस्ससंकिलिट्ठस्स तस्स जहणणयं । 'सम्मत्तस्स जहण्णओ अधाणिसेओ
जहा परूविओ तीए चेव परूवणाए सम्मामिच्छत्तं गओ । तदो उक्कस्सियाए
सम्मामिच्छत्तद्धाए चरिमसमए जहणणयं सम्मामिच्छत्तस्स अधाणिसेयद्विदिपत्तयं ।
'सम्मामिच्छत्तस्स जहणणयं णिसेयादो उदयादो च द्विदिपत्तयं कस्स ? उवसमसम्मत्त-
पच्चायदस्स पढमसमयसम्मामिच्छाइद्विस्स तप्पाओग्गुक्कस्ससंकिलिट्ठस्स ।

अणंताणुबंधीणं णिसेयादो अधाणिसेयादो च जहणणयं द्विदिपत्तयं कस्स ?
जो एइंदियद्विदिसंतकम्मेण जहणणएण पंचिदिए गओ । अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं पडिवण्णो ।
अंतोमुहुत्तेण पुणो पडिवदिदो । रहस्सकालेण संजोएऊण सम्मत्तं पडिवण्णो ।
वेच्चावट्टिसागरोवमाणि अणुपालियूण मिच्छत्तं गओ तस्स आवलियमिच्छाइद्विस्स
जहणणयं णिसेयादो अधाणिसेयादो च द्विदिपत्तयं । 'उदयद्विदिपत्तयं' जहणणयं
कस्स ? एइंदियकम्मेण जहणणएण तसेसु आगदो । तम्हि संजमासंजमं संजमं च
बहुसो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता एइंदिए गओ । असंखेज्जाणि
वत्साणि अच्चिद्धूण उवसामयसमयपवद्धेसु गलिदेसु 'पंचिदिएसु गदो । अंतोमुहुत्तेण
अणंताणुबंधी विसंजोइत्ता तदो संजोएऊण जहणणएण अंतोमुहुत्तेण पुणो सम्मत्तं
लद्धूण वेच्चावट्टिसागरोवमाणि अणंताणुबंधीणो गालिदा । तदो मिच्छत्तं गदो ।
तस्स आवलियमिच्छाइद्विस्स जहणणयमुदयद्विदिपत्तयं ।

- (१) पृ० ४२४ । (२) पृ० ४२५ । (३) पृ० ४२० । (४) पृ० ४२५ । (५) पृ० ४२६ ।
(६) पृ० ४२७ । (७) पृ० ४२८ । (८) पृ० ४२९ । (९) पृ० ४४० । (१०) पृ० ४४१ ।

'वारसकसायाणं णिसेयद्विदिपत्तयमुदयद्विदिपत्तयं' च जहणयं कस्स ? जो उवसंतकसाओ सो गदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवस्स जहणयं णिसेयद्विदिपत्तयमुदयद्विदिपत्तयं च । अधाणिसेयद्विदिपत्तयं जहणयं कस्स ? अभवसिद्धियपाओग्गेण जहणएण कम्मएण तसेसु उववण्णो । तप्पाओग्गुकस्सद्विदिं वंधमाणस्स जहेही आवाहा तावदिमसमए तस्स जहणयमधाणिसेयद्विदिपत्तयं । अइक्कंते काले कम्मद्विदिअंतो सइं पि तसो ण आसी । ^१एवं पुरिसवेद-हस्स-रइ-भय-दुगुंझाणं । ^२इत्थिणवुंसयवेद-अरदि-सोगाणमधाणिसेयादो जहणयं द्विदिपत्तयं जहा संजलणाणं तहा कायव्वं । जम्हि अधाणिसेयादो जहणयं द्विदिपत्तयं तम्हि चेष णिसेयादो जहणयं द्विदिपत्तयं । उदयद्विदिपत्तयं जहा उदयादो भ्नीणद्विदयं जहणयं तहा णिरवयवं कायव्वं ।

^३अप्पावहुअं । सव्वपयडीणं सव्वत्थोवमुक्कस्सयमगाद्विदिपत्तयं । उक्कस्सयमधाणिसेयद्विदिपत्तयमसंखेज्जगुणं । णिसेयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयं विसेसाहियं । ^४उदयद्विदिपत्तयमुक्कस्सयमसंखेज्जगुणं ।

जहणयाणि कायव्वाणि । सव्वत्थोवं मिच्छत्तस्स जहणयमगाद्विदिपत्तयं । ^५जहणयं णिसेयद्विदिपत्तयं अणंतगुणं । जहणयमुदयद्विदिपत्तयं असंखेज्जगुणं । ^६जहणयमधाणिसेयद्विदिपत्तयमसंखेज्जगुणं । ^७एवं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-वारसकसाय-पुरिसवेद-हस्स-रइ-भय-दुगुंझाणं । अणंताणुवंधीणं सव्वत्थोवं जहणयमगाद्विदिपत्तयं । जहणयमधाणिसेयद्विदिपत्तयमणंतगुणं । जहणयं णिसेयद्विदिपत्तयं विसेसाहियं । ^८जहणयमुदयद्विदिपत्तयमसंखेज्जगुणं । एवमित्थिवेद-णवुंसयवेद-अरदि-सोगाणं ।

तदो द्विदियं ति पदस्म विहासा समत्ता । एत्थेष पयडीय मोहणिज्जा एदिस्से मूलगाहाए अत्थो समत्तो ।

द्विदियं ति अहियारो समत्तो
तदो पदेसविहत्ती सचूलिया समत्ता ।

(१) पृ० ४४२ । (२) पृ० ४४४ । (३) पृ० ४४५ । (४) पृ० ४४६ । (५) पृ० ४४७ । (६) पृ० ४४८ । (७) पृ० ४४९ । (८) पृ० ४५० । (९) पृ० ४५१ ।

२ अवतरणसूची

पुस्तक ६

क्रमाङ्क	पृ०	क्रमाङ्क	पृ०	क्रमाङ्क	पृष्ठ
अ ४ अप्रतिबुद्धे श्रोतरि	१४६	ब २ बंधेण, होदि उदञ्चो	८०	२ सम्मत्तुप्पत्ती वि य	१२८
ख ३ खवगे य खीण्णमोहे	१२६	स ५ सदा संप्रतीक्ष्यातिथी-	२८७		

सूचना—टीकाकारने पृष्ठ ६२ में 'प्रक्षेपकसंक्षेपेन' तथा पृष्ठ ६५ में 'बंधे उक्कड्ढदि' ये दो अंश उद्धृत किये हैं। पुस्तक ७ के पृ० २४५ में भी 'बंधे उक्कड्ढदि' इतना पदांश उद्धृत है।

३ ऐतिहासिक नामसूची

पुस्तक ६

	पृ०		पृ०		पृ०
अ अनन्त जिन	१	य यतिवृषभगणीद्र	१०७	व व्याख्यानार्चार्य भट्टारक	
उ उच्चारणार्चार्य	१०७, ३८७	यतिवृषभभ्राचार्य			२४५
		१३५, ३०१, ३४०			

पुस्तक ७

	पृ०		पृ०		पृ०
आ आचार्य (सामान्य)		उ उच्चारणार्चार्य	७, ८, ६३	य यतिवृषभभगवंत	६६
३ ३५२		च चूर्णिसूत्रकार	२५५, २६६, ३२५	यतिवृषभार्चार्य	८
आचार्यभट्टारक	१०२	ज जिनेन्द्रचन्द्र	२३४	वीर (जिन)	३६६

४ ग्रन्थनामोल्लेख

पुस्तक ६

	पृ०		पृ०		पृ०
उ उच्चारणा	११४	च चूर्णिसूत्र	११४, ३८६	व वेदना ६, १३, ७५, ३८५	
उपदेश (अपवाहज्जमाण)२६		म महाबन्धसूत्र	६१	वेदनादिसूत्र	२५०
				स सूत्र (वचन)	६२, ६५

पुस्तक ७

	पृ०		पृ०		पृ०
उ उच्चारणा २७, ५०, ६४, १३३		च चूर्णिसूत्र ७, २७, ६३, ६७		व वेदग	३६३
कदिवेदयादि चउवीस		ट ट्टिदिअतिय	३६३	वेदना	५६, ६३, ६७
अशियोगहार	२६०				
क कुल्लकवन्ध	१६				

५ न्यायोक्ति

पुस्तक ६

पृ०

समुदाए पउत्ता सदा तदवयवेसु वि वट्ठंति । पृ० २०४

६ चूर्णिसूत्रगतशब्दसूची

पुस्तक ६

कम्म	२६१, २६४, २६५, २६६	असंखेजदिभागमेत्त	२४६	उककस्सविसोहि	१२५
अच्छिदाउअ	७२, १२४	असंखेजवस्साउअ	६६, १०४	उककरिअ	३८६
अट्ठ	२४६, २५३	अंतोमुहुत्तावसेअ	२६८	उत्तरपयडिपदेसविहत्ति	२, ७२
अणंत	१५६	आ आउअ	१२५	उदय	२६८, २७४, २७६
अणंताणुवंधी	२५६	आगद	१२५, २४६, २६७, ३८४, ३८५	उदयावलिअ	१२५
अण्ण	२८८, ३२०	आदत्त	२६८	उदयावलिआ	२०३, २४६, २५३
अण्णदजोग	३१७	आदि	१६७, २५५, ३७६, ३८१, ३८४	उवट्ठिद	७२
अघट्ठिदिगलणा	२४६	आदिय	३८६	उववण्ण	२६८, २६९, ३८३
अपच्छिम	७२, ७३, १६७, २६६	आवलिअ	२६१, २६४, २६५, ३१७, ३७८, ३७९	उवसमिदाउअ	३८३
अपच्छिमट्ठिदिखंडय	१२५, २५५, २६८	आवलिआ	२६६, ३८१	उव्वेलणद्धा	२०३
अपजत्तद्धा	१२४	इ इत्ति	३१५, ३१७	उव्वेज्जिद	२४६
अपजत्तभवगाह	१२४	इत्थिवेद	६६, १०४, २६१	ए एइदिअ	१२५, १५६, २०३, २६७
अण्णुट्ठिद	३८३, ३८५	इत्थाण	६१, १०४	एग	१६३, १६७, २४५, २५५, ३७६, ३७९, ३८१, ३८६
अभवसिद्धियपाओगा	१२५, २६७, ३८३, ३८५	उककस्सग	१५६, १६७	एगजीव	७२
अभवसिद्धियपाओगा-		उककस्सजोग	३१५, ३१७	एगट्ठिदिविसेत्त	२५३
जहयणाय	२४६	उककस्सपद	२५३	एगफइय	२५३
अभिकखं	१२५	उककस्सपदेसत्तप्पाओगा	१२५	एगसमय	२६१
अवगद	२४६	उककस्सपदेसविहत्तिय	८१	एत्तिय	३१६, ३७८
अवगदवेद	१२५	उककस्सपदेससंतकम्म	८८, २१८, २५५	एत्थ	३१५, ३१७
अवण्णिद	१२५	उककस्सय	७३, ६१, ६६, १०४, ११०, ११३, १५७, २७४, ३८४	एव	२४४, २६७, २७६, ३७३, ३८६
अविण्णिजमायण	१२५			एवदिय	३७८
अवेद	२६४, २६५, २६७, ३१६				
असंखेज	१५६				
असंखेजदिभाग	६६, १०४, १६२				

इस शब्दानुक्रमणिकामें सर्वनाम शब्द और क्रियापद छूटे हैं। शेष पूरे शब्दोंका संग्रह है।

एवं ७६, १५६, १६६,
२४३, २४४, २६१,
२६८, ३१७, ३७८,
३८१, ३८४
श्री श्रोत्रुक्त्स ३८१
श्रोत्रुक्त्सपदेससंतकम्म
३७६
क कद १२५, २४३
कम २५३, २६५, ३८३,
३८५
कम्म १२५, २४६, २६१,
२६८, ३८३
कम्मट्टिदि ७२, १२४, २०२
कम्मंस ३८६
कसाय १०४, २०२, २४६,
२५३, २६८, २८३,
३८५
कसायनखवणा ३८३
कारण १५७, १६३,
२६३, २६६
काल २४६
केत्तिय २६३
कोष ११३
कोषसजलाय ११०, १११,
३७७, ३७८, ३७९,
३८१, ३८२
ख खवग ३७७
खवणा ३८५
खवय ३८१
खंडय ३८
ग गद १२४, १२५, २०२,
२४६, ३८३
गलमाण १२५
गलिद १२५, २०३
गलंत २४६
गुणसेदि ३७६
गुण्णिकम्मंसिञ्च ८१, ६१,
६६, १०४

घ घोलमाणजहयणजोगट्टाय
२६१, ३०१
च च २४४, २६७, २६६
चट्टु १२५, २०२, २४६,
२४६, २६७ ३८५
चलुच्चरिमसमय २६४
चरिमट्टिदिखंडग ३७५
चरिमसमय २६५, ३७५
चरिमसमयअणिल्लोविद
३०१, ३७७, ३८१, ३८६
चरिमसमयअधापवत्तकरण
३८३
चरिमसमयकोषवेदग
३७७, ३८१
चरिमसमयजहयणपद २५५
चरिमसमयजहयणयफहय
१६७
चरिमसमयट्टिदिखंडय
३८६
चरिमसमयखलुंसयवेद
२६८
चरिमसमयएरइय ७३
चरिमसमयदेव ६१
चरिमसमयपुरिसवेदोदय-
कखवग २६१
चरिमसमयसवेद २६४,
२६५, ३०१, ३१५,
३१७, ३७३
चरिमावलिता २६५, २६६
चुद १०४
छ छ ३८६
छयणोकसाय ७६, ११०,
३८५
ज जदा १२५, ३७८
जत्तिय ३०१
जत्तो २६१
जहक्त्तयागद १५७
जहयण २०३, २४६, २६७

जहयणग १२५, ३७३,
३८३
जहयणजोगट्टाय ३१५
जहयणपदेससंतकम्मिञ्च
१२४
जहयणय १२५, १६२,
२०२, २४६, २६७,
२६८, २६९, ३७७,
३८४, ३८६
जहयणसंतकम्म ३८१
जहा ३०१, ३७८, ३८२
जाद १०४, ३८४, ३८५
जाथे ११०, ११३, ११४,
१२५, २०३
जाव १६७, २५३, २५५,
२७४, ३७६, ३८१,
३८४, ३८६
जीविदब्बय २६८
जोगट्टाय १२४, १२५,
३०१, ३१६
जोगट्टायमेत्त ३१५, ३१७
ट ट्टाय १५६, २१८, २५३,
२७४, ३८४
ट्टायपरुवणा २४३
ट्टिदि १२५, २४६
ट्टिदिखंडय १६७, २४६
ट्टिदिविसेस १५६, १५९,
१६४, २०३
ण ण २६६, ३८३
णवरि २६८, २६९
णलुंसयवेद ६१ १०४
२६७, २६९
णलुंसयवेदमणुस्स २६८
णिरंतर २१८, २५३,
२७४, ३८४
णिसेय १२५
एरइयभवग्गहण ७३
णो २६१
त तत्तियमेत्त ३०१

तत्तो	२६१
तथ्य २, ७३, १०४, १२५, २४६, २६८, ३७६, ३८५	
तथा	२०२
तदो १०४, १२५, १५६, १५७, २०२, २१७, २५३, २६८, २७४, १६१, ३८३, ३८५	
तथा	२६७
तप्पाओगा	२७४
तप्पाओगाउकस्स	१२५
तप्पाओगाजहयण्य	१२५
तस १२५, २०२, २४६, २६७, ३८५	
तसकाय	७२, ३८३
तहा	३८२
ताथे ११३, ११४, २०३	
ताव	२६७
ति २१८, २५५, ३८१	
तिचरिमसमय	२६४
तिचरिमसमयसवेद	३१७
त्ति २६८, २७४, २६४	
तिपलिदोवमिअ	
	३६८, २६१
उल्ल	२६८
उल्लजोग	२६८
तेत्तीस	७२, ७३
द -दीह १२५, २०२, ३८३, ३८५	
दुचरिम	२६५
दुचरिमसमय २६४, ३८०	
दुचरिमसमयअणिल्लेविद	
	२६६
दुचरिमसमयसवेद २६४, ३१५, ३१७, ३७५, ३७६	
दुचरिमसमयसवेदात्तलिया	
	२६६
दुचरिमावलिया	२६६

दुपदेसुत्तर	१५६, २१८
दुविह	२
दुसमयकालट्टिदिग	१२५
दुसमयकालट्टिदिय	२०३
दुसमयूण	२६३, २६६, ३१६, ३७८
देव	१०४
दो १६४, २४५, २६८, २६६, ३१७	
दोआवलिया २६३, ३७८	
दोफह्य	२६१
दोभवगाहण	७३
प पक्कित्त ८१, ८८, १०४, ११०, ११३, ११४	
पढमसमय	२६५
पढमसमयअवेद	२६६
पढमसमयअवेदग	२६३
पढमसमयसवेद	२६५
पढमावलिया २६५, ३७६	
पद	२४६
पहुप्पण	३१६, ३७८
पदेससगा	११०
पदेससंतकम्म ७३, ६१, ६६, १०४, ११०, ११३, ११४, १२५, २०२, २०३, २४६, २६७, २६८, २६१, ३७७, ३८३, ३८५, ३८६	
पदेससंतकम्मट्टाण	२६१, २६६, ३१७
पदेसविहत्ति	२
पदेसुत्तर	१५६, २१७, २५३, २७४
पयद्ध	१६५
पयार	२४३
परुवणा २६३, २६७, २६८, २६६	
परुवेदव्व	२६६

पलिदोवम	६६, १०४, २४६
पलिदोवमट्टिदिअ	१०४
पविट्टिल्लिय	३७६
पाए	२६१
पि १५७, २४५, २५३, २६८	
पुण	१५६, १६२
पुरिसवेद १०४, ११०, २६१, ३७६, ३७८	
पूरिद	६६, १०४
फ फङ्ग	१६३
फह्य १६४, १६६, १६७, २४५, २५३, २५५, ३७३, ३७६, ३७६, ३८०, ३८१, ३८६	
व वद्ध २६१, २६४, २६५, २६६, २६८, ३०१	
वहुवार	३८३
वहुसो १२५, २०२, २४६, २६७, ३८५	
वादरपुढविनीव	७२
वारसकसाय	७६
म मणुस १०४, ३८५	
मणुस्स	३८३
मद	१०४
माण	११३
माणमायासंजलण	३८२
माया	११४
मिच्छत्त ७२, ७३, ८१, १-४, १६५, १६७, २०२, २६८	
मिच्छत्तमंग	२५५
मूलपयडिपदेसविहत्ति	२
ल लद्ध १२५, ३८५	
लद्धाउअ	३८३
लोमसंजलण ११४, ३८३	
व वट्टमाण	२९१

वङ्गि	१२४
वङ्गिदं	१२४
वार	१२५, २०२, २४६, २६७, ३८५
वि	२४४
विषट्ठ	३७५
विदिय	१६४, २६४
विदियसमय	२६६
विसेष	१५६, २६८
वेळावट्टिवागरोवम	१२५, २०२, २६८
वेल	३७७
वेसमयपवद्ध	२६६
वेसागरोवमसहस्स	७२
वोच्छिण्य	३७६
स समयपवद्ध	१५६, २६१, २६३
समयपवद्धमेत्त	१५७

समयूण	३७८
समयूणावलियमेत्त	२५३
सम्मत्त ण्ण, १०४, १२५, २०२, २४४, २४६, २६७, २६८	
सम्मत्तद्ध	२६८, २६७, ३०१
सम्मामिच्छुत्त	८१, ८८, २०२, २०३, २४३
सवेद	२६५, २६६
सव्व	२०२, २६६, ३१६
सव्वचिरं	२६८
सव्वत्थ	२६८
सव्ववहुअ	१२४
सव्वलहु	१०४
संछुद्ध	२६८
संछुहमाय	२६८

संजम	१२५, २०२, २४६, २६७, २६८, ३८३, ३८५
संजमद्ध	३८५
संजमासंजम	१२५, २०२, २४६, २६७, ३८३, ३८५
संतकम्म	१६२, २४५, २६७, २६८, ३७६, ३७७, ३८४
सत्कम्मट्टाण	३०१, ३७८
सागरोवमिअ	७२, ७३
सादिरेय	७२
सामित्त	५०
सातर	३१६, ३७८
सुहमणियोद्ध	१२४, २०२
सेस	१२५, २०२, २४६
ह हदसमुप्पत्तिय	२४६
हेट्टिल्ल	१२५

पुस्तक ७

अ अइवर्कत्त	४४२
अइच्छिदं	२५१, २५२
अग्गाट्टिदि	३७४
अग्गाट्टिदिपत्तय	३७४, ४०५, ४२०, ४२४, ४४६, ४४७, ४५०
अच्छिद्ध	३४०, ३५४
अजहण्य	३७३
अजहण्यय	२७४
अज्जायाट्टिदिय	२३६, २४८, २६५, २७०
अट्ट	२६४, ३५६
अट्टकसाय	२६६, ३२२, ४०३
अट्टपद	२७३, ३७३
अस्तकाल	२, २५, ५३

अस्तगुण	७८, ८५, १११, १२०, १३०, ४४८, ४५०
अस्तगुणवधि	२६२, ३२८, ३५६, ४०३, ४३८, ४४१, ४५०
अस्तगुणविमाण	७६, ८४, ६५, १०५, ११७, १२४
अस्थियोगहार	३६७
अणुक्कड्डिद	३७१
अणुक्कस्स	३७३
अणुक्कस्सदव्वकाल	५
अणुक्कस्सददेशविहत्तिअ	२
अणुक्कस्सय	२७५
अणुपालिद	३३४

अणोक्कड्डिद	३७१
अण्य	२७३, २७४
अण्यदर	३७५, ४२४
अण्योववेस	३
अंतर	२५, २७, ५३, ३०८
अंतो	४२१
अंतोमुहुत्त	५, ३३४, ३४०, ३५४, ४०५, ४२१, ४३०, ४३८, ४४१
अंतोमुहुत्तद्ध	३४६
अंतोमुहुत्तसेस	३३४
अंतोमुहुत्तावसेस	३४०, ३४६
अंतोमुहुत्तचर	३३४
अथ	४०५

अघट्टिदिय	२८५
अघवा	३
अघाणिसेअ	३७७, ३७८, ४३५
अघाणिसेय	४२१, ४३८, ४३६, ४४५
अघाणिसेयट्टिदिपत्तय	
	३६७, ३७१, ३७७
	३७८, ३८२, ३८६,
	३९५, ४०५, ४०६,
	४२०, ४३०, ४३५,
	४३७, ४४२, ४४६, ४४९, ४५०
अघापवत्तसंकम	३८१
अद्ध	३९४
अपच्चकखाराणमाण	७४, ८३, ९३ १०९, ११८
अपच्छिम	३३४
अपच्छिमट्टिदिसिंडय	
	२७६, २८७, २९२, २९५
अपच्छिममणुस्सभवग्गाहण	३४६
अपडिवदिद	३५४
अपरिसेस	२५८
अप्पाबहुअ	७४, ३५६, ३५९, ३६७, ४४६
अवमुट्टिद	२९४
अभवसिद्धियपाओग्ग	३३४, ४४२
अभिवलं	३९२
अरइ	३१०, ३५१, ३५४, ३५९, ३६१, ३६२, ४०४
अरदि	८०, ८७, ९७, ११५, १२१, १३२ ३५०, ३५१, ३५५, ४४५, ४५१

अवत्यु	२५१
अवत्युवियण्य	२६७, २७१
अवहारकाल	३८१
अवेदअ	४०४, ४०५
अवेदग	३१०, ३११,
असंखेज	२, ३, -५, ५३, ३७७, ४४०
असंखेजगुण	८३, ९२, ९३, १०३, १०५, १०७, १०९, ११३, ११५, ११७, ११८, १२०, १२५, १२६, १२९, ३५७, ३५८, ३६२, ३८१, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५१
असंखेजदिभाग	३४०, ३५०, ३५४, ३८१
असखुहमाणय	३००
असंजद	३३४
असंजम	२९६, ३३४ ४०३
अह	३११
अहवा	३६२
आ आगद	२८९, २९६, ३४०, ३५०, ३५४, ४२०, ४४०
आगय	२७९, २९३
आढत्त	२८४, २९२
आदि	२६३
आदिट्ट	२५३, ४०६
आदेस	२५२
आवाधा	२६०, २६५
आवाधाडुसमयुत्तरमेत्त- ट्टिदिसंतकम्म	२६९
आवाहा	२४६, २४७, २४८, २६१ २६३, २६६, २६७, २७०, २७१, २७२, ३७८, ३९४, ४०६, ४३०, ४४२

आवाहामेत्त	३७७
आवाहामेत्तट्टिदिसंतकम्म	
	२६८
आवाहासमयुत्तरमेत्त	२६९
आलाव	३५९
आवलिय	३०३
आवलियउववण	३२७
आवलियचरिमसमय- असंखोहय	३०७
आवलियपडिमग्ग	
	३४६, ३५४
आवलियपढमसमय- असंखोहय	३०५
आवलियमिच्छाइट्टि	३१९
	४३९, ४४१
आवलियवेदयसम्माइट्टि	३२१
आवलियसमयमिच्छाइट्टि	३३३
आवलियसम्मामिच्छाइट्टि	३२२
आवलिया	२४४, २४५, २५१, २५३, २६१, २६२, २६६, २६७, २७०, ३१२
आवलियूण	६०
आसाण	३१२
इत्थि	३५९, ४४५
इत्थिवेद	८६, ९७, ११३ १२०, १३०, ३०५, ३३९, ३४६, ३६२, ४२०, ४५१
इत्थिवेदपुरिसवेदकम्मसिअ	४२१
इत्थिवेदपूरिदकम्मसिय	३०५
इत्थिवेदसंजद	४२१
इदाणि	२६७, ३८९
इदि	३२२

च उक्कङ्कुण २३७, २४२,
 २४३, २४५, २४६,
 २४८, २६३, २६४,
 २६८, २६९, २७०,
 २७२, २७३, २७८,
 २८४, २८५, २८७,
 २८८, ३१२, ३२०,
 ३२२, ३२८, ३५६
 उक्कङ्कुद ३४६, ३७०
 उक्कस्त ६, ५३, ३७३
 उक्कस्तञ्च ३७८
 उक्कस्तसहस्रिवेद ३४६
 उक्कस्तसिद्धिदि ३५४
 उक्कस्तसिद्धिदिपत्तय ३६७,
 ३६८, ३७२, ३७३,
 ३९९, ४००, ४०३,
 ४०४, ४१८, ४२०,
 ४२२, ४२४, ४२५,
 ४४०, ४४१, ४४२,
 ४४५, ४४७, ४४८,
 ४५१
 उक्कस्तपद ३९३
 उक्कस्तपदेसविहसिञ्च २
 उक्कस्तपदेसविहसिञ्चंतर २६
 उक्कस्तपदेससंतकम्म ७४,
 ७५, ७६, ७८, ७९,
 ८०, ८१, ८२, ८३,
 ८४, ८५, ८६, ८७,
 ८८, ९०, ९१, ९२,
 ९३, ९४, ९५, ९६,
 ९७, ९८, ९९
 उक्कस्तपदेससंतकम्मियंतर २५
 उक्कस्तय २३४, २७५,
 २७६, २७८, २७९,
 २८४, २८५, २८६,
 २८७, २८८, २८९,
 २९२, २९३, २९४,

२९५, २९६, ३००,
 ३०२, ३०३, ३०४,
 ३०५, ३०६, ३०७,
 ३०८, ३०९, ३११,
 ३५६, ३५७, ३७४,
 ३७७, ३७८, ३८२,
 ३८९, ३९५, ३९९,
 ४००, ४०३, ४०४,
 ४०५, ४०६, ४१८,
 ४२०, ४२१, ४२२,
 ४४६, ४४७
 उक्कस्तयसिद्धिदिपत्तय ३६८
 उक्कस्तसकिलोस ३४६, ३५४
 उक्कस्तिसय ४३५, ४३७,
 उदञ्च ३६२
 उदय २३७, २७४, २७८,
 २७९, २८४, २८६,
 २८८, २८९, २९३,
 २९५, २९६, ३००,
 ३०२, ३०४, ३०६,
 ३०७, ३०८, ३०९,
 ३१९, ३२१, ३२७,
 ३३३, ३४०, ३४१,
 ३४६, ३५५, ३५६,
 ३५८, ३६१, ३६८,
 ३७०, ३७१, ३७३,
 ३७७, ४२१, ४३६,
 ४३८, ४४५
 उदययुण्णेहिसीसञ्च ४०३
 उदयवज्ज २८७, ३०८
 उदयादिणिक्कित्त ३५०
 उदयावलिय २८५, ३५१
 उदयावलियपविट्ठ २४२,
 २४९, २७३
 उदयावलियवाहिर २३६,
 २४३, ३५१
 उदयावलियन्तर २३९
 उदयावलिया २४३, २४७
 २५१, २५८, २८७,
 ३०८

उदियण २७४, ४००
 उदीरणोदय ३५९
 उवट्ठिद ३०७
 उवरिक्क ३९४
 उवणयण ३३४, ३४०,
 ३४६, ३५४, ३८९,
 ३९५, ४४२
 उवणयणय ३३९
 उवसमसम्मत्तपच्छायद ३२०, ४२५, ४३६,
 ४३८
 उवसंतकसाञ्च ३२२,
 ३५०, ४४१
 उवसामञ्च ३१२
 उवसामणा ४०६, ४२१
 उवसामयसमयपवद्ध ४०,
 ३५०, ३५४, ४४०
 उवसामिद ३५४,
 ४०६, ४२१
 उव्वेज्जिद १०४
 ऊ अणिय २४४, २४५,
 २४६, २४७, २४८,
 २५३, २६१, २६२,
 २६३, २६४, २६६,
 २६७, २७०
 ए एञ्च ४२४, ४४०
 एइ दिञ्च ९१, १२४,
 ३४०, ३५०, ३५४
 एइ दियकम्म ३५०,
 ३५४, ४४०
 एइ दियाट्ठिदिसंतकम्म ४३०
 एइ दियसंतकम्म ४३८
 एक्क १०४, २४७, ३७४,
 ३७८, ३८२
 एक्केक्कट्ठिदिभत्तय ३७३
 एग २५१
 एगसमय २, ५३

एगादिएगुत्तरिय	३७४	
एगोगभीण्ट्टिदिय	२७५	
एतिअ	२६३	
एत्तिय	२७१	
एत्तो १३३, २३५, २७०, २७३, २७५, ३१२, ३५८, ३७३		
एयसमयाहियश्रावाहा- चरिमसमयअणु- दिएण	३६५	
एव २५१, २५२, २५८, २७१ २८६, ३०२, ३०३, ३०८, ३०९, ३१६, ३२१, ३२७, ३३३, ३३६, ३४६, ३५०, ३५६ ३७०, ३७१, ३६६, ४१८, ४३५, ४३७, ४४५		
एवडिम	२६१, २७०	
एवदिगुण	३८२	
एवदिमाद	२६०	
एवदिमचरिमसमयपवद्ध ३७७		
एवदिसमयअणुदिएण	३६४	
एवं ४, २६, ६०, २४६, २४८, २५१, २६०, २६३, २६८, २७३, ३०२ ३०३, ३२२, ३५६, ३५७, ३५८, ३७४, ४००, ४१८, ४२३, ४४४, ४५०, ४५१		
ओ ओकड्डणादि	२३७, २३६, २७६, २८४, २८५, २८७, २८८, ३१२, ३२०, ३२२, ३२८, ३५६	

ओकड्डणादि	३६२
ओकड्डणादिचउ	३०५, ३०६
ओकड्डणादिभीण- ट्टिदियसानित्त	३५६
ओकड्डणादिति	२६२, २६४ ३००, ३०३, ३२०, ३३४
ओकड्डणादितिगभीण- ट्टिदिय	३५०
ओकड्डित्त	३५०
ओकड्डिव	३५०, ३७०
ओकड्डुकड्डणा	३६१
ओध ६६, १२३, ३११, ३५६	
क कद	३०८, ४०३
कदम	२७०
कम	२७१
कम्म ४, २६, २३६, २४४, २८४, ३३४, ३६८, ३७०, ३७१, ३७३, ३७६, ४४२	
कम्मवखय	३३४
कम्मट्टिदि २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २५३, २६२, २६३, २६४, २६८, २६९, ३४०, ३६८	
कम्मट्टिदिअंतो	४४२
कम्मंस ३०८, ३४६, ३५६	
कठाअ ३२८, ३३४, ३४०, ३५०, ४०५, ४२१, ४४०	
कसाय २६४, २६५, ३५४, ४०५	
कसायवखवणा	२६४
कायव्व ५०, २३५, ३११, ३३६, ४०४, ४०५, ४२३, ४३५, ४४५, ४४७	

कारण	१०३, १०४
काल २, ५०, १०४, ३५१, ३६२, ४४२	
कालगद	३५०
कि २३६, २४२, २४६, ३६८, ३७०, ३७१, ३७२	
कीरमाण	३०८
केवचिरं	२
केवडिगुण	३७८
कोध ७५, ७६, ८३, ८४, १२६, ३००	
कोधसंजलाण ६०, ४०५	
कोह ८४, ६३, ६४, ६५, ६८, १०७, ११०, १११, ११७, ११६, १२६, १३०	
कोहसंजलाण	४२०
ख खअ	३०८
खवग	३
खवय ३०७, ३०९, ४४२	
खवेमाण	२८७
खवेमाणय	३०७
खवेत	२७६, ३००
ग गअ ३१२, ३४०, ३४६, ४०३, ४३७, ४३८, ४३६, ४४०	
गइ	१२३
गद २७६, २८८, २६३, २६६, ३३४, ३४०, ३४६, ३५०, ३५४, ३६२, ३६४, ४००, ४३०, ४४१,	
गदि	६०
गलंत	२८५
गलिद	४४०
गालिद	४४१
गुण्णिकम्मसिअ २७६, २८४, २८८, २६२, २६४, ३०८, ३६६, ४०३	

गुणिककर्मसिय	२७६, २८७, २९६, ३०३, ३०७, ३०९, ४२०, ४२२
गुणसेदि	२७९, २९६, ३३४, ४०३
गुणसेदिसीसय	२७९, २८८, २९३, २९६, ३००, ४००
च न	२६, २११, २५२, २५८, २७१, २७९, २८४, २८७, २८८, ३०२, ३०३, ३०८, ३०९, ३१२, ३२०, ३२२, ३२८, ३३४, ३४०, ३४६, ३५०, ३५४, ३५६, ३५९, ३६७, ३७०, ३७१, ३७३, ३९५, ३९९, ४१८, ४२०, ४२१, ४२४, ४२५, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४२, ४४५
चउ	३०२, ३०३, ३२८, ३३४, ३४०, ३५४, ४४०
चउन्विह	३७३
चउसंजलण	३२२
चहुसमयाहिय	२६०
चहुसंजलण	२६
चरिमट्टिदिखंडयचरिम-	
समय	३००
चरिमसमञ्ज ४३५	४१७
चरिमसमयञ्जकवीण-	
दंसयमोहणीय	२८६
चरिमसमयञ्जपुन्वकरण	३०९, ४०४

चरिमसमयञ्जसंखुहमाणय	३०२, ३०३
चरिमसमयइत्थिवेद-	
कखवय	३०६
चरिमसमयइत्थिवेदय ४१२	
चरिमसमयउदयट्टिदि-	
पत्तय	४२०
चरिमसमयकोहवेदय ४१९	
चरिमसमयणुसंयवेद-	
कखवय	३०८
चरिमसमयपुरिसवेदय	३०७
चरिमसमयसकसायखवग	३०४
चरिमसमयसम्माइट्टि ४३५	
छ छ	३१२
छुण्णौकसाय	३०८, ३५७, ४०३, ४०४
ज जइ	२४४, २४५, २४७, २४८, ३१०, ३११, ४०४, ४०५
जदि	२४६
जत्तिय	३७४, ३८९
जत्थ	३७३
जदेही	२६३, २६८, ४४२
जहयण ३, ५, ५३, ३५६, ३७३, ३८९, ४२३	
जहयणञ्ज ३३४, ३५०, ४३०, ४३७, ४३८, ४४०, ४४२	
जहयणकाल	७
जहयणपदेससंतकम्म	१००, १०३, १०५, १०७, १०९, ११०, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२४, १२६, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३

जहयणय	२७, २७५, ३१२, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२७, ३३३, ३३४, ३३९, ३४०, ३६१, ३६२, ३७७, ४२१, ४२४, ४२५, ४३०, ४३५, ३३६, ४३७, ४३८, ४४९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४५, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०
जहयणय	२४६, २४७, २६३, २७०, २७१, २७२, ३९४
जहयणुककस्त	२, २५
जहा १२३, २३४, २३७, ३५९, ३६७, ४०५, ४३७, ४४५	
जहाणिसेञ्ज	४३७
जहाणिसेय	३८२
जाद ३२२, ३३४, ३४६, ३५०, ३५४, ४४२	
जाथे २८९, २८५, २८८, २९३, २९४, ३०८, ३४६, ३५०, ४००, ४२१	
जाव २६०, २६३, २७१, ३३४, ३४०, ३५०, ३५४, ३७४, ३७७	
जावदिय	२६७, ४३०
जीव	४३५
जोगट्टाण	३९२, ३९४
म मीणट्टिदिय	२३७, २३९, २४२, २४३, २४५, २४६, २४९, २६३, २६४, २६८, २६९, २७२, २७३, २७४, २७६, २७८, २७९,

२८४, २८५, २८६,
 २८७, २८८, २८९,
 २९०, २९१, २९२,
 २९३, २९४, २९५,
 २९६, २९७, ३००,
 ३०१, ३०२, ३०४,
 ३०५, ३०६, ३०७,
 ३०८, ३०९, ३१०,
 ३११, ३१२, ३१३,
 ३१४, ३१५, ३१६,
 ३१७, ३१८, ३१९,
 ३२०, ३२१, ३२२,
 ३२३, ३२४, ३२५,
 ३२६, ३२७, ३२८,
 ३२९, ३३०, ३३१,
 ३३२, ३३३, ३३४,
 ३३५, ३३६, ३३७,
 ३३८, ३३९, ३४०,
 ३४१, ३४२, ३४३,
 ३४४, ३४५, ३४६,
 ३४७, ३४८, ३४९,
 ३५०, ३५१, ३५२,
 ३५३, ३५४, ३५५,
 ३५६, ३५७, ३५८,
 ३५९, ३६०, ३६१,
 ३६२, ३६३, ३६४,
 ३६५, ३६६, ३६७,
 ३६८, ३६९, ३७०,
 ३७१, ३७२, ३७३,
 ३७४, ३७५, ३७६,
 ३७७, ३७८, ३७९,
 ३८०, ३८१, ३८२,
 ३८३, ३८४, ३८५,
 ३८६, ३८७, ३८८,
 ३८९, ३९०, ३९१,
 ३९२, ३९३, ३९४,
 ३९५, ३९६, ३९७,
 ३९८, ३९९, ४००,
 ४०१, ४०२, ४०३,
 ४०४, ४०५, ४०६,
 ४०७, ४०८, ४०९,
 ४१०, ४११, ४१२,
 ४१३, ४१४, ४१५,
 ४१६, ४१७, ४१८,
 ४१९, ४२०, ४२१,
 ४२२, ४२३, ४२४,
 ४२५, ४२६, ४२७,
 ४२८, ४२९, ४३०,
 ४३१, ४३२, ४३३,
 ४३४, ४३५, ४३६,
 ४३७, ४३८, ४३९,
 ४४०, ४४१, ४४२,
 ४४३, ४४४, ४४५,
 ४४६, ४४७, ४४८,
 ४४९, ४५०, ४५१,
 ४५२, ४५३, ४५४,
 ४५५, ४५६, ४५७,
 ४५८, ४५९, ४६०,
 ४६१, ४६२, ४६३,
 ४६४, ४६५, ४६६,
 ४६७, ४६८, ४६९,
 ४७०, ४७१, ४७२,
 ४७३, ४७४, ४७५,
 ४७६, ४७७, ४७८,
 ४७९, ४८०, ४८१,
 ४८२, ४८३, ४८४,
 ४८५, ४८६, ४८७,
 ४८८, ४८९, ४९०,
 ४९१, ४९२, ४९३,
 ४९४, ४९५, ४९६,
 ४९७, ४९८, ४९९,
 ५००, ५०१, ५०२,
 ५०३, ५०४, ५०५,
 ५०६, ५०७, ५०८,
 ५०९, ५१०, ५११,
 ५१२, ५१३, ५१४,
 ५१५, ५१६, ५१७,
 ५१८, ५१९, ५२०,
 ५२१, ५२२, ५२३,
 ५२४, ५२५, ५२६,
 ५२७, ५२८, ५२९,
 ५३०, ५३१, ५३२,
 ५३३, ५३४, ५३५,
 ५३६, ५३७, ५३८,
 ५३९, ५४०, ५४१,
 ५४२, ५४३, ५४४,
 ५४५, ५४६, ५४७,
 ५४८, ५४९, ५५०,
 ५५१, ५५२, ५५३,
 ५५४, ५५५, ५५६,
 ५५७, ५५८, ५५९,
 ५६०, ५६१, ५६२,
 ५६३, ५६४, ५६५,
 ५६६, ५६७, ५६८,
 ५६९, ५७०, ५७१,
 ५७२, ५७३, ५७४,
 ५७५, ५७६, ५७७,
 ५७८, ५७९, ५८०,
 ५८१, ५८२, ५८३,
 ५८४, ५८५, ५८६,
 ५८७, ५८८, ५८९,
 ५९०, ५९१, ५९२,
 ५९३, ५९४, ५९५,
 ५९६, ५९७, ५९८,
 ५९९, ६००, ६०१,
 ६०२, ६०३, ६०४,
 ६०५, ६०६, ६०७,
 ६०८, ६०९, ६१०,
 ६११, ६१२, ६१३,
 ६१४, ६१५, ६१६,
 ६१७, ६१८, ६१९,
 ६२०, ६२१, ६२२,
 ६२३, ६२४, ६२५,
 ६२६, ६२७, ६२८,
 ६२९, ६३०, ६३१,
 ६३२, ६३३, ६३४,
 ६३५, ६३६, ६३७,
 ६३८, ६३९, ६४०,
 ६४१, ६४२, ६४३,
 ६४४, ६४५, ६४६,
 ६४७, ६४८, ६४९,
 ६५०, ६५१, ६५२,
 ६५३, ६५४, ६५५,
 ६५६, ६५७, ६५८,
 ६५९, ६६०, ६६१,
 ६६२, ६६३, ६६४,
 ६६५, ६६६, ६६७,
 ६६८, ६६९, ६७०,
 ६७१, ६७२, ६७३,
 ६७४, ६७५, ६७६,
 ६७७, ६७८, ६७९,
 ६८०, ६८१, ६८२,
 ६८३, ६८४, ६८५,
 ६८६, ६८७, ६८८,
 ६८९, ६९०, ६९१,
 ६९२, ६९३, ६९४,
 ६९५, ६९६, ६९७,
 ६९८, ६९९, ७००,
 ७०१, ७०२, ७०३,
 ७०४, ७०५, ७०६,
 ७०७, ७०८, ७०९,
 ७१०, ७११, ७१२,
 ७१३, ७१४, ७१५,
 ७१६, ७१७, ७१८,
 ७१९, ७२०, ७२१,
 ७२२, ७२३, ७२४,
 ७२५, ७२६, ७२७,
 ७२८, ७२९, ७३०,
 ७३१, ७३२, ७३३,
 ७३४, ७३५, ७३६,
 ७३७, ७३८, ७३९,
 ७४०, ७४१, ७४२,
 ७४३, ७४४, ७४५,
 ७४६, ७४७, ७४८,
 ७४९, ७५०, ७५१,
 ७५२, ७५३, ७५४,
 ७५५, ७५६, ७५७,
 ७५८, ७५९, ७६०,
 ७६१, ७६२, ७६३,
 ७६४, ७६५, ७६६,
 ७६७, ७६८, ७६९,
 ७७०, ७७१, ७७२,
 ७७३, ७७४, ७७५,
 ७७६, ७७७, ७७८,
 ७७९, ७८०, ७८१,
 ७८२, ७८३, ७८४,
 ७८५, ७८६, ७८७,
 ७८८, ७८९, ७९०,
 ७९१, ७९२, ७९३,
 ७९४, ७९५, ७९६,
 ७९७, ७९८, ७९९,
 ८००, ८०१, ८०२,
 ८०३, ८०४, ८०५,
 ८०६, ८०७, ८०८,
 ८०९, ८१०, ८११,
 ८१२, ८१३, ८१४,
 ८१५, ८१६, ८१७,
 ८१८, ८१९, ८२०,
 ८२१, ८२२, ८२३,
 ८२४, ८२५, ८२६,
 ८२७, ८२८, ८२९,
 ८३०, ८३१, ८३२,
 ८३३, ८३४, ८३५,
 ८३६, ८३७, ८३८,
 ८३९, ८४०, ८४१,
 ८४२, ८४३, ८४४,
 ८४५, ८४६, ८४७,
 ८४८, ८४९, ८५०,
 ८५१, ८५२, ८५३,
 ८५४, ८५५, ८५६,
 ८५७, ८५८, ८५९,
 ८६०, ८६१, ८६२,
 ८६३, ८६४, ८६५,
 ८६६, ८६७, ८६८,
 ८६९, ८७०, ८७१,
 ८७२, ८७३, ८७४,
 ८७५, ८७६, ८७७,
 ८७८, ८७९, ८८०,
 ८८१, ८८२, ८८३,
 ८८४, ८८५, ८८६,
 ८८७, ८८८, ८८९,
 ८९०, ८९१, ८९२,
 ८९३, ८९४, ८९५,
 ८९६, ८९७, ८९८,
 ८९९, ९००, ९०१,
 ९०२, ९०३, ९०४,
 ९०५, ९०६, ९०७,
 ९०८, ९०९, ९१०,
 ९११, ९१२, ९१३,
 ९१४, ९१५, ९१६,
 ९१७, ९१८, ९१९,
 ९२०, ९२१, ९२२,
 ९२३, ९२४, ९२५,
 ९२६, ९२७, ९२८,
 ९२९, ९३०, ९३१,
 ९३२, ९३३, ९३४,
 ९३५, ९३६, ९३७,
 ९३८, ९३९, ९४०,
 ९४१, ९४२, ९४३,
 ९४४, ९४५, ९४६,
 ९४७, ९४८, ९४९,
 ९५०, ९५१, ९५२,
 ९५३, ९५४, ९५५,
 ९५६, ९५७, ९५८,
 ९५९, ९६०, ९६१,
 ९६२, ९६३, ९६४,
 ९६५, ९६६, ९६७,
 ९६८, ९६९, ९७०,
 ९७१, ९७२, ९७३,
 ९७४, ९७५, ९७६,
 ९७७, ९७८, ९७९,
 ९८०, ९८१, ९८२,
 ९८३, ९८४, ९८५,
 ९८६, ९८७, ९८८,
 ९८९, ९९०, ९९१,
 ९९२, ९९३, ९९४,
 ९९५, ९९६, ९९७,
 ९९८, ९९९, १०००

शाखुं सयवेद ८०, ८१, ८७,
 ११३, १२०, १३२,
 ३०७, ३३४, ३४०,
 ३४६, ३५६, ३६२,
 ४२३, ४४५, ४५१
 शाखुं सयवेदआवलय-
 चरिमसमयअसंखोहय
 ३०७
 शाखुं सयवेदोदय ४२३
 शाखाजीव ५०, ५३
 शाम २३६, २४२, २४६,
 ३६८, ३७०, ३७१,
 ३७२
 शिखिलत ३५१
 शिगालिद ३३४, ३४०,
 ३५४
 शिदरिसण ३७८
 शियमा ३७७
 शिरयगह १२३
 शिरयगदि ८२
 शिरवयव ४४५
 शिरंतर २५१
 शिसिच ३७०, ३७१, ३७४
 शिसेय ३६३, ४३८,
 ४३६, ४४५
 शिसेयट्टिदिपत्तय ३६७,
 ३७०, ३६६, ४१८,
 ४२०, ४२४, ४२५,
 ४४२, ४४६, ४४८,
 ४५०
 शोदन्व ४, ७, २६, २७
 शोरइअ ३८६, ३६२
 शोरइय ३८६
 शो २५३, ३३६
 त २६८, ३७४
 ततो ३७७, ३७८, ३८६
 तस्य ३४०, ३५०, ३५४,
 ३६७, ३७३, ४४२

तदो २६७, ३११, ३२८,
 ३३४, ३४०, ३४६,
 ३५०, ३५४, ३६४,
 ४०५, ४३७, ४४१
 तप्पाओगाउक्कस्सय ३४१,
 ३६२
 तप्पाओगाउक्कस्संफिलिट्ट
 ४३६
 तप्पाओगाउक्कस्सिय ३६३,
 ४३०
 तप्पाओगासक्करहस्स ३४०
 तप्पाओगाउक्कस्सट्टिदि ४४२
 तप्पाओगाउक्कस्संफिलिट्ट
 ४२५, ४३८
 तस ३४०, ३५०, ३५४,
 ४३०, ४४०, ४४२
 तहा १२३, २३४, ३५६,
 ४४५, २७६, ८८५
 ताषे २८८, २८६, २६३,
 २६५, ३०३, ३०८,
 ३५१, ४००, ४२१
 ताव २४२, २४६, ३३४,
 ३४०, ३७४, ३७७
 तावदिमसमअ ४४२
 तावदिमसमयपवद्ध ३७७
 तावदिमसमयमिच्छाइट्टि
 ४३०
 ति २३५, २५१, २६५,
 २६६, ३००, ३०३,
 ३०५, ३०७, ३०८,
 ३२८, ३३६, ३५०,
 ३५१, ३५७, ३५८,
 ३६१, ३६२, ३६३,
 ३६७, ४०३
 तिरिणवेद ३५८
 तिपलिदोवमिअ ३३४,
 ३३६
 तिसमयाहिय २४८, २६०
 तिसमयूण २७०

त्ति	२५१, २५२, ३३४, ३४०, ३४५, ३५६, ४०३, ४२३
तुल्ल	३५७, ३५८, ३६१, ३६२
तेत्तीससागरोवमिथ	३५०
थोव	३६१, ३६२, ३७६
दसवस्सहस्सिअ	३४०
दंसणमोहणीय	२७६, २८४, २८७
दंसणमोहणीयक्खवयगुण-	
सेट्ठिसीसय	४०३
दुगुञ्जा	८०, ८७, ६८, ११५, १२१, १३२, ३१०, ३११, ३२२, ३५४, ४०४, ४०५, ४४४, ४५०
दुसमयदेव	३५१
दुसमयाहिय	२४५, २४८, २५८, २६२
दुसमयाहियआवाहा-	
चरिमसमयअणुदियण	३६५
दुसमयुत्तर	२७२
दुसमयूण	२६७, २७०
देव	३२२, ३४०, ३५०, ३५४, ४४२
देवी	३४६
देसूण	३४०, ३४६, ३५०, ३५४
देसूणपुण्वकोडिसंजम	३३४
दो	२५१, ३७४, ४२१
पञ्चक्खामाण	७५, ८३, ६४, ११०, ११६, १३०
पत्तिदिअ	४३८, ४४१
पडिमगा	३४६, ३५४
पडिनयण	३३४, ४३०, ४३६
पडिवदिद	४३८

पडुच्च	३
पत्त	४०३, ४२१
पटमणिसेयट्ठिदि	४२१
पटमसमयअसंजद	२६६
पटमसमयएइदिय	३४१
पटमसमयदेव	२२२, ४४२
पटमसमयमिञ्छाइट्ठि	२७६, २६३, ३१२, ३२८, ४२५
पटमसमयवेदयसम्माइट्ठि	३२०, ४४६
पटमसमयसम्मामिञ्छा-	
इट्ठि	२८६, ३२२, ४३८
पटमसमयसंजम	३३४
पण्यारसकसाय	३५७
पद	२३५, २३६
पदणिकत्थेव	
पदेस	३७४, ४२४
पदेसगा	२४३, २४४, २४५, २४७, २४८, २५१, २५२, २५३, २५७, २५८, २६१, २६२, २६३, २६४, २६८, २६९
पदेसगुणहाणिट्ठाण्यंतर	१०४
पदेससंतकम्म	२३४
पवद्ध	२५१
पर	२६५, २७०
परुवणा	४३७
परुविअ	४३७
परुविद	३४६, ३५६
पल्लिदोवम	३४०, ३५०, ३५४, ३८१
पल्लिदोवमवगमूल	३७७
पविट्ठ	२८५, ३०३, ३५१
पविस्समाण	२८५
पविस्समाणय	३०३
पट्टि	२७२

पाए	३७७
पि	१०४, २४५, २४६, २६२, २६३, २६४, २६८, २६९, २६२, २६४, २६५, ३००, ३०२, ३०३, ३०५, ३०६, ३०७, ३२०, ३२८, ३३४, ३५१, ३५६, ३६६, ४००, ४२४, ४४२
पुदवि	३८६
पुण	२५३, २६३, २६४, २६७, २६८, २७०, ३७५, ३६२, ४२४
पुणो	४३८, ४४१
पुणय	३०८, ४०६
पुरिमाण	४०५
पुरिसवेद	२६, ८१, ८८, ६८, ११२, १२०, १३०, ३०६, ३०७, ३२२, ४२०, ४४४, ४५०
पुण्व	३४६
पुण्वकोडाउअ	३३४
पुण्वकोडि	३४०, ३४६, ३५०, ३५४
पोगलपरियट्ठ	२, २५, ५३
व	
वद्ध	२४४, २५२
बंधमाण	४४२
बंधसमय	३३८
वहुसो	३२८, ३३४, ३४०, ३५०, ३५६, ४४०
वारसकसाय	४४२, ४५०
भ	
भय	८१, ८७, ६८, ११६, १२२, १३२, २१०, ३११, ३२२, ३५५, ४०४, ४०५, ४४४, ४५०
भरिदल्लिय	२८८

भव	३३४
भाषिदब्ब	४२३
मुजगार	१३३
म मणुसगादि	१२३
मणुस्त	३३४, ३४०, ३५०, ३५४
मद	३२२, ४४२
माय	४१६
माणसंजलय	८२, ८८, ६८, ११२ १२२, १३२, ३०२
माया ७५, ७६, ८२, ८३, ८४, ६४, ६५, ६८, ११०, १११, ११७, ११६ १२६, १२६, १३०, ४१६	
मायाट्टिकंडय	३०३
मायासंजलय	६० ११३, १२२, १३३, ३०३
मिच्छत्त	२, २५, ७८, ८५, ६६, १०७, ११७, १२६, २७६, २७६, ३१२, ३२८, ३४०, ३४६, ३५६, ३५८, ३७४, ४००, ४२४, ४३०, ४३५, ४३६, ४४१, ४४७
मिच्छत्तद्धा	३४०
मिच्छत्तभंग	४०३, ४२०
र र्ह	३१०, ३५०, ४०४, ४४४, ४५०
रचिद्	४३५
रदि	७६, ६६, ११५, १२१, १३१, ३२२
रहस्सकाल	४३८
रुत्तसर	२६७, २७१
ल लद्ध	३३४ ३४०
लमिदालअ	३२८

लोग	३
लोभ	७५, ७६, ८३, ८४, ६४, ६५, ६६, १०७, ११० १११, ११६, १२०, १२६, १२६
लोभसंजलय	८३, ६०, ११६ १३३, ३५८
लोह	१३०, ४१६
लोहसंजलय	१२२, ३०३
व वट्टमाणय	३०६, ४०४
वड्डि	३७४, ३६३
वस्त	४४०
वा	२४८, ३७०, ३७३, ३७४
वार	३२८, ३३४, ३४०, ३५०, ३५४, ४२१, ४४०
वास	२४८
वासपुधत्त	३, २४८
वि	२४३, २४४, २४५, २४६, २८५, ३०२, ३०३, ३०५, ३०७, ३०८, ३३६, ३४०, ३४०, ३५७, ३५८, ३६१, ३६२, ४०३, ४२०
विकट्टिद	३४०, ३४६
विदिकंत	२४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २६२, २६३, २६४
विदिय	४०६, ४११
वियप्प	२५७, २५८, २६१, २६६, २७०, २७१, २७३
विसेसाहिय	७५, ७६, ७८, ७६, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६,

८७, ८८, ६०, ६१, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, १०७, ११०, १११, ११२, ११३, ११५, ११६, ११७, ११६, १२०, १२१, १२२, १२६, १२६, १३०, १३१, १३२, १३३, ३५७, ३६१, ३६२, ४४६, ४५०	
विसेसुत्तरकाल	३८६
विहासा	२३५, ३६६
वेळ्ळावट्टिसामरोवम	६, ३२८, ३३४, ४३०, ४३६, ४४१
वेदयमाण	३५४
वेमाणिस्र	३५४
वेमाणियदेवी	३४६
स सइ	४४२
सकारण	६६
सक	२४४, २४७, २५३
संकमण	२३७, २७३, २७८, २८०, २८४, २८५, २८७, २८८, ३१२, ३२०, ३२२, ३२८, ३५६
संकिलेस	३४१
संखेजगुण	७६, ८१, ८६, ६७, ११५, १२१, १३१
संखुद्ध	२७६, २८७, २६२, २६५
संखुममाणय	२७६, २८७, २६२, २६५
संजम	३२८, ३३४, ३४०, ३४६, ३५०, ३५४, ४४०
संजमगुणसेदि	२७६, ३६६
संजमगुणसेदिदिसय	४०३

संजमासंजम	३२८, ३३४, ३४०, ३५०, ३५४, ४४०
संजमासंजमगुणसेदि	२७९, ३९९
संजमासंजम-संजमगुण- सेदि	२८८, २९२
संजमासंजमसंजमदंसय- मोहणीयकखण-	
गुणसेदि	२९६
संजोद्द	३२८
संदरिसया	३७७
संजलाण	४४५
संतकम्मट्टाण	२३४
सत्तम	३८९
समरा	२६६, २७०, २७३, ३११
समय	२५१
समयपवद्ध	३७४, ३७७, ३७८, ३८२
समयाहिय	२४३, २४४, २५१, २५३, २६२
समयाहियउदयावलिा	२५७
समयुत्तर	२४७, २६४, २६६, २७०, २७१, ३७८

समयुत्तरट्टिदिसंतकम्म	२६८
समयुत्तरावलिा	२५२
समयूण	२६१, २६६, २७६,
समुक्कत्तणा	३६७
सम्मत्त	५, २६, ७८, ८४, ९१, १००, १०४, ११६, १२४, २८४, ३२०, ३२८, ३३४, ३५४, ३५७, ४००, ४३०, ४३५, ४३७, ४३८, ४३९, ४४१, ४५०
सम्मत्तद्धा	४३५
सम्मामिच्छत्त	५, २६, ७६, ८२, ९२, १०३, १०४, ११६, १२४, २८७, २८८, ३२२, ३५०, ४००, ४३७, ४३८, ४५०
सम्मामिच्छत्तद्धा	४३७
सव्व	२४८, २६३, २८६
सव्वकम्म	५०, ५३, ४२४
सव्वतयोव	७४, ८२, ९१, १००, ११६, १२४, ३५६, ३५७, ३५८, ४४६, ४४७, ४५०

सव्वपयडि	४४६
सव्वमोहणीयपयडि	३५६
सव्वलहुं	२७६, २८४, २८७
सव्वसंतकम्म	३०३
सागरोवम	२४८
सागरोवमपुषत्त	२४८
साधिरेय	६
सामित्त	२७५, ३११, ३१२, ३६७, ३७४
सुहुमण्णिओअ	३२८
सुहुमण्णिगोद	३४०
से	३५१
सेस	४, २६, ९०, २६८, २६९, २७६, ३१२, ३५७, ३५८, ३५९, ३६१
सोग	८०, ८७, ९७, १२१, १३१, ३१०, ३५०, ३५१, ३५५, ३५९, ३६१, ३६२, ४०४, ४४५, ४५१
ह	हस्स ७८, ८५, ९६, ११४, १२१, १३१, ३२२, ३१०, ३५०, ४०४, ४४४, ४५०
हेट्टिलिय	२६७

७ जयधवलान्तर्गतविशेषशब्दसूची

पुस्तक ६

अ अणुक्कस्सपदेसविहत्ति	२
अंतराह्यभाग	५
आ आउअभाग	५
इ इत्थिवेद	१०१


उ उक्कडुणाणिमित्त	१०६
उक्कस्सपदेसविहत्ति	२
उत्तरपयडिपदेस-	
भागामाग	५०

क कम्मट्टिदि	७३, ७४, ७७, १३४
कसायभाग	५१
कोहसजलग्दच्च	५६

कोहसंजलणभाग	५५	द	दंसणावरणीयभाग	५	मोहणीयभाग	५		
ग	गुणसंकम	८३	दुधु छाभाग	५२	र	रदि-अरदिअब्वोगादभाग		
गोदभाग	५		पदेसभागभाग	५०		५१		
छ	छेदभागहार	१७१	प	पयडिगोबुच्छा	१३६, १३८	ल	लोभसंजलणभाग	५५
ज	जहाकखयागद	१५७		पुरिसवेद	१०१		लोहसंजलणदव्व	५६
	जीवभागाभाग	५०	फ	फहय	१६३	व	विगिदिगोबुच्छा	१४१
ट	ट्याण	१५७	व	वादर	७३		वेदणीयभाग	५
	ट्याणपरूवणा	१६६		वादरपुदविजीवआउअ७४			वेदभाग	५१, ५२
प्र	याणावरणीयभाग	५	भ	भयभाग	५२	स	सत्तिट्टिदि	७७
	यामभाग	५	म	माणसंजलणदव्व	५६		सम्मत्तभाग	५८
	योकसायभाग	२५		माणसंजलणभाग	५५		सम्भामिच्छत्तभाग	५६
पत्र	तसबंधगद्धा	६१		मायासंजलणदव्व	५६		सजमकाडग	२५०
थ	थावरबंधगद्धा	६१		मायासंजलणभाग	५५	ह	हस्स-योगभाग	५२
				मिच्छत्तभाग	५७, ६५		हदसमुण्यत्तिय	२५१

पुस्तक ७

अ	अथाणित्थेयट्टिदिपत्तय	३७२	उ	उदयट्टिदिपत्तय	२७३	खि	खिसेयट्टिदिपत्तय	३७०
	अप्पावहुअ	३६७	ओ	ओकडडया	२३७	व	विहासा	२३६
आ	आविट्ट	२४३	च	चहुगदिण्णिगोद	२	स	समुक्कित्तणा	२३७, ३६७
	आदेश	२५२	चू	चूलिया	३३६		सहाव	२४२
	आसाण	३१३	ठ	ठिट्टिय	३६६		संकम	२३८
उ	उकडडया	२३८	ण	णिच्चिण्णिगोद	२		सामित्त	३६७
	उकरसट्टिदिपत्तय	३६८						



§ ३०. पंचिदियतिरिक्खतियम्मि मिच्छत्तित्थि-णवुंसयवेद-वारसक०-भय-दुगुंझाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० खुदाभवग्गहणंमंतोमुहुत्तं, उक० सगह्दिदी । सम्मत्त-सम्माभि०--अणंताणु०चउक्काणमेवं चेव । णवरि अज० जह० एगस० । पंचणोकसायाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० अंतो०, उक० सगह्दिदी ।

§ ३१. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ताणं मिच्छत्त-सोळसक०-भय-दुगुंझं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० खुदाभवग्गहणं समयूणं, उक० अंतोमु० ।

होती नहीं, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल जुलकभव-ग्रहणप्रमाण कहा है। तथा तिर्यञ्चोकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त काल है, इसलिए उक्त प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है। यहाँ सम्यक्त्वद्विककी एक समय तक सत्ता उद्वेलनाकी अपेक्षा वन जाती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है। तथा जो पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक इनकी उद्वेलना कर सत्त्व नाश हुए विना तीन पत्यकी आयुवाले तिर्यञ्चोमें उत्पन्न होकर और सम्यक्त्वको उत्पन्न कर अन्त तक इनकी सत्ता बनाये रखते हैं उनके इतने काल तक इनकी सत्ता दिखलाई देनेसे यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग अधिक तीन पत्य कहा है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय पहले अनेक वार घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। तथा इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल मिथ्यात्वके समान है यह स्पष्ट ही है। इसी प्रकार पुरुषवेद आदि पाँचकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल जानना चाहिए। तथा इसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्रथम नरकके समान घटित कर लेना चाहिए।

§ ३०. पञ्च निद्रय तिर्यञ्चत्रिकमें मिथ्यात्व, ज्ञीवेद, नपुंसकवेद, वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेश-विभक्तिका जघन्य काल सामान्यसे पञ्च निद्रय तिर्यञ्चोमें जुलकभवग्रहणप्रमाण और शेष दोमें अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि इनकी अजघन्य प्रदेश-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है। पाँच नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है।

विशेषार्थ— यहाँ अन्य सब स्पष्टीकरण सामान्य तिर्यञ्चोके समान कर लेना चाहिए। केवल दो बातोंमें विशेषता है। एक तो पञ्च निद्रय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्च निद्रय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंकी जघन्य भवस्थिति अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनमें मिथ्यात्व आदिकी जघन्य प्रदेशविभक्ति-का जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। दूसरे इन तीनों प्रकारके तिर्यञ्चोकी कायस्थिति पूर्वकोटि-प्रथकत्व अधिक तीन पत्य है और इतने काल तक यहाँ अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति हुए विना भी सत्ता रह सकती है, इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण कहा है।

§ ३१. पञ्च निद्रय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका

एवं सम्पत्त-सम्भामिच्छत्तारणं । णवरिं अज० जह० एगसमभो । सत्तणोक० जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जहण्णुक० अंतोमु० । एवं मणुसअपज्जत्तारणं ।

§ ३२. मणुसतियम्मि मिच्छत्त-बारसक०-णवणोकसायाणं जह० पदे० जहण्णुक० एगसमभो । अज० जह० खुदाभव० अंतोमु, उक्क० सगट्ठिदी । सम्पत्त-सम्भामि०-अणताणु०चउक्कणं जह० पदे० जहण्णुक० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० सगट्ठिदीओ ।

जघन्य काल एक समय कम जुलुक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है । इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है । सात नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्व आदि उनीस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति भक्के प्रथम समयमें होती है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कम जुलुकभवग्रहणप्रमाण कहा है । सम्यक्त्वद्विकके अजघन्य प्रदेशसत्त्वका जघन्य काल एक समय उद्वेलनाकी अपेक्षा प्राप्त होता है यह स्पष्ट ही है । तथा सात नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवग्रहणके अन्तर्मुहूर्त बाद होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा यहाँ सभी प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है ।

§ ३२. मनुष्यत्रिकमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नौ नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल सामान्य मनुष्योंमें जुलुक भवग्रहणप्रमाण और शेष दोमें अन्तर्मुहूर्तप्रमाण तथा तीनोंमें उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण है ।

विशेषार्थ—सामान्य मनुष्योंकी जघन्य स्थिति जुलुकभवग्रहणप्रमाण, शेष दोकी अन्तर्मुहूर्तप्रमाण तथा तीनोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि अधिक तीन पल्यप्रमाण होती है, इसलिए इनमें मिथ्यात्व आदि बाईस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल सामान्य मनुष्योंमें जुलुकभवग्रहणप्रमाण, शेष दोमें अन्तर्मुहूर्तप्रमाण और उत्कृष्ट काल तीनोंमें कायस्थितिप्रमाण कहा है, क्योंकि इन तीनों प्रकारके मनुष्योंमें क्षणिकके समय यथायोग्य स्थानमें उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर इन प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके उक्त कालके प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती । अब रहीं शेष छह प्रकृतियाँ सो इनमेंसे जिन जीवोंने सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलनामें एक समय शेष रहने पर मनुष्य पर्याय प्राप्त की है उनके इन दो प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय धन जाता है । तथा जो मनुष्य अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके मनुष्य पर्यायमें एक समय शेष रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त होते हैं उनके इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय धन जाता है, इसलिए यहाँ इन छह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है । यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल कायस्थिति-

§ ३३. देवगईए देवेसु मिच्छत्तिथि-णवुंसयवेदाणं जह० पदे० जहण्णुक्कस्स० एगस० । अज० जह० दसवस्ससहस्साणि, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवमणंताणु०-चउक्क०-सम्म०-सम्माभिच्छत्ताणं । णवरि अज० जह० एगस० । वारसक०-भय-दुगुंछाणं मिच्छत्तभंगो । पंचणोक० जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० अंतोसुहु०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि ।

§ ३४. भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा त्ति मिच्छत्तिथि-णवुंसयवेदाणं जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० जहण्णुद्विदी, उक्क० उक्कस्सद्विदी । सम्मत्त०-सम्माभि०-अणंताणु०चउक्काणं जह० पदेस० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० उक्क०द्विदी । वारसक०-भय-दुगुंछाणं जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० जहण्णद्विदी समयुणा, उक्क० उक्कस्सद्विदी । पंचणोक०

प्रमाण है यह स्पष्ट ही है। मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलना होकर अभाव न हो जाय ऐसा करते हुए उनका सत्त्व बनाये रखना चाहिए।

§ ३३. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार अनन्तानुवन्धीचतुष्क, सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके विषयमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है। वारह कषाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। पाँच नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है।

विशेषार्थ—देवोंमें स्वामित्वको देखते हुए मिथ्यात्व, वारह कषाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, भय और जुगुप्साकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर बन जाता है, इसलिए यह काल उक्त प्रमाण कहा है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुष्क और पाँच नोकषायोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल भी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र इनके अजघन्य प्रदेशसत्कर्मके जघन्य कालमें अन्तर है, इसलिए वह अलगसे कहा है। उनसे प्रारम्भकी छह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय तो मनुष्योंके समान यहाँ भी घटित हो जाता है। मात्र पाँच नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति देवोंमें उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्तवाद सम्भव है, इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

§ ३४. भवनवासियोसे लेकर उपरिस त्रैवैयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। वारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है।

जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्टिदीओ ।

§ ३५. अणुदिसादि जाव अवराइदो ति मिच्छत्त-सम्मामि०-इत्थि-एवुंसय-वेदानं जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० ज० जहण्णुद्विदी, उक्क० उक्कस्सद्विदी । सम्मत्त० जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० सगट्टिदी । एवमणंताणु०चउक्क०-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं । णवरि अज० जह० अंतोमु० । बारसक०-पुरिस-भय-दुगुंळांणं जह० पदे० जहण्णुक्क० एगस० । अज० जह० जहण्णुद्विदी समऊणा, उक्क० सगट्टिदी ।

और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। पाँच नोकषायोंकी जघन्य प्रदेश-विभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है।

विशेषार्थ—यहाँ बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है। शेष काल सुगम है, क्योंकि उसका सामान्य देवोंमें स्पष्टीकरण आये हैं। उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए।

§ ३५. अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। सम्यक्त्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धीचतुष्क, हास्य, रति, अरति और शोककी अपेक्षा काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है। बारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्व आदिकी जघन्य प्रदेशविभक्ति जघन्य आयुवाले जीवके भवके प्रथम समयमें सम्भव नहीं है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है। कृतकृत्यवेदके कालमें एक समय शेष रहने पर ऐसा जीव मरकर यहाँ उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सम्यक्त्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है। अनन्तानुबन्धीचतुष्क आदि आठ प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके अन्तर्मुहूर्त बाद प्राप्त होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। बारह कषाय आदि की जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण कहा है। इन सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है।

§ ३६. सन्वदसिद्धिमि मिच्छ०-सम्माभि०-वारसक०-इत्थि-पुरिस-णुंसय-वेद-भय-दुगुंझाणं जह० पदे० जहणुणुक्क० एगस० । अज०-जह० तेत्तीसं सागरो-वमाणि समऊणाणि, उक्क० तेत्तीसं सागरो० । सम्म० जह० पदे० जहणुणुक्क० एगस० । अज० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । अणंताणु०चउक्क०-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जह० पदे० जहणुणुक्क० एगस० । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवं जाणिदूण णेदन्वं जाव अणाहारि ति ।

एवं कालाणुगमो समत्तो ।

❀ अंतरं ।

§ ३७. पइज्जासुत्तमेदं सुगमं ।

❀ मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्मियंतरं जहणुणुक्कस्सेण अणंत-कालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

§ ३६. सर्वार्थसिद्धिमे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, वारह कपाय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक-वेद, भय और लुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम तेतीस सागर है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । सम्यक्त्व प्रकृतिकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इस प्रकार जान कर अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ मिथ्यात्व आदिकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होनेसे इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कम तेतीस सागर कहा है । कृतकृत्यवेदकका एक समय काल यहाँ उपलब्ध हो सकता है, इसलिए सम्यक्त्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय कहा है । तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्क आदि प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्ति यहाँ अन्तर्मुहूर्त काल तक सम्भव है, इसलिए उसका जघन्य काल अन्त-र्मुहूर्त कहा है । सब प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल पूरा तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है । यहाँ तक जो काल कहा है उसे देखकर वह अनाहारक मार्गणातक घटित कर लेना चाहिए, इसलिए उसे इसके समान ले जानेकी सूचना की है ।

इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ ।

❀ अन्तर ।

§ ३७. यह प्रतिज्ञा सूत्र सुगम है ।

❀ मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है ।

§ ३८. गुणितकर्मसियस्स अगुणितकर्मसियभावमुवणमिय जहण्णेण उक्कस्सेण वि अणंतेण कालेण विणा पुणो गुणितभावेण परिणमणसत्तीए अभावादो । जहण्णेण असंखेज्जा लोगा ति अंतरं किण्ण परुविदं ? ण, तस्सुवदेसस्स अपवाइज्जमाणत्तजाणावणहं तदपरुवणादो ।

❀ एवं सेसाणं कम्माणं ऐदच्चं ।

§ ३९. एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुच्चदे । तं जहा-अट्ठकसाय-अट्ठणोकसायाणं मिच्छत्तभंगो । अणंताणु० चउक्क० उक्क० पदे० मिच्छत्तभंगो ।

❀ एवरि सम्मत्त-सम्मा मिच्छत्ताणं पुरिसवेद-चट्टुसंजलणाणं च उक्कसपदेसविहत्तिअंतरं णत्थि ।

§ ४०. कुदो ? खवगसेठीए समुप्पणत्तादो ।

एवमुक्कस्सपदेसविहत्तिअंतरं समत्तं ।

§ ३८. क्योंकि जो गुणितकर्मांशिक जीव अगुणितकर्मांशिकभावको प्राप्त होता है उसके जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकार अनन्त कालके विना पुनः गुणितकर्मांशिकरूपसे परिणमन करनेकी शक्ति नहीं पाई जाती ।

शंका—गुणितकर्मांशिक जीवका जघन्य अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वह उपदेश अपवाइज्जमाण है इस बातका ज्ञान करनेके लिए वह नहीं कहा ।

विशेषार्थ—पहले काल प्ररूपणाके समय चूर्णिसूत्रमें अन्य उपदेशके अनुसार मिथ्यात्वके अनुकृष्ट प्रदेशसत्कर्मका जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण कह आये हैं, इसलिए यहाँ यह शंका की गई है कि उसी उपदेशके अनुसार मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्मका जघन्य काल असंख्यात लोकप्रमाण भी कहना चाहिए था । वीरसेन स्वामीने इस शंकाका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि वह उपदेश अप्रवर्तमान है यह दिखलाना आवश्यक था, इसलिए चूर्णिसूत्रकारने यहाँ उसका निर्देश नहीं किया है ।

❀ इसी प्रकार शेष कर्मोंका अन्तरकाल जानना चाहिए ।

§ ३९. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—आठ कषाय और आठ नोकषायोंका भङ्ग मिथ्यात्व के समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी आठ कषाय और आठ नोकषायोंके साथ परिगणना न करके अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है ऐसा कहा है सो उसका कारण यह है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालमें मिथ्यात्वसे कुछ अन्तर है यह दिखलाना आवश्यक था, इसलिए वीरसेन स्वामीने उसका अलगसे निर्देश किया है ।

❀ इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, पुरुषवेद और चार संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है ।

§ ४०. क्योंकि इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति क्षपकश्रेणियोंमें उत्पन्न होती है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

❀ अंतरं जहणयं जाणिदूण पेदव्वं ।

§ ४१. पदस्स सुत्तस्स अत्थो सुगमो, जहणपदेसविहत्तियाणं सव्वेसिं पि अंतराभावादो ।

एवमंतरं समत्तं ।

४२. संपहि चुणिसुत्तेण देसामासिएण सूइदमत्यमुच्चारणाइरिएण परुविदं वत्तइस्सामो । अपुणरुत्तथो चैव किण्ण बुच्चदे ? ण, कत्थ वि चुणिसुत्तेण उच्चारणाए भेदो अत्थि चि तब्भेदपदुप्पायणदुवारेण पत्तणरुत्तियाभावादो ।

§ ४३. अंतरं दुविहं—जहणमुक्कस्सयं च । उक्कस्सए पयदं । दुविहो णिदो सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण भिच्छत्त-अट्टकं अट्टणोकं उक्कं पदेस-विहत्तिअंतरं जहणुक्कं अणंतकालमसंखेज्जा पोगलपरियट्ठा । अणुक्कं जहणुक्कं एगसं । सम्मत्तं-सम्मामिं उक्कं पदेसविहं णत्थि अंतरं । अणुक्कं पदें जहं एगसं, उक्कं उवट्ठुपोगलपरियट्ठं । अणंताणुं च उक्कं उक्कं पदें जहणुक्कं अणंतं-मसंखे-पोपरियट्ठा । अणुक्कं जहं एगसं, उक्कं वेज्जावट्ठिसागरोचमाणि देसूणाणि । पुरिसवेद-चटुसंजं उक्कं पदें णत्थि अंतरं । अणुक्कं पदें जहणुक्कं एगसं ।

❀ जघन्य अन्तरकाल भी जानकर ले जाना चाहिए ।

§ ४१. इस सूत्रका अर्थ सुगम है, क्योंकि सभी जघन्य प्रदेशविभक्तियोंका अन्तरकाल नहीं उपलब्ध होता ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

§ ४२. अब चूर्णिसूत्रके द्वारा देशामर्षकरूपसे सूचित हुए जिस अर्थका उच्चारणाचार्यने कथन किया है उसे बतलाते हैं ।

शंका—अपुनरुक्त अर्थको ही क्यों नहीं कहते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि कहीं पर चूर्णिसूत्रसे उच्चारणार्थ भेद है, इसलिए उस भेदके कथन द्वारा पुनरुक्त दोष नहीं आता । अर्थात् उसके पुनः कथन करने पर भी वह अपुनरुक्तके समान हो जाता है ।

§ ४३. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, आठ कषाय और आठ नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनन्तासुवन्धी-चतुष्करी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो ज्ञयासठ सागरप्रमाण है । पुरुषवेद और चार संज्वलनकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक

§ ४४. आदेशेण णेरइएसु मिच्छ०-वारसक०-अण्णोको० उक्क० पदे० णत्थि अंतरं । अणुक्क० पदे० जहणुक्क० एगस० । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क० उक्क० पदे० णत्थि अंतरं । अणुक्क० जह० एगस०, उक्क० तेचीसं सागरोवमाणि देसूणाणि । इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदाणसुक्कस्साणुक्कस्सपदे० णत्थि अंतरं । एवं सत्तमाए पुढवीए ।

समय है ।

विशेषार्थ—गुणितकर्मार्शविधि एक बार समाप्त होकर पुनः उसके प्रारम्भ होनेमें अनन्त काल लगता है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्व आदि सत्रह प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तरकाल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । तथा मिथ्यात्व आदि सत्रह प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समयके लिए होती है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क, चार संज्वलन और पुरुषवेदकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल एक समय कहनेका यही कारण है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये उद्वेलना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनका कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण काल तक सत्त्व न पाया जाय यह सम्भव है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण कहा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्क ये विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं । इनका सत्त्व अधिकसे अधिक कुछ कम दो छयासठ सागर काल तक नहीं पाया जाता, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व दर्शनमोहकी क्षणिके समय तथा पुरुषवेद और चार संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसत्त्व चारिभ्रमोहकी क्षणिके समय होता है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल न प्राप्त होनेसे उसका निषेध किया है ।

§ ४४. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और छह नोकपायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है । स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—नरकमें गुणितकर्मार्श जीवके भयमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है । यह वहाँ एकपर्यायमें दो बार सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालके निषेधका यही कारण है । तथा सम्यक्त्व और तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । अब रहा अनुत्कृष्टका विचार सो मिथ्यात्व आदि उन्नीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति यतः मध्यमें होती है अतः इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है । सम्यक्त्व-द्विक उद्वेलना प्रकृतियाँ हैं और अनन्तानुबन्धीचतुष्क विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं । यहाँ इनका

§ ४५. पहमाए जाव छट्टि ति मिच्छ०-वारसक०-णवणोक० उक्कसाणुकस्स-पदे० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि० उक्क० पदे० णत्थि अंतरं । अणुक० पदे० जह० एगस०, उक्क० सगसगट्टिदीओ देसूणाओ । अणंताणु०चउक्क० उक्क० पदे० णत्थि अंतरं । अणुक० जह० अंतोमु०, उक्क० सगट्टिदी देसूणा ।

§ ४६. तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छ०-वारसक०-अट्टणोक० उक्कसा-णुकस्सपदे० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि० ओघं । अणंताणु०चउक्क० उक्क० णत्थि अंतरं । अणुक० जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पत्तिदोवमाणि देसूणाणि । इत्थिवेद०

सत्त्व कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागर तक न हो यह सम्भव है, अतः यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है । मात्र सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति मध्यमें होती है, इसलिए भी इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त हो जाता है और अनन्तानुवन्धी-चतुष्ककी विसंयोजना एक समयके लिए नहीं होती, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षासे ही प्राप्त करना चाहें। तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए यहाँ इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिके अन्तरकालका भी निषेध किया है । यह सब अन्तर परूपणा सातवें नरकमें अविकल-वन जाती है, इसलिए वहाँ सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ४५. प्रथमसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें मिध्यात्व, वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ मिध्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल न प्राप्त होनेसे उसका निषेध किया है । मात्र विसंयोजनाकी अपेक्षा अनन्तानुवन्धीचतुष्कका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण वन जाता है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालका अलगसे विधान किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म एकवार ही प्राप्त होता है, इसलिए इसके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा यह आयुमें अन्तर्मुहूर्त जाने पर प्राप्त होता है और ये उद्वेलना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और उद्वेलना प्रकृतियाँ होनेसे वहाँ इनका कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण काल तक सत्त्व न रहे यह सम्भव है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है ।

§ ४६. तिर्यञ्चगतिमें तिर्यञ्चोमें मिध्यात्व, वारह कषाय और आठ नोकषायोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वका भङ्ग ओषके समान है । अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट

उक० णत्थि अंतरं । अणुक्क० जहणुक्क० एगस० । एवं पंचिदियतिरिक्खतियस्स । णवरि सम्म०-सम्मामि० उक० णत्थि अंतरं । अणुक्क० जह० एगस०, उक० तिण्णि पत्तिदोवमाणि पुव्वकोटिपुधत्तेणव्वहियाणि । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० अट्ठावीसं पयडीणमुक्कस्साणुक्क० णत्थि अंतरं ।

§ ४७. मणुसगदीए मणुस्सेसु मिच्छ०-अट्ठकसाय-णउंस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय दुगुंवाणं उक्कस्साणुक्कस्स० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०-चउक० पंचिदियतिरिक्खभंगो । चदुसंजल०-पुरिस०-इत्थिवेद० उक० णत्थि अंतरं । अणुक्क० जहणुक्क० एगस० । एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीणं । मणुसअपज्ज० पंचिदिय-

प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । इसीप्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि प्रयुक्त अधिक तीन पल्य है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अर्थात्त्रिकोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम ढण्डकमें कही गई प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । ओषधमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके अन्तरकालका जो भङ्ग कहा है वह यहाँ अविकल बन जाता है, इसलिए उसे ओषधके समान जाननेकी सूचना की है । अनन्तानुवन्धी-चतुष्ककी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल सम्भव नहीं है यह गुणितकर्मांशविधिके देखनेसे स्पष्ट हो जाता है । पर ये विसंयोजना प्रकृतियाँ हैं, इसलिए यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है । यहाँ स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशस्त्व भोगभूमिमें पल्यका असंख्यातव्यो भागप्रमाण कालजाने पर होता है, इसलिए इसकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है । इसकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें यह अन्तरप्ररूपया घटित हो जाती है, इसलिए उनमें सामान्य तिर्यञ्चके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इन तिर्यञ्चोंकी कार्यस्थिति पूर्वकोटिप्रयुक्त अधिक तीन पल्यप्रमाण है, इसलिए इनमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण प्राप्त होने यहाँ इनकी अपेक्षा अन्तरकालका अलगसे निर्देश किया है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अर्थात्त्रिकोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है ।

§ ४७. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मिध्यात्व, आठ कषाय, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चके समान है । चार संखलन, पुरुषवेद और स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों-

तिरिक्त्वअपज्जत्तर्भंगो ।

§ ४८. देवगादीए देवेसु मिच्छ०-वारसक०-प्रवणोक्क० उक्क० अणुक्क० गत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि० उक्क० गत्थि अंतरं । अणुक्क० जह० एगस०, उक्क० एकत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि । अणंताणु०चउक्क० उक्क० गत्थि अंतरं । अणुक्क० जह० अंतोसु०, उक्क० एकत्तीसं साग० देसूणाणि । एवं भवणादि जांउ उवरिमगेवज्जा ति । णवरि सगद्धिदीओ भाणिदव्वाओ । अणुदिसादि जाव सव्वट्टसिद्धि ति अट्टावीसं पयडीणसुक्कस्साणुक्कस्स० गत्थि अंतरं । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

में जानना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम

समयमें होती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । सम्यक्त्व आदि छह प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि एक तो इनकी भी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है । दूसरे इनमें अनन्तानुवन्धीचतुष्पका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य ही प्राप्त होता है, इसलिए पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान यहाँ भी अन्तरकाल बन जाता है । चार संवलयन आदिकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति क्षपकश्रेणिमें एक समयके लिए और चूर्णिसूत्रके अनुसार स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भोगभूमिमें पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल जाने पर प्राप्त होती है, इसलिए इनकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है । इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तर काल सम्भव नहीं है यह स्पष्ट ही है । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें अन्तरकालपरूपणा सामान्य मनुष्योंके समान बन जाती है, इसलिए इनमें उनके समान जाननेकी सूचना की है । तथा स्वामित्व और कायस्थिति आदि की अपेक्षा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंसे मनुष्य अपर्याप्तकोंमें कोई अन्तर नहीं है, इसलिए यहाँ मनुष्य अपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ४८. देवगतियं देवोंमें मिध्यात्व, वारह कषाय और नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । अनन्तानुवन्धीचतुष्पकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर उपरिम प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कुछ कम इकतीस सागरके स्थानमें कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिए । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है यह तो स्पष्ट ही है । अब रहा अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका विचार सो देवोंमें मिध्यात्व आदि बाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व ये उद्वेलना

§ ४६. जहण्णए पयदं । दुविहो णिहे सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-एकारसक०-णवणोक० जहण्णाजहण्णपदे० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मापि०-जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एगस०, उक्क० उवडुपोग्गलपरियट्ठा । अणंताणु०-चउक्क० जह० णत्थि अंतरं । अजह० जह० अंतोमु०, उक्क० वेखावट्ठिसागरो० देसूणाणि । लोभसंज० ज० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक० एमसमओ ।

§ ५०. आदेसेण खेरइएसु मिच्छ०-तिण्णिवेद०-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जह० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक० एगस० । बारसक०-भय-दुग्गंखा० जहण्णा-प्रकृतियों हैं । इनका कमसे कम एक समय तक और अधिक से अधिक कुछ कम इकतीस सागर तक सत्त्व नहीं पाया जाता । तथा अनन्तानुवन्धीचतुष्क विसंयोजना प्रकृतियों हैं, इसलिए इनका कमसे कम अन्तर्मुहूर्त तक और अधिकसे अधिक कुछ कम इकतीस सागर काल तक सत्त्व नहीं पाया जाता, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । भवनवासियोंसे लेकर नौ अवैयक तकके देवोंमें यह अन्तर प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें सामान्य देवोंके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इनकी भवस्थिति अलग अलग है, इसलिए इनमें कुछ कम इकतीस सागरके स्थानमें कुछ कम अपनी अपनी भवस्थिति ग्रहण करनेकी सूचना की है । अनुदिशसे लेकर आगेके सब देवोंमें भवके प्रथम समयमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति होती है इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । यह जो अन्तरप्ररूपणा कही है इसे ध्यानमें रखकर आगेकी मार्गणाओंमें वह घटित की जा सकती है, इसलिए उनमें इसी प्रकार ले जानेकी सूचना की है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

§ ४६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, म्यारह कपाय और नौ नोकपायोंकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागरप्रमाण है । लोभसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है ।

विशेषार्थ—ओघसे मिथ्यात्व आदि अद्वाइस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अपनी अपनी क्षणिके समय योग्य स्थानमें होती है, इसलिए इनकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्व उद्देलना प्रकृतियों हैं और अनन्तानुवन्धीचतुष्क विसंयोजना प्रकृतियों हैं, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल बन जानेसे उसका अलगसे उल्लेख किया है । तथा लोभसंज्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्ति एक समय तक होनेके बाद भी अजघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए इसकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है ।

§ ५०. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट

जहण्ण० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एगस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अर्णताणु०चउक्क० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० अंतोसु०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । एवं सच्चमाए पुढवीए ।

§ ५१. पहमाए जाव छट्ठि त्ति भिच्छ०-वारसक०-इत्थि-णवुंस०-भय-दुगुंळ० जहण्णाजहण्ण० णत्थि अंतरं । सम्मत्त०-सम्मामि०-अर्णताणु०चउक्क० जह० णत्थि अंतरं । अज० ज० एगस० अंतोसु०, उक्क० सग-सगट्ठिदीओ^१ देसूणाओ । पंच-पोक० जह० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक० एगस० ।

अन्तरकाल एक समय है। बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेश-विभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उल्लूट्र अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उल्लूट्र अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—नरक आदि चारों गतियोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षपित कर्मांशिक जीवके होनेके कारण प्रत्येकमें दो बार सम्भव नहीं है, इसलिए सर्वत्र इसके अन्तर-कालका निषेध किया है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तर कालका विचार करने पर नारकियोंमें मिथ्यात्व आदि आठ प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति वहां उत्पन्न होनेके बाद अन्तर्मुहूर्त काल जाने पर सम्भव है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उल्लूट्र अन्तरकाल एक समय कहा है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व ये दो उद्भेदना प्रकृतियों हैं और अनन्तानुवन्धीचतुष्क विसंयोजना प्रकृतियों हैं, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उल्लूट्र अन्तरकाल वन जानेसे उसका अलगसे निर्देश किया है। इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके दोनों प्रकारके अन्तरकालको आगे भी इसी आधारसे घटित कर लेना चाहिए। मात्र सर्वत्र जघन्य अन्तरकाल तो एक समान है। उल्लूट्र अन्तर काल कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण प्राप्त होता है। केवल अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी अपेक्षा तिर्थश्चों और मनुष्योंमें वह कुछ कम तीन पत्य ही कहना चाहिए। यहाँ बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका भी निषेध किया है। सातवीं पृथिवीमें यह प्ररूपणा अविफल वन जाती है, इसलिए उनमें सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है।

§ ५१ प्रथमसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्व, बारह कपाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा उल्लूट्र अन्तर कुछ कम अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है। पाँच नोकपायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उल्लूट्र अन्तर एक समय है।

विशेषार्थ—प्रथमादि छह पृथिवियोंमें मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी नरकसे

१. आ०प्रती 'उक्क० सगट्ठिदीओ' इति पाठः ।

§ ५२, तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छ०-वारसक०--इत्थि--णवुंस०--भय-दुगुंझाणं जहण्णाजहण्ण० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि० ओघं । अणंताणु०चउक्क० जह० णत्थि अंतरं । अज० ज० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पल्लिदो० देसूणाणि । पंचणोक० जह० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक० एगस० । एवं पंचिदियतिरिक्ख-तियस्स । णवरि सम्म०-सम्मामि० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एगस०, उक्क० सगट्टिदी देसूणा । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-सोलसक०-भय-दुगुंझा० जहण्णाजहण्ण० णत्थि अंतरं । सत्तणोक० जह० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक० एगस० ।

निकलेनेके अन्तिम समयमें और शेष की नरकमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तर कालका निषेध किया है। तथा शेष पाँच नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका स्वामी सामान्य नारकियों के समान है, इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय सम्भव होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है।

§ ५२, तिर्यञ्चगतिमें तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्व, वारह कषाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग ओघके समान है। अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तसुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। पाँच नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी स्थितिप्रमाण है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। सात नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है।

विशेषार्थ -- तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसत्कर्म तीन पत्यकी आयुके अन्तिम समयमें सम्भव है। वारह कषाय, भय और जुगुप्साका जघन्य प्रदेशसत्कर्म तिर्यञ्च पर्याप्त ग्रहण करनेके प्रथम समयमें सम्भव है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग ओघके समान यहाँ भी घटित हो जाता है, इसलिए इनका भङ्ग ओघके समान जाननेकी सूचना की है। अनन्तानुबन्धी-चतुष्क विसंयोजना प्रकृतियों हैं। इनका सत्त्व कमसे कम अन्तसुहूर्त कालतक और अधिकसे अधिक कुछ कम तीन पत्य काल तक न रहे यह सम्भव है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश-विभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तसुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है। पाँच नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न होनेके अन्तसुहूर्त वाद प्रतिपत्त प्रकृतियोंके बन्धके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है। पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमें यह अन्तरकाल इसी प्रकार बन जाता

§ ५३. मणुस-मणुसपज्जत्तएणु' मिच्छ०-एकारसक०-णवणो० जहण्णाजहण्ण०
णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एगस०, उक्क०
तिण्णिण पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुथत्तेणभहियाणि । अणांताणु०चउक्क० जह० णत्थि
अंतरं । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णिण पलिदो० देसूणाणि । लोभसंज० जह०
णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक० एगस० । एवं मणुस्सिणीयं । णवरि पुरिसवेद०
लोभसंजलणभंगो । मणुसअपज्जत्ताणं पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

है, उसे सामान्य तिर्यञ्चोके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके उत्कृष्ट अन्तरकालमे कुछ विशेषता है, इसलिए इनके अन्तरकालका निर्देश अलगसे किया है। पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिकोमें मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उद्वेलना होनेके बाद यहाँ पुनः इनका सत्त्व सम्भव नहीं है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा शेष सात नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त बाद प्रतिपन्न प्रकृतियोंका घन्ध होनेके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है।

§ ५३. मनुष्य और मनुष्य पर्याप्तिकोमें मिध्यात्व, ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोंकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है। अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। लोभ संव्वलनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमे पुरुषवेदका भङ्ग लोभ-संवलनके समान है। मनुष्य अपर्याप्तिकोमे पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तिकोके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—सामान्य मनुष्य आदि तीनों प्रकारके मनुष्योंमें मिध्यात्व, ग्यारह कषाय और नौ नोकषायोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अपनी अपनी क्षणोंके अन्तिम समयमे होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है। मात्र मनुष्यिनियोंमें पुरुषवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे होती है, इसलिए यहाँ इसकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय सम्भव होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य उद्वेलनाकी अपेक्षा वन जाता है, इसलिए वह उक्तप्रमाण कहा है। तथा अनन्तानुवन्धी-चतुष्ककी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य विसंयोजनाकी अपेक्षा वन जाता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा संवलन लोभकी जघन्य प्रदेशविभक्ति यहाँ क्षणोंके अन्तर्मुहूर्त पूर्व होती है, इसलिए इसकी अजघन्य

१. अः०प्रतौ 'मणुसअपज्जत्तएणु' इति पाठः ।

§ ५४. देवगदीए देवेसु मिच्छ०-वारसक०-इत्थि०-णवुंस०-भय-दुगुंछा० जहण्णा-जहण्ण० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मापि० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एगस०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । अणंताणु०चउक्क० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि । पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोग० जह० णत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक० एगस० ।

§ ५५. भवणादि जाव उवरिमगेवज्जा ति मिच्छ०-वारसक०-इत्थि०-णवुंस०-भय-दुगुंछा० जहण्णाजहण्ण० णत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मापि०-अणंताणु०चउक्क० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एगस० अंतोमु०, उक्क० सग-सगट्ठिदीओ देसूणाओ ।

प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है । मनुष्य अपर्याप्तकोका भङ्ग पञ्चन्द्र तिर्यञ्च अपर्याप्तकोके समान है यह स्पष्ट ही है ।

§ ५४. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व, वारह कपाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तर नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है ।

विशेषार्थ—देवोंमें मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके

अन्तिम समयमें तथा वारह कपाय, भय और जुगुप्साकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवग्रहणके प्रथम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालका निषेध किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना होकर पुनः सत्त्व तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विरंयोजना होकर पुनः सत्त्व अन्तिम अवैयक तक ही सम्भव है । आगे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना नहीं होती और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विरंयोजना तो होती है पर उन जीवोका नीचे गिरना सम्भव नहीं होनेसे पुनः सत्त्व नहीं होता, इसलिए इन छह प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है । इनमेंसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर एक समय और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है । यहाँ पुरुषवेद आदिकी जघन्य प्रदेशविभक्ति भवके प्रारम्भमें अन्तर्मुहूर्त काल जाने पर प्रतिपन्न प्रकृतियोंके बन्धके अन्तिम समयमें होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय सम्भव होनेसे वह उक्त काल प्रमाण कहा है ।

§ ५५. भवनवासियोसे लेकर उपरिम अवैयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व, वारह कपाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य अन्तर क्रमसे एक समय और अन्तर्मुहूर्त है तथा

पुरिसवेद-हस्स-रदि-अरदि-सोगाणं जह० पत्थि अंतरं । अज० जहण्णुक्क० एगस० ।

§ ५६. अणुदिसादि जाव सव्वट्टसिद्धि त्ति अट्टावीसं पयडीणं जहण्णाजहण्ण० पत्थि अंतरं । णवरि हस्स-रदि-अरदि-सोगाणमाणदभंगो । एवं जाव अणाहारए त्ति णीदे अंतरं समत्तं होदि ।

❀ गाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो—जहण्णुक्कस्सभेदेहि । अट्टपदं कादूण सव्वकम्ममाणं णेदव्वो ।

§ ५७. एदस्स सुत्तस्स देसामासियस्स उच्चारणाइरियवक्खाणं परुवेमो । गाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो—जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्सए पयदं । तत्थ अट्टपदं—अट्टावीसं पयडीणं जे उक्कस्सपदेसस्स विहत्तिया ते अणुक्कस्सपदेसस्स अविहत्तिया । जे अणुक्कस्सपदेसस्स विहत्तिया ते उक्कस्सपदेसस्स अविहत्तिया । विहत्तिएहि पयदं, अविहत्तिएहि अण्ववहारो । एदेण

उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है ।

विशेषार्थ — सामान्य देवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिके अन्तरकालको जिसप्रकार घटित करके वतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए ।

§ ५६. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल नहीं है । इतनी विशेषता है कि हास्य, रति, अरति और शोक प्रकृतिका भङ्ग आनत कल्पके समान है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जानेपर अन्तरकाल समाप्त होता है ।

विशेषार्थ— सिध्यात्व आदि कुछ प्रकृतियोंकी भवके अन्तिम समयमें और कुछकी भवके प्रथम समयमें जघन्य प्रदेशविभक्ति होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका अन्तरकाल सम्भव नहीं होनेसे उसका निषेध किया है । मात्र हास्य आदि चार प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति पर्यायग्रहणके अन्तर्मुहूर्त वाद होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है ।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

❀ नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे भङ्गविचय दो प्रकारका है । सो इस विषयमें अर्थपद करके सब कर्मोंका ले जाना चाहिए ।

§ ५७. यह सूत्र देशानर्पक है । इसके उच्चारणाचार्य द्रुत व्याख्यानका कथन करते हैं— नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसमें यह अर्थपद है—जो अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव हैं वे उनकी अनुकृष्ट प्रदेश विभक्तिवाले हैं । तथा जो अनुकृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव हैं वे उत्कृष्ट प्रदेश विभक्तिवाले हैं । यहाँ विभक्तिवाले जीवोंका प्रकरण है, क्योंकि विभक्तिवालोंका व्यवहार नहीं

अट्टपदेण दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण । तत्थ ओघेण अट्टावीसं पयडीणं उक्कस्सपदेसस्स सिया सन्वे जीवा अविहत्तिया १, सिया अविहत्तिया च विहत्तिओ च २, सिया अविहत्तिया विहत्तिया च ३ । अणुक्कस्सपदेसस्स सिया सन्वे जीवा विहत्तिया १, सिया विहत्तिया च अविहत्तिओ च २, सिया विहत्तिया च अविहत्तिया च ३ । एवं सन्वणेरइय-सन्वतिरिक्ख-मणुसतिय-सन्वदेवे ति । मणुसअपज्ज० अट्टावीसं पयडीणं उक्कस्सपदेसविहत्तियागं अविहत्तिएहि सह अट्ट भंगा । अणुक्कस्सपदेसविहत्तियाणं पि अविहत्तिएहि सह अट्ट भंगा वत्तन्वा । एवं णेदन्वं जाव अणाहारि ति ।

है । इस अर्थपदके अनुसार निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे कदाचित् सब जीव अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-अविभक्तिवाले हैं १ । कदाचित् अविभक्तिवाले बहुत जीव हैं और विभक्तिवाला एक जीव है २ । कदाचित् अविभक्तिवाले बहुत जीव हैं और विभक्तिवाले बहुत जीव हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंकी अपेक्षा कदाचित् सब जीव विभक्तिवाले हैं १ । कदाचित् बहुत जीव विभक्तिवाले हैं और एक जीव अविभक्तिवाला है २ । कदाचित् बहुत जीव विभक्तिवाले हैं और बहुत जीव अविभक्तिवाले हैं ३ । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्यत्रिक और सब देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्य अपर्याप्तक जीवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिवाले जीवोंके अविभक्तिवाले जीवोंके साथ आठ भङ्ग होते हैं । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिवाले जीवोंके भी अविभक्तिवाले जीवोंके साथ आठ भङ्ग करने चाहिए । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहां अट्टाईस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले और अविभक्तिवाले तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले और अविभक्तिवाले जीवोंके भङ्ग कहकर फिर चार गतियोंमें वे बतलाये गये हैं । उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्कृष्ट योगसे होती है । वह सदा सम्भव नहीं है, इसलिए कदाचित् एक भी जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाला नहीं होता, कदाचित् एक जीव उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिवाला होता है और कदाचित् नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले होते हैं, इसलिए उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा तीन भङ्ग होते हैं । भङ्ग मूलमें ही कहे हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा विचार करने पर भी तीन भङ्ग ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि कदाचित् सब जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके धारक होते हैं, कदाचित् शेष सब जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके धारक होते हैं और एक जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका धारक नहीं होता और कदाचित् नाना जीव अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिके धारक होते हैं और नाना जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके धारक नहीं होते, इसलिए इस अपेक्षासे भी तीन भङ्ग बन जाते हैं । लब्धपर्याप्त मनुष्योंको छोड़कर गति मार्गणाके अन्य सब भेदोंमें यह ओघ प्ररूपणा अविक्ल घटित हो जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र मनुष्य अपर्याप्तक यह सान्तर मार्गणा है, इसलिए इसमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों प्रदेशविभक्तिवालोंके अपने-अपने अविभक्तिवालोंके साथ एक और नाना जीवोंकी अपेक्षा आठ-आठ भङ्ग बन जानेसे उनका संकेत अलगसे किया है । भङ्गोंकी यह पद्धति अनाहारक मार्गणातक अपनी-अपनी विशेषताके साथ घटित हो जाती है, इसलिए अनाहारक मार्गणातक उक्त प्ररूपणाके समान जाननेकी सूचना की है ।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

§ ५८. जहण्णए पयदं। तं चेव अट्टपदं। णवरि जहण्णमजहण्णं ति भाणिदव्वं। अट्टावीसं पयडीणं जहण्णपदेसविहत्तियाणं तिण्णि भंगा। अजहण्णपदेसविहत्तियाणं पि तिण्णि चेव भंगा। एवं सव्वखोरइय-सव्वतिरिक्ख-मणुसतिय-सव्वदेवा स्ति। मणुसअपज्जं जहण्णाजहण्णं अट्ट भंगा। एवं णेदव्वं नाव अणाहारि ति।

एवं गाणाजीवेहि भंगविचओ समत्तो।

§ ५९. संपहि एदेण अहियारेण सूचिदसेसाहियाराणुसुञ्चारणं भणिस्सामो। भागाभागो दुविहो—जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि। उक्कस्से पयदं। दुविहो णिहे सो—ओघेण आदेसेण य। ओघेण छ्वीसं पयडीणमुक्कं पदेसविहत्तिया जीवा सव्व-जीवाणं केव० ? अणंतभागो। अणुकं सव्वजीवाणं केव० ? अणंता भागा। सम्म-सम्माभिं उक्कं पदेसविहत्तिं सव्वजीं के० ? असंखेज्जदिभागां। अणुकं सव्वजीं के० ? असंखे० भागा। एवं तिरिक्खोघं।

§ ५८. जघन्यका प्रकरण है वही अर्थपद है। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके स्थानमें जघन्य और अजघन्य कहना चाहिए। अट्टाईस प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोके तीन भङ्ग होते हैं। अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोके भी तीन भङ्ग होते हैं। इसी प्रकार सव नारकी, सव तिर्यञ्च, मनुष्यत्रिक और सव देवोमे जानना चाहिए मनुष्य अपर्याप्तकोमें जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिकी अपेक्षा आठ आठ भङ्ग होते हैं। इस प्रकार अनाहारक मार्ग्या तक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—पहले उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंकी अपेक्षा ओघसे और चारों गतियोंमे जहाँ जितने भङ्ग सम्भव हैं वे घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेने चाहिए। मात्र यहाँ उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके स्थानमें जघन्य और अजघन्य कहना चाहिए।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय समाप्त हुआ।

§ ५९. अब इस अधिकारसे सूचित हुए शेष अधिकारोंकी उच्चारणाका कथन करते हैं। भागाभाग दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे छ्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण हैं? अनन्तवं भागप्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण हैं? अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्निमध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिवाले जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण हैं? असंख्यातवं भागप्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण हैं? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—मोहनीयकी सत्तासे युक्त कुल जीव राशि अनन्तानन्त है। उसमेंसे ओघसे इक्कीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव अधिकसे अधिक असंख्यात हो सकते हैं। चार संव्वलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव अधिकसे अधिक संख्यात हो सकते हैं। शेष सव जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले होते हैं, इसलिए यहाँ छ्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट

§ ६०. आदेशेण णेरइएसु अट्टावीसं पयडीणं उक्कं सव्वजी० केव० ? असंखे० भागो । अणुक्कं असंखेज्जा भागा । एवं सव्वणिरय-सव्वपंचिंदियतिरिक्ख-मणुस०—मणुसअपज्ज०—देव-भयणादि जाव अवराइदां ति वत्तव्वं । मणुसपज्ज०—मणुरिसभि-सव्वद्वसिच्छेअ अट्टावीसं पयडीणमुक्कं पदे० सव्वजी० केव० ? संखे० भागो । अणुक्कं संखेज्जा भागा । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

§ ६१. जहण्णए पयदं । जहण्णए उक्कस्सभंगो । णवरि जहण्णजहण्णं ति भाणिदव्वं । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

एवं भागाभागो समतो ।

§ ६२. परिमाणं दुविहं—जहण्णमुक्कस्सं च । उक्कस्ते पयदं । दुविहो णिहे सो—ओघेण आदेशेण य । ओघेण मिच्छ०—चारसक०—अट्टणोक० उक्कस्सपदेसबिहत्तिया

प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्तवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्त बहुभागप्रमाण कहे हैं । सन्यक्त्व और सन्यग्मिथ्यात्वकी सत्तावाले ही कुल जीव असंख्यात होते हैं । उनमें भी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले असंख्यातवें भागप्रमाण हो सकते हैं । शेष अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले होते हैं, इसलिए इन दोनों प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले असंख्यातवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले असंख्यात बहुभागप्रमाण कहे हैं । सामान्य तिर्यञ्च अनन्तप्रमाण हैं, इसलिए इस मार्गणामें ओघ अरूपणा वन जानेसे उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ६०. आदेशसे नारकियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्च इन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, देव और भवनवासियोंसे लेकर अपराजित विमान-तकके देवोंमें कथन करना चाहिए । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव बहुभागप्रमाण हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहां जिन मार्गणाओंकी संख्या असंख्यात है उनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण बतलाये हैं । तथा जिन मार्गणाओंका परिमाण संख्यात है उनमें उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण बतलाये हैं । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ६१. जघन्यका प्रकरण है । जघन्यका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके स्थानमें जघन्य और अजघन्य ऐसा कहना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ ।

§ ६२. परिमाण दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, बारह कवाय और आठ नोकवायोंकी

केतिया ? असंखेज्जा । अणुक० पदे० केत्ति० ? अणंता । सम्मत०-सम्माभि० उक्क० पदेसवि० केत्ति० ? संखेज्जा । अणुक० केत्ति० ? असंखेज्जा । चदुसंज०-पुरिस० उक्क० पदे० केत्ति० ? संखेज्जा । अणुक० पदे० केत्ति० ? अणंता ।

§ ६३. आदेसेण गिरय० सत्तावीसं पयडीणमुक्क०-अणुक० पदे० केत्ति० ? असंखेज्जा । सम्मत० उक्क० पदे० के० ? संखेज्जा । अणुक० पदे० केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं पढमाए । विदियादि जाव सत्तमि त्ति अट्ठावीसं पयडीणमुक्कस्स०-अणुकस्स० केत्ति० ? असंखेज्जा ।

§ ६४. तिरिवखगईए तिरिवखेसु छव्वीसं पयडीणं उक्क० पदे० केत्ति० ? असंखेज्जा । अणुक० केत्ति० ? अणंता । सम्मत० उक्क० पदे० केत्ति० ? संखेज्जा । अणुक० केत्ति० ? असंखेज्जा । सम्माभि० उक्कस्साणुक० केत्ति० ? असंखेज्जा ।

उत्कृष्ट विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । चार संज्वलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं ।

विशेषार्थ — ओषसे चार संज्वलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति चपकश्रेणियों होती हैं, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति ह्यायिक सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिके समय होती हैं, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण भी संख्यात कहा है । शेष कथना सुगम है ।

§ ६३. आदेशसे नारकियोमे सत्ताईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिए । दूसरीसे लेकर सातवी पृथिवी तकके नारकियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

विशेषार्थ—यहां सामान्यसे नारकियोमे और पहली पृथिवीके नारकियोंमें कृतकृत्य-वेदकसम्यग्दृष्टि उत्पन्न होते हैं और इनका अधिकसे अधिक परिमाण संख्यात होता है, इसलिए इनमें सम्यक्त्व प्रकृतिकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है । शेष कथन सुगम है । इसी प्रकार आगे भी अपने अपने परिमाण और दूसरी विशेषताओंको जान कर सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिणाम ले आना चाहिए । उल्लेखनीय विशेषता न होनेसे हम अलग अलग स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं ।

§ ६४. तिर्यञ्जगतिमें तिर्यञ्जोमें छव्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ? अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ?

पंचिदियतिरिक्ख--पंचि०तिरिक्खपज्जत्ताणं पढमपुढविभंगो । पंचिदियतिरिक्ख-
जोगिणीणं विदियपुढविभंगो । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० अट्टावीसं पयडीणमुक्कस्सा-
णुक० पदे० केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं मणुसअपज्ज०-भवण०-वाण०-जोदिसिए त्ति ?

§ ६५. मणुसगदि० मिच्छ०--वारसक०--छण्णोक० उक्कस्साणुक० पदे०
असंखेज्जा । सम्म०-सम्मामि०-चटुसंज०-तिण्णवेदाणमुक्क० केत्ति० ? संखेज्जा ।
अणुक० पदे०वि० केत्ति० ? असंखेज्जा । मणुसपज्जत्त०-मणुसिणीसु सच्चद्वसिद्धि०
अट्टावीसं पयडीणमुक्क०-अणुक० पदेस० केत्ति० ? संखेज्जा ।

§ ६६. देवगदीए देवेसु सोहम्मादि जाव सहस्सारो त्ति पढमपुढविभंगो ।
आणदादि जाव अवरइदो त्ति अट्टावीसं पयडीणं उक्क० पदे०वि० केत्ति० ? संखेज्जा ।
अणुक० केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं णेदच्चं जाव अणाहारि त्ति ।

असंख्यात हैं। पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च और पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंमें पहली पृथिवीके समान
भङ्ग है। पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोंमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है। पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च
अपर्याप्तकोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ?
असंख्यात हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें जानना
चाहिए।

विशेषार्थ—पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च और पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंमें कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि
जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग बन जानेसे उनके समान
जाननेकी सूचना की है। परन्तु पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि जीव
नहीं उत्पन्न होते, इसलिए इनमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग बन जानेसे उनके समान जाननेकी
सूचना की है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

§ ६५. मनुष्यगतिमें मनुष्योंमें मिथ्यात्व, बारह कषाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट
और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व,
चार संखलन और तीन वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। अनु-
त्कृष्ट प्रदेश विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यिनी और
सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने
हैं ? संख्यात हैं।

६६. देवगतिमें देवोंमें तथा सौधर्म कल्पसे लेकर सहस्वार कल्प तकके देवोंमें पहली
पृथिवीके समान भङ्ग है। आनत कल्पसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें अट्टाईस
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति-
वाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इस प्रकार आनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए।

विशेषार्थ—बारहवें कल्प तक तिर्यञ्च भी मरकर उत्पन्न होते हैं, इसलिए वहाँ तकके
देवोंमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग बन जानेसे उनके समान जानने की सूचना की है। तथा
आगेके देवोंमें मनुष्य ही मर कर उत्पन्न होते हैं, इसलिए अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-
विभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात प्राप्त होनेसे वहाँ वह उत्कृष्टप्रमाण कहा है। शेष कथन
सुगम है।

§ ६७, जहणणए पयदं । दुविहो णिदो सो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण छवीसं पयडीणं जह० केत्ति० ? संखेज्जा । अज० केत्ति० ? अणंता । सम्म०-सम्मामि० जह० पदे०वि० केत्ति० ? संखेज्जा । अज० के० ? असंखेज्जा । एवं तिरिक्खाणं ।

§ ६८, आदेसेण गेरइएसु अट्ठावीसं पयडीणं जह० के० ? संखेज्जा । अज० केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं सव्वणेरइय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुस-मणुसअपज्ज०-देव-भवणादि जाव अवराइदो त्ति । मणुसपज्ज०-मणुसिणी-सव्वट्ठसिद्धि० सव्वपदा० के० ? संखेज्जा । एवं गेदव्वं जाव अणाहारि त्ति ।

§ ६७, जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश—ओघसे छवीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। अजघन्य प्रदेश-विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य प्रदेश-विभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इसी प्रकार तिर्यञ्चोमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—छवीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति क्षणके समय यथायोग्य स्थानमें होती है। यतः इनकी क्षण करनेवाले जीव संख्यात होते हैं, अतः इनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव अनन्त होते हैं यह स्पष्ट ही है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्ति अन्य विशेषताओंके रहते हुए अपनी अपनी उद्वेलनाके अन्तिम समयमें होती है। यतः ये जीव भी संख्यात ही होते हैं, अतः इनकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। इनकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव असंख्यात होते हैं यह स्पष्ट ही है। सामान्यसे तिर्यञ्च अनन्त होते हैं, इसलिए उनमें यह ओघप्ररूपणा बन जाती है, अतः उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। शत्रु उनमें स्वाभित्त्वका विचार कर परिमाण घटित करना चाहिए।

§ ६८, आदेशसे नारकियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देवों जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वार्थ-सिद्धिके देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए।

विशेषार्थ—सामान्य नारकियोंसे लेकर पूर्वोक्त सब मार्गणाओंमें संख्यात जीव ही सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति करते हैं, इसलिए सर्वत्र अट्ठाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। तथा मनुष्य पर्याप्त आदि तीन मार्गणाओंका परिमाण संख्यात है और शेषका असंख्यात है, इसलिए इनमें अपने अपने परिमाणके अनुसार अट्ठाईस प्रकृतियोंकी अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवों का परिमाण कहा है।

इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ ।

§ ६६. खेत्ताणुगमो दुविहो—जहणणओ उक्कस्सओ च । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिहंसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण छ्वीसं पयडीणमुक्कं पदे-विहत्तिया केवडि खेतं ? लोगं असंखे-भागे । अणुक्कं केव ? सव्वलोगे । सम्म-सम्मामिं उक्क-अणुक्कं पदे-केव ? लोगं असंखे-भागे । एवं तिरिक्खाणं ।

§ ७०. आदेसेण णेरइएसु अट्ठावीसं पयडीणमुक्क-अणुक्कं लोगं असंखे-भागे । एवं सव्वणेरइय-सव्वपंचिदियतिरिक्ख-सव्वमणुस-सव्वदेवा त्ति । एवं णेदवं जाव अणाहारि त्ति ।

§ ७१. जहणणप पयदं । दुविहो णिहंसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण सव्वपयडीणं जह-अज-उक्कस्साणुक्कस्सपदे-भंगो । एवं सव्वमगणासु णेदवं ।

§ ६६. क्षेत्रानुगम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे छ्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—छ्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव करते हैं और उनका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए यहाँ ओघसे उक्त प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उक्त प्रकृतियोंकी सत्तावाले शेष सब जीवोंके सम्भव है और उनका क्षेत्र सर्व लोक है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । सामान्य तिर्यञ्चोंमें यह क्षेत्र घटित हो जानेसे उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ७०. आदेशसे नारकियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सब देवोंमें जानना चाहिए । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—पूर्वोक्त सामान्य नारकी आदि उक्त मार्गणाओंका क्षेत्र ही लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । आगे अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार विचार कर क्षेत्र घटित किया जा सकता है, इसलिए उन मार्गणाओंमें उक्त क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ७१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका क्षेत्र उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिवाले जीवोंके समान है । इसी प्रकार सब मार्गणाओंमें ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ - सर्वत्र सब प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिके स्वामित्वको देखनेसे

§ ७२. पोसणं दुविहं—जहणणमुक्कस्सं च । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०-
ओघेण आदेसेण य । ओघेण छव्वीसं पयडीणमुक्कं पदेसविहत्तिएहि केवडियं खेत्तं
पोसिदं ? लोगस्स असंखे०भागो । अणुक्कं सव्वलोगो । सम्म०-सम्मामि० उक्कं
पदे० केव० ? लोगस्स असंखे०भागो । अणुक्कं लो० असंखे०भागो अट्ठचोइस
भागा देसूणा सव्वलोगो वा ।

§ ७३. आदेसेण णेरइएसु अट्ठावीसं पयडीणमुक्कं लो० असंखे०भागो ।
अणुक्कं लो० असंखे०भागो छचोइस भागा देसूणा । एवं सत्तमाए । पढमाए पुढवीए
खेत्तमंगो । विदियादि जाव छट्ठि चि अट्ठावीसं पयडीणमुक्कं खेत्तं । अणुक्कं लो०
असंखे०भागो एक-वे-तिण्ण-चचारि-पंचचोइस भागा देसूणा ।

विदित होता है कि इनकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तियाँ जीवोंका क्षेत्र उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाँ जीवोंके समान बन जाता है, इसलिए उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ७२. स्पर्शन दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे छव्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाँ जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाँ जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाँ जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाँ जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिके स्वामित्वको देखनेसे विदित होता है कि उनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक सम्भव नहीं है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है । तथा छव्वीस प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एकेन्द्रिय आदि जीवोंके भी सम्भव है, इसलिए इनकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाँ जीवोंका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है । तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाँ जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग है, क्योंकि ये जीव पल्यके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होते, इसलिए इनका वर्तमान स्पर्शन उक्त क्षेत्रप्रमाण ही प्राप्त होता है । तथा देवोंके विहारवत्त्वस्थान आदिकी अपेक्षा यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण और मारणान्तिक व उपपादपदकी अपेक्षा सर्व लोकप्रमाण बन जानेसे उक्त प्रमाण कहा है ।

§ ७३. आदेशसे नारकियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाँ जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाँ जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । पहली पृथिवीमें क्षेत्रके समान भङ्ग है । दूसरीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें अट्ठाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाँ जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तियाँ जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम एक, कुछ कम दो, कुछ कम तीन, कुछ कम चार और कुछ कम पाँच वटे

§ ७४. तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु छव्वीसं पयडीणमुक्कं लोगं असंखे०-
भागो । अणुक्कं सन्वल्लोगो । सम्म०-सम्मामि० उक्कं खेतं । अणुक्कं लोगं
असंखे०भागो सन्वल्लोगो वा । सन्वर्पंचिदियतिरिक्खेसु अट्टावीसं पयडीणं उक्कं
लोगस्स असंखे०भागो । अणुक्कं लोगस्स असंखे०भागो सन्वल्लोगो वा । एवं
सन्वमणुस्साणं ।

§ ७५. देवगदीए देवेसु अट्टावीसं पयडीणमुक्कं खेतभंगो । अणुक्कं लोगं
असंखे०भागो अट्ट-णवचोइसभागा देसुणा । एवं सोहम्मीसाणाणं । भवण०-वाण०-
जोइसि० अट्टावीसं पयडीणमुक्कं खेतं । अणुक्कं लोगं असंखे०भागो अट्टुट्ट-अट्ट-

चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—यहां जिस नरकका जो स्पर्शन है उसे ध्यानमें रखकर सब प्रकृतियोंकी
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका अतीत स्पर्शन कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ७४. तिर्यञ्चगतिमें तिर्यञ्चोंमें छव्वीस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने
सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति-
वाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें
भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सब पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें अट्टाईस प्रकृतियों-
की उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका
स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब मनुष्योंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्च समस्त लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इनमें छव्वीस प्रकृतियोंकी
अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका वर्तमान और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है । मात्र
सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके
असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, इसलिए इनकी उक्त प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका वर्तमान
स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है । सम्यक्त्व-
द्विककी अपेक्षा कही गई विशेषता सब पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी अपेक्षा भी बन
जाती है, इसलिए उनमें सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका वर्तमान स्पर्शन
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है । सब मनुष्योंमें भी
यही व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें सब पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान जाननेकी सूचना की
है । शेष कथन सुगम है ।

§ ७५. देवगतिमें देवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन
क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके
कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार
सौर्यमें और ऐशान कल्पमें जानना चाहिए । भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें अट्टाईस
प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति-
वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम

णवचोइस० देसूणा । सणक्कुमारादि जाव सहस्सारो ति अट्टावीसं पयडीणं उक्क० खेतं । अणुक्क० लोग० असंखे०भागो अट्टचो० देसूणा । आणदादि जाव अच्चुदो ति अट्टावीसं पयडीणमुक्क० खेतं । अणुक्क० लोग० असंखे०भागो छचोइस० देसूणा । उवरि खेतभंगो । एवं पेदव्वं जाव अणाहारए ति ।

§ ७६. जहणए पयदं । दुविहो णिद्वेसो—ओषेण आदेसेण य । ओषेण छव्वीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे०भागो । अज० सव्वलोगो । सम्म-सम्मापि० जह० अज० लोग० असंखे०भागो अट्ट-चोइ० देसूणा सव्वलोगो वा ।

§ ७७. आदेसेण णेरइएसु अट्टावीसं पयडीणं ज० लोग० असंखे०भागो । अज० लोग० असंखे०भागो छचोइस० देसूणा । एवं सत्तमाए । पट्टमाए पुट्टवीए खेतभंगो । विदियादि जाव छट्ठि ति अट्टावीसं पयडीणं जह० खेतं । अज० लोग०

आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सनत्कुमारसे लेकर सहस्वार कल्प तकके देवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनात कल्पसे लेकर अच्युत कल्प-तकके देवोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आगे क्षेत्रके समान भङ्ग है । इस प्रकार अनाहारक मार्गात्क ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ सर्वत्र अपने अपने वर्तमान आदि स्पर्शनको ध्यानमें रख कर सब प्रकृतियोंकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ७६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकार है—ओष और आदेश । ओषसे छव्वीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्ति एकेन्द्रियादि जीवोंके भी सम्भव है और देवोंके विहारवत्स्वस्थान आदिके समय भी हो सकती है । तथा इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है ही, इसलिए इनकी दोनों प्रकारकी प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ७७. आदेशसे नारकियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । पहली पृथिवीमें क्षेत्रके समान भङ्ग

असंखे० भागो एक-वे-तिण्ण-चत्तारि-पंचचोइस भागा वा देसूणा ।

§ ७८. तिरिक्खगईए तिरिक्खेसु छवीसं पयडीणं जह० खेत्तं । अज० सव्व-लोगो । सम्म०-सम्मामि० जह० अज० लोग० असंखे० भागो सव्वलोगो वा । सव्व-पंचिंदियतिरिक्ख-सव्वमणुस्सेसु छवीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे० भागो । अज० लोगस्स असंखेज्जदिभागो सव्वलोगो वा । सम्म०-सम्मामि० जह०-अज० लोग० असंखे० भागो सव्वलोगो वा ।

§ ७९. देवगदीए देवेसु छवीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे० भागो । अज० लोग० असंखे० भागो अट्ट-णवचोइस० देसूणा । सम्म-सम्मामि० जह० अज० लोग० असंखे० भागो अट्ट-णवचोइ० देसूणा ।

§ ८०. भवण०-वाण०-जोइसि० चावीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे०-

है। दूसरीसे लेकर छठी तककी पृथिवियोंमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा क्रमसे त्रसनालीके कुछ कम एक, कुछ कम दो, कुछ कम तीन, कुछ कम चार और कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—नारकियोंमें और उनके अचान्तर भेदोंमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिकी अपेक्षा जो स्पर्शन घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। आगे भी अपनी अपनी विशेषता जानकर स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए।

§ ७८. तिर्यञ्चगतिसमें तिर्यञ्चोंमें छवीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सव्व पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च और सव्व मनुष्योंमें छवीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

§ ७९. देवगतिसमें छवीस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ तथा कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—यहाँ सामान्य देवोंमें अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्ति दीर्घ आयुवाले देवोंमें होती है और उनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए उनकी अपेक्षा स्पर्शन उक्त प्रमाण कहाँ है। शेष कथन सुगम है।

§ ८०. भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें बाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्ति-

भागो । अज० लोग० असंखे०भागो अद्दुह-अह-णवचो० देसूणा । सम्म-सम्मामि० जह०-अज० लोग० असंखे०भागो अद्दुह-अह-णवचोदस० देसूणा । णवरि जोदिसि० सम्म०-सम्मामि० जह० लोग० असंखे०भागो अद्दुहा वा अहचोद० देसूणा । अणंताणु०४ जह० लोग० असंखे०भागो अद्दुह-अहचोद० देसूणा । अज० लोग० असंखे०भागो अद्दुह-अह-णवचो० देसूणा ।

§ ८१. सोहम्मीसाण० देवोघं । णवरि अणंताणु०चउक० जह० लोगस्स असंखे०भागो अहचोद० देसूणा ।

§ ८२. सणक्कुमारादि जाव सहस्सारो ति वावीसं पयड्डीणं जह० खेत्तं । अज० लोग० असंखे०भागो अहचो० देसूणा । सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक०

वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि ज्योतिषी देवोंसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन और कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन और कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—उक्त देवोंमें एकेन्द्रियोंमें मारणांतिक समुद्घात करते समय अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्ति नहीं होती, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण नहीं कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ८१. सौधसं और पेशान कल्पके देवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सौधसंघिकमें बिहारवत्स्वस्थान आदिके समय भी अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य प्रदेशविभक्ति वन जाती है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण भी कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ८२. सनक्कुभासे लेकर सहस्सार कल्प तकके देवोंमें चाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्ति-

जह०-अज० लोग० असंखे०भागो अट्टचोह० देसूणा । आणदादि जाव अचुदो ति वावीसं पयडीणं जह० लोग० असंखे०भागो । अज० लोग० असंखे०भागो छचोह० देसूणा । सम्म०-सम्मापि०-अणंताणु०चउक० जह०-अज० लोग० असंखे०भागो छचोह० देसूणा । उवरि खेतभंगो । एवं णेदव्वं जाव अणाहारि ति ।

❀ सव्वकम्माणं णाणाजीवेहि कालो कायव्वो ।

§ ८३. सुगमपेदं सुत्तं । संपहि एदेण सुत्तेण सूचिदत्थस्स उच्चारणं वत्तइस्सामो । तं जहा—कालो दुविहो, जहण्णओ उक्कस्सओ चेदि । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिहेसो—ओवेण आदेसेण य । ओवेण मिच्छत्त-वारसक०-अट्टणोक० उक्क० पदेसवि० जह० एगसमओ, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अणुक० सव्वद्धा । सम्म०-सम्मापि०-चहुसंज०-पुरिसवेद० उक्क० पदे० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । अणुक० सव्वद्धा ।

वाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । आनतसे लेकर अच्युत कल्प तकके देवोंमें वाईस प्रकृतियोंकी जघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी जघन्य और अजघन्य प्रदेशविभक्तिवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इनसे ऊपरके देवोंमें क्षेत्रके समान भङ्ग है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ ।

❀ सब कर्मोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा काल करना चाहिए ।

§ ८३. यह सूत्र सुगम है । अब इस सूत्रसे सूचित हुए अर्थकी उच्चारणा बतलाते हैं । यथा, काल दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओष और आदेश । ओषसे मिथ्यात्व, बारह कषाय और आठ नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति काल सर्वदा है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, चार संव्वलन और पुरुपवेदकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति काल सर्वदा है ।

विशेषार्थ— सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति एक समय तक हो और द्वितीय समयमें न हो यह सम्भव है, इसलिए सबकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति जघन्य काल एक समय कहा है । तथा मिथ्यात्व आदिकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नाना जीवोंकी अपेक्षा लगातार असंख्यात समय तक हो सकती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है और शेष सात प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्ति नाना जीवोंकी

§ ८४. आदेशेण णेरइएसु सत्तावीसं पयडीणमुक्क० पदे० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अणुक्क० सव्वद्धा । सम्मत्त० ओघं । एवं पदमाए । विदियादि जाव सत्तमि ति अट्टावीसं पयडीणमुक्क० पदे० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अणुक्क० सव्वद्धा ।

§ ८५. तिरिक्खदीए तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्ताणं पढमपुढविभंगो । पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीणं विदियपुढविभंगो । एवं पंचिंदिय-तिरिक्खअपज्जत्ताणं ।

§ ८६. मणुस्सगदीए मणुस्स० मिच्छत्त-बारसक०-छण्णोक्क० उक्क० पदे० जह० एगस०, उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अणुक्क० सव्वद्धा । सम्म०-सम्मापि०-चटुसंजळ० तिणहं वेदाणमुक्क० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया । अणुक्क० सव्वद्धा । मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु अट्टावीसं पयडीणमुक्क० पदे० जह० एगस०, उक्क०

अपेक्षा निरन्तर संख्यात समय तक हो सकती है, इसलिए इनकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। नाना जीवोंकी अपेक्षा ऐसा समय नहीं प्राप्त होता जब किसी प्रकृतिकी सत्ता न हो, इसलिए सबकी अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा कहा है।

§ ८७. आदेशसे नारकियोंमें सत्ताईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है। सम्यक्त्व प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिए। दूसरीसे लेकर सातवीं तक प्रत्येक पृथिवीमें अट्टाईस प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट प्रदेश-विभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है।

विशेषार्थ—सामान्यसे नारकियोंमें और पहली पृथिवीमें कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें सम्यक्त्व प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान बन जाता है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

§ ८८. तिर्यञ्जगतिमे तिर्यञ्च, पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च और पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च पर्यर्ताक जीवोंमें पहिली पृथिवीके समान भङ्ग है। पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है। पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए।

विशेषार्थ—प्रारम्भके तीन प्रकारके तिर्यञ्चोंमें कृतकृत्य वेदकसम्यग्दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग बन जानेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

§ ८९. मनुष्यगतिमे मनुष्योंमें मिथ्यात्व, वारह कषाय और छह नोकषायोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, चार संव्वलन और तीन वेदोंकी उत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशविभक्तिका काल सर्वदा है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें अट्टाईस